



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052023-245918
CG-DL-E-17052023-245918

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 2023/वैशाख 26, 1945

No. 14]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 2023/VAISAKHA 26, 1945

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2023

आ.अ. 14(अ).—यतः भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में जारी, पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (प.अ.रा.द.) की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाली, समय-समय पर यथा-संशोधित, अपनी अधिसूचना संख्या 56/2021/रा.द.अनु.-III, तारीख 23 सितम्बर, 2021 को अद्यतन करने का निर्णय लिया है;

2. अतः अब निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र में, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (iii) में प्रकाशित तारीख 23 सितम्बर, 2021 की, समय-समय पर यथा संशोधित, अपनी उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 56/2021/रा.द.अनु.-III के अधिक्रमण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है:-

- (क) सारणी I(क) में, पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.) और उनके मुख्यालयों के डाक-पता;
- (ख) सारणी- I(ख) में, सूची से हटाये गये पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.) और उनके मुख्यालयों के डाक-पता ; और
- (ग) सारणी-I (ग) में, निष्क्रिय पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.) और उनके मुख्यालयों के डाक-पता ।

सारणी-I (क)

पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.)

क्रम सं.	पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के नाम	मुख्यालय का पता
1	2	3
1.	आदर्श भारत निर्माण दल	ग्राम- भैणी भैरों, तहसील- महम, जिला- रोहतक, हरियाणा- 124112
2.	आदर्श जनता सेवा पार्टी	रणजीत हाउस, डिडवाड़ा रोड, सालवन, जिला – करनाल, हरियाणा
3.	आदर्श मिथिला पार्टी	ग्राम व पोस्ट - ठहरा गोपालपुर, वाया दिघरा, जिला – समस्तीपुर, बिहार – 848115
4.	आदर्श संग्राम पार्टी	डी/एस- 1252, सेक्टर- डी, एल.डी.ए. कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226012.
5.	आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी	ई0 डब्ल्यू0 एस0 -04, कौशलपुरी कालोनी, फेस-2, निकट पानी टंकी, ग्रामसभा-गद्दोपुर, विकास खण्ड-मसौधा, तहसील-सदर, जिला-फैजाबाद, उत्तर प्रदेश।
6.	आधी आबादी पार्टी	डी-1385/7, डी- ब्लॉक, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226016
7.	आदी भारत पार्टी	116, बोपल हॉट एण्ड होम, ईसाईड सनसिटी, बोपल, अहमदाबाद, गुजरात- 380058
8.	आदिजन मुक्ति सेना	प्रथम तल, 21 दुर्गेश विहार, जे. के. रोड, भोपाल (मध्य प्रदेश)।
9.	आदिम समाज पार्टी	म0 नं0 – 84, ग्राम – मवैया कलां, पोस्ट – नारीबारी, शंकरगढ़, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
10.	आदिवासी सेना पार्टी	ग्राम व पोस्ट-रूपवेल, (निशाल,फलिया), ता0- वनसदा, जिला-नवसरी- 396 321, गुजरात।
11.	आजाद भारत पार्टी (डेमोक्रेटिक)	ग्राम+पोस्ट – बेहटा बुजुर्ग, वि0 ख0 – भीतरगांव, जिला – कानपुर, उत्तर प्रदेश।
12.	आम आदमी मुक्ति मोर्चा	4, यू.एफ. बाबर प्लेस, टोडरमल रोड, बंगाली मार्केट के पास, नई दिल्ली-110001.
13.	आम आदमी परिवर्तन पार्टी	सत्य साईं कालोनी, प्रीत विहार, नियर समर विला स्कूल, छपरौला, गौदम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-2001001
14.	आम आदमी संघर्ष पार्टी (एस)	डी- 489, गली नं.- 7, मुकन्दपुर एक्स्टेंशन, पार्ट- 1, नई दिल्ली- 110042
15.	आम अधिकार मोर्चा	मनोज मंडल, आदर्श नगर, चेठारिया पीर, बार्ड नं.- 15, पोस्ट ऑफिस व थाना- कहलगांव, जिला- भागलपुर, बिहार- 813203
16.	आम भारत पार्टी	अरविंद कुमार दिक्षित नं. 3, तीसरी मंजिल, दूतीय विल्डिंग, अम्बिका कम्पलेक्स, दामोदर रिया, तालुका-इदर, जिला-साबरकांठा गुजरात- 383430.
17.	आम भारतीय पार्टी	103-रेडियो कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001
18.	आम दल	प्लाट/भवन नं0 - 191, बुद्धा एन्क्लेव, लोहिया नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
19.	आम हिन्दुस्तानी पार्टी	गांव- भगौती दूबे का भिस्वाँ, पोस्ट- चौरी चौरा, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273201.
20.	आम जन मजदूर पार्टी	भदपर चौराहा, भदपर, तहसील- लहरपुर, जिला- सीतापुर, उत्तर प्रदेश।
21.	आम जन नीति पार्टी	वार्ड नं. 8, सेक्टर नं. 12एल, जी.जी.एस.पब्लिक स्कूल के पास, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान- 335512
22.	आम जन पार्टी (सेक्यूलर)	मीना वाटिका, माँ दुर्गानगर, ग्राम- चकसकरा, पोस्ट- चन्द्रालय, थाना- हाजीपुर सदर, जिला- वैशाली बिहार।
23.	आम जनता जागरूकता पार्टी	झफर बैठा मार्केट, डगरूआ, थाना जगरूआ, पोस्ट-डगरूआ, वाया- गुलाबबाग, जिला-पूर्णिया, बिहार-854326
24.	आम जनता पार्टी	ग्राम-जीगीना, डाकघर - मंझरिया विक्रम, जिला-बस्ती, उत्तर प्रदेश

25.	आम जनता पार्टी (सर्वजन हिताय)	243-244, द्वितीय तल, राधा चैम्बर्स, प्लॉट नं0 – 9, जी – ब्लॉक, कम्युनिटी सेंटर, विकासपुरी, दिल्ली – 110018
26.	आम जनक्रान्ति पार्टी	ग्राम व पोस्ट – भगीपुर, शिकोहाबाद रोड, मॉडर्न इंगलिश स्कूल के पास, जिला – एटा, उत्तर प्रदेश – 207001
27.	आम जनमत पार्टी	एच.आई.जी.प्लैट नं0 7 एच.एफ.-25, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, पटना, बिहार- 800026
28.	आम जनशक्ति पार्टी	डब्ल्यू0जेड0-जे-62, उत्तम नगर, दिल्ली – 110059
29.	आम जनता पार्टी (इंडिया)	रानीपुरवा प्राइमरी स्कूल के पीछे, जानकी नगर, पोस्ट- बस स्टाप, जिला- गोण्डा, उत्तर प्रदेश।
30.	आम जनता पार्टी (सोशलिस्ट)	ग्राम व पोस्ट इंदौर-जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश-224129
31.	आम जनता पार्टी डेमोक्रेटिक	हाऊस नं. 1403, बेला, वार्ड नं. 4, ग्राम पंचायत बेला, तहसील- उमरेड, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र- 441115
32.	आम जनता पार्टी राष्ट्रीय	प्लैट नं0 – 804, 8वाँ तल्ला, घरौंदा कम्पलेक्स, जगदेव पथ मोड़, बेली रोड, पटना, बिहार – 800014
33.	आम जनता प्रगति पार्टी	बी – 141, अमर ज्योति कॉलोनी, सेक्टर – 17, रोहिणी, दिल्ली – 110081
34.	आम लोक पार्टी युनाइटेड	मकान सं.328, गली नं.4, नेताजी पार्क हैबोवाल कलां, लुधियाना, पंजाब- 141001
35.	आम नागरिक पार्टी	ग्राम – बौल्ला मजूरपुर, पोस्ट – कीरतपुर निमाना, ब्लॉक - गौण्डा, तहसील – इगलास, जिला – अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
36.	आम नागरिक युवा पार्टी	ग्राम- नल्हड़, डाकखाना - नल्हड़, तहसील व जिला- नूह, हरियाणा- 122107
37.	आमजन एकता पार्टी	मोहल्ला-मुंशीपुरा, तहसील के पास-कस्बा-नकुड़, तहसील और थाना- नकुड़, जिला-सहारनपुर, उत्तर प्रदेश-247342
38.	अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम	1/47बी, जे.एस.एम. कैथेड्रल रोड, इट्टेरी, जिला- तिरुनेलवेली तमिलनाडु- 627007
39.	आप और हम पार्टी	वार्ड नं. 24, मकान नं. 714/647, मोहल्ला- बसन्ती गली, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार
40.	आप सबकी अपनी पार्टी	विनायका हाईट मेन रोड पर, तारबहार, वार्ड नं. 15, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495001
41.	आपका गणतंत्र पार्टी	वेंकट वार्ड -13, गली नंबर 2, शास्त्री कॉलोनी, कटनी, मध्य प्रदेश-483501
42.	आपका हमारा पार्टी	ग्राम-महुडर, पोस्ट – रेवाली, जिला - हजारीबाग, झारखण्ड-825301
43.	आपकी अपनी अधिकार पार्टी	मकान सं0 – 381/5, नई पर्वतिया कॉलोनी, सारन स्कूल रोड, महादेव चौक, गांव – सारन, एन.आई.टी. फरीदाबाद, हरियाणा।
44.	आपकी अपनी पार्टी (पीपल्स)	खसरा नं. 19/26, नियर अमृत विहार, मेन रोड बुराडी, बुराडी, नई दिल्ली- 110084
45.	आपकी आवाज पार्टी	206, चंद्र प्रकाश, रेसीडेंसी, सिदसर रोड, भावनगर, गुजरात-364002
46.	अपना पंजाब पार्टी	मकान नं0 – 2442, फेज –II, सेक्टर – 65, एस.ए.एस. नगर, मोहाली, पंजाब।
47.	अपनी सरकार पार्टी	6/शान्तिकुंज सोसायटी, गायत्री मंदिर के सामने, नेशनल हाईवे, कलोल, जिला- गाँधीनगर, गुजरात-382721
48.	आपनी डेमोक्रेटिक पार्टी	धानी अमरुद के बाग वाली, धौलतपुर रोड, ग्राम- भोडिया खेडा, तहसील व जिला- फतेहाबाद, हरियाणा-125050
49.	आपसी सहयोग पार्टी	ई-737, ई-ब्लॉक, जे.जे.कॉलोनी, मंगोलपुरी, दिल्ली-110083
50.	आरक्षण विरोधी पार्टी	डीटी-146, तिरखा कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004, हरियाणा।
51.	आर्थिक विकास पार्टी	नील कण्ठ धाम मठ जिन्दा नागा समाधि, ग्राम- किंतुखेड़ी, पोस्ट- झारडा, तहसील- मल्हारगढ़, जिला- मंदसौर, मध्य प्रदेश- 458553

52.	आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन पार्टी	मकान संख्या - 166, गाँव- तेजा का पूरा, अब्दुलपुर खास, पोस्ट- हरिसेन गंज, मऊ, आइमा, थाना- सोराऊं, तहसील- सोराऊं, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 226020
53.	आस पंजाब पार्टी	1901, 1902, चौक शक्ति नगर, अमृतसर, पंजाब-143001
54.	आसरा लोकमंच पार्टी	म्हाडा कॉलोनी, गाला क्र.683, गट क्र.74, देवलाई, ता. व जि. औरंगाबाद, महाराष्ट्र - 431001
55.	आवाम अधिकार जागरण पार्टी	ग्राम - सरोखनपुर, निकट सरकारी अस्पताल (CHC), पोस्ट - बदलापुर, जिला - जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222125
56.	अवामी पिछड़ा पार्टी	मकान संख्या 269, अराजी नं0-1, चक रशीद देहाती, अदिलाबाद, पावर हाउस मोहमदाबाद, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश-233227
57.	आजाद समाज पार्टी (कांशी राम)	मकान नं0 180, गली नं0 3/22, (खसरा नंबर-265), गोकुल पुर गांव, हक्का शाहदरा दिल्ली-110094
58.	आजादी का अंतिम आंदोलन दल	एम. आई. जी. डी.- 27, शैलेन्द्र नगर, रायपुर - 492001 छत्तीसगढ़।
59.	अभय समाज पार्टी	ग्राम - अन्धया, पोस्ट - हरपुर तिवारी, तहसील - सदर महाराजगंज, जिला - महाराजगंज, उत्तर प्रदेश।
60.	अभिनव भारत जनसेवा पक्ष	कामिनी हाउसिंग सोसाइटी, गली नं -1, महालक्ष्मी नगर, गैस गौड़ाऊन्व्या बाजूला, अंबरनाथ (पूर्व), जिला - ठाणे, महाराष्ट्र - 421501
61.	अभिनव भारत पार्टी	आर बी-10, ब्लॉक आर बी, इंदरपुरी दिल्ली- 110012.
62.	अभिनव लोकतंत्र पार्टी	एच.नं.97, ठाकुर पट्टी लीखली, पोस्ट- मरियादा, तहसील - सिकराय, जिला - दौसा, राजस्थान-303326.
63.	अभिनव राजस्थान पार्टी	सी-14, गांधी नगर, मेडता सिटी, जिला- नागौर, राजस्थान- 341510
64.	अबुआ झारखंड पार्टी	रोड न. 7, मिडिल दौडनगर, डिबडीह, रांची, - 834002
65.	ऐक्शन पार्टी	गाँव व पोस्ट- मैगलगंज, मेन मार्केट, निकट हरिचरणेश्वर महादेव मंदिर, ब्लॉक- पसगवां, जनपद- लखीमपुर(खीरी), उत्तर प्रदेश।
66.	एक्शन पार्टी फॉर पीपुल्स प्रोग्रेस	नं. 13/7, ऐश्वर्या बिल्डिंग, शॉप नं.- 11, तीसरा क्रॉस स्ट्रीट, ट्रस्टपुरम, कोडामबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600024
67.	आदर्श जन शक्ति पार्टी	हाउस नं0 10204, अरेई वाली गली, मान आटो स्टैण्ड, दुर्गा पुरी, हाई बोवाल कलान, लुधियाना, पंजाब।
68.	आदर्श जनकल्याण दल	ग्राम-चन्दुआरा, पोस्ट-जट डुमरी, थाना-पुनपुन, जिला-पटना, बिहार- 804453
69.	आदर्श जनता पार्टी	ग्राम - कुडी, पोस्ट - कटनाहर्षा, आदर्श नगर, शिकोहाबाद, जिला- फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश- 283135
70.	आदर्श लोक दल	आबू नगर, पुलिस थाना फतेहपुर सिटी के सामने, जिला-फतेहपुर, (उत्तर प्रदेश)।
71.	आदर्श मानवतावादी पार्टी	डी.एस./919, सेक्टर-सी, सीतापुर रोड योजना, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
72.	आदर्श न्याय रक्षक पार्टी	ग्राम व पोस्ट- मातौल, तहसील-खरगापुर, जिला- टीकमगढ़, मध्य प्रदेश- 472115
73.	आदर्श पोलिटिकल पार्टी	405, कुन्दन भवन कोमर्शियल काम्पलैक्स, आजादपुर, दिल्ली-110033.
74.	आदर्श राष्ट्रीय विकास पार्टी	मकान नं0 1369, सुरक्षा-1, सेक्टर-4, ई0एल0डी0ई0सी0ओ0 रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
75.	आदर्श समाज पार्टी	बी-505, कमला नगर आगरा, उत्तर प्रदेश।
76.	आदर्श व्यवस्था पार्टी	सुगही वार्ड नं. 12, गांव- बंजरिया, टाउन एरिया सलेमपुर, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश -274509
77.	आदर्शवादी दल	जवाहर रोड, खुर्जा-203136, जिला-बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)।
78.	आदर्शवादी पार्टी (लोकतांत्रिक)	मकान नं. 81, मोहल्ला- चित्रसाई, नियर अशोक इंटर कालेज के पास, सदर जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222001

79.	अधिकार पार्टी	234, खिड़की अलीबेग, रेकाबगंज, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश - 224001 ।
80.	अधिकार विकास पार्टी	शिवाला छाया मकान नं0 – 10/571, अरुण नगर, अल्प आय वर्ग समिति, वार्ड नं0 – 10, तहसील – हुजूर, जिला - रीवा, मध्य प्रदेश ।
81.	आधुनिक भारत पार्टी	299ए, नानकारी आई.आई.टी, कानपुर महानगर, कानपुर उत्तर प्रदेश-208016
82.	आदिम भारतीय दल	बेलदार भवन, कूरी बाजार मार्ग, (बलूआ) कूरी बाजार, जिला-गोरखपुर-273404. उत्तर प्रदेश ।
83.	आदिवासी जन कल्याण पार्टी	द्वारा दक्षिण गुजरात गामित समाज सेवा ट्रस्ट पानवाडी, गुजरात ट्रेडर्स के पास, व्यारा, जिला-तापी, गुजरात-394650 ।
84.	अद्वैत ईशावास्यम् काँग्रेस	गुरुआईन वाडी आश्रम, रीवा नाका, मैहर, जिला-सतना, मध्य प्रदेश ।
85.	अगर जन पार्टी	बी-949, अग्रवाल वाली गली, मेन कृष्णा गली के पास, मौजपुर दिल्ली-110053.
86.	अगिला इंडिया मक्कल कझगम	नं 3, द्वितीय क्रॉस, वल्लाल नगर, पेथूचेट्टीपेट, लॉस्पेट पोस्ट, पुडुचेरी-605008
87.	अहिला इण्डिया धायगा मक्कल मुन्नैतरा काँची	नं0 1/407, अय्यर कॉलोनी, थानाक्कनकुलम, तिरुनगर, मदुरै, तमिलनाडु - 625006
88.	अहिंसा सोशलिस्ट पार्टी	डी0 नं0 - 5/125, वेस्ट पालापट्टी, पोस्ट – सेलप्पमपट्टी, तालुक व जिला – नामक्कल, तमिलनाडु - 637019
89.	अहिंसा समाज पार्टी	प्रियदर्शनी कॉलोनी, वृद्धा आश्रम के पास, वार्ड नं0 - 47, छिंदवाडा, तहसील व जिला - छिंदवाडा, मध्य प्रदेश- 480001
90.	अहिंसावादी जनता पार्टी	एन.टी.पी.सी. मुख्य गेट के पास, नौफरी, ग्राम-लोधई, शमशाबाद रोड, आगरा, जिला - आगरा, उत्तर प्रदेश
91.	ऐहरा नेशनल पार्टी	1/24, एस.एफ. के एम टी भवन, गली नं0 2, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
92.	एम पॉलिटिकल पार्टी	543, बाबासाहेब आंबेडकर सोसायटी, रूम नं0 - 179, सीईएन नं0 - 301, कॅप्टन प्रकाश पट्टे मार्ग, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई, महाराष्ट्र - 400005
93.	अकाली दल (1920)	296, सैक्टर – 10 - ए, चण्डीगढ़-160010 ।
94.	अखंड आर्यावर्त एक्सेस पार्टी	1/4961, बलबीर नगर एक्सटेंशन, गली नं.4, शाहदरा, दिल्ली-110032
95.	अखण्ड भारत चेतना दल	प्लॉट क्रमांक- 9, खसरा नं. 144/2, साई कॉलोनी, भाईजान रिक्शे वाले के पीछे, न्यू कॉलोनी, गढ़ा, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482003
96.	अखंड भारत एकता मंच	ए-204, फेयरडील हाउस, स्वास्तिक क्रॉस रोड के पास, सीरोड .जी ., नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात- 380009.
97.	अखंड भारत जनप्रिय पार्टी	गणेश शर्मा, रोड नं0-3, बजरंगपुरी, भगत सिंह पथ, गुलजारबाग, पटना बिहार-800007
98.	अखण्ड भारत पार्टी	47 – रुकमिणी विहार, मण्डी समिति के सामने, बाई पास, मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281001
99.	अखंड भारत समाज पार्टी	ई-14, फर्स्ट फ्लोर, डी.डी.ए.मिनी मार्केट, सुल्तान पुरी, दिल्ली-110086
100.	अखण्ड भारत सम्राज्य पार्टी	एफ-305, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड, अकबरपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462042
101.	अखण्ड भारत स्वतंत्र पार्टी	ग्राम- पटनी, पोस्ट व थाना- चिकलाना, जिला- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।
102.	अखंड भारत विकास पार्टी	प्लॉट नं0 – 100, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247001
103.	अखण्ड भारतीय आवाज	ए-54 मानेक नगर सी. एच0 एस0 लिमिटेड, एम0जी0 रोड कान्डीवाली (पश्चिम), मुम्बई – 400067, महाराष्ट्र।
104.	अखण्ड भारतीय कवच पार्टी	बी-33, अशोक नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
105.	अखंड भारतीय युवा पार्टी	421/6, ब्लॉक –बी, लक्ष्मी विहार, बुरारी, नई दिल्ली- 110084

106.	अखण्ड हीन्द पार्टी	बी-13, रफीक कम्पाउन्ड, किशन नगर, पश्चिम द्रुतगति मार्ग, दहीसर (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र 400068
107.	अखंड लोकतांत्रिक पार्टी	मुख्य मार्ग स्टेट बैंक के सामने, C/O सहेतरीन बाई साहू, वार्ड न.02, लवन, जिला-बलौदाबाजार, भाटापारा, छत्तीसगढ़-493526
108.	अखण्ड मानव पार्टी	मकान नं.सी-20, नीलबड़ बालाजी नगर, फेस-1, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश-462044
109.	अखण्ड राष्ट्रवादी पार्टी	7/5/67/2, विकास नगर, सेक्टर - 7, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002 ।
110.	अखंड राष्ट्रीय रक्षक पार्टी	बी-267, श्री जीवराज पार्क, नारायण नगर के पास, पोस्ट-खोडयार नगर, अहमदाबाद गुजरात- 382352
111.	अखण्ड समाज पार्टी	2/45, बालु अड्डा, संजय गांधी नगर, पाग्र नारायण रोड, थाना-हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
112.	अखण्ड समता पार्टी	फ्लैट नं. आर- 202, टैरा ग्रीन्स, अलवर बाईपास भिवाड़ी, तहसील-तिजारा, जिला- अलवर, राजस्थान- 301019
113.	अखिल भारत हिन्दू महासभा	मंदिर मार्ग, नई दिल्ली- 110001.
114.	अखिल भारत समग्र क्रान्ति पार्टी	राजेन्द्र पाण्डे का घर, डा० सलीम अहमद की गली के सामने, कटरा, बस्ती, जिला-बस्ती, पिन कोड सं० 272001, उत्तर प्रदेश ।
115.	अखिल भारतीय अशोक सेना	117/0/117, गीता नगर, कानपुर-208025, (उत्तर प्रदेश) ।
116.	अखिल भारतीय काँग्रेस दल (अम्बेडकर) ।	च-1, कुम्भा नगर, हाऊसिंग बोर्ड, चितौड़गढ़-312001 (राजस्थान) ।
117.	अखिल भारतीय गरीब पार्टी	गाँव-कुराना, पोस्ट-सिम्मावाली, जिला-गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) ।
118.	अखिल भारतीय गोरखा लीग	महावीर विल्डिंग, लाडेन्ला रोड, दार्जिलिंग-734101, (पश्चिम बंगाल) ।
119.	अखिल भारतीय हिन्दू क्रान्ति पार्टी	कृष्णा भवन, सेमरिया चौक, सतना, मध्य प्रदेश ।
120.	अखिल भारतीय जन संघ	टी-14, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज -2, नई दिल्ली-110020.
121.	अखिल भारतीय जनशक्ति पार्टी	2538, हडसन लाईन, जी.टी.बी.नगर, दिल्ली-110009
122.	अखिल भारतीय किसान मजदूर मोर्चा	श्री महात्मा गाँधी विचार केन्द्र, उलदान, झाँसी (उत्तर प्रदेश) ।
123.	अखिल भारतीय लोकतंत्र पार्टी	गाँव और पोस्ट-दत्तावाली, जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश) ।
124.	अखिल भारतीय मानवता पक्ष	मानवता भवन पेन्ट्री (कोके), तहसील-सिन्देवाही, जिला-चन्दरपुर, महाराष्ट्र ।
125.	अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (सेक्यूलर) ।	खारी कुआँ मुगलपुरा प्रथम, मुरादाबाद-244001, (उ. प्र.)
126.	अखिल भारतीय राजार्या सभा	आदर्श गुरुकुल शाही, जिला-पीलीभीत- 262001, (उत्तर प्रदेश) ।
127.	अखिल भारतीय समाजवादी काँग्रेस	सी-31, हौज खास, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110016.
128.	अखिल भारतीय संघर्ष दल	नंगली भट्टा, फतेहगढ़, चुडियाँ रोड, अमृतसर-143001 पंजाब ।
129.	अखिल भारतीय सेना	ओम कला निकेतन संकल्प, को. ओप. हाउसिंग सोसायटी, आनन्दगार, विखोरिली पार्क साइट (पश्चिम), मुम्बई - 400079 (महाराष्ट्र) ।
130.	अखिल भारतीय शिवसेना राष्ट्रवादी	अखिल भारतीय शिवसेना भवन, गुड मंडी, लुधियाना (पंजाब) ।
131.	अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी	3 सर्कुलर रोड, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-211001
132.	अखिल भारतीय आमजन पार्टी	मुकाम, पोस्ट-लाड़पुरा, गाँव-गगवाना, जिला-अजमेर, राजस्थान-305023.
133.	अखिल भारतीय आपकी अपनी पार्टी	एफ - 2, ग्राउंड फ्लोर, राजेन्द्रा पार्क, नांगलोई, नई दिल्ली- 110041
134.	अखिल भारतीय आरक्षित समाज पार्टी	392बी, सेक्टर- बी, सर्वधर्म कॉलोनी, कालोर रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश-462042
135.	अखिल भारतीय अपना दल	1372, गणेश नगर, मालिक मऊ आइमा, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश-229010
136.	अखिल भारतीय एकता पार्टी	जाधववाड़ी रोड, हनुमान चौक, तहसील व जिला - उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413501
137.	अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी	263, राहुल नगर, कोलार रोड, भोपाल - 462003, मध्य प्रदेश ।
138.	अखिल भारतीय जन मोर्चा	मकान संख्या- 960, प्रताप नगर, भानपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश-462037.

139.	अखिल भारतीय जनादेश पार्टी	मकान सं.43,ग्राम-देल्हुआ नजदीक बेरूआरबारी,मेन रोड,सुखपुरा,बांसडीह रोड,जिला-बलिया,उत्तर प्रदेश-277301
140.	अखिल भारतीय जनता सहारा पार्टी	7/96-97, विकास नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
141.	अखिल भारतीय जनहित पार्टी	पोस्ट - साजणी, तालुक - हातकणंगले, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र - 416115
142.	अखिल भारतीय जनसत्ता पार्टी	60, चौधराना, पोस्ट- जायस, जिला- अमेठी, उत्तर प्रदेश- 229305
143.	अखिल भारतीय झारखण्ड पार्टी	गांव-किनुडीह, पोस्ट-करनडीह, जमशेदपुर-831002, जिला-पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड।
144.	अखिल भारतीय कल्याण पार्टी	मो0 मिर्दहान दक्षिणी,पोस्ट- दरियाबाद, जनपद- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश- 225403
145.	अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी	ग्राम-फरीदपुर,तहसील-तिगांव,जिला-फरीदाबाद,हरियाणा-121101
146.	अखिल भारतीय क्रांति सेना पक्ष	महाराणा प्रताप चौक में दुकान नंबर 01,ओ.पी.पी.,भगत सिंह स्कूल के सामने बजाज नगर,वालुज एम.इ.डी.सी.,जिला-औरंगाबाद,महाराष्ट्र- 431001
147.	अखिल भारतीय लोकाधिकार पार्टी	शॉप नं0 - 9, बी विंग, भुराज ऐनक्लेव, समर्थ वाडी, मान खुर्द स्टेशन रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र-400088.
148.	अखिल भारतीय मानवाधिकार विचार मंच पार्टी	बलिया(जिलेबियामोड़), सुलतानगंज देवघर रोड, पो0 - मंझली मटिहानी, भाया - बेलहर, जिला - बांका,बिहार।
149.	अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी	मकान नंबर 820, गोपी कॉलोनी, राजा गार्डन, सेक्टर-19 के पास, सर्वोदय अस्पताल, फरीदाबाद, हरियाणा - 121002.
150.	अखिल भारतीय मिथिला पार्टी	विलास राय कॉम्प्लेक्स, सीतामढ़ी रोड,एन०एच०-77, निकट एस०एस०बी० हैड क्वार्टर्स, रुसुलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार - 842004।
151.	अखिल भारतीय नैतिक पार्टी	मो0 कन्हईपुरवा, निकट बिलग्राम चुंगी, जनपद - हरदोई, उत्तर प्रदेश - 241001
152.	अखिल भारतीय नवनिर्माण पार्टी	ग्राम- सिकटिया, पोस्ट- लंगरी, थाना- हाटा, जिला- कुशीनगर उत्तर प्रदेश- 274203
153.	अखिल भारतीय परिवार पार्टी	ए-37,पाकेट-11,भूतल,जसोला जनता फ्लैट,नईदिल्ली- 110025.
154.	अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिवार पार्टी	बी-19/70-4, ज्योदियाबीर, भेलुपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
155.	अखिल भारतीय सर्वधर्म समाज पार्टी	72, बजरंग नगर, रोड क्र: 6, मानेवाडा रोड, पोस्ट- पार्वतीनगर, नागपुर,महाराष्ट्र- 440027
156.	अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी	448/986,मल्लाही टोला-1,नागरिया,लखनऊ,उत्तर प्रदेश - 226003
157.	अखिल भारतीय सवर्ण पार्टी	177/क्यू/94, एल0 आई0 सी0 सोसाइटी, शारदा नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश - 208024
158.	अखिल भारतीय सुधार पार्टी	मकान सं०- 2389, प्रथम तल, हडसन लेन, किंग्सवे कैप, दिल्ली - 110009
159.	अखिल भारतीय स्वराज दल	मकान नं० 22/178, मांझखोर रमेडी तरौस चौराहा, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश।
160.	अखिल भारतीय विकास काँग्रेस पार्टी	एस-7, विकासदीप बेसमेन्ट, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001 उत्तर प्रदेश।
161.	अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक (क्रांतिकारी)	वार्ड संख्या - 36, होलिंग संख्या - 711/499, रेलवे हंडर रोड, उपाध्याय लेन, पश्चिमी लोहानीपुर, कदमकुआँ, पटना, बिहार - 800003
162.	अखिल राष्ट्रवादी पार्टी	मोहारवती सिसोदिया भवन, नजदीक डाक बंगला, नाद्री गेट, कासगंज, जिला एटा (उत्तर प्रदेश)।
163.	अखिल भारतीय रयथा पार्टी	नं० 127, श्रवनावेलागुला टाउन, बैंगलुरु मेन रोड, चन्नारायापटना तालुक, जिला-हसन, कर्नाटक-573135
164.	अखिल इण्डिया जनानयाका मक्कल काची (डॉ इसाक)।	नं० 171, कानन नगर, वीटरपेट, अराकोनम, जिला-वेलौर, तमिलनाडु।

165.	अखिल केरला त्रिणमूल पार्टी	मकान नं0 161, स्वातिनगर, इटकोट देशम, पल्लिचल विल्लेज, नेमौम पी.ओ. तिरुवनन्तपुरम केरल - 695020
166.	अखिला विजया पार्टी	डी.591,5 वीं मंजिल, हबडाउन मार्केट, गीता मंदिर, बस स्टोप, अहमदाबाद, गुजरात- 380022
167.	अकिला इण्डिया वल्लालार पेरावई	43, पिल्लायार कोल स्ट्रीट, वीरा रागवपुरम, चेन्नई-600 077, तमिलनाडु।
168.	अकिला इन्थिया मक्कल मरूमलार्ची कझकम	144/82, मरीअम्मन कोविल स्ट्रीट ठुवाकुदी-पोस्ट, थिरुवरुम्बुर तालुक त्रिचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु- 620015
169.	अल-हिन्द पार्टी	बी-2/40, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली - 110029।
170.	ऑल भारत तोजिलालर काचि	नंबर 106/1, (ओल्ड नं. 19) थीरुवल्लुवर स्ट्रीट, करप्पाचावाडि, कृष्णनकुप्पम पोस्ट, कुरिनजेपट्टी, टीके कुललनचावडु वे, कुड्डालोर जिला, निकट श्रीदुलुकनाथम्मन कोइल, तमिलनाडु- 607302.
171.	ऑल इंडिया आजाद कांग्रेस पार्टी	म0 नं0 5-9-30/सी, मेडिशन हाऊस, बशीर बाग, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
172.	ऑल इंडिया बी० सी०, ओ० बी० सी० पार्टी	म० नं० 1-1-109/18, रामदास नगर, कपडा, ई.सि.आई. एल., रंगा रेड्डी जिला, आन्ध्र प्रदेश-500062
173.	ऑल इण्डिया भारती जग पार्टी	लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, ग्रेन मार्किट, मनसा- 151505, पंजाब
174.	ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी	एम0-77, सेक्टर-9ए, साकेत नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश-462024
175.	ऑल इंडिया डिसेबल्ड पार्टी	प्लॉट नंबर 57, भगवान श्री शेषस्थिरी नगर, मालापट्टी रोड, डॉन बॉस्को कॉलेज बैकसाइड, बालकृष्णपुरम पंचायत, डिंडीगुल, तमिलनाडु- 624003.
176.	ऑल इंडिया फेडरल ब्लॉक	मलेक्कुडी, इलम्बकापिल्ली पी.ओ., कूवाप्पडी, ऐरणाकूलं जिला, केरल- 683544
177.	ऑल इंडिया फार्वर्ड ब्लॉक (सुभासिस्ट)	49-एम, मोतीलाल, फर्स्ट स्ट्रीट, मदुरई-625010, (तमिलनाडु)
178.	ऑल इण्डिया हिन्दुस्तान कांग्रेस पार्टी	191 सी, चन्द्रनगर ए, नौ दुकान, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान - 302012
179.	ऑल इंडिया जयहिंद पार्टी	डोर नं.- 22-77, भगत सिंह नगर, छठी लेन, यानमलाकुंडरू, विजयवाड़ा, आन्ध्रा प्रदेश- 520007
180.	ऑल इंडिया जन कांग्रेस पार्टी	ए-1बी/110ए, कृष्णा आपार्टमेन्ट, एल.आई.जी फ्लेट्स, ए-1बी, पश्चिम विहार, दिल्ली-110063
181.	ऑल इंडिया जन समस्यानिवारण पार्टी	वार्ड नं0 - 1, मु. पो. ता. - कलमेश्वर, जिला - नागपुर, महाराष्ट्र - 441501
182.	ऑल इण्डिया जन आन्दोलन पार्टी	खादाले, पुदुंग बस्ती, रैली रोड, कालिम्पोंग खासमहल, पोस्ट व थाना - कालिम्पोंग, जिला - दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल - 734301
183.	ऑल इंडिया जननायक मक्कल कझगम	नं.- 137, केसवा गार्डन, तीसरा ब्लॉक, डेमेलिएस रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600012
184.	ऑल इंडिया जनारक्षा पार्टी	के.नं. 1403/बी.एस-17/1404/बी.एस 18, गंगाधरपुरा, डोडुबल्लापुरा टाउन, बैंगलोर रूरल जिला, कर्नाटक
185.	ऑल इंडिया किसान जनता पार्टी	हाउस नं0 2-221, ग्राम - जयपुरम, कुदैर मंडल, अनंतपुर, जिला - आन्ध्र प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश- 515751
186.	ऑल इण्डिया किसान मजदूर मोर्चा	गली गुज्जर सिंह वाली, बगदादी गेट के अंदर, फिरोजपुर सिटी, पंजाब- 152002
187.	ऑल इण्डिया क्रान्तिकारी कांग्रेस	184/1469, मोती लाल नगर-1, गोरेगाँव (पश्चिम), मुम्बई-400104, महाराष्ट्र।
188.	ऑल इंडिया लेबर पार्टी	34/1-ए, लोवर रेन्ज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700019
189.	ऑल इण्डिया लीगल राईट्स पार्टी	डी.नं.-27, न्यु नं.-8 जे, कल्याणावायनागर कोयाल स्ट्रीट, पंडियन नगर, थीरुनगर, जिला- मदुरई तमिलनाडु- 625006.
190.	ऑल इण्डिया लिबरल पार्टी	प्लॉट नं० 48, विनायक मन्दिर के पास, सेक्टर-6, एम.वी.पी. कॉलोनी, विशाखापट्टनम-530017, आन्ध्र प्रदेश

191.	ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी	डोर नं0 - 9-4-135/35/ए, 9-4-135/35, प्लॉट नं0 - 35, सर्वे नं0 - 206, 207, 210 199, 198, 195/2, अरुणा कॉलोनी, टोलीचौकी, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500008
192.	ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत	नं. 23-1-1009/13,मोगलपुरा,हैदराबाद,तेलंगाना- 500002
193.	ऑल इंडिया मक्कल नलवालवु काँची	नं. 2/259, ओन्दीबदानायकनपट्टी, पलकानुथू पोस्ट, डिंडीगुल जिला, तमिलनाडु- 624619
194.	ऑल इंडिया मक्कल राज्य कझगम	प्लॉट नंबर 6-7,शेख मोहम्मद नगर,अलुंदुर, श्रीरंगम-तालुक जिला- तिरुचिरापल्ली, तमिल नाडु-620012
195.	ऑल इंडिया मानवाधिकार राजनैतिक दल	ग्राम व पोस्ट - राजापुर, थाना - चोलापुर, तहसील व जिला - वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221101।
196.	ऑल इण्डिया मांची पार्टी	फ्लैट नं0 एफ-5, साई अपार्टमेन्ट, काटूरु रोड, वुय्युरु, जिला-कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश।
197.	ऑल इंडिया मजदूर पार्टी (रंगरेटा)	मकान नं0 - 2453, बाग वाला खूह, जण्डियाला गुरु, जिला - अमृतसर, पंजाब
198.	ऑल इंडिया एम.जी.आर. मक्कल मुन्नेत्र कझगम	फ्लैट नं.- ए-4, श्रीनिवास आर्केड, नं.- 1/2, अरुणाचलम रोड, चेन्नई, तमिलनाडु- 600093
199.	ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फ्रंट	148, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001
200.	ऑल इंडिया मूवेन्दार मुन्नानी कडगम	लेक एरिया, मेलुर रोड, मदुरई-625107, (तमिलनाडु)
201.	ऑल इंडिया न्याय पक्ष	मकान संख्या - 1106,सेक्टर-16-17,जिला - हिसार, हरियाणा- 125001
202.	ऑल इंडिया पसुम्प्र मुननेत्र कझगम	47बी/2, सोर्गावासल स्ट्रीट, सी.एन.ग्रामन, जिला - तिरुनेलवेली, तमिलनाडु - 627001
203.	ऑल इंडिया पट्टाली मुनेत्र काँची	नं0 - 90, गांधी रोड, कल्लाकुरुची, विल्लुपुरम - जिला, तमिलनाडु- 606202
204.	ऑल इंडिया पीपल डेवलेपमेंट पार्टी	डी नं.-1/119 बी, नार्थ स्ट्रीट, अनैकुत्तम(पोस्ट) थिरुथंगल,शिवकासी, जिला-विरुधूनगर, तमिलनाडु- 626130.
205.	आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल)	बी. पी.-18, 40-फीटरोड, पटेल नगर, मुगल सराय, चन्दौली, उत्तर प्रदेश।
206.	ऑल इण्डिया पिछड़ा जन समाज पार्टी	475/15 क, कदम रसूल, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
207.	ऑल इंडिया प्रजा पार्टी	मकान नं.- 5-1-240, द्वितीय तल, जामबाग, स्ट्रीट नं.- 17, फ्लावर मार्केट के समीप, हैदराबाद, तेलंगाना- 500095
208.	आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुनेत्र कझगम	डी. नं. 33, कन्नादासन मेन रोड, पहली मंजिल, एस.एस.कॉलोनी, मदुरै, तमिल नाडु-625010
209.	ऑल इण्डिया रविदास समता पार्टी	भगवत सिंह भवन सं0-10, सेक्टर-11, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
210.	ऑल इंडिया समता पार्टी	मकान नं. 23-8/3, मिलीनियम टाउनशिप शादनगर, रंगा रेड्डी जिला, फरुक्कोनगर मंडल, तेलंगाना स्टेट- 509216
211.	ऑल इंडिया समुथुवा मक्खल काञ्ची	2, कल्याणी नगर, कट्टीवक्कम, चेन्नई-600041, तमिलनाडु।
212.	ऑल इंडिया सत्याज्योति पार्टी	ओंगाराकुडिल, 19, एक्सटेंशन, तुरैयूर, तिरुचि जिला, तमिलनाडु - 621010.
213.	ऑल इंडिया सेक्यूलर फ्रंट	फुरफुरा,पोस्ट- फुरफुरा,थाना-जंगीपाड़ा,जिला-हुगली पश्चिम बंगाल- 712 706
214.	ऑल इंडिया शिरोमणि बाबा जीवन सिंह मजहबी दल	गाँव और पो. ऑ. मजीठा, अमृतसर, (पंजाब)।
215.	ऑल इंडिया तफसीली यूनाइटेड पार्टी	गाँव-सिमुलपुर, पो0 - ठाकुर नगर, जिला-24 परगना (एन), (पश्चिम बंगाल)।
216.	ऑल इंडिया उलेमा कांग्रेस	नं0 20-24, ज़फ़ाराबाद ग्राम, गुलबर्गा तालुक, जिला - गुलबर्गा, कर्नाटक

217.	ऑल इंडिया उझावरगल उझाईप्पलरगल काची	द्वार नं०-55, प्रथम तल, सिनावर गली, तिरुप्पत्तुर -635601, तमिलनाडु।
218.	ऑल इंडिया वीमेन डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी	नं०-36, गणेश नगर, नियर अम्बेडकर नगर बस स्टॉप, 200 फ्रीट रोड, कोलाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600099
219.	ऑल इंडिया वीमेन यूनाईटेड पार्टी	कमरा नं० - 1, चौथी मंजिल, ए-117, शुबराती अपार्टमेंट, ओखला गाँव, जामिया नगर, नई दिल्ली - 110025
220.	ऑल इंडिया यूथ डेवलपमेंट पार्टी	4/286, कालीपुरम वट्टम, वेला कुट्टई ग्राम, वनियाम्बाडी- तालुक, जिला- वेल्लोर तमिलनाडु- 635752
221.	ऑल इंडियन राजीव कांग्रेस पार्टी	41/238, आलापुर हाऊस, राधाकृष्ण मंदिर लेन, नरही, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
222.	ऑल इंडियन रिपब्लिकन पार्टी	शॉप नं. 4, स्ट्रीट नं. 33, प्लॉट नं. 2814, मौजा भानापेठ, एम.जी.रोड, तहसील व जिला- चंद्रापुर, महाराष्ट्र- 442401
223.	ऑल इंडियन्स पार्टी	डोर नं. 30-3-11, असम गार्डन्स, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश- 530020
224.	ऑल जे एण्ड के किसान मजदूर पार्टी	स्टेण्डर्ड होटल, शहीद चौक, जम्मू, जम्मू और कश्मीर।
225.	आल जम्मू एण्ड कश्मीर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी	एम. पी. गली, राजबाग, श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर।
226.	ऑल जम्मू एण्ड कश्मीर रिपब्लिकन पार्टी	1464, मौहल्ला ख्वाजा बाजार, पावर स्टेशन के पास, अनन्तनाग, पिन कोड - 192101, जम्मू एण्ड कश्मीर।
227.	ऑल पेंशनर्स पार्टी	नं०-12डी पावोडुम तोप्पू, नेल्लूरपेट, गुडियात्तम, वेल्लूर जिला, तमिलनाडु
228.	ऑल पीपुल्स पार्टी	डोर नं० 1-138, पल्लेगुन्टा गांव व पोस्ट, गुराजाला रुरल मण्डल, जिला - गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश।
229.	एलियांस ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पार्टी	फ्लैट नं० 106, साई श्री टॉवर्स, 3-6-429/106, स्ट्रीट सं० 4, हिमायतनगर, हैदराबाद - 500029.
230.	एलाइड मिलेनियल्स पार्टी ऑफ इंडिया	एटी-51, तीसरी स्ट्रीट, अन्नाई थेरेसा नगर, मदिपक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600091
231.	अमन और शांति तहरीक-ई-जम्मू और कश्मीर	जेके-ई-खडमात मरकज, के.पी.चौक, खन्नाबल, अनन्तनाग, गवर्नमेंट हाई सेकेण्डरी स्कूल के पास, जम्मू और कश्मीर- 192101
232.	अमन पार्टी ऑफ इण्डिया	83, सुशीला विहार फेस - प्रथम, वार्ड नं.- 2, भूड, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।
233.	अमन समाज पार्टी	बी-1452, गली नं०-4, विजय पार्क, दिल्ली-110053
234.	अम्बेडकर बहुजना समथा पार्टी	08-7, तिम्माजीपेट (ग्राम व मंडल), नागरकुर्नूल, तेलंगाना - 503001
235.	अम्बेडकर जनता पार्टी	सं० 57/1 सविमाना इंटरप्राइजेज, भद्रप्पा लेआउट, कोदिगेहल्ली नगशेत्यहल्ली मेन रोड बैंगलोर- 560092, कर्नाटक।
236.	अम्बेडकर नेशनल काँग्रेस	8-3-323 अमृतपेट, क्रास रोड, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
237.	अम्बेडकर पीपुल्स मूवमेंट	39, सरावना स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई-600017. (तमिलनाडु)।
238.	अम्बेडकर पॉलिटिकल पार्टी	डी. नंबर 321/1 एस, एस मीनाक्षीपुरम, सोवदार्पति (पी.ओ.), थिरुमंगलम (टी.के.), मदुरई (डी.टी.), तमिलनाडु-625704.
239.	अम्बेडकर समाज विकास पार्टी	मकान नं.- 49, मुहल्ला- तिलक नगर, युमना नगर, तहसील- जगाधरी, जिला- युमना नगर, हरियाणा- 135003
240.	अम्बेडकर सेना पार्टी	ग्राम-कबरी, रविदास मंदिर के पास, तहसील व जिला-पानीपत, हरियाणा- 132013
241.	अम्बेडकर विकास पार्टी	गांव-रोहता, इंदिरा आवास कॉलोनी, थाना-सदर बाजार, आगरा, उत्तर प्रदेश-282009
242.	अम्बेडकर युग पार्टी	240/71 एफ/3, स्टैनली रोड, कमला नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
243.	अम्बेडकरवादी पार्टी	136/1, डायमंड हारबर रोड, कोलकत्ता-700063. (पश्चिम बंगाल)।

244.	अम्बेदकरिस्ट रिपब्लिकन पार्टी	राष्ट्रभाषा प्रचार समिती के पीछे, वर्धा - 442001, जिला-वर्धा, महाराष्ट्र।
245.	आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया	ए.पी.आई., सेंट्रल सेक्रेटेरियट, प्लॉट न.1672, नियर बुद्धा विहार, नारा रोड, इंदारा (वारपखड), नागपूर-440014, महाराष्ट्र
246.	अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम	नया न.-15, पुराना न.8, ग्राउंड फ्लोर, वेस्ट कोट रोड, रोयापेट्टाह, चेन्नई-600014, तमिलनाडु
247.	आमरा बंगाली	नं० 2, बल्लव स्ट्रीट, कोलकत्ता-700004, (पश्चिम बंगाल)।
248.	अनाईथिडिया समुदया मुन्नेत्र कजगम	नं० 7/13, पूर्व माडा स्ट्रीट, थिरुवथीपुरम व पोस्ट चेय्यर तालुक - 604 407, थिरुवन्नामला, जिला-तमिल नाडु।
249.	अनैथिन्डिया उजैक्कुम पटैप्पाली वाज्दुरिमै कञ्ची	नंबर 1, रेगुनाथपुरम ईस्ट स्ट्रीट, देवकोट्टई, शिवगंगई जिला, तमिलनाडु- 630302
250.	अनैतीन्डीया समुदाय मक्कल काची	80, कूलडाई वेलन लेन, मेन रोड, डिंडिगुल, तमिल नाडु - 624001
251.	अनैथिन्थितया तामिझागा मुन्नेत्र कडगम	10/2, नलवर नगर, कलवीरामपालायम, भारतीयार, यूनिवर्सिटी (पोस्ट), कोयम्बटूर- 641048 (तमिलनाडु)।
252.	अनैतु इंडिया मक्कल काँची	176/9, 37डी, तालुक ऑफिस रोड, पुलिस क्वार्टर के पीछे, होसर, कृष्णागिरी- जिला, तमिलनाडु- 635109
253.	अनैथु मक्कल अरासियल काची	नम्बर 1/111, ईस्ट कोस्ट रोड, इन्जावक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600115
254.	अनिथु मक्कल काची	नं. 44, दूसरा तल, नारायणसामी स्ट्रीट, पुलियानतोप, पेरम्बूर बेरेक्स के पास, चेन्नई, तमिलनाडु- 600012
255.	अनाईथु मककल मुन्नेत्र कडगम	डी नं०- 199/416 (आर०एस०नं० 177-1बी), प्रथम तल, आरकोट रोड, वडापझानी, चेन्नई-600026, तमिलनाडु।
256.	अनैथु मक्कल पुराची काँची	न.268, अमन कोईल स्ट्रीट, आलडी पोस्ट- विरुथाचलम्, (टीके) कडलूर (डीटी), तमिलनाडु- 606115
257.	अनाइथु उलागा तमिलारगल मुन्नेत्रा कलगम	नं.17, एजहिल नगर, पेरुमालपुरम, पालयमकोट्टई, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु-627007
258.	अनैतुमक्कल नीति काँची	डी० नं० 11, भूतल, 8वीं स्ट्रीट एक्सटेंशन, अहिंसापुरम, सेलुर, मदुरै, तमिलनाडु - 625002
259.	अनारक्षित समाज पार्टी	मकान नं० - 371, प्रथम तल, मोहल्ला - सधवाडा, कायमगंज, जिला - फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश।
260.	अन्बू उदयम कञ्ची	12/11, सुभाष ईलम, तेनी - गुडलूर - 625518, तमिलनाडु
261.	अण्डमान एंड निकोबार जनता पार्टी	गाराचरमा गाँव, टीटीआई रोड, तहसील - पोर्ट ब्लेयर, जिला - दक्षिण अण्डमान, अण्डमान एंड निकोबार द्वीपसमूह - 744103।
262.	अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक कांग्रेस	गांव और पीओ - रामकृष्णपुर, लिटिल अंडमान, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह - 744207
263.	आन्ध्र चैतन्य पार्टी	डोर नं. 12-20-3, गुडू स्ट्रीट, भीमुनिपटनम, विशाखापटनम् जिला, आन्ध्र प्रदेश- 531163
264.	आन्ध्र प्रदेश राष्ट्र समैक्या समिथि पार्टी	मकान नं० 11-8-118/2 (ओल्ड), 11-8-99/84 (न्यू), नरसिम्हापुरी कॉलोनी, अष्टालक्ष्मी एच वाई डी - विजयवाडा हाईवे, हैदराबाद - 500035, आन्ध्र प्रदेश।
265.	आन्ध्र प्रदेश राष्ट्र समिति	डोर नं. 15-8-158/बी, जाकिर हुसैन नगर, 3 लैन, नंदिवेलुगु रोड, ओल्ड गुंटूर, गुंटूर जिला, आन्ध्र प्रदेश- 522001
266.	आन्ध्र राष्ट्र प्रजा समिति	ए. सी. स्टेडियम के पीछे, कोनेयापालेम गेट, दरगामित्ता, नेल्लोर - 524001. आन्ध्र प्रदेश।
267.	अंगिका समाज पार्टी	आनन्द आश्रय, पोस्ट ऑफिस- पुराना जूट मिल, शरीफगंज, वार्ड नं. 42, जिला- कटिहार, बिहार-854105
268.	अन्जान आदमी पार्टी	भवन सं. 391/117ए/1, राधा नगर कालोनी, फुलवरिया रोड, दारागंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

269.	अंजुमन पार्टी	मकान नं. 95, निजातपुरा, नजर अली मार्ग, कोतवाली रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश- 456006.
270.	अन्ना डेमोक्रेटिक हूमान राईट्स मूवमेंट पार्टी ऑफ इंडिया	अमल भवन, श्रिकृष्णमंगल, कोट्टारकाश पीओ, कोल्लम, केरल- 691506.
271.	अन्ना द्राविडर कझगम	8/1, कटचोरि रोड, तिरुतुरैपण्डि, जिला- तिरुवारूर, तमिलनाडु- 614713
272.	अन्ना एम.जी.आर. जयललिता द्रविड मुनेत्र कझगम	1/213, थिरुसक्तिमुत्रम, कीलावीथी, पटेश्वरम, कुम्बकोणम् तालुक, तंजावुर जिला, साउथ इंडिया, तमिलनाडु – 612703
273.	अन्ना मक्कल इयक्कम	नंबर 660, आर.के.जे.वल्लीवेलन नगर, पम्माथुकुलम, पोत्तुर ग्राम, अम्बातूर तालुका, चेन्नई, तमिलनाडु-600052
274.	अन्ना मक्कल काचि	20सी, रेलवे स्टेशन रोड, चिन्नासलेम विलुपूरम, तमिल नाडू-606201
275.	अन्ना एमजीआर द्रविडा मक्कल कलगम	नं.150, 3rd क्रॉस स्ट्रीट, अलवरथिरुनगर, श्रीलक्ष्मी नगर, चेन्नई, तमिलनाडु-600087
276.	अन्ना एमजीआर द्रविड मुनेत्र कझगम	मकान नं0 – 176, वार्ड नं0 – 5, ईस्ट स्ट्रीट, पलोडाई कॉलोनी, अन्नाईमलाईयान्पट्टी, उत्थमापलायम – तालुक, थेनी – जिला तमिलनाडु - 625526
277.	अन्ना पुरुचि थलैवर अम्मा द्रविड मुनेत्र कषगम	नं. 1/424, थोतट्टू पाल्यम, लक्ष्मी नगर, पुलुवापट्टी (पोस्ट), तिरुपुर, तमिलनाडु, तमिलनाडु- 641602.
278.	अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी	द्वार नं0 7/2-2, चीलकलाबावी स्ट्रीट, कडपा, आन्ध्र प्रदेश- 516001
279.	अन्नदाता पार्टी	ग्राम- बघला, पोस्ट- दुबहा (वाया- जसरा), थाना- लालापुर, तहसील- बारा, जिला- प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 212107
280.	अन्नन तमिलगा राइजिंग कझगम	223, जीएसटी रोड, क्रोमपेट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600044
281.	अन्नदाता कारीगर पार्टी	गनियारी बैट्टन, जिला- सिंगरौली, मध्य प्रदेश- 486886
282.	एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी	प्लॉट नं. 52, गणेश नगर, वेपामुपट्टु- गांव, थिरुवेल्लार, तमिलनाडु- 602024
283.	अपना दल बलिहारी पार्टी	ग्राम- महाखरपुर, पोस्ट- रघवापुर, तहसील- हरैया, जनपद- बस्ती, उत्तर प्रदेश- 272155
284.	अपना अधिकार पार्टी	मसीहा ड्रग हाऊस, लाईन बाजार, पूर्णियाँ, बिहार ।
285.	अपना भारत विकास पार्टी	ग्राम - काशीपुर (मिश्रा नेवरी), जिला - बलिया, उत्तर प्रदेश – 277001.
286.	अपना भारतीय सनातन पार्टी	जय शेष मार्केट, ग्राम-किरतारतारा, पोस्ट-बिरशाहपुर, जिला-मिर्जापुर उत्तर प्रदेश-231001
287.	अपना दल	1/2 ए. पी. सेन रोड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
288.	अपना दल (कमेरावादी)	126/17 बी.बी.एन. रोड, लालबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
289.	अपना दल युनाईटेड पार्टी	ग्राम-सिसवाँ, पो0-कसया, थाना-कसया, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश – 274402
290.	अपना देश पार्टी	मकान नं0 – 457, मेजरगंज, जिला – सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश ।
291.	अपना किसान पार्टी	अमला टोला, वार्ड नं.- 30, होटल जय, न्यू मार्केट, कटिहार, बिहार- 854105
292.	अपना राज फ्रंट	मकान नं. 1096, सेक्टर-7, बहादुरगढ़, हरियाणा।
293.	अपना समाज पार्टी	एससीएफ-49, फेस 3बी2, मोहाली, पंजाब- 160059
294.	अपना संघर्ष किसानी एकता पार्टी	2379/2, कृष्णा नगर, आरती बैंक, निकट अमन हॉस्पिटल, सूपर एक्सप्रेस वाली गली, लुधियाना, पंजाब -141001
295.	अपनी एकता पार्टी	पुरानी तहसील परिसर के पास, झालूर रोड, ग्राम-शेरपुर, तहसील-धूरी, जिला-संगरूर, पंजाब - 148025
296.	अपनी जनता पार्टी	735/4, (1286/60), गली नं0 13, सिद्धार्थ पुरम (चौहान पुरी), नई बस्ती, लल्लापुरा, जिला-मेरठ, उत्तर प्रदेश-250002

297.	अपनी जनतांत्रिक पार्टी	मकान नं0 234-के, संकट मोचन भवन, ग्राम व पोस्ट-अमरपुर औन, जिला-उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209827
298.	अपनी पार्टी (सेक्यूलर)	ग्राम- उँची दनकौर, टाउन- दनकौर, जिला- गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 203201
299.	अपनी पार्टी इंडिया	एफ-4/149, द्वितीय तल, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली- 110089
300.	अपनी प्रजाहित पार्टी	प्लॉट नं 12, दिन प्रजाहित कॉलोनी, ऑपोजिट श्री कॉम्प्लेक्स, नरेंद्र नगर, विवेकानंद नगर, नागपुर, महाराष्ट्र-440015
301.	अपनी जिन्दगी अपना दल	ए-119, भूतल, निकट एंजल मेगा मॉल, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201010
302.	अप्पाअम्मा मक्कल कझकम	3/59, मारियम्मन कोविल स्ट्रीट, पोस्ट – अम्मापाल्यम्, तालुक व जिला – पेराम्बलूर, तमिलनाडु – 621101
303.	अर्जक अधिकार दल	नं.128/169/26-ए, ब्लॉक-के, किदवई नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208011
304.	अरूणाचल काँग्रेस	जी-एक्सटेंशन, नहरलागुन (अरूणाचल प्रदेश)
305.	आर्य दल	सेन्ट्रल कैम्प ऑफिस – 775, शान्ति कॉलोनी, इटावा, उत्तर प्रदेश ।
306.	आर्यावर्त पार्टी	ग्राम व पोस्ट- बरसैना, थाना – अहिरौली, जनपद – कुशीनगर, उत्तर प्रदेश – 274207
307.	असंख्य समाज पार्टी	ए-490, गली नम्बर-22, श्याम कालोनी, बुद्ध विहार फेस-2, दिल्ली-110086.
308.	असली भारत पार्टी	सी-48, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली- 110049
309.	असली देशी पार्टी	शॉप नं.10, प्रथम तल, बी-ब्लॉक, सेन्ट्रल मार्केट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली- 110095
310.	असम जन मोर्चा	वार्ड नं. 25, ग्राम- आजाद नगर, पोस्ट ऑफिस- छोटहयवर, मोजा- निज सहर, थाना व जिला- नगाँओ, असम- 782002.
311.	असम संग्रामी मंच(असम)	म.न.5 ए, राजगढ़ बाई लेन न. 4, गुवाहाटी, असम-781003
312.	असम दृष्टि पार्टी	दूम दूमा, पथर गांव, पोस्ट ऑफिस- हंसारा, जिला- तिनसुकिया, असम- 786790.
313.	असम जातिय परिषद्	मकान नं. 33 की पहली मंजिल, लैंब रोड, उज्जान बाजार, गुवाहाटी, पी.एस. लतासिल, पी.ओ. - उज्जान बाजार, जिला - कामरूप (M), असम - 781001.
314.	अटल जनशक्ति पार्टी	ग्राम- यरता, पोस्ट- सिकन्दरपुर, तहसील- हरैया, जनपद- बस्ती, उत्तर प्रदेश- 272190
315.	अतुल्य भारत पार्टी	91, पीली कोठी, गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के पास, हरि नगर, नई दिल्ली –110064.
316.	ऑटोनोमस स्टेट डिमान्ड कमेटी	रौंगनीहंग, डिफू-782460, कारबी अंगलॉग (असम) ।
317.	अविरत नेशनल सेवा पार्टी	24, श्री लक्ष्मी निवास, प्रथम ब्लाक, द्वितीय क्रॉस, अक्षय नगर, बैंगलोर, कर्नाटक – 560016.
318.	अवामी आमजन पार्टी	न्यू आदर्श नगर, आशापूर्णा कॉलोनी, जालोर, जिला – जालोर, राजस्थान-343001 ।
319.	अवामी पार्टी	ई-11/77, न्यू कॉलोनी, हौजरानी, मालवीय नगर, नई दिल्ली – 110017.
320.	आवामी समता पार्टी	भवन संख्या – 631/135, पानी गांव, सेक्टर – 9, पोस्ट – इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226016
321.	अवामी विकास पार्टी	606/607, जफरीन चेंबर्स, शिवडी रेलवे स्टेशन के सामने, शिवडी (ईस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र – 400015
322.	अयया मुन्नेटरा काजगम	डोर नं.180/128, थिरुगनानासम्बंदर रोड, रोसकोर्स, कोयम्बटोर तमिलनाडु- 641018

323.	आजाद भारत कांग्रेस	218, द्वितीय तल, एल.एस.सी. मार्केट, ब्लॉक-ए, सम्राट इन्कलेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
324.	आजाद भारत पार्टी (नेशनल)	गांव- 50 कुटिया रामपुर, परगना एवं तहसील- नरवाल, जिला- कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 209401
325.	आजाद भारत पार्टी (यूनाइटेड)	डी-59/14ए/-1/ए, शिवपुरवा, रथयात्रा रोड, महमूरगंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221010
326.	आजाद जनता पार्टी	208, हिल्लन काम्पलैक्स, आकाशगंगा सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़।
327.	आजाद क्रांति पार्टी	मकान नं. 559, ब्लॉक- जी, स्कीम नं. 40, पनकी, गंगागंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208020
328.	आजाद मजदूर किसान पार्टी	डी-4, प्रेम नगर-III, शनि बाजार रोड, किरारी नहर, नांगलोई, नई दिल्ली -110086.
329.	आजाद पार्टी	खनुहट, विकासखंड- मोतिगरपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश- 228132
330.	आजाद समाज पार्टी	ग्राम- मण्डूसरा बुजुर्ग, पो.- फतेहपुर, थाना- रानीपुर, जनपद- मऊ, उत्तर प्रदेश- 276402।
331.	आजाद शिवालिक भारत पार्टी	यूपी महल, गांव डांगोली, खेत नंबर-58, खतौनी नंबर-218, खसरा नंबर - 109, तहसील ऊना, जिला-ऊना, हिमाचल प्रदेश- 174303
332.	अज़गु तमिल देसियम	टीआई, तीसरी मंजिल, लैंड मार्बल अपार्टमेंट 30, सदायप्पन स्ट्रीट, मंदावेली, चेन्नई तमिलनाडु - 600028
333.	बी० सी० भारथा देशम् पार्टी	मकान नं० 12-13-426, गली नं० 1, तरनाका, हैदराबाद-500017 आन्ध्र प्रदेश।
334.	बी० सी० यूनाइटेड फ्रन्ट	15, सप्तगिरि नगर, रेठी बोवली, हैदराबाद-500028, आन्ध्र प्रदेश।
335.	बैकवर्ड क्लासेज डेमोक्रेटिक पार्टी, जे० एण्ड के० (बी डी पी)	पीर बाग कॉलोनी, आर्मी गेट के पीछे, सुंजवान रोड, जम्मू, जम्मू और कश्मीर-180 004.
336.	बडावारा श्रमिकारा रैतारा कांग्रेस पार्टी	1/ए, पारवथी नगर मेन रोड, बेल्लारी-583103, कर्नाटक।
337.	बहादुर आदमी पार्टी	एस-11/37-38ए, चौकाघाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221002
338.	बहादुर इन्सान नागरिक दल	खाता नं० 678, ग्राम टेमा जेड, शेरपुर, पोस्ट गौरा, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश-221404
339.	बहुजन आन्दोलन पार्टी	शाहजीपुरा, सराजतरीन संभल, प्रथमा बैंक के पास, जिला-संभल, उत्तर प्रदेश- 244302.
340.	बहुजन अवाम पार्टी	मकान सं० - 52/42/ए/2, एडमास्टन रोड, ताशकन्द मार्ग, सिविल लाईन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
341.	बहुजन आजाद पार्टी	ग्राम- सग्राम फंडा, पोस्ट ऑफिस व थाना- रिगा, जिला- सीतामढ़ी, बिहार- 843327
342.	बहुजन बल पार्टी	डी० एस० - 50/जी-II, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
343.	बहुजन भारत पार्टी	वत्सलाबाई मोहन कांबले, धारावी कुम्भरवाडा, 90 फुट रोड, वी.ओ.सी., मुंबई सिटी महाराष्ट्र- 400017
344.	बहुजन द्रविड पार्टी	मकान नं० 6659, ब्लॉक नं० 9, देव नगर, कारोल बाघ, नई दिल्ली- 110005
345.	बहुजन गोंडवाना पार्टी	वार्ड नं. 8, राम जानकी मंदिर के पीछे, बुरहर, जिला- शहडोल, मध्य प्रदेश- 484110
346.	बहुजन हसरत पार्टी	ग्राम- खरुवान्वा, पोस्ट- कुंवर पुर, तहसील- मछलीशहर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222202
347.	बहुजन क्रान्ति पार्टी (मार्क्सवाद-अम्बेडकरवाद)	ग्राम-धन्सुआ, पो० -सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़, जिला-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश 209601
348.	बहुजन लोक दल	नादरागंज रामसागर रोड, मस्जिद गली (बडी दाहा), गया, बिहार- 823001

349.	बहुजन लोकराज्य पार्टी	मैत्र निवास, तेमभुरनी रोड, कुरदुवारी ताल - मधा, जि. सोलापूर, महाराष्ट्र- 413208.
350.	बहुजन महा पार्टी	बी-245, गली नं. 2, मण्डावली, फजलपुर, निकट सद्भावना अपार्टमेंट, मंदर डेयरी के पीछे, दिल्ली-110092।
351.	बहुजन मजदूर पार्टी	खसरा नं. 249, ग्राम- सिक्रारी, तहसील- टूंडला, थाना- पचोखरा, जनपद/जिला- फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश- 283204
352.	बहुजन मुक्ति पार्टी	फ्लैट नं० -14, आशा पुष्प विहार, सहकारी आवास समिति, सेक्टर-14, कौशाम्बी, गजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
353.	बहुजन न्याय दल	596/1, न्यू पहाड़पुर, पुलिस कालोनी, थाना- गर्दनीबाग, पोस्ट- अनिसाबाद, जिला- पटना, बिहार-800002
354.	बहुजन पार्टी	125/98, न्यू एल0 आई0 जी0, बर्ग-7, कानपुर-208027 उत्तर प्रदेश।
355.	बहुजन रयत पार्टी	198क-ई, दत्त हौ, सोसा रावाडे कॉलोनी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - 416001
356.	बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच	हरदास नगर, कामठी, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र
357.	बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी	4/17, बी.डी.डी, वर्ली, मुंबई, महाराष्ट्र- 400018
358.	बहुजन सदान मोर्चा	इसरी बाजार, पो0-इसरी बाजार, जिला-गिरिडिह, झारखण्ड-825107.
359.	बहुजन समाज पार्टी (अम्बेडकर)	म.सं.-B-33/103, मोहल्ला-शहरियान, कपूरथला, पंजाब
360.	बहुजन समाज पार्टी (अम्बेडकर-फुलै)	म०नं० बी-25, सन्ध्या वेनस अपार्टमेंट, एस. पी. नगर, मोउला-अली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
361.	बहुजन समाज विकास पार्टी	20-बी.डी. एस. कमर्शियल मार्केट, ग्रा०-सदरपुर, सेक्टर-45, पो० ऑफिस अरुण विहार, सेक्टर-37, नोएडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
362.	बहुजन समाजवादी पार्टी (बाबा साहेब)	53-54, प्रथम तल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, साऊथ पटेल नगर, मैट्रो पिलर नं० 190 के सामने, नई दिल्ली -110008.
363.	बहुजन सम्यक पार्टी (मिशन)	83क/1, रिठौरा, बरेली, उत्तर प्रदेश- 243122
364.	बहुजन संघर्ष दल	पडाव पुलिस स्टेशन के सामने लक्ष्मणपुरा, पोस्ट ऑफिस-लशकर, (ग्वालियर) मध्य प्रदेश।
365.	बहुजन संघर्ष पार्टी (कांशीराम)	बहुजन भवन, खब्बाशपुर, पोस्ट-मलिकपुर, जिला - रोपड़, पंजाब।
366.	बहुजन सेना	124ए/जी-1, सेक्टर- 6, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201012
367.	बहुजन सेवा पार्टी	899, फूलबाग कॉलोनी, कुर्सी रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226021
368.	बहुजन शोषित समाज संघर्ष समता पार्टी	डी.डी.ए. दुकान नंबर-16, प्रथम तल, सी.एस.सी.नं० बी.सेक्टर-5, रोहिणी दिल्ली- 110082
369.	बहुजन सुरक्षा दल	1/7, जी. एच. बोर्ड, हरदासनगर, ओल्ड बापूनगर, अहमदाबाद- 380024, गुजरात।
370.	बहुजन उत्थान पार्टी (जी)	ग्राम- लोनापुर, मजरा-विलाई खेड़ा, निकट पूर्व माध्यमिक विद्यालय लोनापुर, पोस्ट- लौलाई, तहसील/परगना - सदर, जनपद- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226028
371.	बहुजन विजय पार्टी	98/5, पोस्ट ऑफिस गली, ग्राम- खुटभार, पोस्ट व तहसील- खजनी, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273212
372.	बहुजन विकास अघाडी	ए-301, आरती अपार्टमेंट, वरतक रोड, विरार (पश्चिम) तालुक-वसाई, जिला-थाणे, महाराष्ट्र-401303.
373.	बहुजना देशम पार्टी	डोर नं. 4/32, गद्दामीदा हरिजना बाडा, सिंगारेडु पल्ली, पेनागलुर मंडल, वाई.एस.आर., कडप्पा जिला, आन्ध्र प्रदेश- 516127
374.	बहुजन लेफ्ट पार्टी	मकान नं. 6-73, एससी बाडा, पेड्डालिंगापुर गांव, मंडल इल्लंथाकुन्ता, जिला- राजन्ना सिर्सिल्ला, तेलंगाना स्टेट- 505405
375.	बहुजना राज्यम पार्टी (फुले अंबेडकर)	मकान नं.- 4-33-163, वेंकटेश्वरा नगर, कुकटपल्ली, पाईप लाइन जगतगिरीगुट्टा, बालानगर मंडल, जिला- मेडचल, हैदराबाद, तेलंगाना- 500037

376.	बहुजन राष्ट्र समिति	प्लॉट नं० – 34/2, ललितानगर, वेस्ट मारेडपल्ली, सिकंदराबाद, तेलंगाना – 500026
377.	बज्जिकांचल विकास पार्टी	सहजानंद नगर, भगवानपुर, एन.एच.-28, मुजफ्फरपुर-842002, बिहार।
378.	बलीराजा पार्टी	प्लॉट नं. 1, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पृथ्वीराज नगर, बेलतरोडी रोड, नागपुर, महाराष्ट्र-440034
379.	बंचित स्वराज पार्टी	सं० 117, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर रोड, पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन-नलहाटी, जिला- वीरभूमि- 737220, पश्चिम बंगाल।
380.	बंग भारत पार्टी	ग्राम घनश्यामपुर, पोस्ट-पुरंदरपुर, थाना-कांदी, जिला-मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल- 742140
381.	बंगाली नवनिर्माण सेना	सी/ओ सुप्रिया दास, चेंगकुरी रोड, ईस्टर्न बाइलेन, पोस्ट- अम्बकापट्टी, थाना- सिलचर सदर, जिला-कछार, असम- 788004.
382.	बंगला बिकाशवादी कांग्रेस	युसुफगंज, अफाक नगर, गोलघर-चबूतरा हाऊस के पास, पोस्ट व थाना - इस्लामपुर, जिला - उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल - 733202
383.	बेगलुरु नव निर्माण पार्टी	101, ब्रिगेड पैरामाउट, 5, ओल्ड मंद्रास रोड, सी.वी. रमन नगर, बेगलुरु – 560093
384.	बेरोजगार आदमी अधिकार पार्टी	डी-2/329, शिव दुर्गा विहार, लक्कड़पुर, फरीदाबाद, हरियाणा।
385.	भारतीय जनशक्ति कांग्रेस	डोर नं. 4-148/ए, पणियूर रोड, उच्छिला, उडुपि - जिला, कर्नाटक- 574117
386.	भागीदारी क्रान्ति दल	ग्राम व पोस्ट मवई पड़ियाना, ब्लॉक – सरोजनी नगर, तहसील व जनपद - लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226008
387.	भागीदारी पार्टी(पी)	30/5वी/4, दक्षिण लोकपुर, नैनी, जिला-प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 211008
388.	भापसे पार्टी	ग्राम – मस्सा (खं), तहसील – कलम, जिला – उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413507।
389.	भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल	भवन संख्या - ए-1061, सेक्टर- आई, एल.डी.ए. कॉलोनी, कानपुर रोड, पोस्ट- एल.डी.ए. कॉलोनी, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226012
390.	भारत (इन्टिग्रेटेड) रक्षक पार्टी	मकान सं० - बी-98, मेयफिल्ड गार्डन, सेक्टर – 50, गुरुग्राम, हरियाणा- 122018।
391.	भारत भारती पार्टी	38, कौशलपुरी, गौमती नगर एक्सटेंशन, गली नं० 10, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010
392.	भारत भविष्य पार्टी	मकान सं०-94 स, ग्राम - मुगीसपुर, थाना - तारून, पोस्ट – चन्द्रिकागंज, जिला – फैजाबाद, उत्तर प्रदेश 224141
393.	भारत भूमि पार्टी	मकान नं. 48, ग्राम- खपरी (टांडपारा), पोस्ट- पकरिया, तहसील – पामगढ़, थाना- मुलमुला, जिला- जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ –495553
394.	भारत दल	भारत सेवाधाम अरण्यक, क्रान्तिदीप मौराना, नूरपुर, जिला-बिजनौर (उत्तर प्रदेश)।
395.	भारत एकता मिशन पार्टी	171/123, आराघर, जिला - देहरादून, उत्तराखण्ड-248001
396.	भारत गौरव पार्टी (इण्डिया)	13/543, सेक्टर-13, इंदिरानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226016
397.	भारत जागो जनता पार्टी	न्यू मार्किट, सहारा इंडिया बैंक बिल्डिंग, हाई स्कूल पारा, कटिहार, पटना, बिहार- 854105
398.	भारत जन आधार पार्टी	फ्लैट नं.4, कुर्ला अमर सीएचएस सोसायटी, जनसेवा पेट्रोल पम्प के सामने, काले मार्ग, कमानी कुर्ला(पूर्व), महाराष्ट्र-400070
399.	भारत जन जागरण दल	वार्ड नं. 5, नारा परसौन, भैरोगंज, पश्चिम चंपारण बिहार-845108
400.	भारत जन शक्ति पार्टी	मकान नं. 15/281, शक्ति नगर, शुक्ला नगर, जिला- उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209861
401.	भारत जनसंग्राम पार्टी	मकान नं० – 366, अहिल्या, न्यू शांती नगर, पोस्ट- एच.वी.पी.एम. अमरावती, महाराष्ट्र-444605।

402.	भारत जनता दल (तुगलक)	ग्राम- निरमानी, डाक- निरमाना, ब्लाक- बघरा, थाना- शाहपुर, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
403.	भारत जोड़ो पार्टी	मोहम्मद अली मार्ग, 786/1, जोगी नवादा, निकट बडखडी नाथ मंदिर, बरेली, उत्तर प्रदेश-243006
404.	भारत का किसान मजदूर पार्टी	ग्राम-बलियाँ (नयन नगर) पोस्ट – बलियाँ, महाराजगंज, सिवान, बिहार – 841506।
405.	भारत कल्याण पार्टी	ग्राम पंचायत – मेवली, तहसील - खैरागढ़, जिला – आगरा, उत्तर प्रदेश- 283115।
406.	भारत कौमी दल	ग्राम –लाठुरदेवा हूण, पो0 झबरेडा, जिला– हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
407.	भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी	3/250, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश)।
408.	भारत क्रान्ति रक्षक पार्टी	बरकतपुर, पोस्ट-बडागाँव, जिला – कौशाम्बी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
409.	भारत लेबर प्रजा पार्टी	4-25, सीतानगर कॉलोनी, सोमुलागुदेम (पी), पलवन्चा (एम), खम्माम जिला-507115 आन्ध्र प्रदेश।
410.	भारत लोक सेवक पार्टी	दुकान नं. 16, डी-ब्लाक मार्केट, पुष्पांजली इन्क्लेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110034
411.	भारत महापरिवार पार्टी	1286, ग्राउंड फ्लोर, डी.डी.ए.मार्केट, न्यू मीना बाजार, सीमापुरी, दिल्ली- 110095
412.	भारत माता पार्टी	ग्राम व पोस्ट – कटका, जिला – मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश
413.	भारत माता सपूत पार्टी	ग्राम- डेहरिया दयाराम, पोस्ट- लोहरा खास, जिला- भदोही, उत्तर प्रदेश- 221303
414.	भारत नमन पार्टी	ग्राम व पोस्ट मंशापुर -, ब्लॉककटेहरी -, जिला अम्बेडकर नगर -, उत्तर प्रदेश - 224168
415.	भारत नव निर्माण पार्टी	ए-2, नितेश विला, विवेकानन्द कालोनी, नया खेड़ा, अम्बावाड़ी, जयपुर – 23, राजस्थान।
416.	भारत नवनिर्माण वोटर सेना	1255-एफ, बसन्त विहार, कानपुर-208021, उत्तर प्रदेश।
417.	भारत निर्माण पार्टी	हाई स्कूल रोड, पो0 त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल – 852139, बिहार।
418.	भारत न्याय दल	एन0 एच0-58, दिल्ली बाई पास रोड, गोपाल विहार, म0 नं0-48, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
419.	भारत परिवार पार्टी	भारत हृदय आश्रम, मौ0 कड़च्छ ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 249407
420.	भारत पीपुल्स सेना	प्लॉट सं. 6-4-787, फुले नगर, सोमनाथपुर रोड, तालुक- उदगीर, जिला- लातूर महाराष्ट्र।
421.	भारत प्रभात पार्टी	105, प्रथम तल ए.जी.सी.आर. एन्क्लेव, कड़कड़डूमा कोर्ट के पास, दिल्ली-110092
422.	भारत रक्षक पार्टी (डेमोक्रेटिक)	गांव पोस्ट पक्का सहरना, तहसील जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।
423.	भारत स्वाभिमान पार्टी	55/1/228, ग्राउंड फ्लोर भावापुर, जी.टी.बी.नगर, करेली, प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211016
424.	भारत उदय मिशन	सी-3/4, सुमन नगर, वी. एन. पुरव मार्ग, चैम्बूर, मुम्बई-400071.
425.	भारत उत्थान पार्टी	ग्राम- हरनी औसेरी, परगना- हिसामपुर, पोस्ट- अरई उमरी, तहसील- कैसरगंज, जिला- बहराइच उत्तर प्रदेश -271904.
426.	भारत वाहिनी पार्टी	मातृमंदिर, प्लॉट नं. ई- 185, राम पथ, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान- 302019.
427.	भारत वैभव पार्टी	सी-४, शिवधाम वेलफेयर सोसाइटी, नियर वी.एम.सी.कॉलोनी, एम.डी.नगर, नालासोपारा पूर्व, पालघर, महाराष्ट्र – 401209
428.	भारत विकास मोर्चा	शेखपुरा रोड, मधुपुर, जिला-देवघर, झारखण्ड।

429.	भारत विशाल पार्टी	ए/6ए, डी०डी० ए० फ्लैट, मुनीरका, नई दिल्ली – 110067.
430.	भारतीय बहुजन प्रजा राज्यम्	डी नं. 956, अरुणदेवलेपेट, दसवीं लेन, गुंटूर – 522002, आन्ध्र प्रदेश ।
431.	भारतीय मानवाधिकार पार्टी	21, राजेन्द्र मलिक स्ट्रीट, कोलकाता – 700007, पश्चिम बंगाल ।
432.	भारत धर्म जन सेना	इमारत सं०-849/V, मारारिकुलम उत्तर पंचायत, कांचीकुलंगर मंदिर के पूर्व में, मारारिकुलम उत्तर गांव, चेरत्तल तालुका, आलप्पझा जिला, केरल - 688544
433.	भारत प्रजा स्पन्दन पार्टी	डी.न० – 2 - 42, कलावचरला ग्राम, निदादावोले मंडल, पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश।
434.	भारत समाज डेवलप पार्टी	डीनं .0 40-31-26, धर्म नगर, विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश- 530008
435.	भारता मक्कल कच्ची	नियर डोर नं. 44व 45 (पुराना डोर नं. 38), एस.एस. कॉलोली, पोन्मेनी नारायणन स्ट्रीट, जिला-मदुरै, तमिलनाडु- 625016
436.	भारता प्रजाकीय पार्टी	म.न.-3-175/1, बोधमपल्ली (गांव), डब्बा (पोस्ट), कोतला (मंडल), कुमरभीम आसिफाबाद (जिला), तेलंगाना राज्य – 504299
437.	भारत सेवाई कच्ची	नं. 1 व2, गूमस रोड, पैरिस, चैन्नई, तमिलनाडु- 600001
438.	भारतीय चैतन्य पार्टी	डी. सं. 9-186/7, हाई स्कूल रोड, वेकंट नगर, कडियम, पूर्व गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश- 533103
439.	भारतीय जवान किसान पार्टी	XL, VI/2694 (एसबी/एस/867एच), पी.ओ. सिविल स्टेशन, नियर सन्निधान टूरिस्ट होम एंड बेस्ट इंजीनियरिंग, कन्नूर, केरल – 670001
440.	भारथीया सधरमा समस्थापना पार्टी	हाऊस नं० 3/17, डोरासानी पल्ली, प्रोहतुर मंडल, कडापा डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।
441.	भारतीय प्रजा सेवा पार्टी	6-3-360/1, श्री कृष्णा देवराय नगर, बडवेल टाउन, वाईएसआर कडप्पा जिला, आन्ध्र प्रदेश- 516227
442.	भारथ्या बेलाकू पार्टी	नं. 54, गवर्नमेंट स्कूल रोड, गांव- गोपनहाली, तालुका- मादुरु, जिला- मंड्य, बेंगलुरु, कर्नाटक- 571422
443.	भारतीय प्रग्रावंथा कांग्रेस	60सी, 80 फीट रोड, आई.टी.आई लेआउट, मल्लाथाहल्ली, नगरमावी वार्ड, बेंगलोर, कर्नाटक- 560056
444.	भारतीय आम जनता अधिकार पार्टी	101-डी, ईस्ट लक्ष्मी मार्केट, गली नं.-4, पटपरगंज रोड, दिल्ली-110092
445.	भारतीय आम अवाम पार्टी	सरिस्ताबाद, इन्द्रपुरी पथ, गली नं० ई, गर्दनीबाग, पटना, बिहार- 800001
446.	भारतीय आमजन पार्टी (विवेकानन्द)	150, गणेश कॉलोनी, गली नं. 8, जैन मंदिर के पास, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान- 302012
447.	भारतीय आवाम एकता पार्टी	23 सी, सेक्टर- ए, सैनिक विहार, नन्दानगर, कूडाघाट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
448.	भारतीय अग्रगामी दल	44, श्री कृष्णा नगर, रोड नं. 1, पी.एस. बुध कॉलोनी, पटना, बिहार-800001
449.	भारतीय अम्बेडकर पार्टी	मेन बाजार, कृष्णा नगर, जाउरा फाटक, अमृतसर (पंजाब) ।
450.	भारतीय अपना समाज पार्टी	LIG-A/LGF-03, यशोधरा कुंज आवासीय योजना, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273016
451.	भारतीय आशा पार्टी	मकान नं० 590, गाँव-भरण, गवर्मेन्ट हाई स्कूल के पास, तहसील- मेहम, जिला-रोहतक, हरियाणा- 124111
452.	भारतीय अवाम ताकत दल	ग्राम- सुजनडीह (रामपुर), पोस्ट- शोहंसा (मुंगरा बादशाहपुर), तहसील- मछलीशहर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222204
453.	भारतीय बैकवर्ड पार्टी	71, सूर्य अपार्टमेंट्स, फ्रेजर रोड, पटना – 800001 (बिहार) ।
454.	भारतीय बहुजन कॉंग्रेस	117, खोडियारकृपा सोसायटी, कंतारेश्वर महादेव मंदिर के पास, कतारगाम, सूरत, गुजरात ।
455.	भारतीय बहुजन परिवर्तन पार्टी	खसरा नं० – 139/2, ग्राम – लखवाया रसूलपुर, रोहटा रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
456.	भारतीय बहुजन पार्टी	156, भरौली, शाहगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।

457.	भारतीय बहुजन समता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- सुरजननगर, जिला- मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244602
458.	भारतीय बेरोजगार पार्टी	ग्राम- काँटा करौंदी, पोस्ट- मीरक नगर, थाना- निगोहा, तहसील- मोहनलाल गंज, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226302
459.	भारतीय छात्रसंघ भारत	प्रेमधन मार्ग, बदली घाट, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश – 231 001 ।
460.	भारतीय काँग्रेस पक्ष	कसबापेठ, लिंबूवाली सवारी के सामने, मु० पोस्ट – बार्शी, जिला – सोलापुर, महाराष्ट्र ।
461.	भारतीय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायंस पार्टी	मकान सं. 198, मोहल्ला- कच्छपुरा, (शाक्य नगर), वार्ड नं.8, पोस्ट- राजा का रामपुर, जिला- एटा, उत्तर प्रदेश ।
462.	भारतीय डेवलपमेन्ट पार्टी	बिल्डिंग न. 14/54, एस.बी.बिल्डिंग, अपोजिट सरी कृष्णा टेम्पल, असरामम, कोल्लम, केरल-691002
463.	भारतीय डा० बी० आर० अम्बेडकर जनता पार्टी	नं० 18, बारहवीं क्रॉस, एम० टी० एस० लेआउट, केनगिरी उपनागरा, बेंगलूरु – 560060 कर्नाटक ।
464.	भारतीय एकलव्य पार्टी	गांव व पो० – बेल्लार कलां, तहसील मेहडावल, जिला – संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश ।
465.	भारतीय एकता दल	189, बसंत अपार्टमेंट, बसंत विहार, नई दिल्ली – 110057
466.	भारतीय गन परिषद	मकान नं. 3, बाय लेन नं. 4, वार्ड नं. 16, बिष्णुराभा पथ, लालगणेश (उदालवाक्रा), थाना- दिसपुर, जिला- कामरूप मैट्रो, गुवाहाटी, असम- 781034
467.	भारतीय गांव ताल दल	ग्राम – कुका, पो० आँ० मक्सूदपुर, जिला – कपूरथला, पंजाब ।
468.	भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा	47/1, विक्टोरिया रोड, वार्ड नं. 17, डाक, थाना और जिला - दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल. - 734101.
469.	भारतीय ग्रामीण दल	आर्यव्रत प्रकाशन मंदिर, बस स्टाप, गोसाईगंज, जनपद – लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
470.	भारतीय हिन्दू सेना	जी-17, रिद्धि सिद्धि टावर, सैक्टर-5, प्लॉट नं.4, सन एण्ड मून टावर के पास, विधाधर नगर, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान-302023
471.	भारतीय हितरक्षक पार्टी	नं० – 33, मीरा निवास, पुष्कर पार्क, बाबेन, नियर बाबेन प्राथमिक शाला, तालुक – बाराडोली, जिला – सूरत, गुजरात- 394601
472.	भारतीय इन्कलाब पार्टी	ग्रा० राणा प्रताप नगर, इस्लामपुर, पो० व थाना – इस्लामपुर, जिला – नालन्दा, बिहार, पिन – 801303.
473.	भारतीय जय भीम पार्टी	1304, भानतलैया, सिंधी कैम्प, जिला- जबलपुर, मध्य प्रदेश ।
474.	भारतीय जन बेरोजगार छात्र दल	आर० टी० ओ० ऑफिस के पास, हुसैनगंज, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश ।
475.	भारतीय जन जागृति पार्टी	बृजधाम आश्रम, रणहेरा, तहसील – छाता, जिला – मथुरा (उत्तर प्रदेश) ।
476.	भारतीय जन क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक)	एफ-23, सैनिक सोसायटी, शक्ति नगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश ।
477.	भारतीय जन मोर्चा पार्टी	वार्ड नं.-1, सतना रोड, अमरपाटन, जिला- सतना, मध्य प्रदेश - 485775
478.	भारतीय जन सभा	मार्फत राजाराम यादव, रघुवीर नगर, न्यू कॉलोनी, देवरिया (उत्तर प्रदेश) ।
479.	भारतीय जनचेतना दल	नं.70, एलआईजी इंदिरा नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208026
480.	भारतीय जनक्रान्ति पार्टी	12/17, चम्बुवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
481.	भारतीय जनतंत्र संरक्षण विकास पार्टी	ग्राम -पंडित पुर थाना एवं अंचल –पिप्राकोठी, जिला – पूर्वी चंपारण, बिहार - 845429
482.	भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी (कांशीराम)	मकान नंबर। 198, पटौदी रोड, आई टी आई के पास, रेवाड़ी, हरियाणा - 123401.
483.	भारतीय कार्यस्थ सेना	121, विष्णु कॉलोनी शाहगंज, आगरा – 282010. उत्तर प्रदेश।
484.	भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी	नगला दखाल, कोटला रोड, फिरोजाबाद – 283203, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
485.	भारतीय किसान रोजनैतिक पार्टी	प्लॉट न० 04, खसरा न० 151/01, सेमरा गौड़ी, मडिगांव, सीता रोड लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226021

486.	भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक	मकान नं० -392/1, चक रघुनाथ, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
487.	भारतीय लिबरल पार्टी	सी- 79, प्रथम तल, गली नं. 4, राधे श्याम पार्क एक्सटेंशन. राधे श्याम पार्क एक्स. कॉलोनी, घोड़-ली वार्ड, कृष्णा नगर, दिल्ली- 110051
488.	भारतीय लोक सेना	लोअर ग्राउन्ड फ्लोर, ऑफिस नं०-2, बिल्डिंग नं०- ए.-212-सी, तिरुपति प्लाजा, गली नं०- 1, शंकरपुर विकास मार्ग, दिल्ली - 110092
489.	भारतीय लोकशक्ति पार्टी	371-5, बेघर वसाहत, मेन रोड मजले, तालुका-हलकजंगले, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416109
490.	भारतीय मजदूर जनता पार्टी	ग्राम - लालपुरा, पो०- कुकथरी(पिनाहट), तहसील- बाह, जिला- आगरा, उत्तर प्रदेश- 283123
491.	भारतीय माइनारिटीज सुरक्षा महासंघ	410, अर्केडिया बिल्डिंग, सर जे.जे. रोड, जे.जे. हॉस्पिटल के सामने मुम्बई-400008 (महाराष्ट्र)।
492.	भारतीय मोमिन फ्रंट	174, आनन्दपुरी, वेस्ट बोरिंग, कैनाल रोड, पटना 800001 (बिहार) ।
493.	भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी	77/129, भगत सिंह कॉलोनी, तरला अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
494.	भारतीय मुलनिवासी आजाद पार्टी	एट-रूम नंबर-601, बिल्डिंग नंबर-3, एवेन्यू-एच, रूस्तमजी एवरशाइन ग्लोबल सिटी, विरार पश्चिम, जिला-पालघर, महाराष्ट्र- 401303
495.	भारतीय नागरिक पार्टी	गांव-कनासी, पो. ओ. -कनासी, जिला-फर्रुखाबाद-207501 (उत्तर प्रदेश)।
496.	भारतीय नेशनल जनता दल	701 ए, सातवीं मंजिल, मेघमल्हार काम्पलेक्स, सेक्टर नं० 11, गांधीनगर, गुजरात-382010
497.	भारतीय नव क्रान्ति पार्टी	गांव-मखमैलपुर, पोस्ट-सरायख्वाजा, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
498.	भारतीय नवयुवक पार्टी	मकान नं० 572, बाई साहब की परेड, प्रिया ब्रेड फैक्टरी के पास, लक्ष्मीगंज, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश ।
499.	भारतीय न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी	ग्राम व पोस्ट- डारा, थाना- जयनगर, जिला- दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल- 743337
500.	भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी	पूर्व बिष्णुपुर, डाकखाना - रमाकान्त नगर, थाना - मन्दिरबाजार, जिला - 24 परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल - 743395
501.	भारतीय परिवर्तन कांग्रेस	126, आदिवासी कॉलोनी, राष्ट्र संत तुकदोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल के निकट, मानेवाडा रोड, नागपुर-440027, महाराष्ट्र ।
502.	भारतीय पीपुल्स पार्टी	टी-9, 295/16/11, शिवशक्ति नगर, सैयद चिनचौली रोड, फिल्टर बेड, गुलबर्गा, कर्नाटक-585104.
503.	भारतीय पिछड़ा दल	ग्राम-खुजरी, पोस्ट-सागर, वाया-चकरमाथा कैम्प, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495 220 ।
504.	भारतीय प्रगति पार्टी	C/o चंद्र प्रकाश, गांव और पोस्ट बेलसड, जिला - तापागौर, थाना - पैकोलिया, तहसील - हरैया, बस्ती - 272163 उत्तर प्रदेश ।
505.	भारतीय प्रजा ऐक्यता पार्टी	नंबर 01, कोटे स्ट्रीट, वेंकटेश्वर मंदिर के पास, कोडिगेहल्ली एल, सहकारनगर पोस्ट, बैंगलोर, कर्नाटक -560092
506.	भारतीय प्रजा पक्ष	नं. 374/ए, प्रथम तल, 1-ब्लॉक, 1-क्रॉस, रविन्द्र नाथ टैगोर नगर (आर.टी.नगर), बंगलोर-560032 (कर्नाटक) ।
507.	भारतीय प्रजा सुराज्य पक्ष	ए./पी. - खांडज, तालुका - बारामती, जिला- पुणे, महाराष्ट्र- 413116
508.	भारतीय प्रजागला कल्याणा पक्षा	नं० - 23, फ्लैट नं० - 401, चौथी मंजिल, एवरजॉय, नंदनावना, तृतीय क्रॉस, द्वारका नगर, चन्नासंदारा, बैंगलोर, कर्नाटक- 560098.
509.	भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी	29/3, पंचकुईयाँ, झांसी, उत्तर प्रदेश ।
510.	भारतीय प्रजातांत्रिक शुद्ध गांधीवादी कृषक दल	मिस्टा, जिला जांजगीर, विकास खण्ड नवगढ़, छत्तीसगढ़ांचल, छत्तीसगढ़ ।
511.	भारतीय राष्ट्रवादी पक्ष	12, जूना पावर हाऊस, रोटरी हाल के पीछे, जेल रोड, मेहसाना (गुजरात), पिन-384002.

512.	भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी	एफ-402, रोड सं० 9-एफ, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर-302013, राजस्थान
513.	भारतीय राष्ट्रीय बहुजन समाज विकास पार्टी	जी-96, 'शांतिपुरम फाफामऊ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
514.	भारतीय राष्ट्रीय महिला सर्वोदय कांग्रेस	नं० 2, प्रथम तल, वायुपुत्र आर्केड, वार्ड नं. 15, नियर एन.टी.टी. एफ, पी.बी. रोड, धारवाड, जिला- धारवाड, कर्नाटक-580001
515.	भारतीय राष्ट्रीय मजदूर दल	नया सराफा, ग्वालियर-474001 (मध्य प्रदेश)।
516.	भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा	डी-6, प्रताप बाग कॉलोनी, नया हनुमान मन्दिर, अलीगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
517.	भारतीय रिपब्लिकन पक्ष	डा. अम्बेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता रोड, दादर मुम्बई-400014 (महाराष्ट्र)।
518.	भारतीय सभ्यता पार्टी	545क -अव /006, अवन्ती विहार, पुराना पारा थाना, हरदोई रिंग रोड, पोस्ट राजाजीपुरम -, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226017
519.	भारतीय सद्भावना समाज पार्टी	खान मंजिल खपाड़गंज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
520.	भारतीय समाज दल	85, चौक माकान्डु गंज, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)।
521.	भारतीय समाजवादी पार्टी (लोकतांत्रिक)	मुहल्ला-चाहशीरी, पंजाब एंड सिंध बैंक लेन, सिविल लाइंस, बिजनौर, जनपद-बिजनौर, उत्तर प्रदेश-246701
522.	भारतीय समतावादी पार्टी	संख्या 60, भाग संख्या 3, बिजलीनगर, चिंचवाड़, पुणे, महाराष्ट्र - 411033
523.	भारतीय सम्पूर्ण क्रान्तिकारी पार्टी	ए-1/150, अमन विहार, नांगलोई, नई दिल्ली -110041
524.	भारतीय सम्राट सुभाष सेना	ग्राम - अजीतपुर, पो० - कनखल, लक्सर रोड, हरिद्वार, उत्तराखण्ड - 249408
525.	भारतीय समता समाज पार्टी	ग्राम-देहरामऊ, पोस्ट-गोसाईगंज, जिला -लखनऊ - 227 125 (उ.प्र.)
526.	भारतीय समतावादी पार्टी (ए)	निकट खान आटा चक्री, अपोजिट देवी लाल कॉलोनी, सरस्वती विहार, मेहलाना रोड, तहसील एवं जिला- सोनीपत, हरियाणा- 131001
527.	भारतीय संघर्ष मोर्चा	सी4/33, ई.डब्ल्यू.एस, विश्व बैंक कॉलोनी, ए.डी.ए. नैनी, तहसील-करछना, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-212301
528.	भारतीय संगठित पार्टी (एस)	साई ग्रीन सिटी, अटोर रोड, निकट मोरटी, राजनगर एक्सटेंशन, एन.एच.-58, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-201017
529.	भारतीय संग्राम परिषद	48, बैंक स्ट्रीट, खटाव बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, एस. बी. एस. रोड, ओल्ड कस्टम हाउस के सामने, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400001
530.	भारतीय सन्त मत पार्टी	बहु झोली रोड, ग्राम व पोस्ट - नाहर, तहसील - कोसली, जिला - रेवाड़ी, हरियाणा।
531.	भारतीय सर्वजन विकास पार्टी	ग्राम- हर्षपुर (पूरे राहली), पोस्ट- कोटवाशुकुलपुर, तहसील- लालगंज, थाना- सांगीपुर, जिला- प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश- 230136
532.	भारतीय सर्वोदय क्रान्ति पार्टी	113, मलिकपुर, जी.टी.बी.नगर, दिल्ली-110009.
533.	भारतीय सत्यार्थ संगठन	भारत नगर, प्रेम विद्यालय- रेलवे क्रॉसिंग, राधापुरम हाउसिंग कॉलोनी के सामने, बिरला मंदिर के पास, वृन्दावन रोड, जीटीवी- 3, मथुरा- 281003, (उत्तर प्रदेश)।
534.	भारतीय सुभाष सेना	ग्राम और पो. ऑ. बानकासिया शिवरतन सिंह, जनपद-गोन्डा-271302 (उत्तर प्रदेश)।
535.	भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- चितवड़ागांव, मकान नं० - 885ख, वार्ड नं० -8, इन्दिरा नगर, तहसील - बलिया, बलिया, उत्तर प्रदेश- 221713
536.	भारतीय सुराज दल	सिन्हा भवन, एग्जिविशन रोड, रिजर्व बैंक के पीछे, पटना, बिहार - 800001
537.	भारतीय स्वजीवी नागरिक पार्टी	ग्राम- कुकुरिहा, पोस्ट- रूद्रपुर कोरवा, थाना व तहसील- रूद्रपुर, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश।

538.	भारतीय स्वतन्त्र पार्टी	गांव-नौगाई, पो०ओ० रघुनाथपुर, तहसील, वाडरुफनगर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़।
539.	भारतीय युवा जन एकता पार्टी	261, केसर पैलेस, अबुपर्वत, ता० अबू रोड, जिला - सिरौही, राजस्थान - 307501
540.	भारतीय युवा पार्टी (डेमोक्रेटिक)	वार्ड सं-54, सर्किल सं0-71, बिस्कोमान गोलम्बर, बी.एस.एन.एल, टेलिफोन एक्सचेंज के पास, पोस्ट ऑफिस- गुलजारबाग, कुम्हारार, पटना, बिहार-800007.
541.	भारतीय युवा शक्ति	हवेलियों का वास, ग्राम पंचायत, कोसेवाल, तहसील-सुमेरपुर, जिला - पाली, राजस्थान।
542.	भारतराष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी	शॉप नं0 - 22, सी एस सी-II, डी डी ए मार्केट, आई. पी. एक्सटन्सन, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092
543.	भारतवासी पार्टी	अम्बेडकर नगर पूर्वी, रामकोला रोड, पोस्ट- पडरौना, जिला - कुशीनगर, उत्तर प्रदेश-274304
544.	भारिपा बहुजन महासंघ	डॉ. अम्बेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता रोड, दादर मुम्बई- 400014 (महाराष्ट्र)।
545.	भरोसा पार्टी	मकान नं. 8-233, पोचाराम ग्राम पंचायत, घाटकेसर- मण्डल, जिला- मेडचल, तेलंगाना - 500088
546.	भारती जन सुरक्षा पार्टी	प्रधान कार्यालय, धौलवाहा मार्ग, हीरा कालोनी के समीप, टाउन एवं पो०ओ० हरिआना, जिला होशियारपुर, पंजाब-144208
547.	भारती समुदाय पार्टी	7 सी-10, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, थाना - पी0 जी0 आई0, तहसील - लखनऊ, जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002
548.	भारतीय आम आदमी परिवार,	1000 जय अम्बे अपार्टमेन्ट, डी0डी0ए0एल0आई0जी0 फ्लैट्स, न्यू कोंडाली, मयूर विहार फेज-3, दिल्ली- 110096
549.	भारतीय आम जनता विकास पार्टी	ग्राम व पोस्ट- दुलमा, थाना- मधुवन मोतिहारी, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार।
550.	भारतीय अहिंसा पार्टी	728, निराला नगर, अयोध्यापुरी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश।
551.	भारतीय अमृत पार्टी	खसरा नं. 661/3, कचनारिया, भोपाल रोड बायोरा, जिला- रायगढ़, मध्य प्रदेश- 465674
552.	भारतीय अनारक्षित पार्टी	मकान नं. 08, आनन्दवन, एन.एच-02, नवादा, पोस्ट- औरंगाबाद, जिला- मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281006
553.	भारतीय अनार्य पार्टी	राजवंशी मार्किट बस स्टैंड राजगीर, थाना व पोस्ट-राजगीर, जिला- नालंदा, बिहार- 803116
554.	भारतीय अंत्योदय पार्टी	8- प्रीत विहार, फेज- 11, इंदिरा गांधी मार्ग, निरंजनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड- 248171
555.	भारतीय अपना अधिकार पार्टी	किरार छात्रावास के पास, रामपुरी आऊ खाना कला शब्द, प्रताप आश्रम, जिला- ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474012
556.	भारतीय आरक्षण मुक्ति दल	291, अग्निहोत्र नगर, मकड़ीखेडा, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208017
557.	भारतीय आर्य क्रान्ति मंच	83 राम वाटिका, कॉलोनी, गीता पैलेस के पीछे, श्यामगंज, बरेली, उत्तर प्रदेश - 243005
558.	भारतीय अस्मिता पार्टी	मकान नं0 302, ग्राम-कतबाव, दहगांव रोड, पोस्ट- वाशिंद, तालुका- शाहपुर, महाराष्ट्र- 421602.
559.	भारतीय अवाम एक्टिविस्ट पार्टी	गाँव- केशरू, थाना- चन्दौती, जिला- गया, बिहार- 823002
560.	भारतीय अवाम पार्टी (राष्ट्रीय)	मकान नं0-30 (बी०पी०20), बेचूपुर, पटेलनगर, (40 फीट रोड), मुगलसराय, जिला-चन्दौली, उत्तर प्रदेश। पिन कोड -232 101
561.	भारतीय आजाद सेना	15 नं. चौक, बड़कागांव, जिला- हजारीबाग, झारखण्ड- 825311
562.	भारतीय बहुजन क्रान्ति दल	सेवागढ़ बिल्डिंग नं.- 02, अजादेगांव, डोंबिवली पूर्व, जिला- ठाणे, महाराष्ट्र- 421201

563.	भारतीय भाईचारा पार्टी	मकान नं0 – 61/3, गांव – छलेरा बांगर, अम्बेडकर विहार, सेक्टर – 37, परगना व तहसील – दादरी, नोएडा, जनपद – गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश - 201303
564.	भारतीय चैतन्य पार्टी	बी-97, पंचशील विहार, निकट शेख सराय, कम्युनिटी सेन्टर, नई दिल्ली ।
565.	भारतीय छत्रपती सेना	शगुन रो हाउस डी 3, उद्योग भवन के पीछे, अयोध्या नगर, सिन्नर, नासिक, महाराष्ट्र - 422103
566.	भारतीय चेतना पार्टी	सूरतगंज, वार्ड नं0 15, थाना नगर, मधुबनी, जिला मधुबनी बिहार- 847211
567.	भारतीय दलित कांग्रेस	चौपड़ा पारा, काली मंदिर के पीछे, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ -497001
568.	भारतीय दलित पार्टी	खाता सं0- 269, मौ0- विजयनगर, पोस्ट- विजयनगर, अँचल-बाँका, जिला- बाँका, बिहार ।
569.	भारतीय दमितजन पार्टी	गाँव-गोविन्दपुर, पोस्ट-सिहारा, तहसील-धामपुर, जिला-विजनौर, उत्तर प्रदेश- 246746
570.	भारतीय धर्मनिरपेक्ष पार्टी	मकान नं. 146, ग्राम- खडगपुर, पोस्ट- चौबेपुर, थाना- चौबेपुर, जिला- कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 209203
571.	भारतीय दृष्टिगोचर पार्टी	मकान संख्या- 54, ग्राम - मौसंदी, पोस्ट- सूरतगंज, जिला- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश- 225304
572.	भारतीय एकता मंच पार्टी	शबाब बिल्डिंग, टैगोर मार्ग, नदवा रोड लखनऊ-226020, उत्तर प्रदेश ।
573.	भारतीय गदर पार्टी (एस)	गांव-ओदेरा मठिया, पोस्ट-राऊतमऊ, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-276406
574.	भारतीय गांधीवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट-गडवार, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश ।
575.	भारतीय गणराज्य पार्टी	मकान नं0 1094, विकास शर्मा बी.टी.आई. रोड, बजाज एजेंसी के बगल में, मोहल्ला बेनी सागर, पन्ना मध्य प्रदेश-488001
576.	भारतीय गरीबमजदूर पार्टी	ग्राम- पचटकी राम, पोस्ट- पचटकी यदू, थाना- बैरगनिया, जिला- सीतामढ़ी, बिहार- 843313
577.	भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी	एकता विहार, लेन नं. -1, ग्रामसभा- आमवाला तल्ला, पीओओ – कण्डोली, सहस्रधारा रोड, देहरादून उत्तराखण्ड -248001
578.	भारतीय ग्रामीण समाज पार्टी	भवन नं0 15/357, भरोसी की धर्मशाला, पंचम वाली गली, दत्तपुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश-476001
579.	भारतीय हरित पार्टी	निकट हंस प्राकृतिक चिकित्सालय, मीरापुर रोड, जानसठ, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश – 251314
580.	भारतीय हिमाचल जन विकास पार्टी	गांव व डाकघर – बढलठोर, तहसील – देहरा, जिला – कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश – 177105
581.	भारतीय हिन्द फौज	यु.जी.एफ-07, चित्रांश ड्रीम सोसाइटी, आर.के.पुरम, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201013
582.	भारतीय हिन्द पार्टी	90, ईश्वरी दयाल बिल्डिंग, आर्य समाज रोड, गणेश गंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226018
583.	भारतीय ईमानदार पार्टी	सिंधौली, तहसील – पुवायों, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश ।
584.	भारतीय इण्डियन सैकुलर पार्टी	हमदर्द नगर-बी, जमालपुर, माफी, तहसील कोल, जिला- अलीगढ़, उत्तर प्रदेश- 202001
585.	भारतीय इंसान पार्टी	नं0 – 84, चतुर्थ तल, बट्ला हाउस, खलीलुल्लाह मस्जिद के पास, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025 ।
586.	भारतीय जागरण पार्टी	पूर्वी नवादा, आरा, भोजपुर- 802301, बिहार ।
587.	भारतीय जन अधिकार पार्टी	गाँव-भीम, हॉस्पिटल रोड, पोस्ट ऑफिस-भीम, जिला-राजसमन्द, राजस्थान-305921
588.	भारतीय जन हित विकास पार्टी	220, इन्द्रापुरी, जैकबपुरा रोड, गुडगाँव, हरियाणा – 122001

589.	भारतीय जन हितकारी पार्टी	प्लॉट नं0 31-32, शिवनगर, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान
590.	भारतीय जन जागरुक पार्टी	सर्वे नं. 171, ग्राम- चैनपुरा, पोस्ट- शिवगढ़, तहसील- मेघ नगर, जिला- झाबुआ, मध्य प्रदेश- 457777
591.	भारतीय जन जन पार्टी	दुकान संख्या – 8 व 9, द्वितीय तल, गोयल प्लाजा, फैजाबाद रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
592.	भारतीय जन मानस पार्टी	मकान संख्या – 262 घ, सरसवाँ, थाना – अर्जुनगंज, अर्जुनगंज, तहसील व जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002।
593.	भारतीय जन मंच	361, गली नं0 13, बुद्ध विहार, (बड़े स्कूल के पीछे), मंडोली गांव, नन्द नगरी, दिल्ली -110093।
594.	भारतीय जन नायक पार्टी	सी-17-18, सेक्टर-15, वसून्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012
595.	भारतीय जन परिषद	एफ.एफ/108, शान्तिविला कॉम्प्लेक्स, एच.पी.पेट्रोल पंप के सामने, दहेगम रोड, नारोडा, अहमदाबाद, गुजरात- 382330
596.	भारतीय जन प्रगति दल	मकान नं.- 134, गाँव- रामरायपुर (बाय पास रोड), पोस्ट- रामरायपुर, तहसील- भदोही, जिला- भदोही, उत्तर प्रदेश- 221314
597.	भारतीय जन सहयोग पार्टी	8/6, जूही सफेद कॉलोनी, कानपुर, उत्तर प्रदेश – 208014
598.	भारतीय जन समाधान पार्टी	411, स्पेक्ट्रम, नजदीक यशरीअन, स्वामी विवेकानंद सर्किल, मेम नगर, अहमदाबाद, गुजरात-380052
599.	भारतीय जन समाज पार्टी	मोहल्ला ग्राम, अहमदपुर उर्फ कमलापुर परगना, बिजनौर तहसील व विधानसभा, सरोजनी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226002-
600.	भारतीय जन सम्मान पार्टी	फ्लैट नं. 32, कृष्णा अपार्टमेन्ट, ब्लॉक बी.एच पूर्वी, डी.डी.ए फ्लैट्स, ग्राउंड फ्लोर, शालीमारबाग, दिल्ली- 110088
601.	भारतीय जन सम्पर्क पार्टी	मकान संख्या- 3616, शारदा निवास कटरा, आधारताल, जबलपुर, मध्य प्रदेश।
602.	भारतीय जन समरसता पार्टी	5081, विश्वकर्मा नगर, प्लॉट नं.80, वार्ड नं.14, द्वारकापुरी, रामेश्वरी रोड, राधा मंदिर के पास, पार्वती नगर, नागपुर, महाराष्ट्र-440027
603.	भारतीय जन सम्राट पार्टी	खसरा नं. 719, प्रॉपर्टी नं. X-9/10, ओल्ड नं. X-6/12, ग्राम- घोंडा गुजरन खादर, गली नं. 9, X- ब्लॉक, ब्रह्मपुरी, दिल्ली- 110053
604.	भारतीय जन सत्ता पार्टी	भवन संख्या - 11, मुख्य ग्राम + पोस्ट - भादवासी, भाया - कटराथल, जिला- सीकर, राजस्थान- 332024
605.	भारतीय जन स्वराज पार्टी	सीसी- 1/24, अनसल, अवन्तिका, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201001
606.	भारतीय जन विकास आघाडी	क्रांतीसूर्य नवजीवन नगर, जुना पेडगांव रोड, जिला-परभणी महाराष्ट्र- 431401
607.	भारतीय जन युग पार्टी	हीरा नगर, पुरानी छावनी, लश्कर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश – 474010
608.	भारतीय जनता समाजसेवी पार्टी	हाउस न0 116 आरपीजी/844, वर्तमान म.116/839, रावतपुर- 2, कल्यानपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश- 208019
609.	भारतीय जनता विकास पार्टी	डी- 4/2, सेक्टर- 20, रोहिणी, दिल्ली- 110086
610.	भारतीय जनहित काँग्रेस पार्टी	ए-3, रूम नं. 602, छठा माला, आर.एन. ए. पार्क, वाशी नाका, आर.सी. मार्ग, चेम्बुर, मुंबई- 400074, महाराष्ट्र
611.	भारतीय जनहित दल	डी-1/535, जे.जे.कलस्टर, भलस्वा डेरी, नई दिल्ली – 110042
612.	भारतीय जनजागरण गाँधीवादी पार्टी	खाता नं. 112, खेसरा नं. 1196, ग्राम- हसमी, पी.एस- माण्डर, जिला- राँची झारखण्ड- 835214
613.	भारतीय जनमुक्ति पार्टी	ग्राम – डुन्दुर, पोस्ट – लठेया, थाना – छतरपुर, जिला – पलामू, झारखण्ड - 822116
614.	भारतीय जनराज पार्टी	मकान संख्या 653, वार्ड नं. 14, शिव नगर, नियर शिव मंदिर, हिसार, हरियाणा-125001
615.	भारतीय जनसमानता अधिकार पार्टी	कोठी नं0 - 2, पूर्णागिरी विहार, पटेल नगर, पो0 - इज्जत नगर, जनपद- बरेली, उत्तर प्रदेश।

616.	भारतीय जनसमूह दल	म.नं.-55/35,सी.वाई. चिंतामणि रोड,जॉर्ज टाउन,प्रयागराज,उत्तर प्रदेश - 211002
617.	भारतीय जनसेवा कांग्रेस	कोठी नं. 768, वार्ड नं. 17, किला कॉलोनी, कोसली रोड, झज्जर, हरियाणा- 124103
618.	भारतीय जनता दल	सी-16, संजय विहार, आवास विकास कॉलोनी, मेरठ रोड, हापुड, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
619.	भारतीय जनता दल (इंटीग्रेटेड)	मकान नं0-62, गली नं0-16, ए-1 ब्लॉक, सन्त नगर, (बंगाली कॉलोनी), बुराड़ी रोड, दिल्ली-110084 ।
620.	भारतीय जनता सेक्यूलर पार्टी	सर्वमंगला नगर, दुरपा, वार्ड नं. 45, पोस्ट- दुरपा, थाना- कुसमुण्डा, तहसील- कटघोरा, जिला- कोरबा, छत्तीसगढ़- 495677
621.	भारतीय जनतंत्र मोर्चा	खाता नम्बर-80,प्लॉट नम्बर-528,ग्राम-सिदरौल,थाना-नामकुम,युगान्तर भारती परिसर,जिला-रांची,झारखण्ड-834002
622.	भारतीय जनतंत्र सनातन दल	नं. 752, चरित्र वन, टीचर्स कॉलोनी, जिला- बक्सर, बिहार- 802101
623.	भारतीय जनतांत्रिक जनता दल	1, दरोगा राय पथ, पटना- 800001,बिहार ।
624.	भारतीय जनतांत्रिक पार्टी	ग्राम- चिरोटा, पोस्ट- अजयराजपुरा, वाया- बगरू, तहसील- सांगानेर, जिला- जयपुर, राजस्थान- 303007
625.	भारतीय कामगार पार्टी	ग्राम- चान्दोपारा, पोस्ट- चान्दोपारा, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 212402 ।
626.	भारतीय कौटिल्य सेना	आर 14/6 (बेसमेंट), राजनगर, स्कवायर माल के सामने, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
627.	भारतीय किसान जनशक्ति पार्टी	मकान नं0 600, वार्ड नं0 5, घसियारीपुरा, नौवागढ़ी, बहराइच उत्तर प्रदेश
628.	भारतीय किसान पार्टी	ई- 58, तारानगर, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान- 302012
629.	भारतीय किसान पार्टी (सेक्युलर)	ग्राम-वियारा,अंचल-भगोडीयाँ,जिला-बड़ौदा,गुजरात- 391760
630.	भारतीय किसान यूनियन समाज पार्टी	मकान नं. 332एफ, वृन्दावन गेट के पास, राजेन्द्र नगर, पश्चिम गोरखनाथ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 272115
631.	भारतीय किसान विकास पार्टी	ग्राम अमराई, पोस्ट लकखारामपुर, विश्वेश्वरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश ।
632.	भारतीय क्रांति वीर पार्टी	ग्राम- काजीचक, पोस्ट व पुलिस स्टेशन- संदेश, जिला- भोजपुर, बिहार- 802164
633.	भारतीय क्रांतिसंधं पार्टी	नं0 19/ जी-1, वृजेश्वरी एनेक्स, कनाडिया रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452016
634.	भारतीय कृषक दल	197, कौशलपुरी (सरला बाजपेयी का बाग), सुभाष नगर के दक्षिण, जनपथ, हरदोई,उत्तर प्रदेश ।
635.	भारतीय लोक चेतना पार्टी	जानकी निवास,ब्रह्मपुर,पोस्ट व थाना- फुलवारी शरीफ,जिला- पटना,बिहार-811505
636.	भारतीय लोक नायक पार्टी	ग्राम- नौवापाली,पोस्ट-चकरा,जिला सिवान,बिहार- 841226
637.	भारतीय लोक सत्ता पार्टी	गली नं.6,वार्ड नं.47,गडोरा का पुरा,जिला-मुरैना,मध्य प्रदेश-476001
638.	भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट- सदाय बिगहा-165, बड़हिया, जिला- लखीसराय, बिहार- 811302.
639.	भारतीय लोकशाही पार्टी	खडका रोड, रामदेव बाबा मंदिर, ता0- भुसावल, जिला- जलगांव, महाराष्ट्र- 425201
640.	भारतीय लोकस्वराज्य पार्टी	सुभाष नगर, अष्टविनायक कॉलोनी, जि0प0 प्राथमिक शाळे समोर, डी0पी0 भोसले कॉलेज जवळ, सुलतानवाडी रोड, ता0 कोरेगांव, जिला- सतारा, महाराष्ट्र-415501
641.	भारतीय महासंघ पार्टी	नं0 के-2413, नगर पालिका रोड, रोसड़ा समस्तीपुर, बिहार- 848210

642.	भारतीय महाशक्ति मोर्चा	जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़, जिला-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन-209601
643.	भारतीय महिला पार्टी (शीतल वर्मा)	मकान संख्या- 12/2, बी ब्लॉक, फेज- 2, गोयल विहार, निकट सेंट थॉमस स्कूल, द्वारका, गोगिया डेरी रोड, नई दिल्ली- 110071
644.	भारतीय मल्लराष्ट्र पार्टी	333,ओ लच्छीपुर भाटी विहार, गोरखपुर,उत्तर प्रदेश-273007
645.	भारतीय मानव कल्याण पार्टी	ई 49/1, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462042
646.	भारतीय मानव समाज पार्टी	गांव व पोस्ट- ओइना, तहसील- केराकत, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222146
647.	भारतीय मानवता पार्टी	श्रीरामपुर टोला (बिहटा),पो.+थाना-बिहटा,जिला- पटना,बिहार- 801103
648.	भारतीय मानवाधिकार फेडरल पार्टी	154/17, राज चेंबर, (फखरुद्दीन मंजिल), अलीभाई प्रेमजी मार्ग, ग्रांट रोड, मुंबई, महाराष्ट्र- 400007
649.	भारतीय मित्र पार्टी	सर्कल -10, होलिंग सं0 -79ए/64, मोहल्ला - गोला रोड, बाकरगंज, जिला- पटना बिहार- 800004
650.	भारतीय मोहब्बत पार्टी (ऑल इण्डिया)	म.नं.-18184, चंदसार बस्ती, भटिण्डा-151001 (पंजाब)।
651.	भारतीय नागरिक सुरक्षा पार्टी	नं.13,न्यू केतन सोसाइटी,नजदीक उमा शिक्षण तीर्थ,भ.भाग्योदय सोसाइटी,नरोदा,अहमदाबाद,गुजरात-382325
652.	भारतीय नव विकास पार्टी	60, सीडा मोहल्ला, चिल्ला गाँव, नियर साई मंदिर, मयूर विहार फेस-1, दिल्ली-110091
653.	भारतीय नवजवान सेना (पक्ष)	श्री. मोरया पार्क, शॉप नं0-4,सोमनाथनगर, सोमनाथ मंदिर के पास, वडगांवशेरी, पुणे-411014,महाराष्ट्र।
654.	भारतीय नवोदय पार्टी	ग्राम- अहेरिया, पोस्ट- चकरनगर, चकरनगर चौराहा, जिला- इटावा, उत्तर प्रदेश।
655.	भारतीय न्यू संस्कार क्रांतिकारी पार्टी	ग्राम व पोस्ट- सहसरौंव, भाया- भगवानपुर हाट, जिला- सिवान, बिहार- 841408
656.	भारतीय निवास पार्टी	ग्राम – सरबसी, पोस्ट – बढनी, गोपालपुर (उनवल), जिला – गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273406।
657.	भारतीय पंचायत पार्टी	डी – 15/674, गली नं0 – 5, गणेश नगर-2, शकरपुर, दिल्ली – 110092
658.	भारतीय पंचायती राज पार्टी (लोकतांत्रिक)	बी-247,तीसरी मंजिल,प्रियदर्शनी विहार दिल्ली- 110092.
659.	भारतीय पंचशील पार्टी	बी-71,इंदिरा नगर,रायबरेली,उत्तर प्रदेश- 229001
660.	भारतीय पार्टी	न्यू कॉलोनी, पोस्ट-नीम का थाना, जिला-सीकर, राजस्थान – 332713
661.	भारतीय पार्टी (लोकतांत्रिक)	ए-12, अन्सा प्लाजा, आर.बी.एस.एस. सहाय रोड, भागलपुर, बिहार- 812001
662.	भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी	554 सी/118, दामोदर नगर, नियर राज चंद्र अस्पताल, वीआईपी रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226005.
663.	भारतीय प्रगतिशील कांग्रेस	डी.-43, राजधानी पार्क, नांगलोई, दिल्ली -110041.
664.	भारतीय प्रजा जन पार्टी	नारायणपुर रोड, कस्बा बानसूर, जिला-अलवर, राजस्थान।
665.	भारतीय पब्लिक लेबर पार्टी	357/3, श्याम नगर, गली नं0 -1, काली मन्दिर के पीछे, फॉयसागर रोड, अजमेर, राजस्थान – 305001
666.	भारतीय रणवीर पार्टी	एस -498,भूतल,स्कूल ब्लॉक,शकरपुर,दिल्ली-110092
667.	भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी	जे- 74ए, गली नं. 14,खसरा नं. 6/14, स्वरूप नगर, दिल्ली- 110042.
668.	भारतीय राष्ट्रीय दल	सी- 6/52, यमुना विहार, दिल्ली- 110053
669.	भारतीय राष्ट्रीय एकता दल	10/10,मोहल्ला कैतवाड़ा,निकट अम्बेडकर चौक,जवालापुर,जिला हरिद्वार,उत्तराखंड – 249407
670.	भारतीय राष्ट्रीय जागरूक दल	ई-2548, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226017।

671.	भारतीय राष्ट्रीय जगसेवा पार्टी	यूनिट नंबर 208, दूसरी मंजिल, सनराइज टॉवर, शिव मार्केट, वजीरपुर, अशोक विहार, दिल्ली-110052
672.	भारतीय राष्ट्रीय जनसत्ता	127, प्रथम तल, वर्धमान टावर, प्रीत विहार, दिल्ली - 110092
673.	भारतीय राष्ट्रीय लोक मंच पार्टी	प्लॉट नं०. 2, गली नं० - 2, चौहान पट्टी, निकट मंगल बाजार, करावल नगर, दिल्ली- 110094
674.	भारतीय राष्ट्रीय तंत्र पार्टी	एन. 502, मधुवन ग्लोरी, सेन्ट मेरी स्कूल के नजदीक, नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात-382330
675.	भारतीय रिफ्लेक्शन पार्टी	एल.आई.जी.-11- जी, पाकेट ए-2, मयूर विहार, फेज-3, दिल्ली-110096
676.	भारतीय रिपब्लिकन पार्टी (इन्सान)	ग्राम - महुआरी, पो० जंगीगंज, जिला - सं० र० न० भदोही, उत्तर प्रदेश।
677.	भारतीय रोजगार पार्टी	ई-77, पुराना जसोला गाँव, निकट मेट्रो पिलर नं०- 141, जसोला, निकट जामिया को-ऑपरेटिव बैंक, नई दिल्ली-110025।
678.	भारतीय सबका दल	मुहल्ला- गोलवार टोला, पोस्ट, थाना व तहसील- मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद- मऊ, उत्तर प्रदेश- 276403
679.	भारतीय सबलोग पार्टी	मौजा दीघा, राजीव नगर, रोड सं० 25 ई, पो०-केसरीनगर, थाना- फूलवारी, पटना बिहार-800024
680.	भारतीय समाज सेवा पार्टी	मकान नं० - 1, ग्राम - वनुपुर पुख्ता, पोस्ट - मलिकपुर (सोरो), जिला - काशगंज, उत्तर प्रदेश।
681.	भारतीय सामाजिक एकता पार्टी	16, ग्राम- नंदोरा, तहसील- गोहरगंज, जिला- रायसेन, मध्य प्रदेश- 464990
682.	भारतीय सामाजिक क्रान्ति दल	गांव- सुवारी, पोस्ट-दानगंज, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
683.	भारतीय सामाजिक न्याय पार्टी	गांव व डाकखाना - सेरसा, तहसील व जिला - सोनीपत, हरियाणा।
684.	भारतीय सामाजिक पार्टी	6, बस स्टैंड, अलिराजपुर, जिला - अलिराजपुर, मध्य प्रदेश - 457887
685.	भारतीय समाजवादी सेना	भवन संख्या- एस.-2/525, मोहल्ला- सिकरौल, पोस्ट- कैण्टूनमेण्ट, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221002
686.	भारतीय समानता पार्टी	चित्रकूट धाम, तीसरी मंजिल, 60-बी, पनकी रोड, कल्याणपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208017.
687.	भारतीय समता पार्टी	173 डी, राधा कृष्ण चौराहा, रामपुरम् श्याम नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208013
688.	भारतीय संगम पार्टी	230/5, न्यू मेंहदौरी, पो० - तेलियरगंज, जनपद - इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211004.
689.	भारतीय संघर्ष समिति	मकान सं.4684, निसार नगर, करीदा संकुल के सामने, जम्भून रोड, सांगवान, बुलढाणा, महाराष्ट्र-443001
690.	भारतीय संस्कृत विरासत पार्टी	मकान नं. 338, ग्राम व पोस्ट- लखौर खुर्द, थाना- कुरावली, जिला- मैनपुरी, उत्तर प्रदेश।
691.	भारतीय संयुक्त किसान पार्टी	भुसाही बाजार, यादव मार्केट, कमले बलिया, भुसाही, बोछहा, मुजफ्फरपुर बिहार-843103
692.	भारतीय सार्थक पार्टी	शिवशंकर पथ, मिठनपुरा, पोस्ट-रमना, थाना-मिठनपुरा, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार-842002
693.	भारतीय सर्वधर्म पार्टी	विलाल मार्केट, शॉप न.5, खदरी, थाना, माडियाँव, सीतापुर रोड, लखनऊ 226013
694.	भारतीय सर्वजन हिताय समाज पार्टी	अनंत विहार कॉलोनी, दलदल सिवनी मार्ग, मोवा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
695.	भारतीय सर्वजन पार्टी	गांव-रामपुर, हाटा मार्ग, पोस्ट-गौरी बाजार, जिला-देवरिया-274202, उत्तर प्रदेश।
696.	भारतीय सर्वोदय पार्टी	152/126, पटेल नगर (पश्चिम), देहरादून-248001, उत्तराखण्ड।
697.	भारतीय सत्य संघर्ष पार्टी	ग्राम-बिड़िया, थाना-मंडला, जिला-मंडला, मध्य प्रदेश।
698.	भारतीय सेवक पार्टी	उत्तराखण्ड ग्रामिण बैंक के नजदीक, बुग्गावाला (मेन मार्केट), हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 247662

699.	भारतीय शक्ति चेतना पार्टी	वार्ड नं0 18, ग्राम – खामदार, पो0 मोड, तहसील-ब्यौहारी, जिला – शहडोल, मध्य प्रदेश
700.	भारतीय श्रमिक दल सोशलिस्ट	वामन नगर पतेरी, सेक्टर - 20, जिला - सतना, मध्य प्रदेश ।
701.	भारतीय सुवर्णयुग पार्टी	कार्यालय ऐ/33, कैपिटल कॉमर्सियल सेंटर, निकट सन्यास आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात-380009
702.	भारतीय स्वदेशी कांग्रेस	12/303, मैक्स सिटी पार्क सफायर, रामप्रस्था ग्रीन्स, सेक्टर-9, वैशाली गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201010.
703.	भारतीय स्वराज जन सेवा संगठन	एच.नं . 647, कल्याणपुर माजरा, खेलिया कल्याणपुर, पी - .एस. अहमदगढ़, तहसील शिकारपुर -, जिला बुलंदशहर -, उत्तर प्रदेश - 203391.
704.	भारतीय स्वराज्य क्रांती पार्टी	तुमबोलीनगर, कसबा-बावडा जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र- 431124.
705.	भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी	40, लक्ष्मी नगर, रत्नेश्वर रोड, रतलाम, मध्य प्रदेश- 457001
706.	भारतीय स्वतन्त्र पंच पार्टी	नोरंगिया चौराहा से 50 मीटर कोनी मार्ग, पोस्ट-कोनी, नोहरू चौक खलीलाबाद,
707.	भारतीय तारक समाज पार्टी	465ए बिनौली, तहसील- बडौत, जिला- बागपत, उत्तर प्रदेश- 250645
708.	भारतीय ट्रायबल पार्टी	मु.पो. चंदेरिया, तालुका- बालिया, जिला- भरूच, गुजरात
709.	भारतीय उदय निर्माण पार्टी	एच. नंबर-431/955एन, वार्ड गंज (132), नेवती टोला, एलाफ पैलेस के पास, मोमिन नगर, कैम्पवेल रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226003
710.	भारतीय वंचितसमाज पार्टी	ग्राम – भुडिया (फगुहा), तह0 व जिला – कन्नौज, उत्तर प्रदेश।
711.	भारतीय वीर दल	खेवट/खसरा नं.- 39/56, मुस्टिल नं.- 14, मौजा- घुडासन, पोस्ट- तिगाँव, बल्लबगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा - 121101
712.	भारतीय वीर किसान पार्टी	ग्राम-खापरखेडा, तालुक- जफ्राबाद, जिला- जालना, महाराष्ट्र।
713.	भारतीय विकास पार्टी	139-बी, टामुर नगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली ।
714.	भारतीय विकास दल यूनाइटेड	मकान नं. एसएम.011-0425, ग्राम- छोटा बरियारपुर, वार्ड नं.- 38, पोस्ट- मोतिहारी कोर्ट, थाना- छतौनी, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार- 845401
715.	भारतीय विस्तारवादी पार्टी	ग्राम-श्यामपुर, पो0 – दुगरेई, जिला – फतेहपुर, उत्तर प्रदेश ।
716.	भारतीय योजना रायथु पार्टी	डीन.0.27-1-148/H, अत्ताराताय स्ट्रीट, नियर चल्लापल्ली बंगला गवर्नर पेट, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश-520002.
717.	भारतीय युवा एकता शक्ति पार्टी	मकान सं.-63, रामपुर रोड, मानपुर उत्तर, हल्द्वानी, जिला- नैनीताल, उत्तराखण्ड-263139
718.	भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी	रोजी अनीमा एक्स.टी.टी.आई, अखण्ड ज्योति हास्पिटल के पास, दीघा, पटना, बिहार- 800011
719.	भारतीय युवा क्रान्ति पार्टी	ई-ब्लॉक सूरजदीप कॉम्प्लेक्स, निकट दैनिक जागरण चौराहा, जॉपलिंग रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
720.	भारतीय युवा पार्टी	एवरशाइन आपपर्टमेंट जलाराम सोसायटी के निकट, रॉयल पार्क के सामने, पार्क एवेन्यू के निकट, जानागढ़, गुजरात- 362001
721.	भारतीय युवा पार्टी (राष्ट्रवादी)	मकान नं. 139, सोनवरसा बैरिया, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश- 277208
722.	भारतीय युवा सेना	मकान नं0 – 1-407, कस्बा विभाग, किल्ले धारुर, तालुक – धारुर, जिला – बीड, महाराष्ट्र – 431124 ।
723.	भारतीय युवा स्वाभिमान पार्टी	19/769, मोहल्ला – नारायनपुर, शुक्ला आटा चक्की के पास, गोविन्द नगर, औरैया, उत्तर प्रदेश– 206122
724.	भारतीय मानवता निर्माण पार्टी	लाला लाजपत नगर, पोस्ट-पुण्दाग, थाना-जगन्नाथपुर, जिला - राँची, झारखण्ड - 834004.
725.	भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा	चन्द्रनगर कुरुद रोड कोहका, भिलाई, जिला व तहसील - दुर्ग, छत्तीसगढ़।
726.	भ्रष्टाचार विरोधी दल	आर.जेड.डी.-120सी, निहाल विहार(नानगलोई), दिल्ली- 110041

727.	भ्रष्टाचार का अंत पार्टी	64/189 गडरिया मोहाल, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208001
728.	भूमिसन्तान अधिकार पार्टी	ग्राम-तलूक रानाघाट, पो.-पूर्व रानाघाट, थाना-मथुरापुर, जिला-दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल- 743338
729.	बिहार जनता पार्टी	ग्राम - जेल शहर, ओल्ड रिमाण्ड होम, धर्मनाथ मन्दिर रोड, दौलतगंज, सारण, बिहार - 841301
730.	बिहार जस्टिस पार्टी	प्लॉट नम्बर 2251, यदुवंशी नगर दीघा, आशियाना रोड, पटना बिहार- 800011
731.	बिहार लोक निर्माण दल	मौ. नूनगोला, थाना नगर व पोस्ट- हाजीपुर, जिला- वैशाली, बिहार- 844101
732.	बिजु स्वाभिमान दल	प्लॉट नं0 40, उमापदा, स्टेडियम वी आई पी रोड, पी ओ - एफ सी प्रोजेक्ट, कलिंग नगर, जाजपुर रोड, जाजपुर, ओडिसा - 755020
733.	बीरा ओड़िया पार्टी	मार्फत - श्री पी. सामन्तरे, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), स्था./पो.ऑ. - मधुपटना, कटक - 10 (उडिसा) ।
734.	बोल्शैविक पार्टी ऑफ इंडिया	डा. शशिकान्त वायेकर, 9 भुपेशनगर, गोरेवाडा रोड, नागपुर- 440013, महाराष्ट्र ।
735.	बराबर समाज सांझी पार्टी	मकान नं0 - 698, ग्राम - अर्नियावाली, तहसील - नत्थुसारी चोपटा, जिला - सिरसा, हरियाणा - 125055
736.	बृज पार्टी	बेसवां मोड़, अलीगढ़ मथुरा रोड, पोस्ट - बेसवां, ग्राम पंचायत - नयाबाँस, तहसील - इगलास, जिला - अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202145
737.	ब्रज विकास पार्टी	ए-193, ट्रांस यमुना कालोनी, फेस - II, आगरा - 286002, उत्तर प्रदेश ।
738.	बृहत्तर भारत प्रजातंत्र सेवा पार्टी	पैलेस के पीछे, किशोरगंज पन्ना, जिला- पन्ना, मध्य प्रदेश ।
739.	त्रिज क्रान्ति दल	16, हरियाणा भवन, दयाल बाग, आगरा - 5, उत्तर प्रदेश ।
740.	ब्रहत भारतीय कल्याण पक्ष	2484/एफ, एईसीएस लेआउट, कूडलू, एईसीएस लेआउट, एब्लॉक-, बेंगलोर, कर्नाटक- 560068
741.	बुलंद भारत पार्टी	दुकान नंबर 8, पहली मंजिल, एस.सी.ओ.नंबर-84-85, सेक्टर-16, सागर सिनेमा के पास, फरीदाबाद, हरियाणा-121002
742.	बुन्देलखण्ड काँग्रेस	56, ज्वाला हेडी मार्केट, शर्बती काम्प्लेक्स, पश्चिम विहार, दिल्ली - 110063.
743.	बुन्देलखण्ड क्रान्ति दल	मकान नं. 40, मोहल्ला- खाई, नई बस्ती, झांसी, उत्तर प्रदेश - 284001
744.	बुंदेलखंड विकास दल	द्वारा श्री शिव नारायण खरे (एडवोकेट), 116/3 शिवालय, किशोर गंज, टाउन एरिया, कुलपहाड़, जिला - महोबा, उत्तर प्रदेश - 210426
745.	लोक कल्याण पार्टी	नंबर 4 एफ / 403, अकाशरथ बी / एच रत्नम ऑप। सी.जी.रोड, अहमदाबाद, गुजरात - 380009
746.	चैलेंजर्स पार्टी	दुर्गेश निवास, विठोबा मंदिर के सामने, 68/XX, टेलर स्ट्रीट, काउलबाज़ार, बेल्लारी, कर्नाटक - 583102 ।
747.	चण्डीगढ़ की आवाज पार्टी	मकान नं. 2207, ग्रांड फ्लोर, सेक्टर- 45 सी, चण्डीगढ़- 160047
748.	चेन्नई यूथ पार्टी	एच नं0 2595, टी.एन.एच.बी., अयप्पक्कम, प्रथम तल, चेन्नई, तमिलनाडु- 600077
749.	छात्रपति शिवाजी भारतीय गरीब पार्टी	ग्राम-फतेहपुर (खौदा), पोस्ट-कटोना, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221208
750.	छत्तीसगढ़ एकता पार्टी	मकान सं. 182/2, बार्ड नं. 08, बड़े पडरमुदा रोड, जमगहन, तहसील- मलखरोदा, जिला- जांजगीर चम्पा, छत्तीसगढ़- 495691
751.	छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा	पो. ऑ. दल्ली राजहारा, जिला - दुर्ग- 491228. (छत्तीसगढ़) ।
752.	छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी	रामानुजगंज रोड, संजय पार्क के सामने, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ - 497001
753.	छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी	बजरंग नगर (तात्यापारा बार्ड), रायपुर, छत्तीसगढ़।
754.	छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच	21, बत्तीस बंगला, भिलाई नगर, जि० - दुर्ग- 490006 छत्तीसगढ़ ।

755.	छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी	खोंगापानी, जिला - कोरिया छत्तीसगढ़ - 497447
756.	छत्तीसगढ़ विकास पार्टी	ए-12, फ्लाश विहार, न्यू पुरैना, पोस्ट ऑफिस-रविग्राम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
757.	छत्तीसगढ़ समाज पार्टी	हांडीपाडा आजाद चौक, रायपुर - 492001. (छत्तीसगढ़)।
758.	छत्तीसगढ़िया पार्टी	म०न०-93, ग्राम- धनरास, पोस्ट- छुरी, तहसील- कटधोरा, जिला- कोरवा, छत्तीसगढ़ - 495450
759.	छावा दल	सर्वे नं० 11-2, प्लॉट नं० 01, सीताराम नगरी, मल्हारवाडी, पोस्ट- हिंगोली, तालुका हिंगोली -, जिलाहिंगोली-, महाराष्ट्र- 431513.
760.	क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट	नं. 9, रोसारी चर्च रोड, सनथोमे, चेन्नई - (तमिलनाडु)।
761.	सिटिज़न पार्टी	मकान. नं. 53, सर्वे नं. - 620, बजनाईकोइल स्ट्रीट, मधननकुप्पम, कोलाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु-600099.
762.	सिविल राईट्स पार्टी	फ्लैट नं. डी- 89, ग्राउड फ्लोर, ब्लॉक-16, शिवजोत इन्क्लेव, खरड एस.ए.एस नगर, मोहाली, पंजाब- 140301
763.	कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी केरल स्टेट कमेटी	कुन्नुकुझी, त्रिवेन्द्रम - 695037, (केरल)।
764.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट - लेनिनिस्ट) रेड स्टार	सी-141, सैनिक नगर, नई दिल्ली - 110059।
765.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ तेलंगाना (मार्क्सिस्ट- अंबेडकरिस्ट) सीपीटी(एमए)	मं. नं०-2-2-1106/बी/एसबीके1, शान्तिनगर, अम्बरपेट, हैदराबाद- 500013
766.	काँग्रेस (सेक्युलर)	राम राज भवन, मनीक्काठ रोड, कोचीन - 16 (केरल)।
767.	करप्शन एबोलिशन पार्टी	मकान नं० - 219, गाँव व डाकखाना - शेरिया, तहसील - बेरी, जिला - झज्जर, हरियाणा
768.	कण्ट्री सिटीजन पार्टी	#5, 'पद्मावती' माराम्मा मंदिर के पीछे, चिक्कालासंद्रा, बेंगलुरु, कर्नाटक- 560061.
769.	दक्ष पार्टी	आई/1102, रहेजा विस्टा, रहेजा विहार, चांदीवली, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र- 400072
770.	दलित कान्ति दल	जाति मेघवाले, गांव पोस्ट - धौलीपाल, तहसील व जिला - हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
771.	दलित मजदूर किसान पार्टी	इ-11/77 न्यू कॉलोनी, हौज रानी मालवीय नगर, नई दिल्ली - 110017.
772.	दलित शोषित पिछड़ा वर्ग अधिकार दल	ग्राम- हसनपुर जागीर, पोस्ट- सिकन्द्राबाद, जनपद- बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश-203205
773.	दलित विकास पार्टी (भारत)	हार्ड स्कूल के पीछे, वार्ड नं. 3, गांव व पोस्ट - घुनवारा, तहसील - मैहर, जिला - सतना, मध्य प्रदेश।
774.	दलित बहुजन पार्टी	4-1-1215, स्ट्रीट नं. 3, बोगुल्लाकुन्टा, किंग काटी रोड, हैदराबाद - 500001.
775.	दिल्ली जनता पार्टी	वार्ड - 200, कैप नं०-1, नांगलोई, दिल्ली - 110041
776.	डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी	गली नं० - 7, गुरु नानक पुरा (पूर्वी), चिन्तपूर्णी मन्दिर के पास, जालंधर, पंजाब।
777.	डेमोक्रेटिक काँग्रेस पार्टी	291, ओडियन वाली गली, गोपाल मंदिर के पास, मजीठा रोड, अमृतसर (पंजाब)।
778.	डेमोक्रेटिक क्रप्शन लिबरेशन फ्रंट	2एफ/1ए नेडुंगनविलै, पोन्नप्पा नाडार नगर, नागरकोइल, तमिल नाडु - 629004
779.	डेमोक्रेटिक ह्यूमन राईट्स मूवमेंट पार्टी	तुन्डुविला वीडू, पन्जियूर, वेनजारा मूड पी.ओ. तिरुवनन्तपुरम, केरल- 695607
780.	डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी	डोर न०.3/78, पी.ओ-एलामकुन्नपुझा, जिला-एर्नाकुलम, कोच्चि, केरल- 682511

781.	डेमोक्रेटिक नेशनल अलेजियन्स	नंबर 6, राजावेलु स्ट्रीट, एरुक्कनचेरी, चेन्नई-600118, तमिलनाडु
782.	डेमोक्रेटिक ऑरगेनाइजेशन ऑफ सोसिऔ-इकॉनॉमिक ट्रांसफोरमेशन ऑफ इंडिया पार्टी	प्लॉट नंबर -749, बेसमेंट, सेक्टर-39, गुडगाँव, हरियाणा- 122011
783.	डेमोक्रेटिक ऑरगेनाइजेशन ऑफ नेशन पार्टी	मन्नारायथु, थेक्केथिल वीतिल, पल्लीसेरीकल, पोस्ट – सष्ठमकोट्टा, कोल्लम, केरल- 690521.
784.	डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया	162, आनन्दराव उमरा मार्ग, अशोक नगर, नागपुर – 17, (महाराष्ट्र)।
785.	डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (अम्बेडकर)	मोहल्ला – ताजपुरा, राहों, तहसील – नवांशहर, जिला – शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब - 144517
786.	डेमोक्रेटिक प्रजाक्रान्ति पार्टी सेक्युलरिस्ट	उम्माथुर पो. व ग्राम. हन्सुर तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक – 571105
787.	डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी	राष्ट्रीय उच्च सोनवार, अमर सिंह क्लब के सामने, श्रीनगर, जम्मू और काश्मीर- 190001
788.	डेमोक्रेटिक सेक्युलर पार्टी	कोहिनूर बेकरी, उमरेद रोड, ताजाबाद, औलिया नगर, नागपुर – 24, महाराष्ट्र।
789.	डेमोक्रेटिक सोशल जस्टिस पार्टी	तिरुवोणम, एन.एल.आर.ए. 140, नीराझी लैन (नं. 7/242), तिरुवनन्तपुरम नगरसभ, उल्लूर, मेडिकल कॉलेज, पो.ऑ-तिरुवनन्तपुरम, केरल-695011
790.	डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी (प्रबोध चन्द्र)	63- अनन्दा पलित रोड, कोलकाता – 700014, पश्चिम बंगाल।
791.	डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	359, वेस्ट कोदलिया, न्यू बैरकपुर, थाना – घोला, जिला – उत्तर 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – 700131
792.	डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी	आर्य स्कूल रोड, वीपीओ – सोहना, एस ए एस नगर, पंजाब- 140 308
793.	देस मक्कल मुनेट्र कडगम	3/172, वीरचेल्लैयपुरम कॉलनी, वल्लीयूर (पोस्ट), पी. कुमारलिंगपुरम, आमतुर (वाया), तालुक एवं जिला-विरुधूनगर, तमिलनाडु – 626005
794.	देसिया प्रजा सोसलिस्ट पार्टी	एन. एस. भवन, वेलायनी, डाकघर – नेमाँम, तिरुवनन्तपुरम – 695020, केरल।
795.	देश बचाओ जन मोर्चा	डी – 6/171, सेक्टर – 31, नोएडा – 201301 (उत्तर प्रदेश)।
796.	देश बचाओ पार्टी	223/ए, केवलपुरी, अहिल्याबाई रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश- 251001
797.	देश हित पार्टी	प्लॉट नं0 - 467, ग्राम- जमुनी, पोस्ट- तरकुलवा, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश।
798.	देश जनहित पार्टी	प्लॉट नं. 78, विनायक को0 हाऊसिंग सोसाईटी बिदीपेट, पावर हाउस के पीछे, नरसाला, मकान नं0 - 4430/78, मौजा बिदीपेट, नागपुर – 30 महाराष्ट्र।
799.	देश प्रेम पार्टी	वार्ड नंबर-19, (पुराना वार्ड नंबर-17), दरवाजा नंबर 143(2), विपक्ष पुराना के. एस.आर.टी.सी बस स्टैंड, कोलाचलम कंपाउंड, जनताकल कॉम्प्लेक्स बल्लारी, कर्नाटक- 583101
800.	देश सेवा पार्टी	नं. ए-2, अधाना भवन, ग्राम- मोरना, सेक्टर- 35, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201303.
801.	देश शक्ति पार्टी	14/39, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
802.	देशा दल	मानस रंजन मिश्रा खतियान नं.466/90, तहसील नं.198, आनंद विहार, सर्वहल, हनुमान मंदिर के पास, पोस्ट एवं थाना-झारसुगुडा, जिला- झारसुगुडा, ओडिशा-768201
803.	देशबन्धु पार्टी	ग्राम- मेहरबान नगर, निकट प्राइमरी पाठशाला, मेहरबान नगर, बाईपास रोड नानपारा, पो0 - बलहा, तहसील - नानपारा, जिला - बहराइच, उत्तर प्रदेश।
804.	देशभक्त जगत पार्टी	638/111, चेतना विहार, सेक्टर-14, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016.
805.	देशभक्त निर्माण पार्टी	सुल्तानपुर बारहगाँवा, पोस्ट व तहसील - मधुवन, जनपद – मऊ, उत्तर प्रदेश

806.	देशी किसान पार्टी	मकान सं0 – 1624, वार्ड सं0 – 52, लक्खीबाग मानपुर, जिला गया, बिहार
807.	देशवादी पार्टी	मकान नं. 2184, डी- ब्लाक, इन्दिरा नगर, जनपद- लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226016
808.	देसिया मक्कल पेरियक्कम	प्लॉट नं. 19, के.के. नगर, नन्निलम 61010, नन्निलम- पोस्ट, तिरुवारूर, जिला तमिलनाडु- 610105.
809.	देसिया मक्कल शक्ति काँची	न्यू न - 21, ओल्ड नं0 – 11, वैक्टरमन स्ट्रीट, मिंट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600079
810.	देसिया सिरुपनमयिनर मक्कल इयक्कम	एस जॉन, नं. 7, पवुन्जुर, मेन रोड, कीरलवादी- गांव, पुलियारानन काँट्टुड, पंजायत, जमीन, एन्दाथुर- पोस्ट, मदुरंताकम- तालुका, कांचीपुरम- जिला, चेन्नई, तमिलनाडु- 603311
811.	देशिया उझवर उझइपलर कझगम	2/52, सी.सी.रोड. इ.बी.ऑफिस से सामने, किलपाल्लीपट्टु गांव, वेल्लोर तालुक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु- 632311
812.	धनवान भारत पार्टी	फ्लैट नं. 002, डी विंग, श्री गणेश सी.एच.एस., शांति विद्यानगरी, मीरा रोड (ईस्ट), तालुका और जिला- ठाणे, महाराष्ट्र- 401107
813.	धर्म निरपेक्ष दल	24/42, लोकनाथ चौक, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
814.	धर्मराज्य पक्ष	601/602, बिल्डिंग नं0 7, शुभारम्भ फेस – 1, कोनकानीपाडा मार्ग, ऑफ जी बी रोड, मानपाडा, ठाणे- 400610, महाराष्ट्र ।
815.	धर्म समाज पार्टी	डोर नं. 8-17-90 / बी42, नन्दनवनम, कर्मनघाट विलेज, सरूरनगर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना- 500079.
816.	देशिया एलिया मक्कल नालाकाची	संख्या- 8 / 166, मारुथम्पट्टी कॉलोनी, कठालपट्टी (पीओ) करूर, तमिलनाडु- 639007.
817.	देसीया मक्कल कझगम	डोर नं0 – 1/239-3, मेन रोड, आर.सी. चेट्टीपट्टी, कोट्टामेट्टुपट्टी विलेज, धर्मापुरी ओमलुर तालुक, जिला – सलेम, तमिलनाडु - 636455
818.	धू सेना	25/549, श्री शीतला माता मंदिर मार्ग, नवभारत चौक के पास, पुरानीबस्ती, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001
819.	डिजिटल ऑर्गनाइजेशन ऑफ नेशन पार्टी	वार्ड नं. 25, मालमत्ता क्रमांक 35, प्लॉट नं. 3776, मोतीनगर पुसद, तालुका- पुसद, जिला- यवतमाल, महाराष्ट्र- 445204
820.	दिविजय भारत पार्टी	#5 (40/जी) 21वाँ मेन रोड, मारेनहल्ली, स्टैंडर्ड इंग्लिश स्कूल, विजयानगर, बैंगलूरु, कर्नाटक- 560040
821.	दो जमा पांच मुद्दे जन पार्टी	गांव व डाकखाना – आसन, तहसील व जिला – रोहतक, हरियाणा
822.	डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी	नं0 9 और 10, ब्लॉक – डी, सेक्टर – सी, गांधी नगर, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर - 180004
823.	डा. अम्बेडकर पीपुल रिवोल्यूशन मूवमेंट	नं0 4, ग्यारवीं गली, कुमारप्पा नगर, धारापाडावेडु, कटपाडी, वेल्लोर जिला, तमिल नाडु ।
824.	डॉ. अम्बेडकर पीपुल्स पार्टी	106, 4 वां क्रॉस, के. एच. रंगनाथ कॉलोनी, अपोजिट बीएचईएल फैक्ट्री, मैसूर रोड, बंगलौर -26 कर्नाटक
825.	डॉ. अम्बेडकर समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी	वेङ्कतैअहन चतरा, हरदनहल्ली होबली, चामराजनगर तालुक व जिला, कर्नाटक ।
826.	डा. भीमराव अम्बेडकर दल	ग्राम - कोठीडीह, तहसील - परगना नवाबगंज, जनपद - बाराबांकी - 225001, उत्तर प्रदेश ।
827.	द्रविड जननायगा मक्कल काची	नंबर-6, इम्मानुएल 2nd क्रॉस स्ट्रीट, पल्लिकरानी, चेन्नई, तमिल नाडु- 600100
828.	द्रविड जनशक्ति पार्टी	नंबर 4 / 87, ओथावीडु, अलीनगरम (.ओ.पी), थिरुप्पुवनम, शिवगंगई जिला, तमिल नाडु -630611
829.	द्रविड मक्कल पाथुकप्पु कझगम	नंबर 2, पहली लेन, पी.बी.कोविल स्ट्रीट, रायपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600013
830.	द्रविड मुरपोक्कु मक्कल काच्ची	कार्यालय नं0 5/762, सबरई रोड, मडिपक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600091

831.	द्रविड़ पेरावाई	69, रंगापिल्लई स्ट्रीट, पांडिचेरी – 605001.
832.	डुगर प्रदेश पार्टी	ड्राइविंग इंस्टीट्यूट कॉम्प्लिक्स, जानीपुर जम्मू – 180007, जम्मू और कश्मीर।
833.	एकजुट अधिकार पार्टी	सी- 1037/2, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
834.	एकलव्य समाज पार्टी	53, बी-ब्लॉक, पुराना दारूलशफा लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 251001.
835.	एकता समाज पार्टी	6898, नीम स्ट्रीट, अहाता किदारा, बाडा, हिन्दू राव, दिल्ली – 110006.
836.	एकता शक्ति	झंझाड़ी, पो०-भैनी खुर्द, तहसील – नीलोखेडी, जिला – करनाल, हरियाणा।
837.	एकता विकास महासभा पार्टी	सिन्हा सदन, एल.सी.टी. घाट, पूर्वी मैतपुरा, थाना- पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पोस्ट- जी.पी.ओ. सदर-पटना, जिला- पटना, बिहार-800001
838.	एलुची देशम पार्टी	पुराना नं. 1/46, न्यू नं.34, वडिवलपुरम, पोस्ट- वाडुकाचिमथील, तालुक- नानगुनेरी, जिला- तिरुनेलवेली, तमिलनाडु- 627102
839.	इंजीनियर्स पार्टी	बूताना हूसुर, पोस्ट- सुनागहल्ली, जिला - मंड्या, कर्नाटक- 571403
840.	इक्कालिटी पार्टी ऑफ इंडिया	मिथुनम, 15/818/81ए, भद्रा नगर, उलियाकोविल)P.O), कोल्लम, केरल - 691019.
841.	एज़हुची तमिझारगल मुनेत्र कन्नगम	5/197, चिन्ना मंगलाकुडि, उथांगुडि पोस्ट, मदुरै, तमिलनाडु – 625107
842.	फौजी जनता पार्टी	मकान नं० – 104, गाँव – मनोबास, डाकखाना – बराल, तहसील – सिकन्द्राबाद, जिला – बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश- 203001
843.	फौजी किसान पार्टी	ग्राम- सेराहवा, पोस्ट ऑफिस- मुराली, बाया हरिनगर, जिला- पश्चिम चम्पारण, बिहार- 845103
844.	फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी	244/ब, कठमोडवा, पोस्ट – मदैनिया, जनपद – अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश – 224147
845.	फोरम फार प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी	बी/145-146, मित्तल टावर्स, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई – 400021, महाराष्ट्र।
846.	फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी	वार्ड नं. 5, रेस्ट हाउस के सामने, गणेश नगर, मुरमाडी, तहसील व पोस्ट- लाखानी, जिला- भंडारा, महाराष्ट्र- 441804
847.	फ्रीडम पार्टी	एफ-2/260, टॉप फ्लोर, सुंदर नगरी, नन्द नगरी, शहादरा, दिल्ली- 110093
848.	फ्रीथॉट पार्टी ऑफ इंडिया	121, धर्म विहार, पो. ओ. खंडगिरि, भुवनेश्वर, ओडिसा – 751030
849.	फ्रंट ऑफ रेवल्यूशनाइज्ड क्रिएटिव एफर्ट्स	श्री गोवर्धन पैलेस, धार रोड, उधमपुर – 182101 जम्मू एण्ड कश्मीर।
850.	गदर पार्टी	मकान सं० 32, रामलीला मैदान के बगल में, पड़ाव वार्ड, पोस्ट मकन्दूगंज, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश – 230001।
851.	गणा सुरक्षा पार्टी	ग्राम-दिघलीपुर, तमूलपुर, थाना-तमूलपुर सब डिविजन-बक्सा, जिला- बक्शा असम- 781367.
852.	गनसंगम पार्टी ऑफ इंडिया	डी. नं. 6/786, साक्य मंजिल, पोनविलानगर, तिरुची रोड, नामक्कल, तमिलनाडु- 637001
853.	गाँधी एकता पार्टी	के-63/01, भूतभैरव नखास (खाशीपुरा), वाराणसी, उत्तर प्रदेश
854.	गांधी प्रकाश पार्टी	मकान सं०-126, खाता सं०-236, प्लॉट सं०-637, ग्राम- सिकठी, पोस्ट ऑफिस- अखलासपुर, थाना – भभुआ, जिला- कैमूर, बिहार।
855.	गांधीय मक्कल इयक्कम	9-1, तडागम रोड, कौंडमपालयम, कोयम्बतूर, तमिलनाडु- 641030.
856.	गाँधीयन पीपुल्स पार्टी	सी – 1255, इन्दिरा नगर, लखनऊ – 226016, उत्तर प्रदेश।
857.	गणतांत्रिक जनहित पार्टी	द्वारा वेदवती देवी, पश्चिमी लोहानीपुर, कदमकुँआ, पटना बिहार-800003
858.	गरीब आदमी पार्टी	आर-21, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली -110059
859.	गरीब जनक्रान्ति पार्टी	वार्ड – 12, होलिंग संख्या – 747/642, दाउदपुर कोठी, एम०आई०टी० गेट के सामने, लक्ष्मी चौक, ब्रह्मपुरा, मुजफ्फरपुर, बिहार- 842003
860.	गरीब क्रान्ति पार्टी	मकान सं. 7, मुकरपुर खेमा, नवाब का आहता, तहसील व जिला- बिजनौर, उत्तर प्रदेश -246701

861.	गरीब समाज स्वराज पार्टी	शाहपुर तिगरी, पोस्ट और थाना-मझोला, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001
862.	गरीब सामना पार्टी	म० नं० -399, आवास विकास कॉलोनी, जिला- मिर्जापुर – 231001 उत्तर प्रदेश।
863.	गरीब बेरोजगार विकास पार्टी	ग्राम- चम्पतपुर, पो.ऑ- बलिया, तहसील- आंवला, विकास-खण्ड- आलमपुर जाफराबाद, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश- 243402
864.	गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी	132 बृंद लामर मैदान, गुर्जर बस्ती, दा देवसर, कुलगाम, जम्मू एंड कश्मीर- 192231
865.	गरीब एकता पार्टी	ए-71 ग्रुप, वजीरपुर, औद्योगिक क्षेत्र, वजीरपुर, दिल्ली – 110052.
866.	गरीब जनशक्ति पार्टी	कुमार मार्केट, अखाड़ाघाट रोड, होल्डिंग नंबर -17/15, वार्ड सं. 17, बालुघाट ढलान के समीप, मुजफ्फरपुर, बिहार-842001
867.	गरीब जनता दल (सेकुलर)	मित्र मंडल कालोनी, वार्ड नं. 11, स्थित होल्डिंग नम्बर- 470, साकेत बिहार, अनिसाबाद, पटना-2, बिहार
868.	गरीब कल्याण पार्टी	नं.-सी/ 268, शाप नं.-2, प्रभाकर टेन्ट, नियर सेजल नगर सो., नियर जी.डी.हाई स्कूल, सैजपुर बोधा, अहमदाबाद, गुजरात-382345
869.	गरीबी मुक्त भारत पार्टी	मकान संख्या- 185, बलिया देव नगर, बड़ोदरा, गुजरात- 390001
870.	गारो नेशनल काउन्सिल	न्यू तुरा, पश्चिम गारो हिल्स, (मेघालय)।
871.	गरबी गुजरात पार्टी	नं. 112, धीवाली चाली, चमनपुरा, असारवा, अहमदाबाद, गुजरात- 380016
872.	ग्लोबल पीपुल पीस पार्टी	1-आनंदनगर, पोस्ट - आनंदनगर, थाना - कल्याणी, जिला - नदिया, पश्चिमी बंगाल - 741245
873.	गोवा नेशनलिस्ट पार्टी	मकान नं० – 442, चिंचमाला, वाडा पार्ये, सत्तारी, गोवा - 403505।
874.	गोवा प्रजा पार्टी	क्लासिक अपार्टमेंट्स, हाउस नं० – 69, एल्ला, पुराना गोवा, तिसवाड़ी, नॉर्थ गोवा, गोवा – 403402
875.	गोवा सु-राज पार्टी	383 – ए, पीराजोना, मोइरा, बारडेज, गोवा, पिन - 403514.
876.	गोवा सुरक्षा मंच	दुकान नं० – 644/1, वार्ड नं० – 4, ग्राउण्ड फ्लोर, अहिल्याराम निवास, पंचायती के सामने, सावईवेरें, पोंडा-गोवा।
877.	गोवा विकास पार्टी	लक्ष्मी सदन, ग्राउंड फ्लोर, असेम्बली कॉम्प्लेक्स के सामने, जर्नलिस्ट कॉलोनी के पास, पुरवोरिम, गोवा – 403507.
878.	गोएमकरेंची ऑट्रिक असरो	मकान नं० 780/ए, मुगल्ली, साओ जोस डी एरीयल, सालसेट, गोआ।
879.	गोयंचो स्वाभिमान पार्टी	घ.क्र.12/678, सेंट जोकिम चैपल के पीछे, मडगांव, गोवा-403601
880.	गोकुला मक्कल काची	न्यू नं. 7, ओल्ड नं. 3, वेंकटरामन स्ट्रीट, तेनाम्पेट, चेन्नई, तमिल नाडु- 600018
881.	गोंडवाना गणतंत्र पार्टी	ग्राम व पो. ऑ. तिवेर्थ, तहसील कटघोरा, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।
882.	गोंडवाना काँग्रेस पार्टी	शाहपुरा, ए-121, बी० डी० ए० कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश।
883.	गोंडवाना मुक्ति सेना	एम-2, पूर्वांचल फेस- 1, खजूरीकला रोड, भोपाल- 462021, मध्य प्रदेश।
884.	गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट	डॉ० जाकिर हुसैन रोड, (जलपहाड़ रोड) पो. ऑ. और जिला दार्जिलिंग, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (पश्चिम बंगाल)।
885.	गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट	शाही निवास चन्द्रावनी, पोस्ट-मोहब्बेवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।
886.	गोर्खा राष्ट्रीय कांग्रेस	9, के.बी. रोड, पोस्ट-धूम, थाना -जोरबंगला, जिला -दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल।
887.	ग्रेजुएट इंडिया पार्टी	नंबर 443, काथा नंबर 1200, एजीबी लेआउट, बीबीएमपी वार्ड नंबर 12, चिक्कासंद्रा, बैंगलोर, कर्नाटक – 560090.
888.	ग्रामीण विकास पार्टी	शिव ग्राम, प्लॉट नं. 323, (खाता नं. 1161/1314), इंतकाल नं. 5678, किला नं. 10/02, (1-0), चोमा, पालम बिहार एक्सटेंशन, तहसील व जिला- गुरुग्राम, हरियाणा-122017

889.	ग्रेट इंडिया पार्टी	डी नं० 1-1334, देवस्थानम रोड, मंगलागिरी-522503, गन्तूर डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।
890.	ग्रीन पार्टी ऑफ इंडिया	36-सी, गोविन्दपुरी, रामनगर, सोडाला, जयपुर, राजस्थान- 302006
891.	गुजरात जनता पंचायत पार्टी	सिटी सर्वे नं. 966, रामेश्वर मंदिर के पास, डेली फली, बोखिरा, पोरबंदर, गुजरात- 360577
892.	गुजरात किसान मजदूर लोकशासन पार्टी	710/32, ग्रीन सिटी, गली नंबर 5, लालपुर रोड, जामनगर, गुजरात- 361005.
893.	गुजरात नव निर्माण सेना	C-19, जयराज फ्लैट, सोनी नी चली, ओधव, अहमदाबाद, गुजरात-382415
894.	गुजरात सर्व समाज पार्टी	प्लॉट नंबर-20, सर्वे नंबर-133/3, निर्मल नगर, किदाना, तहसील-गांधीधाम, जिला-कच्छ, गुजरात-370205
895.	गुंज सत्या नी जनता पार्टी	कार्यालय संख्या सी/442, सुमेल - 7, सोनी नी चावल क्रॉस रोड, एन एच नं० 8, रंखियाल, अहमदाबाद - 380023
896.	गुडगाँवा रेसिडेन्ट्स पार्टी	सी-1927, सुशांत लोक-1, गुडगाँव -122 002, हरियाणा।
897.	गुरु चाँद मुक्ति मोर्चा	जी-52, अरूणा नगर, मजनु का टीला, सिविल लाईन्स, दिल्ली - 110054
898.	गुरुचंद सेना दल	106, पुरवा प्राचक्षा, ग्राम साउथ, पोस्टनगर .पी.आई.वी.-, पी.-एस. अनंदापुर, कोलकत्ता, पश्चिम बंगाल-700100
899.	हाकिम अपना पार्टी	मौहल्ला महमूद खाँ, सराय नखासा चौराहा, सम्भल, तहसील व जिला – सम्भल, उत्तर प्रदेश 244302 ।
900.	हमारा सहारा पार्टी	सानंद भवन, ग्राम व पोस्ट – मसौड़ा, थाना – पालीगंज, जिला – पटना, बिहार - 801110
901.	हमारी अपनी पार्टी	सर्वे नंबर -75/1, इंद्रायणी विहार, संत नगर, लोहगांव पुणे, महाराष्ट्र - 411047
902.	हमारी जनमंच पार्टी	1/12, नया चुक्खूवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
903.	हमदर्द पार्टी	मोहल्ला- सैय्यदवाडा, पोस्ट- सट्टी मस्जिद, शहर- गाजीपुर, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 233001
904.	हमदर्दी जनरक्षक समाजवादी विकास पार्टी (जन सेवक)	ग्राम- उधुरा, पोस्ट ऑफिस- दल्लुपुर, थाना- ब्रह्मपुर, जिला- बक्सर, बिहार-802130
905.	हमरो सिक्किम पार्टी	ओम शांति निवास, लोवर मरचाक, रानी पूल, ईस्ट सिक्किम, सिक्किम - 737135
906.	हक इंसाफ पार्टी	नं.3037, तलब खटिकान, जम्मू एवं कश्मीर-180001
907.	हरदम मानवतावादी राष्ट्रीय दल	नं. 3-10-18, पट्टाभिपुरम, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश- 522006
908.	हरित प्रदेश विकास पार्टी	मकान नं. 34, ग्राम- तबेलागढ़ी, तहसील- बडौत, जिला- बागपत, उत्तर प्रदेश- 250622
909.	हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट	नम्बर 549, मथुरा नगरी अम्बाला सिटी, हरियाणा- □34003
910.	हरियाणा डेवलपमेंट पार्टी	नं० 2079, सेक्टर-4, (नियर कम्प्यूनिटी सेंटर), रेवाड़ी, हरियाणा-123401
911.	हरियाणा हितकारी दल	गाँव-ब्राह्मण माजरा, पोस्ट -भदौर, तहसील-पानीपत, जिला - पानीपत हरियाणा- 132103
912.	हरियाणा इंसाफ कांग्रेस	फार्म हाउस, नजदीक भगवत भक्ती आश्रम, रामपुरा, रेवाड़ी, हरियाणा - 123401
913.	हरियाणा जन चेतना पार्टी (वी)	कोठी नं० – 118ए, सर्कुलर रोड, मॉडल टाउन, अम्बाला सिटी, हरियाणा – 134003
914.	हरियाणा जनहित विकास पार्टी	531ए, सैक्टर-4, रोहतक, हरियाणा- 124001
915.	हरियाणा जनरक्षक दल	249/3, पार्क रोड, आदर्श नगर, गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा ।
916.	हरियाणा क्रान्ति दल	बबैन रोड, लाडवा, जिला – कुरुक्षेत्र, हरियाणा
917.	हरियाणा लोकहित पार्टी	शॉप नं०-8, एस सी ओ - 2, ओल्ड जुडिशल काम्प्लेक्स, झारसा रोड, सेक्टर - 15, गुडगाँव, हरियाणा – 122001
918.	हरियाणा नवनिर्माण सेना	101, गाँव- सिलोखरा, गुडगाँव - 122001. हरियाणा ।

919.	हरियाणा सर्वजन पार्टी	मकान न. 236. वार्ड न. - 2 ग्राम पंचायत रादौर, जिला - यमुना नगर, हरियाणा ।
920.	हरियाणा स्वतंत्र पार्टी	हाउस नं.- 154, ग्राम व पोस्ट ऑफिस-जखौदा, तहसील-बहादुरगढ़ जिला-झज्जर, हरियाणा ।
921.	हिमाचल जन क्रांति पार्टी	मकान सं.435, वार्ड नं. 10, शाम नगर, धर्मशाला, जिला- कांगडा, हिमाचल प्रदेश- 176215
922.	हिमाचल जनता पार्टी	पवन कटोच C/o उर्मिला देवी, 88, महाल विहार, मं नं. 248 गाँव बण्ड विहार, डाकघर दियोग्रा, तहसील पालमपुर, जिलाकाँगडा-, हिमाचल प्रदेश- 176061.
923.	हिमाचल लोकहित पार्टी	शास्त्री भवन, देव नगर कासुम्पटी, शिमला - 171009, हिमाचल प्रदेश ।
924.	हिन्द कांग्रेस पार्टी	सी-6, साउथ साइड, जी0 टी0 रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
925.	हिन्द हितैषी हिन्द मां सेना	1-विराट नगर,सावन पार्क,परशुराम चौक,फेज़-II,कनाल बाईपास,मॉडल टाउन,नियर होटल विराट पैलेस,पानीपत,हरियाणा-132103
926.	हिंद जन कांग्रेस	72, प्यारेलाल कम्पाउण्ड, नगरा, झांसी, उत्तर प्रदेश ।
927.	हिन्द जन स्वराज पार्टी	ग्राम-किशनपुर,पोस्ट-बेनीपुर,पुलिस स्टेशन-बहेडा,ज़िला-दरभंगा,बिहार-847208
928.	हिन्द समर्पित पार्टी	156,शाहबिसवा जलालपुर,रघुनाथपुर,मुरादनगर,गाजियाबाद,उत्तर प्रदेश- 201206.
929.	हिन्द समदर्शी पार्टी	एफ-64, गलैक्सी अपार्टमेंट, सेक्टर-43, गुडगांव, हरियाणा-122002
930.	हिन्द साम्राज्य पार्टी	512/695क/1, वाल्दा रोड, निशातगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226007
931.	हिन्द यूनाईटेड मोर्चा	नंबर जे-1, शिवालिक टावर्स,शिवालिक सिटी, सेक्टर-27, खरार, एसनगर .एस.ए., पंजाब-140301
932.	हिन्द विकास पार्टी	पो. ऑ. श्री हर भगवान नगर तापाकालान, काली मन्दिर के पास, जलेसर रोड, फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
933.	हिन्दू एकता आन्दोलन पार्टी	हिन्दी एकता कार्यालय, मल्हार, खान भाग, पुलिस चौकी, मकान नं0 927/1, सांगली - 416416, जिला सांगली, महाराष्ट्र ।
934.	हिन्दु समाज पार्टी	राष्ट्रवादी धर्म सत्ता, 26-ए, खुर्शिदाबाद,लखनऊ -4, उत्तर प्रदेश
935.	हिन्दुस्तान एकता पार्टी	दुकान नं0 132/2, केशो राम कौम्पलैक्स, सैक्टर-45 सी0 चण्डीगढ़ - 16004□
936.	हिन्दुस्तान हमारा पार्टी	555ए/1, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211002
937.	हिंदुस्तान इंकलाब पार्टी	महेश प्रसाद मंडल,गाँव-झिटकी,पोस्ट-हिसार,थना नंबर-32,ब्लॉक-हरलाकी,बजरंग बाजार झिटकी,जिला-मधुबनी बिहार-847230
938.	हिन्दुस्तान जनमोर्चा	मकान सं0 - 1, ग्राम व पोस्ट- टेकुआं, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश - 244182 ।
939.	हिन्दुस्तान जनता पार्टी	मैसर्स सोनो सेल्स कोरपोरेशन, सब्जी मण्डी, खोकडपुरा, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) ।
940.	हिन्दुस्तान जनता पार्टी सेक्युलर	ग्राम गरौना,डाकघर-सिरसविरण,थाना लालगंज,जिला वैशाली,बिहार-844123
941.	हिन्दुस्तान क्रान्ति दल	गाँव- टुन्डलाका, पंचायत-गौधोला, पोस्ट व तहसील - पुन्हाना, जिला - मेवात (नूँह), हरियाणा ।
942.	हिन्दुस्तान क्रान्तिकारी दल	ए-65, सेक्टर-34, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
943.	हिन्दुस्तान पीपल्स पार्टी	एच. न. 57, (स्काई सदाम)पलॉट न. 34/392/बी/8/सी, ग्राम-पालबागन, वार्ड-4, मिहिजाम जामताडा झारखण्ड - 815354.
944.	हिंदुस्तान राष्ट्रीय पार्टी	डोर नं.64-8/1/1,रूखवननगर,पटमाता लंका,विजयवाडा,कृष्णा जिला,आन्ध्र प्रदेश- 520010
945.	हिन्दुस्तान समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट- जगदीशपुर,डीह- रायबरेली,उत्तर प्रदेश- 229310.

946.	हिन्दुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी	ग्राम – सेन्दूआरी पुरुषोत्तम वार्ड नं० 8, पोस्ट-बखरी, थाना+अंचल-मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार – 843111
947.	हिन्दुस्तान शक्ति सेना	म0 नं0 – 1113/11, दर्शन सिंह नगर, अलिपुर रोड, पटियाला, पंजाब
948.	हिन्दुस्तान स्वराज कांग्रेस पार्टी	शेवर बंगला, ए. बी. नायर रोड, जूहू मुम्बई-400049, महाराष्ट्र
949.	हिन्दुस्तान तहरीक ए-इंसाफ	मकान नं. 1-12-386, राजावडी, पटवाडी नाका बहार भुज, तहीसल-भुज, जिला- कच्छ, गुजरात- 370001
950.	हिन्दुस्तान उत्थान पार्टी	मकान सं. 438, ग्राम- रवानी कटीरी, पोस्ट- बुगरासी, तहसील- स्याना, जिला- बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश- 245403
951.	हिन्दुस्तान विकास दल	करमन टोला, आरा, जिला-भोजपुर-8002301 बिहार।
952.	हिंदुस्तान जिंदाबाद पार्टी	नंबर सी-33, हरि कृष्णा पार्क, कैडिला रोड, घोडेसेयर क्रॉसिंग पास, अहमदाबाद, गुजरात -380050
953.	हिन्दुस्तानी आवाम पार्टी	मं0 नं0 – 202ए/104, जवाहर नगर, निकट हाथी पार्क, लखनऊ उत्तर प्रदेश - 226001
954.	हिन्दुस्तानी अवाम मंच (युनाइटेड)	मौ. ग्राम-दखनेर, पोस्ट- परैया, थाना-परैया, जिला-गया, बिहार- 824209
955.	हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर)	माँ शबरी कुटीर, गोदावरी, थाना – रामपुर, जिला – गया, बिहार - 823001
956.	हिन्दुस्तानवादी पार्टी (जयहिन्द)	मकान सं.102, ग्राम-रमदत्तपुर, पोस्ट- पाण्डेयपुर, थाना-कैण्ट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221007
957.	हिन्दुस्थान निर्माण दल	मकान नं० 100, गली नं० 5, कृष्णा नगर, सफदरगंज इंकलेव, नई दिल्ली।
958.	हिन्दुस्तान प्रजा पक्ष	7/702, 'सी' विंग, शीतलधारा कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 28, सेक्टर-7, कामोटे, नवी मुंबई-410209, महाराष्ट्र।
959.	हिन्दवी स्वाराज्य दल	नं. 167, अम्बिकानगर, भचाऊ-7, तालुका-भचाऊ, जिला-कच्छ गुजरात- 370140
960.	हाईटेक पार्टी	बी-85, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010।
961.	हमार पिपुल्स कन्वेंशन	द्वारा लालुवा, मकान नं०-ए/56, बावंगकाउन चिमवेंग एजल- 796014, मिजोरम।
962.	हम भारतीय पार्टी	मकान नं. 1-3-3227, हर्षरुस, मुक्ता लॉन के पीछे, जीजऊ नगर, बार्शी रोड, बीड, महाराष्ट्र- 431122
963.	हम एक है पार्टी	मकान सं. 212, खसरा नं.15/21, रशीद नगर, नाल साहब रोड, नागपुर, महाराष्ट्र-440018
964.	हम किसान पार्टी	मकान नं0 – 1699/G-25/A1, विद्या नगर रोड नं0 – 1, हरसु, राँची, झारखण्ड – 834002
965.	हम लोग पार्टी	मकान सं. बी- 170, प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली- 110092
966.	हम सबकी पार्टी	ग्राम- महिमापुर (जलालपुर चौमुहानी), पोस्ट - जलालपुर, जिला - जौनपुर, उत्तरप्रदेश – 222136
967.	ह्यूमन डेमोक्रेटिक पार्टी	मकान सं.2/42, वृसिपल्ली गांव, थेनेपल्ली पोस्ट, वेपनपल्ली पंचायती, पूतलपट्टू मंडल, चित्तूर-जिला, आन्ध्र प्रदेश-517124
968.	ह्यूमैनिटी फॉर पीस पार्टी	1- ए, ए. आर. रहमान नगर, जेएमएस कंपाउंड, क.न. विल्कू, औदिपत्ति तालुक, थेनी जिला, तमिलनाडु-625512
969.	ह्यूमैनिटी यूनिवर्सल मोशन पार्टी	c/o शमिक बनर्जी, # होलडिंग नं. 84/1, इंदरा रबिन्द्रापल्ली, वार्ड नं.- 02, प्रातिक क्लब के पास, खडगपुर, जिला-पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल- 721305 □
970.	इक्क जुट्टु जम्मू	20 बी/बी, गांधी नगर, जम्मू-180004
971.	इलन्तमिलर मुन्नानी कझगम	1/159, पेरीयार नगर, तिरुसुलम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600043
972.	इन्डिपेंडेंट इन्डियन कांग्रेस	मु0 पो0 पिपलगांव तर्फे महालुंगे, ता0 आंबेगांव, जिला - पुणे, महाराष्ट्र – 41050

973.	इंडिपेंडेंट पीपुल्स पार्टी	मकान सं० – 63, कारगिल कॉलोनी, नरवाल बाला, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
974.	इन्धिया कुडियारासु काञ्ची	11, कारपगम्बल नगर, III स्ट्रीट, कोट्टीवक्कम, चेन्नई-600041, तमिलनाडु ।
975.	इन्धु द्रविडा मक्कल काची	नं० 14, बालाजी नगर, चिक्कारायापुरम, मंगादू, जिला- चेन्नई, तमिल नाडु- 600069
976.	इण्डिया द्रविड मक्कल मुन्नेत्र काँची	द्वार सं० 15/1, वार्ड नं० 21, सरोजनी नगर, टॉवरलाइन कॉलोनी, इरोडे कॉरपोरेशन जॉन - II, इरोडे-638011, तमिलनाडु ।
977.	इंडिया ग्रीन्स पार्टी	104, वर्धमान कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, एलएससी, सविता विहार, दिल्ली- 110092
978.	इंडिया जनशक्ति पार्टी	प्लॉट नं. 20, 21 एवं 22, नई बस्ती, नहर रोड, शैदपुर जागीर, भूईआ देवी मंदिर के निकट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226062
979.	इंडिया मक्कल मुन्नेत्र काँची	95, कावेरी स्ट्रीट, भवानी-638301 जिला इरोड, तमिलनाडु
980.	इंडिया प्रजा बंधु पार्टी	मकान नं. 18-1-317/ए/68/1, शिवाजी नगर, उप्पुगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना- 500053
981.	इंडिया राइजिंग पार्टी	मकान सं. 39, फतेहपुर कपुरापुर-1, तहसील- तिरवा, जिला- कन्नौज, उत्तर प्रदेश- 209723
982.	इंडिया समाधान पार्टी	मकान नं.- 129, ग्राम व पोस्ट- चौरादेव, थाना- गागलहेडी, जिला- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247669
983.	भारत सुराज्य पार्टी	नं० 48, चोला स्ट्रीट, प्रकाश नगर, अंबातुर, चेन्नई, तमिलनाडु-600053
984.	इंडियन पीपल एसोसियेशन पार्टी	2-74, गांव- वेंकटापुर, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, टाउन/मंडल- वेलपुर, जिला- निजामाबाद, तेलंगाना- 503311
985.	इंडियन आर्थिक सुधार पार्टी	मकान नं० – 1, मनजीत नगर, बस्ती शेख, जालन्धर, पंजाब ।
986.	इंडियन एलाऐंस पार्टी	शॉप नं. 6, एल/1/21/6/83, अलनूर सोसायटी, अहमदाबाद रोड, बालासिनोर, जिला- महीसागर, गुजरात- 388225
987.	इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी	2/3, अम्बेडकर नगर, पोस्ट, नगीना, जिला- बिजनौर - 246762, (उत्तर प्रदेश) ।
988.	इंडियन बीलीवर पार्टी (आईबीपी)	पुराना एच.नं.केंद्रीय कार्यालय 8-3-168, फ्लैट नंबर 201, दूसरी मंजिल, भानु टावर्स, ईएसआई अस्पताल, मेट्रो स्टेशन, एस.आर.नगर, हैदराबाद, तेलंगाना- 500038
989.	इंडियन बिजनेस पार्टी	1207, प्रगति टॉवर, 26-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
990.	इंडियन क्रिश्चियन फ्रंट	एल.आई.जी. 289, अन्ना नगर, वैल्लकन्नी चर्च के सामने, मदुरै - 625020, तमिलनाडु ।
991.	इंडियन क्रिश्चियन सेक्युलर पार्टी	प्लॉट नं० 8, वहाब नगर, सिख गाँव, सिकंदराबाद - 500009 आंध्रप्रदेश ।
992.	इण्डियन सिटिजन्स पार्टी	मरकटा नगर, सैक्टर-10, प्लॉट नं० सी-43, पोस्ट-अभिनवा विधानसी, कटक-753014, उड़ीसा ।
993.	इंडियन डेमोक्रेटिक कांग्रेस	गांव – बाबू शंकर नगर, मौजा – भालुकसुंदी, जे.एल.नं०: 22, पोस्ट – अलीगढ़, थाना – राजनगर, जिला – वीरभूम, पश्चिम बंगाल - 731130 ।
994.	इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी	डी-978, जन कल्याण स्कूल रोड, भजनपुरा, दिल्ली - 110054 ।
995.	इंडियन डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी	बाबूगाछ, पोस्ट- गेन्दागाछ, थाना- चोपड़ा, इस्लामपुर, जिला- उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल- 733207
996.	इण्डियन गाँधीयन पार्टी	कुरियाकोट्ट बिल्डिंग, थेक्कुमपदम रोड, पट्टिक्कड डाकघर श्रीसूर जनपद, केरल - 680 509
997.	इण्डियन इन्दिरा कांग्रेस (आर)	1- रूपरजत नगर, न्यू बस स्टैंड के पीछे, पाली, राजस्थान - 306401
998.	इंडियन जस्टिस डेमोक्रेटिक पार्टी	टीसी/25/25(3), जीबीएनआरए- 63, कलपाल्लयम लेन, गान्धारीअम्मन कोविल रोड, तिरुवन्नतपुरम, केरल- 695001

999.	इंडियन क्रांतिकारी लहर	मुहल्ला टुडी वाला, बाजीगर बस्ती, फरीदकोट, जिला -फरीदकोट, पंजाब ।
1000.	इंडियन लेबर पार्टी (आंबेडकर फुले)	डी० नं०- 26-28-118, 1 लाइन, नेताजी नगर, ए० टी० अग्रहारम, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश - 522004
1001.	इंडियन लवर्स पार्टी	नं० – 23, बी – ब्लॉक, द्वितीय स्ट्रीट, भूपति नगर, कोडमबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600024
1002.	इंडियन मक्कल कलवी मुनेत्रा कजगम	नं०-3, दीनदयालऊ स्ट्रीट, टी० नगर, चेन्नई-600017, तमिलनाडु.
1003.	इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया	गोल बाजार, पोस्ट- अकोट, जिला- अकोला, महाराष्ट्र- 444101
1004.	इण्डियन माइनोरिटीज पॉलिटिकल पार्टी,	डी० नं० 9-4-51/35/48, हकीमपेठ (आई. ए. एस.) कॉलोनी, टॉली चौकी, पोस्ट- गोलकुण्डा फोर्ट, हैदराबाद-500008, आन्ध्र प्रदेश ।
1005.	इंडियन मुवमेन्ट पार्टी	65, मनतप्पाविलेज, बन्नरेगाटारोड, जिगानी हुबली, अनेकल तालुक, बैंगलोर कर्नाटक- 560083
1006.	इंडियन नेशनल लीग	नं. 7, बलवन्त राय मेहता लेन, कस्तूरबा गाँधी मार्ग क्रास, नई दिल्ली - 110001.
1007.	इंडियन नेशनल मानवाधिकार पार्टी	प्लॉट नं० – 429/(आर), राणी दुर्गावती चौक, एन. आय. टी. कॉम्पलेक्स बिनाकी ले-आऊट, नागपुर, महाराष्ट्र- 440017.
1008.	इंडियन नेशनल परिवर्तन पार्टी	सी-316ए, वाशी प्लाजा, सेक्टर- 17, वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र- 400703
1009.	इंडियन नेशनल समाज पार्टी	डी-64/52, ई-1 ख, माधोपुर, सिगरा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221010
1010.	इंडियन नेशनल सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी (ऑफ इंडिया)	विक्रि फार्म, बड़ी नहर के पास, वैरोवाल रोड, जण्डियाला गुरु, जिला- अमृतसर, पंजाब-143115
1011.	इंडियन नेशनल सोसलिस्टिक एक्शन फोर्सेस	अमुआ, पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन- सैथिया, जिला वीरभूम, पश्चिम बंगाल – 731234.
1012.	इंडियन नेशनल यूथ पार्टी	नं.68-बी, देवासंद्रा, के.आर.पूरा, बेंगलुरु, कर्नाटक-560036
1013.	इंडियन नेशनल युवा जना पार्टी	मकान नं.9-14, प्रशांत नगर, बोडउप्पल, घटकेसर मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना-500092
1014.	इंडियन नेशनलिस्ट एलायंस पार्टी (इंडिया)	सी/1061/5, इन्दिरानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226016
1015.	इंडियन न्यू कांग्रेस पार्टी	ऑफिस नं० – 107, द्वितीय तल, 1st क्रॉस, 'ए' ब्लॉक, ए. के. कॉलोनी रोड, घौसिया नगर, मैसूर सिटी, कर्नाटक – 570 019
1016.	इंडियन पीपुल्स कॉफ्रेंस पार्टी	मखदूम साहिब, मकान नं० -51, रैनावारी, श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
1017.	इण्डियन पीपुल्स फारवर्ड ब्लॉक	तंगरा हाउसिंग एस्टेट, ब्लॉक-एल/1, फ्लैट-5, 40/1, तरंगरा रोड, कोलकाता-15, पश्चिम बंगाल ।
1018.	इण्डियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी	19, शुभम इनक्लेव, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान ।
1019.	इंडियन प्रजा कांग्रेस	मथुदेवोभवा, शॉप नं. 1, गाउंड फ्लोर, लिबर्टी प्लाजा, डोर नं. 3-6-365/यूजी/3-4, हिमायत नगर, हैदराबाद, तेलंगाना- 500029
1020.	इंडियन पब्लिक फेडरेशन पार्टी	220, वर्धमान फोर्चून मॉल, महेन्दु एन्क्लेव के सामने, जी.टी.करनाल रोड, दिल्ली- 110033
1021.	इण्डियन पब्लिक पार्टी	बी-1, राज कम्पलेक्स, संस्कार मंडल, भवनगर – 364002, गुजरात
1022.	इंडियन रक्षका नयाकुडु पार्टी	मकान नं. 4-279, बासावेशवारा कॉलोनी, मकथल, जिला- महबूब नगर, तेलंगाना स्टेट- 509208
1023.	इण्डियन सर्वहित पार्टी	6-बी/138, गोपेशकुंज, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226025
1024.	इण्डियन सवर्ण समाज पार्टी	मकान संख्या – 0053, दाउदपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
1025.	इंडियन यूनाइटेड पीपल्स पार्टी	वार्ड नं० 18, इंदिरा चौक, सोहागपुर, शहडोल, मध्य प्रदेश-484001
1026.	इंडियन युनिटि सेंटर	गाँव तथा पो.ओ.सोमरुक, पो.स.उलुबेरिया, जिला-हावड़ा-711316, पश्चिम बंगाल ।

1027.	इंडियन विकास पार्टी	खसरा नं. 327, खोडा हजारी, बुटेश्वर बगीची रोड, तहसील एवं जिला- हाथरस, उत्तर प्रदेश- 204101
1028.	इंडियन्स विकट्री पार्टी	3/261-2, आन्नदन नगर, असरीपाल्लम - 629201, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु
1029.	इन्डीजीनियस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्वीपरा	अभय नगर, अगरतला-799005, त्रिपुरा।
1030.	इण्डिया जननायक काञ्ची	सो 9, थर्ड ऐवन्यू, 34 स्ट्रीट, अशोक नगर, चेन्नई-600083 तमिलनाडु।
1031.	इंकलाबी पार्टी	बी०टी०आई० स्कूल के पीछे, महावीर नगर, भिण्ड (मध्य प्रदेश), पिन 477001.
1032.	इन्साफ दी आवाज़ पार्टी	एमसी नं. 9/128डी, 9/128/ई, गली नं. 10, वार्ड नं. 9, नियर कंसल गैस एजेन्सी, रमन मण्डी, तहसील- तलवंडी साबो, जिला- भटिंडा, पंजाब- 151301
1033.	इंसाफवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट-पियरी, थाना चौबेपुर, जिला - वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221104
1034.	इंसानियत लोक विकास पार्टी	प्लॉट नं.1938/447/2, केयर ऑफ हिन्द स्कैप स्टोर, स्ट्रीट 0-2, जनता नगर, निकट पी.एन.बी., लुधियाना, पंजाब-141003
1035.	इंसानियत पार्टी	मकान नं० - 262/1, गणनायक भवन, एट व पो. - सनाली, तालुका - महुधा, जिला- खेड़ा, गुजरात - 387330।
1036.	इंटरनेशनल पार्टी	ब्लॉक बी-5, फ्लैट नं. 111, यमुना विहार, दिल्ली- 110053
1037.	इस्लाम पार्टी हिंद	मौहल्ला-राजडे पुर, पो० सिटी, जनपद-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।
1038.	इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल	93, सोदागरन, दरगाह आला हजरत, बरेली, उत्तर प्रदेश।
1039.	जे एन्ड के पीपुल्स मूवमेन्ट	शेखपुरा, हम्हामा, तहसील व जिला-बडगाम, जम्मू और काश्मीर- 191111
1040.	जागो भारत फ्रन्ट	डी-185बी, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, दिल्ली - 110059
1041.	जगत कल्याण मोर्चा	गाँव-नानी, डाकघर-मतियाना, तहसील-ठियोग, जिला-शिमला, हिमाचल प्रदेश-171212
1042.	जागो भारत जागो पार्टी	14 ए/84 डब्ल्यू.ई.ए., करोलबाग, नई दिल्ली - 110005
1043.	जागो हिन्दुस्तान पार्टी	मकान नं. 368, मोहल्ला- कल्यानी देवी सिविल लाईन्स, जिला- उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209801
1044.	जागो पार्टी	9-1-108/1, द्वितीय फ्लोर, टाटा चैरी कम्पाऊंड, एस० डी० रोड, सिकन्दराबाद-500026, आन्ध्र प्रदेश।
1045.	जागरूक जनता पार्टी	ग्राम- दिलावरपुर, पोस्ट व थाना- बिहटा, जिला- पटना, बिहार- 801103
1046.	जागते रहो पार्टी	द्वारा मैसर्स क्षमा आर देसाई, 2, वाटिका बंगला, सबरी स्कूल के पास, वासना रोड, बड़ोदा, गुजरात।
1047.	जय आन्ध्रा पार्टी	डी. नं० -14-71, चगलनाडु स्टील्स, मोरंपुडी जंक्सन, राजमुट्टी, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश
1048.	जय भारत नेशनल पार्टी	मकान नं. 22/630, डी.डी.ए. फ्लैट, मदनगिरी, दिल्ली - 110062.
1049.	जय भारत पार्टी	आर जैड एच-710 ई (इ/54), राज नगर-II, (देव हास्पिटल के पास), पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-45.
1050.	जय भारत समानता पार्टी	ए-36/54-बी-1, समानता शक्ती भवन, कजकपुरा, कोनीया रोड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
1051.	जय भारत जेना सेना पार्टी	डी. नं. 42-64-1/1, लूना सेन्टर, एम.के. बैग मुनिसिपल कॉरपोरेशन हाई स्कूल के पीछे, सिंह नगर, विजयवाडा, जिला - कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश - 520015
1052.	जय छत्तीसगढ़ पार्टी	10, दूसरा माला, शहीद वीरनारायण सिंह परिसर, नगर घडी चौक, जी ई रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001।

1053.	जय हिन्द कांग्रेस पार्टी	शॉप नं. 34, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी, रवाला - मण्डी, श्रीगंगानगर, राजस्थान- 335771
1054.	जय हिन्द जय भारत राष्ट्रीय पार्टी	बी-नम्बर.के.1366,रूम नम्बर-10,मराठा सैक्सन-32,स्टेशन रोड,नियर उल्हास विद्यालय,प्रदीप वाडापाव सेन्टर से आगे,उल्हास नगर,थाने,महाराष्ट्र-421004
1055.	जय हिन्द नेशनल पार्टी	ए2/135,दर्शनम एंटिका,दंतेश्वर,वडोदरा,गुजरात-390004
1056.	जय हिन्द पार्टी	खरैल पुर्नवास, वार्ड नं. 16, नगर परिषद, सुपौल, बिहार
1057.	जय हिन्द समाज पार्टी	ग्राम-खडहरा (बिन्द वलिया), पोस्ट-दुबिहा, जनपद-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश ।
1058.	जय हिन्दुस्तान पार्टी	मकान नं. 22-13-47, ब्लॉक नं. 13, अम्बेडकर कॉलोनी, तिरुपति, चित्तूर-जिला, आन्ध्र प्रदेश- 517507
1059.	जय जनसेवा पार्टी	14/43, संभाजी चौक, इचलकरंजी, तहसील-हातकणंगले, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416115 ।
1060.	जय जनता पार्टी	वार्ड नं0 – 18, होलिंग नं0 – 27, भभुआ (कैमूर), अग्रवाल पेट्रोल पम्प के पास,बिहार-821101 ।
1061.	जय जवान जय किसान पार्टी	प्रथम तल, मकान नं0 - 60, गली नं0 - 7, विर्क कॉलोनी, निकट डी सी डब्ल्यू, पटियाला, पंजाब - 147001
1062.	जय जवान किसान नौजवान संविधान पार्टी	खसरा न.101/3,मौजा वाहनपुर,पोस्ट-कैलोरा,हाथरस जंक्सन,जिला हाथरस,उत्तर प्रदेश-204102
1063.	जय किसान जय मजदूर पार्टी	हाउस नंबर 77,खरसा नंबर 374,गांव और पोस्ट - बालाकोट,मंदिर दरवाजा के पास,पानी टंकी के पास,तहसील - दमोह,जिला - दमोह,म.प्र. - 470672
1064.	जय लोक पार्टी	एफ-2/5, मयूर विहार, अशोका गार्डन भोपाल, भोपाल, मध्य प्रदेश-462023
1065.	जय महा भारत पार्टी	जय महाभारत भवन, श्री महावैकुण्ठ पुरम, गांव-बुक्कापुरम, तह० आलमपुरम, जिला-महबूब नगर, आन्ध्रा प्रदेश, पिन-509652.
1066.	जय मानवता पार्टी	मकान नं0-1, समृद्धि परिसर, साहू आटा चक्की के पास, ललिता नगर, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
1067.	जय प्रकाश जनता दल	190, प्रताप नगर, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091
1068.	जय समाख्या आंध्रा पार्टी	डी० नं० 4-86, कम्मावरी विधि, माचावरम ग्राम पंचायत लिमिटेड, रायावरम मंडल, जिला – पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश – 533 214
1069.	जय समता पार्टी	रकबा शेर नगर बीबीपुर,कल्लरपुर,जानसठ रोड, तहसील-सदर,मुजफ्फरनगर,उत्तर प्रदेश- 250001
1070.	जय सेवालाल बहुजन विकास पार्टी	मकन न0 2,प्लॉट न0 31,हिमालयपुष्पा बिल्डिंग,स्वपननगरी,गारखेडा एरिया,औरंगाबाद,महाराष्ट्र- 431005.
1071.	जय स्वराज पार्टी	10-105/1/बी/2, प्रथम तल, रोड नंबर- 2, नई गड्डीनाराम कॉलोनी, दिलसूक नगर, हैदराबाद, तेलंगाना - 500060
1072.	जय विजय भारथी पार्टी	पो० ऑ० चिन्नागोट्टीगल्लू, जिला-चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश।
1073.	जामात-ए-सिरातुल मुस्ताकिम	पोस्ट – छोटा सुजापुर,थाना – कलियाचाक, जिला – मालदा,पश्चिम बंगाल – 732206
1074.	जम्मू एण्ड कश्मीर अवामी नेशनल कॉफ़्रेस	3-आर सी क्वाटरर्स, प्रेस एन्कलेव, प्रताप पार्क, श्रीनगर - 190001. (जम्मू व कश्मीर)
1075.	जम्मू एण्ड कश्मीर पीपुल्स कॉफ़्रेस	जनरल ऑफिस, ओल्ड सैक्रेटेरिएट रोड, श्रीनगर 190001, (जम्मू व कश्मीर) ।
1076.	जम्मू एण्ड कश्मीर पीर पंजाल अवामी पार्टी	नजदीक पुलिस स्टेशन पुंछ, केयर ऑफ जिला कोर्ट पुंछ, जम्मू एण्ड कश्मीर
1077.	जम्मू एण्ड कश्मीर अपनी पार्टी	कोहिनूर हाउस,7 शेख बाग,श्रीनगर,जम्मू एण्ड कश्मीर-190001
1078.	जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	168, रावलपोरा हाउसिंग कॉलोनी, श्रीनगर, (जम्मू व कश्मीर) ।

1079.	जम्मू और कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट	बादशाह फ्लैट्स 7-बी, जहांगीर चौक, श्रीनगर, जम्मू और काश्मीर-190001
1080.	जम्मू कश्मीर पीपुल्स पार्टी (सेक्यूलर)	96/9, नानक नगर, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर – 180004
1081.	जम्मू कश्मीर सेव पार्टी	गाँव- रावलपोरा, श्रीनगर, जम्मू एण्ड कश्मीर
1082.	जम्मू स्टेट मोर्चा (प्रोग्रेसिव)।	8, ओल्ड ड्राई फ्रूट मार्केट, ज्वैल चौक, जम्मू – 180001, जम्मू व कश्मीर
1083.	जन आवाज पार्टी	झींझक, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश- 209302
1084.	जन अभियान पार्टी	27/3, बिरहाना रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208001
1085.	जन आदेश अक्षुणी सेना	मकान सं० – 117, पठारिया मोहल्ला, पडुआ चौराहा, जी. टी. रोड, भोगांव, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश
1086.	जन अधिकार पार्टी	मकान नं. 331, सर्वोदय नगर, चण्डी रोड, पिलखुवा, उत्तर प्रदेश।
1087.	जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक)	वार्ड संख्या- 05/14, बर्द्धमान हाता, अर्जुन भवन, अर्जुन नगर, पोस्ट आफिस- पूर्णियाँ, थाना- सहायक के० हाट, जिला- पूर्णियाँ, बिहार – 854301
1088.	जन आंदोलन मोर्चा	ए-8/18, प्रथम तल, ब्लॉक-ए, पॉकेट - 8, सेक्टर – 17, रोहिणी, दिल्ली – 110085
1089.	जन आसरा पार्टी	सी/ओ रावल सिंह भिंडर, खसरा नं० 12/1, ग्राउण्ड फ्लॉर, कलवानु रोड के पास, अतालन, तहसील-पटरन, जिला-पटियाला पंजाब-147102
1090.	जन आवाज विकास पार्टी	मकान नं० – 631, द्वितीय तल, मेन रोड, मुखर्जी नगर, दिल्ली।
1091.	जन चेतना क्रांति मंच	खेमनीचक, जकरियापुर, कृष्णा निकेतन स्कूल के पीछे, थाना- आलमगंज, अगमकुआं, जिला-पटना बिहार-800007
1092.	जन चेतना पार्टी	चेम्बर नं. 475, वेस्टर्न विंग, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली – 110054.
1093.	जन कांग्रेस पार्टी	वार्ड नं०- 1, मकान नं०- 395, बोकाखाट टाउन, जिला- गोलाघाट, असम- 785612
1094.	जन हित पार्टी प्रगतिशील	ग्राम-भादुरपुर, पोस्ट-मोर्टा, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, पुलिस चौकी के पास, उत्तर प्रदेश-201003
1095.	जन जागरण युवा मंच	नम्बर 2528/2649, रतनदीप हॉस्पिटल, नगर रोड, जामखेड, तालुका- जामखेड, जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र-413201
1096.	जन जन (युनाईटेड) पार्टी	शान्तीपुरम, फाफामऊ, आपोजित – बी.बी.एस. इंजी. कालेज, नियर नवजीवन हॉस्पिटल, जिला- प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 211013
1097.	जन जन पार्टी	गली सं०- 7, ग्राम - समूरा, सेक्टर- 66, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
1098.	जन जनवादी पार्टी	गाटा नं० 88, ग्राम बडहारा, पोस्ट-तुरना, तहसील-सैदपुर, थाना- नंदगंज, जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश-233306
1099.	जन कल्याण पार्टी	फतेहपुर- सहाबपुर, पोस्ट ऑफिस- कसेडा, तहसील- चायल, जिला- कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश।
1100.	जन क्रान्ति पार्टी, अण्डमान एंड निकोबार	द्वारा हर्ष मेहरा ट्रेडर्स, सी बी आई कार्यालय के सामने, राँची बस्ती, पोर्ट ब्लेयर-744103।
1101.	जन मन पार्टी	डी-409, प्रतिक मौल, रायसन, गाँधीनगर, गुजरात- 382007
1102.	जन मिथिला विकास पार्टी	ग्राम-सम्भिनिया, पास्ट-गर्गी, थाना-जाले, जिला-दरभंगा बिहार-847303
1103.	जन प्रगति पार्टी	544/2395, मरी माता मंदिर, निकट विकास पब्लिक स्कूल, ब्लागंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226003
1104.	जन राज्य पार्टी	110/F/10A/1A, गाँव-कन्हाईपुर, धूमनगंज, इलाहाबाद-211001, उत्तर प्रदेश
1105.	जन रक्षा पार्टी	भिठौली, सीतापुर रोड, लखनऊ – 226020, उत्तर प्रदेश।
1106.	जन राष्ट्रवादी संगठन	356/340/1331, अशोक विहार, आलम नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226017.

1107.	जन साधारण पार्टी	मकान नं0 – 4, डॉ फतेहउल्लाह लेन, मेन रोड, राँची, झारखण्ड-834001
1108.	जन सहारा पार्टी	फ्लैट नं.2, युजी फ्लौर, ए-1/बी, एडवोकेट कम्पाउंड, औल्ड जसोला विलेज, दिल्ली-110025
1109.	जन समाज एकता पार्टी	530ए, के-ब्लॉक, यशोदा नगर, माँ दूर्गा इंटर कॉलेज, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208011
1110.	जन समानता पार्टी	बी – 125, नवजीवन कैम्प, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110019.
1111.	जन सम्मान पार्टी	जी- 238, मेन रोड, गली नं.- 6/28, बाल ज्ञान स्कूल, पश्चिम करावल नगर, दिल्ली –110094
1112.	जन समूह पार्टी	मकान न0 366/ए, ग्राउंड फ्लॉर, गली नं० 12, खसरा नं० 18/14, माता वाली गली, जौहरी पुर, दिल्ली-110094
1113.	जन संवाद पार्टी	319, अमखेरा रोड, गोहलपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482004
1114.	जन संदेश पार्टी	72/76/3, स्टेनली रोड, (म्योराबाद क्रॉसिंग), मम्फोर्डगंज, प्रयागराज (इलाहाबाद), उत्तर प्रदेश - 211002.
1115.	जन संघ पार्टी	ए-90, सेक्टर – 21, जलवायु विहार, नौएडा, गौतम बुद्ध नगर – 201301, उत्तर प्रदेश ।
1116.	जन संघर्ष दल	छोटी मस्जिद के पास, मेन रोड लौरिया, जिला पश्चिम चम्पारण, बिहार-845453
1117.	जन संघर्ष विराट पार्टी	गली नं0 – 2, भूतेश्वर मन्दिर के पास, संत रविदास वार्ड, सागर, तहसील व जिला – सागर, मध्य प्रदेश ।
1118.	जन संतोष पार्टी	गांव + पोस्ट, लालपुर, पुलिस चौकीकमर-, थानाकोसकला-, ब्लॉक- नंदगाव, हसीलछाता-, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश-281403
1119.	जन सत्य पथ पार्टी	प्रथम तल, माधव कॉमप्लेक्स, सिटी पल्स थिएटर के सामने, रायपुर, अहमदाबाद, गुजरात-380022
1120.	जन सेवा सहायक पार्टी	ग्राम – तालमहावर, तहसील – बिलासपुर, जिला – रामपुर, उत्तर प्रदेश
1121.	जन सेवा संघर्ष पार्टी	गाँव व पोस्ट - पीली मन्दोरी, तहसील- भट्टु कलाँ, जिला- फतेहाबाद, हरियाणा – 125053 ।
1122.	जन सेवक पार्टी	एल0 आई0 जी0 63, शेखपुरा, अलिगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1123.	जन सेवा ड्राइवर पार्टी	प्लैट एफ-201, कृष एक्सोटिका, ऑपोजिट रजीपा ग्रीट लैंड, बी/एच, श्यामवेद रेजीडेंसी, निकोल, अहमदाबाद, गुजरात- 382350
1124.	जन सेवक क्रांति पार्टी	ए टी-772, भीमनगर नया रेलवे रोड, गुरुग्राम-122001
1125.	जन शक्ति दल	शिवाजी नगर, गली नं0 1, निकट कैल्टन स्कूल, लाईन पार, मुरादाबाद – 244 001, उत्तर प्रदेश ।
1126.	जन शक्ति एकता पार्टी	ग्राम – मंडनपुर, पोस्ट –मीरगंज, जिला – बरेली, उत्तर प्रदेश – 243504 ।
1127.	जन शक्ति पार्टी ऑफ इंडिया	7107, स्ट्रीट नं0.3, न्यू विश्वकर्मा नगर, फोकल पॉइन्ट, लुधियाना, पंजाब-141010
1128.	जन सृजन पार्टी	15-डी, कौशलपुरी, खरगापुर, विकास खण्ड – चिनहट, गोमतीनगर, परगना, तहसील व जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1129.	जन सुराज्य शक्ति	जन सम्पर्क कार्यालय, वारानानगर, ता0 – पनहाला, जिला – कोल्हापुर, महाराष्ट्र – 416113.
1130.	जन स्वाभाविक पार्टी	636/09, बुद्ध विहार कॉलोनी, फेज-1, तकरोही, इन्दिरा कॉलोनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226016
1131.	जन विकास पार्टी सेक्यूलर	1/97, विशेष खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010
1132.	जन ध्वनि पार्टी	डी. नं. 3-पी सी/18, लक्ष्मी नारायण एस्टेटस्, मियापुर, हैदराबाद, तेलंगाना - 500049

1133.	जना राज्यम पार्टी	मकान नं.8-217/16,धमरिडुी आर्केट,फ्लैट-टी 1,गायत्री नगर,लक्ष्मीनगर कॉलोनी,रोड नं.3,जिल्लेला गुडा म्यूनिसिपलिटी,बालापुर मण्डल,रंगारेड्डी जिला,तेलंगाना-500097
1134.	जन सहायका सक्ति	दरवाजा नंबर 27-85/1,कोबाल्डपेट,4 लेन,गुंटूर,आन्ध्र प्रदेश- 522006.
1135.	जना सामान्यरा पार्टी (कर्नाटक)	श्री वीरभद्रा स्वामी निलया, पहला मेन, पाँचवां क्रॉस, विजय नगर, तुमकुर, कर्नाटक – 572102
1136.	जन समृद्धि पार्टी	काशीपुर-बलरामपुर, यूनिट- 18, पोस्ट ऑफिस- केदुझरगढ़, थाना- टाउन, जिला- केन्दुझर, ओडिशा- 758001.
1137.	जना शंखारावम पार्टी	मकान नं.4-1-216/54/502,कार्तिकेय नगर,नाचारम,उप्पल,मेड्चल मल्कजगिरि जिला,तेलंगाना-500076
1138.	जना स्पन्दना पार्टी	नं.-60,फर्स्ट प्लोर,वीरापिल्लय स्ट्रीट,शिवाजी नगर,बैंगलोर,कर्नाटक-560001
1139.	जन स्वराज्य पार्टी	प्रधान कार्यालय - 83/ए, तृतीय वार्ड, कलम्मा बाजार, सन्दुर-583119, कर्नाटक ।
1140.	जन वाहिनी पार्टी	डोर नं. 28-05-37ए, 12 रोड, शांति नगर, एलुरु, पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश-534001.
1141.	जनाधार नेशनल पार्टी	63,आर.आर.एवेन्यु,तुलसी नगर,महालक्ष्मी नगर रोड,इन्दौर,मध्य प्रदेश-452010
1142.	जनाधार शक्ति पार्टी	ग्राम 162512,देवरख रोड,अरेल,नैनी,तहसील करचना प्रयागराज,उत्तर प्रदेश-211008
1143.	जनाधिपथ्या केरला कांग्रेस	जवाहर बालभवन के पास, भवन सं0 – 641, वार्ड नं0 – 21, कोट्टयम म्यूनिसिपालिटी, जिला – कोट्टयम, केरल ।
1144.	जनाधिपथ्या सम्रक्षण समिती	केरल राज्य समिती कार्यालय, आयरन ब्रिज डाक घर,एलेप्पी – 688011, केरल ।
1145.	जनहित पक्ष	डी0 नं0 109, सेकैंड वार्ड, कालम्मा स्ट्रीट, बेल्लारी, कर्नाटक – 583101
1146.	जनम मनम पार्टी	13-24/ए, पाण्डुरंगावारीपल्ली गांव, इथेपल्ली पोस्ट, चन्द्रगिरी मंडल, चित्तूर जिला, आन्ध्र प्रदेश- 517102
1147.	जनम राष्ट्रीय पार्टी	भवन संख्या 582,इवरकला वार्ड 5,कुन्नूर पंचायत,इवरकला ईस्ट पीओ,कोल्लम-691507,केरल
1148.	जननायक मक्कल रज्जियम	20/86ए, कृष्णा नगर वेस्ट, अम्मापेट पी) ओ(, जिला सेलम -, तमिलनाडु - 636003.
1149.	जनपालना पार्टी (डेमोक्रेटिक)	8-2-703/2/बी, प्लाट नं.2, रोड नं.-12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश -500034
1150.	जनसेना पार्टी	मकान नं0 8-2-293/82/HH/91/A/201, हुडा हार्डट्स, एम.एल.ए. कॉलोनी, रोड नं0 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500033
1151.	जनता कैबिनेट पार्टी	16/ए (16/1),लिटन रोड,सुभाष रोड,देहरादून न्यू नगर निगम,नं0-184/4,पिन – 248001 उत्तराखण्ड
1152.	जनता कांग्रेस	278 ए, प्रथम तल, जी.के. कॉम्पलेक्स, मेन रोड ओखला, जामिया नगर, नई दिल्ली – 11002
1153.	जनता कांग्रेस नेशनल मोवमेंट पार्टी	नं. 8-2-293/82/जे/III,रोज नं0 -79,जुबलीहिल्स,हैदराबाद तेलंगाना – 500033
1154.	जनता दल (अहिंसावादी)	201,भेल एक्सटेंशन,9 वाँ क्रॉस,स्टेज-2,राजराजेश्वरी नगर,बैंगलोर,कर्नाटक- 560098
1155.	जनता पार्टी	जी/42, पूर्वी विनोद नगर, दिल्ली - 110091
1156.	जनता उदय पार्टी	860. गली नं0-4, संजय इन्कलेव,चाचा चौक, परवतिया कॉलोनी,एन0 आई0 टी0 फरिदाबाद, हरियाणा
1157.	जनता उन्नती पार्टी	ग्राम-पाल्हीपार,पोस्ट ऑफिस-पकडी दूबे,जिला-गोरखपुर,उत्तर प्रदेश-273413

1158.	जनता विकास पार्टी	अबपेक भवन, उदयनगर कॉलोनी, सागर रोड, विदिशा, (मध्य प्रदेश)।
1159.	जनहित भारत पार्टी	730, अर्वा नई बस्ती, नौबस्ता, योगेन्द्र विहार, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208021
1160.	जनहित दल	आर.एम.एस. कालोनी, रोड नं0 2, कंकड बाग, पटना-20, बिहार।
1161.	जनहित किसान पार्टी	वार्ड नं0 24, सक्सेना नगर, नगरपालिका परिषद – महाराजगंज, जनपथ-महाराजगंज – 273303, उत्तर प्रदेश।
1162.	जनहित क्रांतिकारी पार्टी	पन्ना लाल के पुत्र शिवाजी, मकान नंबर 47/1, गांव और पोस्ट- नयाबांस, परगना-मरहेरा, थाना-मिर्हाची, तहसील-एटा, जिला- एटा, उत्तरप्रदेश-207125
1163.	जनहित लोकशाही पार्टी	रूम सं0 – 41/3, गाँवदेवी रोड, पावणे गाँव, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र – 400705
1164.	जनहित विकास पार्टी	ग्राम- कपासी, पोस्ट- हसनपुर, ब्लॉक- बलियाखेड़ी, जिला- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247111
1165.	जनक्रान्ति समाज पार्टी	मकान नं. 16, सदरपुर कॉलोनी, बी.डी.एस.मार्केट, सोम बाजार, सैक्टर- 45, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
1166.	जनलोक विकास पार्टी	हाउस संख्या-124, वार्ड संख्या-22, कसाई टोला, गोरया स्थान, पोस्ट ऑफिस-रसडा, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश-221712
1167.	जनमंगल पक्ष	राम प्रताप, गीता नगर, मेन रोड, गुरुकुल के पास, राजकोट – 360002, (गुजरात)।
1168.	जनमत पार्टी	ऑफिस नं.-101, प्रथम मंजिल, बी-37, बी-ब्लॉक, गली नं.14, मधु बिहार, दिल्ली-110092
1169.	जनमत विकास पक्ष	पोस्ट - ससवाद, पुर्नधार, महाराष्ट्र - 412301
1170.	जननायक युवा शक्ति पार्टी	म.नं.587/20, खासा चौक के पास, रामेश्वर पुरम कॉलोनी, कबीरपुर, सोनीपत, हरियाणा-131001
1171.	जन-न्याय दल	301, श्री देवरहा – काम्पलेक्स, माता मढिया चौराहा विजय टाकीज रोड, मोतीनगर वार्ड, तहसील व जिला – सागर, मध्य प्रदेश।
1172.	जनरल समाज पार्टी	सूरत प्रीटिंग प्रेस, दाना मंडी रोड, बठिण्डा, पंजाब।
1173.	जनसमुदाय पार्टी	57, प्रथम तल, स्टेडियम हाउस, स्टेडियम क्रॉस रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात – 380009।
1174.	जनसत्ता दल लोकतांत्रिक	ग्राम व पोस्ट- मझिलगाँव (बाबूगंज), तहसील- कुण्डा, जिला- प्रतापगंज, उत्तर प्रदेश- 230204
1175.	जनसत्ता राष्ट्रवादी एकता पार्टी	श्री राघवेन्द्र सिंह, श्री हरिवंश सिंह, ग्राम गद्दी, मजरेखसपरिया-, पोस्ट - बस्ती, तहसील नवाबगंज -, ब्लॉक बंकी-, जिलाबाराबंकी-, उत्तर प्रदेश- 225003.
1176.	जनसेवा गोंडवाना पार्टी	प्लॉट नं. 36, जायसवाल ले आउट, भोयर गल्स हॉस्टल के पास, नालवाडी, वर्धा, तह और जिला वर्धा महाराष्ट्र- 442001
1177.	जनशक्ति जनता दल	रजनी कॉम्पलेक्स, खगौल रोड, दयानंद बालिका उच्च विधालय के नजदीक, मीठापुर, पटना, बिहार-800001
1178.	जनशक्ति पार्टी (राष्ट्रीय)	प्लॉट नं0 – 38, भू-तल (ग्राउंड फ्लोर), के डी के पब्लिक स्कूल के सामने, मेन रोड, मंडावली, फज़लपुर, दिल्ली – 110092
1179.	जनशक्ति समता पार्टी	तहसील कैपस पोस्ट - सलोन, जनपद – रायबरेली, उत्तर प्रदेश – 229127
1180.	जनशक्ति विकास पार्टी (डेमोक्रेटिक)	ग्राम+पो0 – नुमर, थाना-बरहट, जिला-जमुई बिहार-811313
1181.	जनता त्रिगेड पार्टी	आर.-142, ज्वालापुरी, कैम्प नं0 -5, नई दिल्ली- 110087.
1182.	जनता दल हिन्दुस्तानी	खाता नं. 64 (ओल्ड), प्लॉट नं. 370 (ओल्ड), न्यू प्लॉट नं.838,839,744,745, थाना नं. 314, ग्राम- आम्बिला, थाना- मुफसिल, अंचल- मानपुर, जिला- गया, बिहार- 823003
1183.	जनता दल राष्ट्रवादी	म0 न0 - 55/1, हारुन नगर कॉलोनी, सैक्टर - 1, थाना व डाकघर - फुलवारी शरीफ, पटना, बिहार – 801505

1184.	जनता कल्याण मोर्चा	खेवट सं0-184, खाता सं0 188, कीला नं0-51/16/3 खेडी दमकन, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा - 131301.
1185.	जनता क्रान्ति पार्टी	भरत विहार कॉलोनी, बड़े शिव मंदिर के सामने, मण्डावर रोड, बिजनौर, जिला - बिजनौर, उत्तर प्रदेश- □46701
1186.	जनता क्रांति पार्टी (राष्ट्रवादी)	न. 29, कान्तीपुरम पार्ट-2, शिवपुरी बिजली हाउस के पीछे, गणेशपुर, रहमानपुर, देवा रोड, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
1187.	जनता राज पार्टी	मकान नं0 43, ग्राम - तेजपुरा, पोस्ट - इन्दौर, जिला - गाजीपुर, उत्तर प्रदेश - 233226
1188.	जनता राज विकास पार्टी	ग्राम- चकफैज, पोस्ट- सुक्की, थाना- पातेपुर, जिला- वैशाली, बिहार- 843114
1189.	जनता रक्षक पार्टी	वार्ड नंबर 1, मोहल्ला कमलापुर, डॉ भीम राव अम्बेडकर इंटर कॉलेज के पास, पोस्ट- उदयपुर महेवा, जिला-लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश-262701
1190.	जनता समाजवादी पार्टी (विवेक राज)	72, रतन नगर, प्रदर्शनी पंडाल मार्ग, शहर व जनपद-इटावा, उत्तर प्रदेश- 206001
1191.	जनता समता पार्टी	ग्राम-डुमरी एखलास, पोस्ट-हेतिमपुर, थाना-रामपुर कारखाना, तहसील एवं जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश- 274206.
1192.	जनता सरकार पार्टी	I-4/39, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर - 16, रोहिणी, दिल्ली- 110089
1193.	जनता सेना राजस्थान	मुकाम पोस्ट: बल्लभनगर, जिला - उदयपुर, राजस्थान - 313601
1194.	जनता शासन पार्टी	4ए केशव / पार्क, सरस्वतीपुरम रायबरेली रोड, लखनऊ उत्तरप्रदेश - 226014
1195.	जनता स्वाभिमान पार्टी	कटघरा देहाती, हवेली, सदर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222002
1196.	जनतंत्र पार्टी	तीसरी मंजिल, टकसाल थियेटर्स बिल्डिंग, नदेसर, वाराणसी - 221002, उत्तर प्रदेश ।
1197.	जनतांत्रिक लोकहित पार्टी	सुषमा नवल कुंज, एन०टी०पी०सी० कॉलोनी, आर०के०नगर, वार्ड नंबर 32, सर्कल नं० 8, पो०ओ० नाऊ जगनपुरा, पी०एस०-राक नगर, जिला - पटना, बिहार - 800027
1198.	जनतांत्रिक समता पार्टी	मकान नं. 100, वार्ड नं. 4, लुधुपारा, जसवंत नगर, इटावा, उत्तर प्रदेश- 206245
1199.	जनतांत्रिक विकास पार्टी	201, पी.मॉल, दूसरा तल, एक्जिबिशन रोड, जिला- पटना, बिहार- 801503
1200.	जनतावादी कांग्रेस पार्टी	161/बी, शिवाजी मैदान के सामने, स्वदेशी मिल रोड, चुनाभट्टी (पूर्व), मुंबई- 400037, महाराष्ट्र
1201.	जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट)	बी-32/2, जैन मन्दिर के पीछे, नरिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
1202.	जातिया समा समाजम पार्टी	1-24, दिन्नादेवारापडू गांव, कुरनूल मण्डल, कुरनूल जिला, आन्ध्र प्रदेश- 518002
1203.	जातिया जना सेना पार्टी	डोर नं. 1-9-290/बीए/, अदिकमेट, रामनगर गुंडू, ललिता नगर, न्यू नल्लाकुंता, हैदराबाद, तेलंगाना- 500044.
1204.	जातिय महिला पार्टी	6-3-बी-922, एन.जी.ओ. कॉलोनी, वनास्थालिपुरम, हैदराबाद, तेलंगाना- 500070
1205.	जवान किसान आवाम पार्टी	नई बस्ती, बहादुरपुर, मांझेलपुर, थाना-थाना-जहंगीराबाद, पोस्ट-सोमैया नगर, बाराबनाकी, उत्तर प्रदेश-225002
1206.	जवान किसान मोर्चा	क्वाटर नं0 एल0 आई0 जी0, एच0 - 1/7, हाउसिंग कॉलोनी, दलपत पूर्व (चन्द्रवा), आरा, बिहार - 802312.
1207.	जय हिन्द जय भारत पार्टी	एन—106, एच. आई. जी. फ्लैट, संजय नगर, सैक्टर—23, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1208.	जय विदर्भ पार्टी	302, कोलबास्वामी रेजीडेंसी, विठ्ठल नगर, न्यू इरा इंग्लिश स्कूल, उदय नगर स्कवायर, मानेवाडा रिंग रोड, नागपुर, महाराष्ट्र- 440034

1209.	जेबामणि जनता	नं0 33, सैकंड स्ट्रीट, पूर्व अबिरामपुरम, माइलापोर, चेन्नई-600004, तमिलनाडु।
1210.	झारखण्ड अनुशीलन पार्टी	ग्रा0 व पो0 आफिस झिलीमिली थाना – बरीकुल, जिला – बाकुंडा पश्चिम बंगाल – □22135
1211.	झारखण्ड आजाद पार्टी	झलेश्वर करमली मकान संख्या- 153 ए, खाता संख्या 40, प्लॉट संख्या 293, मौज होम्बई, विलेज-होम्बई पोस्ट-निवरी विकास, थाना-सदर राँची, जिला - राँची, झारखण्ड - 835217.
1212.	झारखंड दिशोम पार्टी	12, मार्ग सं0 21, कदमा फार्म एरिया, जमशेदपुर – 831005, झारखण्ड।
1213.	झारखण्ड जन क्रांति मोर्चा	मकान सं0 – 36, दिनकर नगर, पो0 – हटिया रेलवे कॉलोनी, थाना – जगरनाथपुर, राँची, झारखण्ड।
1214.	झारखण्ड जनाधिकार पार्टी	हॉली क्रॉस स्कूल के सामने, लालपुर पीस रोड, रांची – 834001, झारखण्ड।
1215.	झारखण्ड की क्रान्तिकारी पार्टी	23, पूर्वी जेल रोड, राँची – 1 (झारखण्ड)।
1216.	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (उलगुलान)	द्वारा श्री ओम प्रकाश सिंह, ग्राम एवं पो. - मधुकम, रोड नं.4, थाना - सुखदेव नगर, जिला - राँची, झारखण्ड - 834001
1217.	झारखण्ड पार्टी	आनन्द सुवानी निवास, एयरपोर्ट रोड, हिनू, राँची, झारखण्ड – 834002.
1218.	झारखण्ड पार्टी (नरेन)	स्थान – रधुनाथपुर, पो. ऑ. – झाड़ग्राम, जिला – मिदनापुर – 721507, (पश्चिम बंगाल)।
1219.	झारखण्ड पार्टी (सेकुलर)	ग्राम - उनीडीह, पोस्ट – राजा उलातु, थाना - नामकुम, जिला - राँची, झारखण्ड।
1220.	झारखण्ड पीपुल्स पार्टी	पो. ऑ. लौबासा, जमशेदपुर, पु0 स्टे0 – गोविन्दपुर, जिला – सिंहभूम (पूर्व) झारखण्ड।
1221.	झारखण्ड विकास दल	273, लेक एवेन्यू, स काँके रोड, राँची, झारखण्ड
1222.	जिन्दाबाद क्रान्ति पार्टी	31/38ए, तृतीय तल, गली नं.5, भीकम सिंह कॉलोनी, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032
1223.	जोहार पार्टी	ग्राम- दड़हाटांड, पोस्ट एवं थाना- ईटकी, जिला- रांची, झारखण्ड- 835301
1224.	जस्टिस अण्ड डेवलपमेंट पार्टी	गाँव+पोस्ट-ऑफिस अहिरन, पी.एस.-सुति, जिला- मुर्शिदाबाद, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 742223.
1225.	जस्टिस पार्टी	ग्राम- दिकतन खेड़ा, पोस्ट- हरचन्दपुर, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश - 229303।
1226.	ज्वाला दल	मकान संख्या – 247 बी, मु0 – जंगल तुलसीराम, पो0 – बिछिया पी.ए.सी. कैम्प, थाना – शाहपुर, जिला – गोरखपुर – 273014 उत्तर प्रदेश।
1227.	कलींग नेसनाल फ्रंट	स्थान – परबील, पो0 ऑ0 —कन्दरपुर, जिला – कटक – 754100, ओडिशा।
1228.	कलिंगा सेना	19ए, मधुसूदन नगर, यूनिट – 4, भूवनेश्वर – 751001, खुर्दा, उड़ीसा।
1229.	कल्याण कर्नाटक पार्टी	सीटीएस नं.4589/ए, पहली मंजिल, शेटी गल्ली, बेलगावी, कर्नाटक- 590002
1230.	कल्याण क्रान्ति पार्टी	# 57, दुसरा तल, 3 मेन अदित्यानगर, 8 फेज, जेपी नगर, बैंगलुरु, कर्नाटक - 560062
1231.	कल्याणा राज्य प्रगती पक्ष	49/48, कायालासनाहल्ली, कोठानूर पोस्ट, बैंगलोर, कर्नाटक – 560077.
1232.	कल्याणकारी जनतांत्रिक पार्टी	बी-4/260ए, केशवपुरम, नई दिल्ली - 110035।
1233.	कल्याणवादी पार्टी	16, पाण्डेय टोला, पैंतेपुर, महमूदाबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश – 261203

1234.	कामराजार देसीया काँग्रेस	7-वेलायुधा, राजा स्ट्रीट, राजा अन्नामलाईपुरम, मंडावेली, चेन्नई – 600028 (तमिलनाडु)।
1235.	कामतापुर पीपुल्स पार्टी (यूनाईटेड)	गांव एवं पोस्ट- भंडानी, पुलिस स्टेशन- ध्रुपगुडी, जिला- जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल- 735210.
1236.	कमेरा समाज पार्टी	वार्ड नं. -3, लाला का पुरवा शंकरगढ (पन्ती देवी स्कूल के पास), पो0- शंकरगढ, जिला-प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 212108.
1237.	कामगार किसान पार्टी	राहुल भवन, मकान नं०00-51, मानस नगर, जियामऊ, हजरतगंज, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
1238.	कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी	चिल्ला रॉय भवन, गाँव – बिधानपल्ली, डाक घर – कदमताला, जिला – दार्जिलिंग – 734433, पश्चिम बंगाल।
1239.	कन्नड चालवाली वाटल पक्ष	154, रंगास्वामी टेम्पल स्ट्रीट, बंगलौर - 560053, (कर्नाटक)।
1240.	कन्नडा देशदा पक्षा	नं. 20, बन्दारलाहल्ली विलेज, कामसमुद्रम होबली, बंगारपेट तालुक, जिला-कोलार कर्नाटक- 563129.
1241.	कन्नड पक्ष	नं० 259/1, फर्स्ट फ्लोर, रंगास्वामी टेम्पल स्ट्रीट (जैन टेम्पल के सामने), बंगलौर - 560053 (कर्नाटक)।
1242.	कानून राज पार्टी	डी-1/1045, गली नं.27, हर्ष विहार, शाहदरा, दिल्ली-110093
1243.	कांशीराम बहुजन दल	खाता नं. 208, का अराजी नं.- 159एम/0.0810, गांव- अली खानपुर, पी.एस.- लाईन बाजार, तहसील- सदर, परगना- हवेली, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222132
1244.	काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी	मकान नं० ए-62/1-153, ओ ब्लॉक ओमेक्स सिटी, औरंगाबाद खालसा जनपद, लखनऊ उत्तर प्रदेश - 226025
1245.	कर्मा पार्टी	शॉप नं० -1, हुडा मार्केट, लैज़र वैली पार्क, किंगडम ऑफ ड्रीम्स के सामने, सेक्टर – 29, गुडगांव, हरियाणा – 122002
1246.	कर्नाटक जनसेवा पार्टी	ओल्ड पीआईडी नं.36, खाता नं.151, सर्वे नं.42, कावेरीपुरा मेन रोड, नं.587, नियर महादेशवरा मंदिर रोड, रंगनाथापुरा, कामाक्षीपलया, बैंगलूरु, कर्नाटक-560079
1247.	कर्नाटक जनता पक्ष	#11, 12 मेन, 17 क्रास, मालेश्वरम, बैंगलूरु-560055, कर्नाटक
1248.	कर्नाटक कार्मिकर पक्ष	नं. 120, प्रथम तल, सेन्ट जोन्स चर्च रोड, नियर कोल्स पार्क, बैंगलोर, कर्नाटक – 560005
1249.	कर्नाटका मक्कला पक्ष	एच० ओ० नं० 09, ब्लॉक - 4जेएसएस इम्प्लायस लेआउट, साथागली नजाराबाद मोहल्ला, मैसूर, कर्नाटक- 570011
1250.	कर्नाटक प्रगन्यावन्ता जनता पार्टी	नं० -23, दूसरी “ए” मेन रोड, 7 वां क्रॉस, मुनेश्वर लेआउट, श्रीगंदनगर, बैंगलूरु, कर्नाटक - 56□091
1251.	कर्नाटक प्रजा पार्टी (रैयथा पर्व)	फ्लैट नं. 104, अदित अपार्टमेंट, एस.जे.सी.ई कालेज रोड, टेलिकॉम ले आउट, वाग्देविनगर, मैसूर, कर्नाटक- 570009.
1252.	कर्नाटक प्रजा विकास पार्टी	नं० 15, सम्पंगीमै लेआउट, सिदेदाहल्ली, यशवंतपुर हौबी, नागासन्दा पोस्ट, बैंगलूरु नॉर्थ ता०, बैंगलूरु डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक- 560073
1253.	कर्नाटक राज्य रयोता संघ	636, आईडल होम्स ले आउट, राजाराजेश्वरी नगर, बंगलौर – 560098 (कर्नाटक)
1254.	कर्नाटक राष्ट्र समिति	नं.31/2, 8वा इ मेन, चतुर्थ ब्लॉक, जयनगर, बैंगलूरु, कर्नाटक-560011
1255.	कर्नाटक समता पक्ष	नं. 718, एस. कलेदार प्लॉट, तिरुपुर, नवलगुंड, जिला- धारवाड़, कर्नाटक- 582208
1256.	कर्नाटका स्वाभिमानि रैथरा कर्मिकारा पार्टी	खाता ऐसेसमेंट नं. 565/7782/6536, सी.के.पूरा मेन रोड, चित्रादुर्गा, कर्नाटक- 577501
1257.	कर्नाटक स्वराज्य पार्टी	सं० 2082, चिदाम्बर कृपा, साई नगर, रायबाग, जिला बेलगाम, कर्नाटक - 591317
1258.	कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी	मकान सं० - 46, लाला मोहम्मदपुर, कंकर खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश।

1259.	करुनाडु पार्टी	सा. 13/2, नं0 7 मल्लाथाहली, नंजप्पा गार्डन, बैंगलौर-560056 कर्नाटक।
1260.	करुणाडगा तमिझार काची	नं.15, निदरसनम, जेवी.शेट्टी, रामासामी पाल्या, एम.एस नगर पोस्ट, बैंगलुरु, कर्नाटक-560033
1261.	काश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट(जे एंड के)	म0 नं0 - 254 - मेन रोड, पोस्ट ऑफिस के पास, जवाहर नगर, श्रीनगर, जम्मू एण्ड कश्मीर।
1262.	कठोर शासन पार्टी	75, बी-3, जाटन, भगवती भवन, पी. ओ. व जिला - बिजनौर, उत्तर प्रदेश - 246701।
1263.	केंद्रीय जनविकास पार्टी	प्लॉट नं0 - 179, आयुर्वेदिक लेआउट, भांडे प्लॉट, उमरेर रोड, सक्करदरा, जिला - नागपूर, महाराष्ट्र-440024।
1264.	केरल काँग्रेस	67. कुमारानसन नगर, कादवानथारा, पो0 ऑ0 एरनाकुलम, केरल।
1265.	केरल काँग्रेस (बी)	पी.टी. चाको स्मारक, मन्दिरम्, एस.एस. कोबिल रोड, थाम्पनूर, तिरुवनन्तपुरम - 695001, (केरल)।
1266.	केरल काँग्रेस (जेकब)	वार्ड 13, बिल्डिंग 346, टी. बी. रोड, कोट्टायम, (केरल) - 686001
1267.	केरला कांग्रेस (स्कारिया थॉमस)	चिंगवनं, बिल्डिंग नं. 711, वार्ड नं. 6, कोट्टयम मुनिसिपलिटि, कोट्टयम, जिला- कोट्टयम, केरल
1268.	केरल काँग्रेस सेक्यूलर	केरल काँग्रेस सेक्यूलर स्टेट कमेटी कार्यालय, भारत बिल्डिंग, पुलीमूड जंक्शन, कोट्टायम - 1, केरल।
1269.	केरला डेमोक्रेटिक पार्टी	6/341, पिनाकट्टू, भारनागरम, चुन्दाचेरी, पोस्ट पाला, कोट्टयम जिला, कोट्टयम-686579, केरला
1270.	केरला जनापक्षम (सेक्युलर)	टी.सी. 16/882(13), श्रीकृष्ण नगर, जगती- पोस्ट, तिरुवनन्तपुरम, केरल- 695014
1271.	केरला जनता पार्टी	मुलाकुलम पंचायत, वार्ड नं. 12, बिल्डिंग नं. 2, पूझीकोल पो.ऑ., कडुथुरुती केरल- 686604
1272.	केरला कामराज कांग्रेस	बिल्डिंग नं.- एन.एम.सी. XII/342डी, नेय्याट्टिकारा, तिरुवनन्तपुरम, केरल- 695121.
1273.	केरला प्रवासी एसोसिएशन	कांजीरामात्तिल (हाउस), नंबर 11/585पी, मलोथ, डार्कहास कासरगोड, केरल-671533
1274.	केरला रिवोल्यूशनरी सोसलिस्ट पार्टी - (लेनिनिस्ट- मार्क्सिस्ट)	नं. 19/1347, सासथाकोटा ग्राम पंचायत, कोल्लम, केरल- 690521
1275.	केरला विकास काँग्रेस	ई.पी.- III/468, इखवेस्सी, पी.ओ.- चेम्परी, तालीपरम्बा, जिला- कन्नूर, केरल, पिन- 670632
1276.	खानदेश विकास काँग्रेस पार्टी	बिल्डिंग नं0 2, 15/16, प्रथम तल, खानदेश, मिल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जलगांव - 425001.
1277.	खुन हिन्यूटिप नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट	जियाव लोअर लैसोनालेन, हाउस न. 32 एवं वार्ड न. 14 एवं होल्डिंग न. 65, शिलांग, पूर्व खासी हिल्स जिला, मेघालय - 793002
1278.	खुशहाल किसान पार्टी	मकान नं.- 125, अनाज मण्डी के पास, नागर रोड दीग, तहसील- दीग, जिला- भरतपुर, राजस्थान- 321203
1279.	खुसरो सेना पार्टी	आई-4/95, शास्त्री नगर, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश।
1280.	किसान अधिकार पार्टी	ए/1-104, प्रथम तल, सूर्यान्जली रेसिडेन्सी, संस्कार रेसिडेन्सी के सामने, क्रास रोड, अमरोली, सूरत, गुजरात- 394107
1281.	किसान क्रान्ति दल	नांगला सुखदेव, नीमखेरा - जलेंसर, जिला - एटा (उत्तर प्रदेश)।
1282.	किसान मजदूर बेरोजगार संघ	गांव - जेतपुर, पोस्ट - फफुन्द, ओरइया, उत्तर प्रदेश।
1283.	किसान मजदूर प्रजा पार्टी	ए एक्स - 223/224, राजहर्ष कॉलोनी, नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश।
1284.	किसान मजदूर सुरक्षा पार्टी	मकान नं. 45, ग्राम- खेडिया-हैबतखाँ, पोस्ट- कुलना, तहसील- गथाना, जिला- अलीगढ़ उत्तर प्रदेश- 202001

1285.	किसान मजदूर संघर्ष पार्टी	भरोसा सिटी, ग्राम- सरोसा भरोसा, पोस्ट- मौंदा, ब्लॉक- काकोरी, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226008
1286.	किसान पार्टी (लोकतान्त्रिक)	श्रीकृष्णा चिकित्सालय, सीडा, सतहरिया, पोस्ट-पवॉरा, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222202.
1287.	किसान पार्टी ऑफ इण्डिया	वार्ड नं. 01, जनकपुर रोड, नागेश्वर स्थान, थाना- पुपरी जिला- सीतामढ़ी बिहार -843320
1288.	किसान राज पार्टी	जूनियर एल.आई.जी. 358, विंध्य विहार कॉलोनी (पडरा), जिला- रीवा, मध्य प्रदेश- 486001
1289.	किसान रक्षा पार्टी	529/ए व नया मकान संख्या- 807, पठौरियां दतिया गेट के बाहर, तहसील व जिला- झांसी, उत्तर प्रदेश- 284001
1290.	किसान समाज मोर्चा	बिचौला भूड, पो0 - पतरिया, तह0 - गुन्नौर, बदायूं, उत्तर प्रदेश ।
1291.	किसान समाज पार्टी (एस)	झिन्नापूर्वा, पोस्ट -धाखेरवा नानकर, तहसील - निधासन, जिला - लखीमपुर (खीरी), उत्तर प्रदेश ।
1292.	किसान संघर्ष समिति	छिरियारी, मखदुसपुर, जहानाबाद, जिला-जहानाबाद बिहार-804422
1293.	किसान सेना	101, कोलियान, विशुनगढ़ रोड, छिबरामऊ, कन्नौज, उत्तर प्रदेश ।
1294.	किसान शक्ति जनतांत्रिक पार्टी	मकान नं0 - 12/445, मझौला आवास विकास, तहसील - सदर, जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1295.	किसान विश्व पार्टी	ग्राम व पोस्ट-सफिपुर, थाना-देवां, जिला-बाराबंकी, उत्तर प्रदेश-225301
1296.	किशोर राज पार्टी	एल - 2/601, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1297.	कोन्गु देसा मारुमलरची मक्कल काँची	नं0 – 301/14, अलगर नगर, गांव – पचनपालयम, पोस्ट – अंतियर, ईरोड, तमिलनाडु- 638501
1298.	कोगुनाडू इलैगनर पड़ाई काची	डो.नं.2/38, जननी गार्डन, अल्लीकुलम, नागम्मा पुत्तूर (डाकघर), साथी रोड, अन्नूर, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु-641653
1299.	कोंगुनाडु मक्कल देसीय कच्ची	5/54, ईस्ट स्ट्रीट, पोस्ट – दू कोंकरायपेट्टै, तालुक - तिरुचंगोड, जिला - नामकल्लक, तमिल नाडु - 638007
1300.	कोसल जनता दल	प्लॉट नं. जे.सी-02, फेज-01, छंद कॉलोनी, राउरकेला, जिला- सुन्दरगढ़, ओडिशा-769015
1301.	कोसल क्रान्ति दल	टेलिफोन एक्सचेंज रोड, रुगुदी पाडा, बालेनगिर - 767001, उड़ीसा ।
1302.	कोशल मुक्ति मोर्चा	रेलवे स्टेशन रोड, तितिलागढ़, जिला - बोलांगिर, ओडिसा ।
1303.	क्रान्ति जनशक्ति पार्टी	1058, यादव पुरा, पुरानी विधान सभा के सामने, वार्ड नं0 – 34, जोन नं0 – 8, तहसील – हजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
1304.	क्रान्तिकारी जयहिन्द सेना	द्वारा एडवोकेट आर0 एन0 काचवे, देवी प्रसाद होटल के पास, एम आई डी सी सेन्ट्रल रोड, अन्धेरी पूर्व, मुम्बई-400093, महाराष्ट्र।
1305.	क्रान्तिकारी किसान सेना	सी-221, ओल्ड मीनल रेसीडेन्सी, राज होम्स, जे0 के0 रोड, भोपाल- 462023, मध्य प्रदेश।
1306.	क्रांतिकारी परिवर्तन पार्टी	देवयानी मार्ग, निकट सिक्सवे बाईपास, अशोक नगर(पूर्वी), इटावा, उत्तर प्रदेश-206001
1307.	क्रान्तिकारी साम्यवादी पार्टी	एम एल ए फ्लैट नं0 26, वीर चन्द पटेल पथ, पटना (बिहार)।
1308.	क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी	शॉप नं.20, तिरुपती कॉम्प्लेक्स, सोनई-राहुरी रोड, सोनई, तालुका- नेवासा, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र- 414105
1309.	क्रान्तिकारी विकास दल	78/09 सी., मौ0 – बिरसा आदिवासी कॉलोनी, पोस्ट – गुलजार बाग, थाना – आलमगंज, जिला – पटना – 800007, बिहार।
1310.	क्रान्तिकारी युवा पार्टी	मकान नं. 318, ओल्ड रोहतक रोड, गुर्जर गली, शाहजादा बाग, दया बस्ती, दिल्ली-110035
1311.	कृषक भारती पार्टी	दुकान नं. 841, गली नं. 11, हरिपुर सैक्टर-4, पंचकूला, हरियाणा- 134112

1312.	कृपा पार्टी	प्लॉट नं.452, खाता सं. 69, शांति भवन, ग्राम- पहाना, पो.ऑ-तिकनपुर, जी.पी.- रामचन्द्रपुर, पी.एस- पाटकुरा, जिला- केन्द्रपाड़ा, ओडिशा- 754153
1313.	कूकी नेशनल असेम्बली	ग्रेस कॉटेज, पेटेवेंग, कवाकेलथेल, पो. ऑ. – इम्फाल, पिन – 795001, (मणिपुर)
1314.	कूकी पीपुल्स एलायंस	लीटल वुड्स, रेंगकाई रोड, जेनहांग लामका, चुराचंदपुर, मणिपुर भारत- 795128
1315.	कुनबी बहुजन सवराज्य पार्टी	एच. नं. 114, ए-2, गाँव और पोस्ट खादी लोलवन, तातुका- संगमेश्वर, जिला-रत्नागिरी, महाराष्ट्र- 415801
1316.	कुशल जनता पार्टी	पुपरी, वार्ड नं0-2, पोस्ट- जनकपुर रोड, जिला- सीतामढी, बिहार- 843320
1317.	लेबर पार्टी (सेक्यूलर)	382/4, गली हरदेव, संत निरंकारी कॉलोनी, दिल्ली-110009.
1318.	लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया	म.न.ए-63, न्यू गोपाल नगर एक्सटेंशन, नानक प्याऊ, रामा पब्लिक स्कूल रोड, गली न.4, नज़फगढ़, नई दिल्ली-110043.
1319.	लक्ष्यघर गणतांत्रिक पार्टी	पुरानी बस्ती, चौकीदारपाड़ा, पो0 ओ0 के0 एम0 रोड, झारसुगुड़ा-2, जिला – झारसुगुड़ा, ओडिसा।
1320.	लचिया जननायक काची(लजक)	नं0 – 18, अरविन्द बिल्स, अमन कोविल, फस्ट क्रॉस स्ट्रीट, श्रीनिवास नगर, पेरुंगालाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600063
1321.	लौकिक समाज पार्टी	द्वारा-चित्रा कॉनवेंट स्कूल, ग्राम – देवपार (वीरसिंहपुर), पोस्ट – मदनपुर, तहसील – बरहज, जिला – देवरिया, उत्तर प्रदेश- 274205
1322.	लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी	ग्राम- शान्तिपुर (मिर्जा), पोस्ट ऑफिस- मिर्जा, पुलिस स्टेशन- पलाशबरी, जिला- कामरूप, असम-781125
1323.	लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया	6/12, सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली- 110016.
1324.	लिबरल सोशलिस्ट पार्टी	विपक्ष गुरुद्वारा साहिब, H. No. 82, एमआईटीसी कॉलोनी, बाय पास रोड, सिरसा, हरियाणा - 125055
1325.	लोग जन पार्टी - सेक्यूलर	शिनपुरी, नवचोतना पथ, अनिसाबाद, पटना, बिहार- 800002
1326.	लोग पार्टी	मकान सं0 33/2, स्टेनले रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211001
1327.	लोहिया संयुक्त समाजवादी पार्टी	एच-ब्लाक, हाउस नं.- 359, सैक्टर – 9, ओल्ड विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1328.	लोक अधिकार लहर पंजाब पार्टी	ऑपोजिट सिविल हॉस्पिटल, तलवंडी साबो, जिला बठिंडा, पंजाब-151302
1329.	लोक आवाज दल	होलिडिंग नं0 20/11, सर्किल नं0 264, अम्बेडकर चौक, विष्णुपुरी, पटना – 800002, बिहार।
1330.	लोक बन्धु पार्टी	1/4908 खसरा नं0.192/193/179, गली नं0-6, बलवीर नगर एक्स, शाहदरा, दिल्ली-110032
1331.	लोक भलाई पार्टी	5-एफ एफ, राजगुरु नगर, फिरोजपुर रोड, लुधियाना, (पंजाब)।
1332.	लोक भारती	ए/702, वेदन्त उन्नत नगर नं. 2, गोरेगांव (पश्चिम) मुंबई- 400062.
1333.	लोक चेतना दल	ग्राम – पकड़ी जलाल, पोस्ट – शुभंकरपुर, जिला – मुजफ्फरपुर, बिहार - 843113
1334.	लोक दल	केन्द्रीय कार्यालय, 8, माल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1335.	लोक एकता पार्टी	एस-8/188, सुधाकर रोड, खजुरी कैण्ट, वाराणसी-221 002, उत्तर प्रदेश।
1336.	लोक गठबंधन पार्टी	नं0 – बी – 16-ए, बेसमेंट ऑफ अलिशा अपार्टमेंट (अतरौला हाउस, 27/6, राम मोहन राय मार्ग) मदन मोहन मार्ग, कृषि भवन के नज़दीक, 3 वे रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226001
1337.	लोक हित राष्ट्रीय विकास पार्टी	ग्रेन मार्केट, लोंगोवाल, जिला – संगरूर, पंजाब।
1338.	लोक इंसाफ पार्टी	बी –XXVII/208/403- डी/5, गुरु रामदास कॉम्प्लेक्स, दुगरी रोड, लुधियाना, पंजाब – 141001।

1339.	लोक जन समाज पार्टी (भारत)	ग्राम रेहरा, पो० निपनियां, थाना परसा मलिक, तह० नौतनवां, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश - 273164
1340.	लोक जन संघर्ष पार्टी	ग्राम- जमुनहा, विकास खण्ड बांकेगंज, पोस्ट- सौंखिया, जिला- लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश- 262802
1341.	लोक जन विकास मोर्चा	कचहरी रोड, थाना-कोतवाली, पोस्ट-राँची-834001, झारखण्ड।
1342.	लोक मानवाधिकार पार्टी	सी. 32/27-16ए, विद्याविहार कॉलोनी, छित्तपुर, वाराणसी-221002, उत्तर प्रदेश।
1343.	लोक निर्माण दल	2, अराधना इन्क्लेव, सुरखपुर मार्ग, फेस-II, दिल्ली।
1344.	लोक परिवर्तन पार्टी (डी.सी.)	भापरा रोड, पुलिस चौकी के सामने, जी.टी. रोड, समालखा, जिला- पानीपत हरियाणा।
1345.	लोक रक्षा पार्टी	ग्राम व पोस्ट ऑफिस - सिरसा, जिला - इटावा उत्तर प्रदेश।
1346.	लोक राष्ट्रीय पार्टी सेकुलर(एस)	अबन्तीबाई नगर, भोगांव, जिला-मैनपुरी, उत्तर प्रदेश- 205262
1347.	लोक समाज पार्टी	बी-1756, गली नं. 25, प्रथम पुस्ता, सोनिया विहार, दिल्ली- 11009
1348.	लोक साम्यां पार्टी	प्लॉट नं0 179, रामचंद्रपुर आर.सी. ठकुरानी, पोस्ट - हरिदेवपुर, कोलकाता- 700104
1349.	लोक संघर्षशील पार्टी	प्रीमिसर्ज नं0 100Z0864894, शास्त्रीमगर, चोटिला, ता0 चोटिला, जिला- सुरेन्द्रनगर गुजरात- 363520
1350.	लोक सत्ता पार्टी	फ्लैट नं.801, श्रीनिवास टावर्स, आईटीसी काकतीय होटल के पास, बेगमपेट, हैदराबाद-500016, तेलंगाना।
1351.	लोक सेना पार्टी	अहमद नगर रोड, मकान नं.-1-4-2956, गुलशन नगर, बालेपीर, बीड, महाराष्ट्र-431122
1352.	लोक सेवा दल	पोस्ट बधिया, तहसील लखीसराय, बिहार-811302.
1353.	लोक शाही पार्टी (सेकुलर),	187-एच, 6/2, जीवन नगर, आश्रम चौक के नजदीक, महारानी बाग बस स्टैंड के सामने, नई दिल्ली - 110014
1354.	लोक शक्ति पार्टी (लोकतांत्रिक)	मकान नं.2, तृतीय तल, शकरपुर खास दिल्ली-110092
1355.	लोक स्वराज्य पार्टी	प्रेमलता गोबिंदराव ब्राम्हंकर, वार्ड नं.-5, गाँव एवं पोस्ट -संगाडी, तहसील-सकोली, जिला-भंडारा महाराष्ट्र- 441802.
1356.	लोक विकास मंच	शॉप नं0 - 159, दूसरी मंजिल, शॉपिंग सेंटर, आर-वर्ल्ड सिनेमा के पास, सेक्टर - 21, गाँधीनगर, गुजरात।
1357.	लोकजागर पार्टी	प्लॉट नं. 17, मैफिल, सन्मार्ग नगर, हुडकेश्वर रोड, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र- 440034
1358.	लोकजन सोशलिस्ट पार्टी	द्वारा वर्पा नेत्रालय, ग्राम व पोस्ट- फूलपुर बाजार, तहसील पिंडरा -, जिलावाराणसी -, उत्तर प्रदेश - 221205.
1359.	लोकप्रिय राष्ट्रवादी पार्टी	ग्राम- मढायना, पोस्ट - सिकरारा, पीपल चौकी, आगरा रोड, तहसील - फतेहाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश-283111
1360.	लोकप्रिय समाज पार्टी	प्रजापति धर्मशाला मंदिर, श्री कालका जी, नेहरू पैलेस, नई दिल्ली- 110019.
1361.	लोकराज्य जनता पार्टी	कार्यालय नं0 1001ए/1बी, प्लॉट नं0 58, ए वार्ड, लक्ष्मीटेक कॉलनी साने गुरुजी बसाहत, कोल्हापूर, जिला-कोल्हापूर, महाराष्ट्र- 416012
1362.	लोकसंग्राम	एच० नं० 1321, लेन नं० 4, धुले-424001.
1363.	लोकशाही निर्माण पार्टी	नं. 6, प्राईम रोज, क्रीन पार्क, दीपक हॉस्पिटल के पीछे, मीरा भयंदर रोड, मीरा रोड, जिला- थाने, महाराष्ट्र- 401107
1364.	लोकशाही पार्टी	नंबर बी-705, ओमकार वेदा सीएचएस, नियर अंबेडकर कॉलोनी, एकनाथ घड़ी मार्ग, परेल पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र - 400012.
1365.	लोकशाही सत्ता पार्टी	"पंचवटी" बोराडीपा, रामजी मंदिर के पास, बावला, तहसील - बावला, जिला - अहमदाबाद, गुजरात -382220।
1366.	लोकशक्ति विकास पार्टी	उदंतपुरी (किलापर), बिहारशरीफ, नालंदा, बिहार-803101

1367.	लोकशासन आन्दोलन पार्टी	259, गुहा गांव, तालुक - रहुरी, जिला - अहमदनगर महाराष्ट्र - 413705
1368.	लोकशासन पार्टी ऑफ इंडिया	सं० नं० 67, प्लॉट सं० 25, प्रतिक बिल्डिंग, फ्लैट नं० 3, विद्यानगर, पुणे-411032, महाराष्ट्र।
1369.	लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी	खसरा नं. 21/9/1 व 10/2, मंगोलपुरी इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज-I, टी.बी.एस एजेन्सी के सामने, नियर आई.बी.पी पेट्रोल पम्प, मंगोलपुरी, नई दिल्ली- 110083.
1370.	लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी	इ-1, 21/7, न्यू राजेन्द्र नगर, डाकघर-रविग्राम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
1371.	लोकतंत्र जागृत पार्टी	सी-410, सुमेल बिजनेस पार्क 7, निकट सोनी नी चली राखियाल, अहमदाबाद, गुजरात - 380023
1372.	लोकतंत्र कल्याण पार्टी	ग्राम-खिरिकोन, पोस्ट-तार, थाना-अगीआवें बाजार, प्रखंड-पीरो, जिला-भोजपुर, बिहार-802207.
1373.	लोकतंत्र विकास पार्टी	ग्राम व पोस्ट शहपुर बम्हैटा, थाना कविनगर, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201009
1374.	लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी	सविता सदन, धूमनगर (कचहरी टोला), पोस्ट- बेलबाग (बेतिया), थाना-नौतन, जिला- पश्चिम चंपारण, बिहार- 845438
1375.	लोकतांत्रिक जनता पार्टी (सेक्यूलर)	मेन रोड, फिरोजपुर, पोस्ट-ऑफिस आन्देर, जिला-सिवान, बिहार-841231,
1376.	लोकतान्त्रिक जनाधार पार्टी	टी-43, ग्राउंड फ्लोर, पंजाबी बस्ती, बलजीत नगर, नई दिल्ली-110008
1377.	लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी	मकान सं० - 107, केशर कालोनी हल्दौनी, ग्रेटर नोएडा, जिला-गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश- 201306 ।
1378.	लोकतांत्रिक जनता दल	मकान नं. 861 पी, सेक्टर-15, पार्ट- II, गुरुग्राम, हरियाणा - 122001
1379.	लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी	एस- 25/51ए-9बी-1, गौतम बिहार कॉलोनी, सरसौली, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221002
1380.	लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी	बैंकर्स कॉलोनी, लक्ष्मीसागर, वार्ड नंबर 01, विजन स्कूल के पास दरभंगा, बिहार - 846009
1381.	लोकतांत्रिक मानवतावादी पार्टी	दुकान नं० 5, एस० डी० 366, शास्त्री नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1382.	लोकतान्त्रिक पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	न० 103, (सर्किल न० 189, होलिंग न० 101/1, 94/86), भीतरी बेगमपुर, पटना सिटी, पटना, बिहार-800009
1383.	लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी पार्टी	ई-2, ओल्ड सोसाइटी, सैजपुर रेलवे स्टेशन के पास, सैजपुर बोधा, अहमदाबाद, गुजरात- 382245
1384.	लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी	सी - 32, आनंद निकेतन, नई दिल्ली - 110021
1385.	लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	27-ए, डी.डी.ए. फ्लैट्स, माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली-110002.
1386.	लोकतांत्रिक समता दल	डी०-104, दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना-800001, बिहार।
1387.	लोकतांत्रिक सरकार पार्टी	द्वारा पी० के० खरिया, एडवोकेट, शताब्दी चैम्बर, नं०-1, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मांडला-481 661, मध्य प्रदेश।
1388.	लोकतांत्रिक सर्वजन समाज पार्टी	बी-103, सपना अपार्टमेंट, रामनगरी, आशियाना नगर, पटना-800025 बिहार।
1389.	लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी	नं० - 5, एच० आई० जी०-160, 100 फीट रोड, नेहरू एन्क्लेव, आगरा, उत्तर प्रदेश - 282001
1390.	मा तेलंगाना पार्टी	8-2-540/4, रोड नं० 4, बंजारा हिल्स, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।
1391.	माँ थरम पार्टी	302, दूसरी मंजिल, इनोवेटिव सान्वी एलीट, डोड्डाथोगौर, ऑप .कृष्णा मिस्ट, अपार्टमेंट प्रगति नगर, चिक्का थोगुरु, डोड्डाथोगौर, बेंगलुरु, कर्नाटक - 560100.
1392.	मानववादी जनता पार्टी	ग्राम- दोगी, पोस्ट- मोरौर, थाना - छबिलापुर, बाया - राजगीर, जिला-नालन्दा, बिहार- 803116

1393.	मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी	नया वार्ड क्र.- 72, मकान नं0 -4872, प्लाट नं.- 123, फेस- 2, स्टार सिटी, कटंगी रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश ।
1394.	मध्य प्रदेश नव निर्माण सेना	2983, प्रिंस कालोनी, न्यूकंचनपुर, आधारतल, जबलपुर-482004, मध्य प्रदेश।
1395.	महाभारत राष्ट्र पार्टी	330,ट्रेड स्कवेर,सफल परिष्कर,खोखरा सर्कल,मणिनगर पूर्व,अहमदाबाद,गुजरात-380026
1396.	महाभारत महाजन सभा	प्लाट नं0 10, विवेकानंद नगर, इनर रिंग रोड, कोलाथुर, चेन्नई-600099, (तमिलनाडु)।
1397.	महाजन मंडली पार्टी	मं0 नं0 - 1-8-27/20, जी0एच0एम0सी0 - 1483, स्ट्रीट नं0-12, चिक्कडपल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश – 500020
1398.	महाजन राज्यम पार्टी	#7/347-2 पी0 – ए0 – 3. सिम्हापुरी कालोनी, चौथी रोड, आर0 टी0 सी0 बस स्टेण्ड के पास, कडपा – 516002, कडपा जिला, आन्ध्र प्रदेश ।
1399.	महाजना सोशलिस्ट पार्टी	द्वार नं0 1-14-297/1, बालामराई, रसूलपुरा, सिकन्द्राबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
1400.	महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी	जायसवाल कॉलोनी,छपरा,जिला-सिवनी,मध्य प्रदेश-480884
1401.	महाक्रान्ति दल	ग्राम-83 अवहदपुर, पोस्ट- कोइलारी, तहसील व परगना- केराकत, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222148 ।
1402.	महामुक्ति दल	ग्राम – उसरांव, डाक घर – इटायें, तहसील - मड़ियाहूँ, जिला – जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
1403.	महान भारतीय संगठन पार्टी	ग्राम व पोस्ट- जंगराल, थाना- वागडोद, तहसील- सरस्वती, जिला- पाटन, गुजरात।
1404.	महान दल	ए-218 डी, धीरज नगर एक्सटेंशन, एतमादपुर, निकट फौजी ह्वा, सैक्टर-30, फरीदाबाद, हरियाणा।
1405.	महान समतावादी पार्टी	म. न. 571, गली न. 10, आदर्श कॉलोनी बिहारीपुरा, निकट खिल्लूराम एकेडमी, विजयनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201009
1406.	महानवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट - कुतुबपुर चनोरा, जिला - फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1407.	महाराणा क्रांति पार्टी	म. नं0 – 698, वार्ड नं0 – 14, बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, राजस्थान
1408.	महाराष्ट्र बहुजन वंचित अघाडी	10 बी, करंजे तर्फ, प्लॉट नं. 7, सातारा, महाराष्ट्र-415002
1409.	महाराष्ट्र बहुजन सन्मान पार्टी	केसकरवाडी, पो. भालवणी, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर महाराष्ट्र- 413310.
1410.	महाराष्ट्र जनकल्याण पार्टी	शॉप नं. 9, पुंजानी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, कन्नौजिन, करान्जा (लाड), जिला-वाशिम, महाराष्ट्र- 444105.
1411.	महाराष्ट्र क्रान्ति सेना	वार्ड नं. 20, मकान नं. 920, प्लाट नं. 58, महावीर हाउसिंग सोसाईटी, नियर गुजराती भवन, इचलकरंजी, तहसील- हातकणंगले, जिला- कोल्हपुर, महाराष्ट्र- 416115
1412.	महाराष्ट्र लोकहितवादी पार्टी	मौजा लेंडवे चितळे, तहसील-मंगळवेढा, जिला - सोलापूर, महाराष्ट्र - 413305
1413.	महाराष्ट्र परिवर्तन सेना (टी)	ग्राम – मांगवडगांव, तालुका – केज, जिला – बीड, महाराष्ट्र ।
1414.	महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष	सुखसागर रिएल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, 101, सॉई पूजा, प्रथम तल, 16वां रोड, मिनी पंजाब होटल के पास, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र- 400050
1415.	महाराष्ट्र विकास आघाडी	गोविंदगज सदन, श्याम नगर, लातूर, महाराष्ट्र।
1416.	महासंकल्प जनता पार्टी	शॉप नं. 22, सन साइन काम्प्लेक्स, रिफाइनरी रोड, पंचवटी गोरवा, बडोदरा, गुजरात- 390016
1417.	महात्मा मक़ल मुनेत्र कझकम	पुराना नं. 56/11-एन, नया नं. 24, डॉ. अम्बेडकर नगर, रेलवे रोड, जिला- कांचीपुरम, तमिलनाडु- 631502
1418.	महात्मा गांधी नेशनल लेबर पार्टी	3/366 जी, कुथुकल स्ट्रीट, पारामाकुडी, रामानाथपुरम जिला, तमिलनाडु- 623707.

1419.	महात्मा मक़ल सेवै पेरियक्कम	कार्यालय नं० - 45, सुभा अधिला नगर, हवाई अड्डा - पी.ओ., तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु - 620007
1420.	महिला & युवा शक्ति पार्टी	मकान नं. 45, न्यू आबादी, सेक्टर- 23, तहसील- सोनीपत, जिला- सोनीपत, हरियाणा - 131001
1421.	महिला मजदूर किसान पार्टी	गावरुकानपुर, पोस्टमाधोगंज, तहसीलबिलग्राम, जिलाहरदोई, उत्तर प्रदेश-241302
1422.	महिला प्रधान पक्ष	1261, 16 मेन, 20 क्रास, ए ब्लॉक, सहकारा नगरा, बैंगलौर - 560092 कर्नाटक।
1423.	महिला सशक्तिकरण पार्टी	यू0जी0एफ0 - 63, उद्यान प्लाजा, उत्तरठिया, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226025
1424.	महिला स्वाभिमान पार्टी	ग्राम - गुमटी नं० - 5, सरॉय करोरा, गोसाईगंज, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 227125
1425.	मै ही भारत	2 ए "रायल", हेस्टिंग्स पार्क रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
1426.	मैदानी क्रान्ति दल	मुख्यालय - मस्जिद वाली गली, माजरा, देहरादून उत्तराखण्ड।
1427.	मजदूर किसान अकाली दल	गाँव-75 जी वी, डाकघर-72 जी वी, वाया-रामसिंहपुर, तहसील- अनूपगढ़, जिला-गंगानगर, राजस्थान।
1428.	मजदूर किसान यूनियन पार्टी	459/1, मो०-सरवट (वसन्त विहार), पो०-खास, जिला व शहर- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश - 251001
1429.	मजलिस मर्कज़-ए-सियासी पार्टी	10-5-391/54/182/ए, भूतल, कशां-ई-घौसिया अलीम, सैयद नगर, 95ए, विधायक कॉलोनी के सामने, रोड नं० -12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
1430.	मजलिस बचाओ तहरीक	16-4-593/ए चेनेहलगुडा, हैदराबाद-500024, (आन्ध्र प्रदेश)।
1431.	मजलूम समाज पार्टी	ग्राम - मौदुखुर्द, तहसील - मवाना, जिला - मेरठ, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 250404
1432.	मक़ल आलुम अरसियल	नं० 2, एन.एस.के. फर्स्ट स्ट्रीट, पेरम्बूर, नेलवायल नगर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600011
1433.	मक़ल अरसियल काची	3/463, पालकार दुरैसामी वट्टम, जी.पी. पालिटेकनिक नियर, जी.पी.नगर, पालनांगकुप्पम गांव, इलागिरी पोस्ट, तीरुपथुर तालुक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु - 635601
1434.	मक़ल देसिय काची	137, कक्कन कॉलोनी, नंगमबाक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600034
1435.	मक़ल कूटामैपु काची	न. 348ए, केप रोड, एट्टूकडै बाजार, टी.एम.बी. बैंक के पास, एडालकुडी, कोट्टार पोस्ट, वैवीस्वरम गाँव, अगस्तीस्वरम तालुक, नागरकोईल, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु-629002.
1436.	मक़ल मसोथा काँची	नं. 480, आर.के.वी. कॉम्पाउन्ड, थैथाकुडी, कथीरुप्पु पोस्ट, सिरकली तालुक, नागापट्टीनम- जिला, तमिलनाडु- 609109
1437.	मक़ल मुनेत्र कांग्रेस	नं. 12, प्रथम क्रॉस स्ट्रीट, बालाजी नगर, पुदुचेरी- 605013.
1438.	मक़ल मुन्नेटरा काचि	62/77, पेरूमल पुरम, कामाराज नगर, 2nd स्ट्रीट भवानी, जिला- इरोड, तमिल नाडु- 638301
1439.	मक़ल मुन्नेत्रा पेरावाइ	डोर नंबर 61E, पोंडी रोड, कोलियानुर गाँव, जिला - विलुपुरम, तमिलनाडु - 605103.
1440.	मक़ल नाला काजगम	नं० 30, वार्ड-2, नेताजी नगर, तातनावलासड, कोडुम्पली पोस्ट, तिरुपत्तूर, तालुक, जिला तिरुपत्तूर, तमिलनाडु- 635653.
1441.	मक़ल नलवाजहवुक काँची	फ्लैट नं० - जी3, वेटरी फ्लैट्स, नं०-7 (पुराना नं० 3ए), कावेरी स्ट्रीट, गाँधी नगर, शालीग्रामम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600093
1442.	मक़ल नीधि मय्यम	#नया 04 # पुराना 172, एल्डमस रोड, अलवरपेट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600018

1443.	मक़ल नीति काँची-इंडिया	नं० 112ए3, वडुक्कु थिरु (प्रवीन कॉम्प्लैक्स), ग्राउंड फ्लोर, त्रिची मेन रोड, थुराईमंगलम पोस्ट, तालुक व जिला – पेराम्बलुर, तमिलनाडु - 621220
1444.	मक़ल राज्यम काचि	नम्बर 1/427, कादुर मेन रोड, पोस्ट- पुदुवेटाकुडी, तालुक -कुन्नम, जिला-पेरमबलुर, तमिलनाडु- 621716.
1445.	मक़ल शक्ति काची	न्यू नं० 41, पुराना नं० 15, बाजार लेन, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600 015, तमिलनाडु।
1446.	मक़ल सनानायगा कडियार्सु काँची	नं. 3/123, गंगाई अम्मन कोइल स्ट्रीट, साउथ मलायमबक्कम गांव, कुनराथुर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600069
1447.	मक़ल सेवई काची	नं. 10, बालाजी नगर, ऐर्नाउर, चेन्नई, तमिलनाडु- 6000057
1448.	मक़ल तिलागम मुन्नेत्र कलगम	डी. नं. 6/431, पुन्नायपुरम, कडायानल्लूर तालुक, टेन्कासी, जिला- तिरुनेलवेली, तमिलनाडु- 627855.
1449.	मक़लाञ्ची कञ्ची	नं. 57, जगजीवनराम स्ट्रीट, पारुम्बू, अलवारकुरीची, अम्बासुमुतीरम तालुक, तिरुनेलवेली- जिला, तमिलनाडु-627412
1450.	मक़लाञ्ची मुनेत्र कलगम	5/187, डॉ. जे.जे.स्ट्रीट, कास्पापुरम, अग्रमथेन, चेन्नई, तमिल नाडु - 600126
1451.	मालवा कांग्रेस	133, स्नेह नगर, सपना-संगीता रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452001
1452.	मना देशम पार्टी	ए-1, प्रथम तल, अनंता साई अपार्टमेन्ट, विवेकानन्द नगर कॉलोनी, कुकाटपली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश- 72
1453.	मन तेलंगाना राष्ट्र समायिका पार्टी	मिग ओग ब्लॉक प्रथम तल नंबर 6, बागलिगमपल्ली, अपोलो फार्मसी के ऊपर, टीएसएसपीडीसीआई, कार्यालय और इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, सुंदराया विज्ञान भवन और पार्क के पास, हैदराबाद, तेलंगाना-500044
1454.	मानव अधिकार रक्षा पार्टी	36, दरियास्थान स्ट्रीट, ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं० - 3, काटावाला बिल्डिंग (गोपमणि चेम्बर), मुम्बई, महाराष्ट्र – 400003
1455.	मानव आवाज पार्टी	मोहल्ला - नलापुर, वार्ड नं० - 6, नारनौल, जिला – महेन्द्रगढ़, हरियाणा- 123001
1456.	मानव एकता पार्टी	दादुसिंह कालोनी, प्लॉट नं० 53, सिरपुर, जिला-धुलिया (धुले), महाराष्ट्र।
1457.	मानव हित पार्टी	भवन संख्या-575/1, सेक्टर-24, ट्यूवैल कालोनी, आगर रोड. एटा, उत्तर प्रदेश- 207001
1458.	मानव जागृति मंच	552, बैंक कॉलोनी, देवली गांव, नई दिल्ली-110062.
1459.	मानव कल्याण मंच	सा० 6/186, एम० एक्स – 1, अकथा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
1460.	मानव क्रान्ति पार्टी	न्यू सर्राफा बाजार, वार्ड नं. 11, नगर पंचायत खागा, जिला- फतेहपुर, उत्तर प्रदेश- 212655
1461.	मानव मुक्ति मोर्चा	हमीदगंज वार्ड नं०-13, पत्थर मिल के सामने, डाक घर-मैदिनी नगर- 822101, जिला-पालामू (झारखण्ड)
1462.	मानव संघर्ष पार्टी	हाउस संख्या-54, ग्राम और पोस्ट-मनियां, ब्लॉक-भदौरा, जिला – गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 233001
1463.	मानव पार्टी	जी-23, यूरेका टावर्स, किट्टूर चेन्नम्मा सर्किल, हुबली-580029, (कर्नाटक)।
1464.	मानवाधिकार कांग्रेस पार्टी	एच. नं.26, जोशी टोला खीरी टाउन-1, पी.एस.खीरी, तहसील- लखीमपुर, जिला-खीरी, उत्तर प्रदेश-262702
1465.	मानवाधिकार जनशक्ति पार्टी	जे-6/7-बी-डी, पुलिस स्टेशन के समीप, जैतपुरा वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221001
1466.	मानवतावादी क्रान्ति दल	मानव भवन, कुल्लीखेड़ा, अहमामऊ, पोस्ट – अर्जुनगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
1467.	मानवतावादी समाज पार्टी	638/307, ग्राम-जरहरा, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1468.	मांग समाज पार्टी	ग्रामपहदुल्लम- (पहदेवाजीत), पोस्टरतनपुर-, थाना हलधरपुर, सदर मऊ, जिलामऊ, उत्तर प्रदेश-221706

1469.	मणिपुर डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट	लैरिक येंगबाम लैकई (साऊथ), 33 के० वी० इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन के सामने, के० एम० टावर के पास, तिरुपति लेन, पूर्व इम्फाल – 795010 मणिपुर।
1470.	मणिपुर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	कोइजम अपार्टमेन्ट, वीआईपी कॉलोनी, 107/109 बाबूपारा, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर- 795001
1471.	मणिपुर पीपुल्स पार्टी	पीपुल्स रोड इम्फाल- 795001, मणिपुर।
1472.	मनिथा उरिमईगल कलागम	14/41, गुड्स शैड स्ट्रीट, मदुरै – 625 001 तमिल नाडु।
1473.	मनीथनेया जनान्यागा काँची	124, कामराजार रोड, मौला कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, इलायंगुडी, जिला – शिवगंगई, तमिलनाडु – 630702
1474.	मनीथानेया मककल काची	तीसरी मंजिल, सं० 6, वडा मराइकोयेर गली, चेन्नई-600001, तमिलनाडु।
1475.	मन्नन मैथरगल कडागम	नम्बर-62,वार्ड-4,संथानमपट्टु,कामराज स्ट्रीट,मनमथी (ओ.पी) (टीके) तिरुपोरूर,चेंगलपेट्टु जिला,तमिलनाडु-603103
1476.	मनुवादी पार्टी	201, विरहाना, पांडेगंज, सुभाषमार्ग, लखनऊ-226004, (उत्तर प्रदेश)।
1477.	मानवाधिकार नेशनल पार्टी	12, द्वितीय तल, स्वागत काम्पलेक्स, रामबाग रोड, मणीनगर, अहमदाबाद, गुजरात – 382443
1478.	मानवीय भारतपार्टी	ग्राम व पोस्ट- रामपुर नद्दी, तहसील- मडियाहु, जनपद - जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222105
1479.	मारालैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट	सेहा-796901, छिमतुईपुई जिला, (मिजोरम)।
1480.	मराठवाडा जनता पक्ष	मौजे पाखर सांगवी, गट नं० – 39, संत तुकाराम विद्यालय के पास, तालुक व जिला – लातूर, महाराष्ट्र - 413512
1481.	मरूमलार्ची द्रविड मुन्नेत्र कडगम	'त्यागम,' नं० 141, रूक्मणि लक्ष्मी पति सलाई, इगमोरे, चेन्नई- 600008, (तमिलनाडु)।
1482.	मरूमलार्ची जनता काची	62/5, पिल्लैयार कोविल स्ट्रीट, पम्पिरेड्डीपट्टी- पोस्ट व तहसील, धर्मापुरी जिला, तमिल नाडु- 636905
1483.	मार्क्सिस्ट कमयुनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (यूनाईटेड)	# 1-8-742/2/3, बाग लिंगमपल्ली, अचाय नगर, हैदराबाद-500044, तेलंगाना
1484.	मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रेड फ्लैग)	डूर नं.- 828, द्वितीय तल, एरोमा बिल्डिंग, पुडुक्कड- पोस्ट ऑफिस, ग्रिथूर - जिला, केरल- 680301.
1485.	मार्क्सवादी जनता पार्टी	33, कुन्दन पुरा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश – 251002
1486.	मातृ भूमि विकास पार्टी	मार्फत श्री काशीनाथ त्रिपाठी, अस्पताल रोड, मऊ चिबी, बांदा- 210209, (उत्तर प्रदेश)।
1487.	मातृभूमि सेवा पार्टी	ए- 118, दुर्गा विहार, देवली के पास, नई दिल्ली-110062.
1488.	मौलिक अधिकार क्रांति पार्टी	एच. नंबर-402, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 2-3, गली नंबर-3, फ्रेंड्स एन्क्लेव, शाहबेरी, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201009
1489.	मजदूर दलित किसान महिला गरीब पार्टी (हिन्दुस्तानी)	गद्दी अशरफ खान, जसमई रोड, फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश
1490.	मजदूर एकता पार्टी	नं. बी-2/208, नन्द नगरी, शहादरा, दिल्ली- 110093
1491.	मजदूर किरायेदार विकास पार्टी	प्लॉट नं. 116, म्युनिसिपल नं. 500/3ई/4, ब्लॉक नं. 30, गली नं. 6, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली- 110032
1492.	मजदूर विकास दल	क्वाटर नं. प्लाट-ई/124, फेज-1, छिन्द, राउरकेला, जिला- सुन्दरगढ़, ओडिसा-769015
1493.	मीनवर मक्कल मुन्नानी	नं० – 51, ओल्ड नं० – 24, तम्बु लेन, रॉयपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु – 600013
1494.	मेघ देशम पार्टी	मेघवंश भवन, ई-70 बी, बजरंग विहार तृतीय, हरमाडा घाटी, जयपुर, राजस्थान।

1495.	मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी	मिशन कम्पाउंड, मावखार, शिलांग-793001 (मेघालय)।
1496.	मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल	मकान सं. 531/62, भिण्डिया टोला, बड़ा चांदगंज, प्रताप सिंह मार्ग, थाना- अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226024
1497.	मेरा गाँव मेरा देश पार्टी	मकान नं0 – 142, गाँव – इस्लामपुर, पोस्ट – साऊथ सिटी-II, गुडगाँव, हरियाणा – 122018
1498.	मेरा वतन पार्टी	डी. न. 23-4-227/5, अशोक स्तंभ के पास, सुल्तान शाही, हैदराबाद, तेलंगाना - 500065.
1499.	मेरकु तमिलागम काची	डी.नं.4/387, संजय गार्डन, थयमपलयम, मुथियानेरिचल(पीओ), कंगायम वाया तिरुप्पुर(टीके), तिरुप्पुर जिला, तमिलनाडु – 638701
1500.	मेधा पार्टी	13 ई/10ए, राजीव नगर (सुतुरखाना), डाकखाना-तेलियरगंज, जनपद – इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
1501.	एम.जी.आर. मक्कल काची	नं. 6,4 क्रॉस स्ट्रीट, पहली मुख्य सड़क, गोपालपुरम पूर्व, पट्टाभिराम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600072.
1502.	मिहिर सेना	नागर्स च्वाइस, एस-47, साउथ साइड, जी0टी0 रोड, जी.टी. रोड, लाल कुआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1503.	माइनोरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी	13, हाइड्रे रोड काम्प्लैक्स, मोमिनपुरा, नागपुर – 440018, महाराष्ट्र।
1504.	माइनोरिटी पीपल्स पार्टी	पीपी न.-55,56, दाग न.22,23, ग्राम-ढिंगारति, मौजा-लहारिधाट, पोस्ट-लहारिधाट, थाना- लहारिधाट, जिला-मोरिगाव, असम- 782127
1505.	मिशन एकता पार्टी	म0 नं0 790/12, सलारा मोहल्ला, रोहतक, हरियाणा- 124001
1506.	मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा	सुपौल बाजार, कालेज रोड, वनदेवी नगर, विरौल, दरभंगा, बिहार- 847203
1507.	मिथिलांचल विकास मोर्चा	महुआर, गौड़ा बौराम, पोस्ट – आसी, जिला – दरभंगा, बिहार – 847203
1508.	मिथिलावादी पार्टी	ग्राम-पलिवार, पोस्ट-रांटी, थाना-राजनगर, वार्ड नंबर-08, हनुमान मंदिर के समीप, मधुबनी बिहार-847211
1509.	मिजोरम पिपुल्स काँफ्रेस	जनरल हेडक्वार्टर्स, ट्रेजरी स्कायर, आइजॉल-796001, (मिजोरम)
1510.	मो दल	कार्यालय - मुकुर प्रेस प्रेमाईजेज, भाषाकोस लेन, नीम चौरी, पोस्ट-चांदनी चौक, पी.एस.- लाल बाग, जिला कटक -, ओडिशा - 753002.
1511.	मोडरेट पार्टी	ग्राम-खखड़ी (मगहरा चौराहा).पोस्ट-बालेपुर कलां, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश ।
1512.	मूल भारती (एस) पार्टी	मं0 नं0 25, खूनी मसित के पास, मोगा, मेहला सिंह मोगा-142001, जिला-फरीदकोट, (पंजाब) ।
1513.	मूलजन शक्ति पार्टी	मकान नं.394, गली नं.18, विश्वकर्मा मंदिर के पास, करन विहार, करनाल, हरियाणा-132001
1514.	मूलनिवासी समाज पार्टी	गाँव-मघईपुर, डाकखाना-महाराजगंज, जनपद-आजमगढ़-276137, उत्तर प्रदेश ।
1515.	मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज ऑफ इण्डिया	परसपुर-कुड़वार, सुल्तानपुर-228155, उत्तर प्रदेश ।
1516.	मदर इंडिया पार्टी	खसरा नं0 – 143, कुरे के बाद बना नं0 - 143/3, ग्राम- जौन समाना, परगना व तहसील - दादरी, जिला - गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
1517.	मदर लैंड नेशनल पार्टी	सर्वे नं. 20+21, डुप्लेक्स नं. 05, नोमान डुप्लेक्स, इकबाल एवेन्यु के पास, नियर कैनल, फतेहवादी, अहमदाबाद, गुजरात- 380055
1518.	मौलिक अधिकार पार्टी	बिरोली-मोतीनगर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224201.
1519.	मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम व डाक- बसन्तपुर, जिला- मुर्शिदाबाद, एस.डी. व पी.एस. धुमकल, पश्चिम बंगाल- 742406.
1520.	मूलनिवासी अधिकार पार्टी	एस.-96, यू.पी.एस.आई.डी.सी., सेक्टर-5, जगदीशपुर, जिला-अमेठी उत्तर प्रदेश- 227817

1521.	मुंदडुगु प्रजा पार्टी	डी.नं. 32-13-1/1, लावन्या अपार्टमेंट्स, फ्लैट नं. बी/3, मोंगलराजपुरम, विजयवाडा, आन्ध्र प्रदेश- 520010
1522.	माई इंडिया पार्टी	447/265, द्वितीय तल, पूनामल्ली हाई रोड, अंमजीकरै, चेन्नई, तमिलनाडु- 600029
1523.	नाडालुम मक्कल कल्छी	7/330, भू तल, दुवारगा नगर, मनाली न्यू टाउन, चेन्नै, तमिलनाडु- 600103.
1524.	नाम इन्दियर पार्टी	73एफ/1ए, पोलपेट्टई, थूथुकुडी, तमिलनाडु- 628002
1525.	नाम तमिलार काँची	द्वार नं० 7, प्लाट नं० 8, हॉस्पिटल रोड, सैन्थिल नगर सिन्ना पोरुर, , चेन्नै- 600 116 तमिल नाडु ।
1526.	नारी नर रक्षक पार्टी	राज लक्ष्मी निवास, ककराली रोड, ग्राम-अनेग, बेहटा, अब्दुल पुर, प्राथमिक पाठशाला के पीछे, तहसील-हरदोई, जिला-हरदोई, उत्तर प्रदेश-241001
1527.	नव भारत निर्माण सेवा पार्टी	प्लाट न.145/245/1141/1356, खाता न.50/4873, हाथी पथर लेन, त्रिनाथ मंदिर के पास, रानीगुडा फार्म, थाना, जिला-रायगडा, ओडिशा- 765001
1528.	नागालैंड कांग्रेस	मकान नं० – 202, फैलोशिप कॉलोनी, आई एम सी हॉल के पास, दीमापुर, नागालैंड - 797112
1529.	नागरिक अधिकार पार्टी	नंदलालपुर, पोस्ट – नंदलालपुर, वाया – मथुरापुर, जिला – भागलपुर, बिहार- 813222
1530.	नागरिक अधिकारशक्ति सेवा पार्टी	ए-63, जनता जीवन कैम्प, तिगरी, खानपुर, दिल्ली-110062
1531.	नागरिक चेतना पार्टी	सर्वोदय नगर, टीचर्स कॉलोनी पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ।
1532.	नागरिक एकता पार्टी	3/305, विशाल खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश
1533.	नागरिक सेवा पार्टी(आर)	4, तायल बिहार कॉलोनी, गेट नं० - 2, ऐशबाग रोड, हैदरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226004
1534.	नागरिक विकास पार्टी	728, एबीसी, एकता नगर, प्रोफेशनल कोरियर के सामने, मोदी हुण्डाई शोरूम के पास, सातिवली, बसई रोड, बसई (पूर्व),
1535.	नई क्रान्ति पार्टी	बाब मृत्युंजयनाथ मंदिर, कुम्हारन टोला प्रथम, गोला गोकर्णनाथ, जिला- लखीमपुर- खीरी, उत्तर प्रदेश- 262802
1536.	नैतिक पार्टी	314, सिटी सेन्टर निकट प्रेस क्लब, हजरतगंज लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1537.	नक्की भारतीय एकता पार्टी	वार्ड नं०-1, मोहल्ला-हरिजन बाला, किठौर मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
1538.	नलवजहिककडगम	कथिरवन इल्लम, 94/2, कलवै चेट्टी स्ट्रीट, चिन्तदृपत, चेन्नई, तमिलनाडु- 600002
1539.	नम इंडिया नाम इंडियार काँची	मकान सं० 9/8, फ्लैट सं० -3, स्वागता अपार्टमेंट, चेलप्पा स्ट्रीट, ओट्टेरी, चेन्नई तमिल नाडु- 600012
1540.	नमाधू मक्कल काँची	नं० 3, पिल्लायार कैल स्ट्रीट, कस्बा, वेल्लोर-632001, तामिलनाडु ।
1541.	नमदु कोन्गु मुनेत्र कलगम	5एफ संजीत प्लाजा, तिरु वी.का. स्ट्रीट, तिरुपुर रोड काँगैयम, तिरुपुर जिला, तमिलनाडु- 638701.
1542.	नम्मा कांग्रेस	नं० 98, वर्तूर मेन रोड, बैंगलोर पूर्व, बैंगलोर—560087 कर्नाटक।
1543.	नारायणी सेना	निवास-ग्राम, पोस्ट-मालीपुर, जिला-अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश ।
1544.	नारी पंचायत पार्टी	प्लाट नंबर-79, पॉकेट-4, सेक्टर-23बी, द्वारका, नई दिल्ली-110 077
1545.	नशा मुक्त भारत पार्टी	तेजस्वी हाउस, विवेक विहार कॉलोनी, फरूखाबाद रोड, नई मंडी, इटावा, उत्तर प्रदेश- 206001
1546.	नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी	हाउस नं. 99, वार्ड नं. 39, गंगोत्री, गंगा विहार, आर.पी.एस. रोड, दानापुर, जिला- पटना, बिहार- 801503
1547.	नैशनल अधिकार इंसाफ पार्टी	मकान नं. - 230, गली नं० - 7, एस० ए० एस० नगर, अबोहर रोड, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब
1548.	नेशनल अमन पार्टी	मो० – पंजाबियान, नगीना, जिला - बिजनौर, उत्तर प्रदेश – 246762
1549.	नेशनल अपनी पार्टी	डी-1, 242/9, मेन सर्कुलर रोड, सोनिया बिहार, दिल्ली – 110094

1550.	नेशनल आवामी यूनाइटेड पार्टी	मकान नं.- 62, प्रियदर्शनी लेन, पाटा बोहड़ी, जम्मू एवं कश्मीर- 180002
1551.	नेशनल बैकवर्ड (मूल), दलित, माइनॉरिटीज़ क्रांति दल	1st ई-17, जय नारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान – 334003
1552.	नेशनल भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी	576/2, पंजाबियान-5, खुर्जा, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश- 203131
1553.	नेशनल ब्लैक पैन्थर पार्टी	दुकान क्र.1, हिल पार्क, तिरुपति अपार्ट., कोकणीपाडा, कुरार गांव, मुम्बई, महाराष्ट्र – 400097
1554.	नेशनल कन्फेड्रसी ऑफ इंडिया	63, साउथर्न एवेन्यू, फ्लैट नं0 – 9, कोलकाता, पश्चिम बंगाल – 700029
1555.	नेशनल दलित दल पार्टी	7/398-8, बालिजापल्ली (एचसी), रेवेन्यू वार्ड नं. 7, मनौर (एसओ), राजामपेट मण्डल, कडापा – जिला, आन्ध्र प्रदेश- 516126
1556.	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	जंग बहादुर यादव का मकान, गांव – मौलानीपुर बाजार, पोस्ट – तरवाँ, तहसील – लालगंज, जिला – आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
1557.	नेशनल डेमोक्रेटिक मिशन	सी-63, प्रताप नगर, हरि नगर, नई दिल्ली- 110064
1558.	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी	सेन्ट्रल ऑफिस-चंगानाचेरी-2 कोट्टायम जिला, (केरल)।
1559.	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (भारतीय)	83, मुहल्ला- उस्ताद, जम्मू, जम्मूलोचन कम्प्यूनिटी हॉल के निकट, जम्मू एण्ड कश्मीर- 180001
1560.	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (सेक्युलर)	टीसी 28/1628, पुल्लामाडॉम कम्पाउण्ड, श्रीकण्ठेश्वरम, तिरुवन्नतपुरम, केरल- 695023
1561.	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ साउथ इंडिया	21/7, नवीन फ्लैट्स, मीनाक्षी स्ट्रीट, पेराम्बुर, चेन्नई तमिलनाडु- 600011
1562.	नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट	सी-4डी, 42वी, जनकपुरी, नई दिल्ली।
1563.	नेशनल डेवलपमेन्ट पार्टी	हाऊस नं0-ए-8-2, मुल्तानी कॉलोनी, बीदर-585 401, कर्नाटक।
1564.	नेशनल डक्कल पार्टी	एस एच 15/83, 3डी, विवेकपुरम भरलाई, शिवपुर वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221003
1565.	नेशनल फेडरल पार्टी	म. नं0 80/3ए, ग्राउंड फ्लोर, बसंत गाँव, बसंत विहार, नई दिल्ली – 110057
1566.	नेशनल फिफ्टी फिफ्टी फ्रंट	मकान संख्या- 77, गार्डन सिटी कॉलोनी, पोस्ट- शहामात गंज, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश- 243005
1567.	नेशनल फ्यूचर पार्टी	देवरिया हाउस, जी.पी.ओ.के पीछे पुरानी मण्डी, अजमेर, राजस्थान।
1568.	नेशनल ईकलाब पार्टी	E1/576, गली नंबर-12, (मजार के पास), 33 फूटा रोड, नेहरू विहार, मुस्तफाबाद, दिल्ली- 110094.
1569.	नेशनल जागरण पार्टी	मकान संख्या-14, मौंटेथरी स्कूल लेन, निकट वाले मारुति ऑटो मोबाईल्स, बोरिंग रोड, पटना, बिहार-800001.
1570.	नेशनल जनहित कांग्रेस (ए बी)	043ए/ 5 प्यारे लाल बिल्डिंग, सरकारी कालेज के पास, महरौली रोड, गुडगांव, हरियाणा।
1571.	नेशनल जनसत्ता पार्टी	तेजाजी चैन्च्या वाली ढाणी मु0 पो0 -खोरी, तहसील-शाहपुरा, जिला- जयपुर-303103 राजस्थान।
1572.	नेशनल जनता पार्टी (इंडियन)	प्लॉट नं0 -385, खाता नं0 - 105, ग्राम - मोहम्मदपुर हरी, पोस्ट व थाना - भगवानपुर, जिला - वैशाली, बिहार - 844114
1573.	नेशनल लेबर पार्टी	डी-22, ऑफिस नं0 11, डी-ब्लॉक, पांडव नगर, दिल्ली-110092।
1574.	नेशनल लोकमत पार्टी	ग्राम – जिसौरी, डाकखाना – मुंडाली, जिला – मेरठ, उत्तर प्रदेश।
1575.	नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी	46, गुलिस्ता कॉलोनी, लखनऊ-226001, (उत्तर प्रदेश)।
1576.	नेशनल महा सभा पार्टी	माँ कृपा, अमरदीप सोसाइटी, अंबिका चौक, दीसा, बनासकांठा - 385535, गुजरात.
1577.	नेशनल नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	596-ई-डी/एस, आजाद कुटिया, बारा-2, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश – 208027

1578.	नेशनल नव क्रान्ति पार्टी	डी. नं0 – 1-236, गाँव – गंगावरम, मंडल – गुरजाल, जिला – गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश- 522415 ।
1579.	नेशनल ऑरगनाइजेशन काँग्रेस	नं0 1, जीवनानन्दम, सलिया, के. के. नगर, चेन्नई-6000 78, (तमिलनाडु) ।
1580.	नेशनल पार्टी	रूदेन बर्दोयू-202524, (उत्तर प्रदेश) ।
1581.	नेशनल पीस पार्टी सेक्यूलर	रसूलपुर ब्युर, पोस्ट अवधन, तहसील चायल, जनपद-कौशाम्बी, -उत्तर प्रदेश -212218
1582.	नेशनल पीपुल्स काँग्रेस	मकान नं. 3-6-200, फ्लैट नं. 105, अरुणोदया अपार्टमेन्ट, स्ट्रीट नं. 15, हिमायतनगर, हैदराबाद- 500029 आन्ध्र प्रदेश
1583.	नेशनल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया	एन-51/1, फ्लैट नं. 2, अपर ग्राउण्ड फ्लौर, राजपुर खुर्द, हरगोविन्द एन्कलेव, तहसील- हौज खास मेहरौली, नई दिल्ली- 110068
1584.	नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेस	होलिडिंग नं. 223, हाउस नं. 6, वार्ड नं. 26, प्रगति पथ पर स्थित, राजधानी मस्जिद के पास, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006.
1585.	नेशनल समाजवादी कांग्रेस	नं.42, नायडू लेआउट, कुवेम्पु नगर, बैंगलोर, कर्नाटक-560014
1586.	नेशनल सेक्यूलर कान्फ्रेंस	एम0आई0एस0एफ0ए, कोडुवली (पी0 ओ0), कोझिकोड डी टी., केरल- 673572.
1587.	नेशनल सोशलिस्ट पार्टी (युनाइटेड)	फ्लैट नं. 6, प्रथम तल, साई कृपा हाउसिंग सोसाइटी, 45/6, हॉस्पिटल कॉलोनी, तालेगांव, डभाडे, तालुका- मावल, जिला- पुणे, महाराष्ट्र- 410507
1588.	नेशनल टार्गेट पार्टी	नं. 158/ए, तेहखण्ड ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020.
1589.	नेशनल टाइगर पार्टी	सेन्ट्रल हेड आफिस-सरोजनगर, पोस्ट आफिस-कालगीगंज, वाया/थाना- कहैलगांव, जिला-भागलपुर, बिहार- 812303.
1590.	नेशनल युनियनिस्ट जमींदार पार्टी	129, नई धान मण्डी, श्रीगंगानगर, राजस्थान-335001
1591.	नेशनल वोमेन्स पार्टी	एच.नं.2-247, श्री साई नगर, (वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल के पास), जीलेगूडा सरूर नगर, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश – 500097
1592.	नेशनल वर्ल्ड लीडर पार्टी	दूसरी मंजिल, एटीएम के सामने, नवी भाग, बेरासिया रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश -462038.
1593.	नेशनल वर्ल्ड लाईफ पंचतत्व पार्टी	पाटीदार कॉलानी, भीलखेडी रोड, शुजालपुर मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश ।
1594.	नेशनल यूथ पार्टी	फ्लैट नं0 ए-202, यूरो अपार्टमेन्ट, सैक्टर-5, राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) ।
1595.	नेशनलिस्ट चेरिटी काँग्रेस	बिशोप हॉउस, गात्रियल कम्पाउन्ड, पानाविलाइ थक्काले-629175, जिला-कन्याकुमारी, तामिलनाडु ।
1596.	नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया	जागो बिस्वा, होलिंग नं. -4719, ग्राम- हत्गाचा, डाकघर- बानीपुर, थाना संकरैल, जिला-हावड़ा, पिन-711304
1597.	नेशनलिस्ट जनशक्ति पार्टी	अभिनव निवास, रापतपुर, बेलघाट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश – 273404 ।
1598.	नेशनलिस्ट जस्टिस पार्टी	नं. 1525/1, गली नं. 33, प्रीत नगर, न्यू शिमला पुरी, लुधियाना, पंजाब- 141003
1599.	नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रन्ट	एस-8, दिब्या मॉल, टोंक राड, लाल कोठी, जयपुर (राजस्थान) ।
1600.	नेशनलिस्ट पावर पार्टी	एल. -1 1100/2, गली नं0 25, संगम विहार, नई दिल्ली- 110062.
1601.	नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस पार्टी	ए9/124, कल्याणी थाना तथा पोस्ट ऑफिस-कल्याणी, जिला-नाडिया, पश्चिम बंगाल-741235.
1602.	नेचर मेनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी	वार्ड नं. 1, कथुआ (जम्मू और कश्मीर) ।
1603.	नव भारत डेमोक्रेटिक पार्टी	चिरावाल एवं एसोसिएट, एफ 6/35, यूनाइटेड अपार्टमेन्ट्स, ईस्ट स्ट्रीट, पुणे- 411001 महाराष्ट्र ।
1604.	नव भारत जागरण पार्टी	गोलेच्छा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन के सामने, फलौदी, जिला- जोधपुर, राजस्थान- 342301

1605.	नव भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	बी- 100, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली- 110096
1606.	नव चेतना पार्टी	मोहल्ला – जगतनगर, कस्बा व पोस्ट – भोगाँव, जिला – मेनपुरी, उत्तर प्रदेश – 205262 ।
1607.	नव जनक्रान्ति पार्टी	बी – 11/42, अहाता रोहिला, गौरीगंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश – 221001
1608.	नव भारत नेशनल पार्टी	सर्वे सं०-627, भैरव गुट्टा, ग्राम-रवाल्कोले, मंडल-मेदचल, जिला-रंगा रेड्डी. आन्ध्र प्रदेश ।
1609.	नव प्रजा राज्यम पार्टी	पुराना म० नं० 10-30 नया म० नं० 11-54, हरिजन-वाडा (पी व एम) यूतूनूर, जिला - आदिलाबाद, आन्ध्र प्रदेश - 504311
1610.	नवा समाज पार्टी	मकान नं. 5-7, बुद्धाराम ग्राम, गोपालपेटा मण्डल, वनापथी जिला, तेलंगाना स्टेट।
1611.	नवभारत सेना	नंबर 14/15, चामुंडेश्वरी बिल्डिंग, तीसरा क्रॉस, चौथा मेन रोड, चमराजपेट, बेंगलुरु, कर्नाटक-560018
1612.	नवम दिशा दल	4/684, विभव खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010
1613.	नवरंग कांग्रेस पार्टी	डी.सं. 866/1, पेडवड्ढापुरी गाँव, मंगलगिरी मंडल, गुण्डूर जिला, आन्ध्र प्रदेश- 522302
1614.	नवतारम पार्टी	डोर नं० 26-37, सुब्बायाथोटा, चिलकलुरीपेट, जिला – गुंटूर, आंध्र प्रदेश – 522616
1615.	नवबहुजन समाजपरिवर्तन पार्टी	185, सह्याद्रीनगर, जी - वार्ड, लोनावला, तहसील - मावल, जिला - पुणे, महाराष्ट्र – 410401
1616.	नवभारत एकता दल	धीमान भवन, नगरोटा सूरियां, तहसील- ज्वाली, जिला- कांगडा, हिमाचल प्रदेश-176027
1617.	नवभारत पार्टी	538क/409आदर्शपुरम, त्रिवेनीनगर-3, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226020
1618.	नवीन समाजवादी दल	133/4सी/1सी, तेलियरगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1619.	नवीन भारत निर्माण मंच	पीपलवाडी खाड़की, गाँव व डाकघर-कसोर जिला-आनंद, गुजरात ।
1620.	नवजवान संघर्ष मोर्चा	डी/711, टाउनशिप, भवनाथपुर, गढ़वा, झारखण्ड-822112
1621.	नवलोक समाज पार्टी	24बी, रेणुका बाग, नयी अवधेशपुरी कर्मयोगी, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282010.
1622.	नवनिर्माण पार्टी	प्लॉट नं. 1588-पी, सेक्टर- 5, अर्वन एस्टेट, तहसील- थानेसर, केडीबी रोड, जिला- कुरुक्षेत्र, हरियाणा- 136118
1623.	नवोदय जनतांत्रिक पार्टी	खसरा नंबर 31/23 और 49/3/81, गुप्ता निवास, गली नंबर-45, बी-ब्लॉक, कौशिक एन्क्लेव, पुरारिक, दिल्ली-110084
1624.	नवोदयम पार्टी	डी० नं० 4-96/2, राम मन्दिर के पास, नल्लाकावरी स्ट्रीट, इटुकुरु गाँव, गुन्टूर रुरल मण्डल, जिला-गुन्टूर आन्ध्र प्रदेश ।
1625.	नवसर्जन भारत पार्टी	मकान सं.- 492, फलफलिया, कृष्णा पेट्रोल पंप के सामने, वाघधरा रोड, दादरा, दादरा एवं नागर हवेली- 396193
1626.	नवयुग निर्माण पार्टी	सी - 2, रुम नं० 401, शगुन रेसिडेंसी, माह्यावंशी फलिया, दादरा, दादरा नगर हवेली- 396193
1627.	नवयुग पार्टी	1-ग्राउंड फ्लोर, बेगमपुर, मालवीय नगर नई दिल्ली-110017
1628.	नवयुवक आत्मनिर्भर पार्टी	एट-सी/ओ बबीता कंवर, 213 रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी, विपरित कनकपुरा, जयपुर, राजस्थान- 302012
1629.	नवा पंजाब पार्टी	52-ई, हीरा नगर, पटियाला, पंजाब- 147001
1630.	नया भारत पार्टी	8- बापु सब्जी मण्डी, नगर पालिका रोड, सुमेरपुर, राजस्थान – 306902
1631.	नया दौर पार्टी	ए-406 डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
1632.	नया सवेरा पार्टी	प्लॉच नं० जे-2-530/8, जे-2 ब्लॉक, गुप्ता कॉलोनी, संगम विहार, नई दिल्ली- 110062.

1633.	नीथी निजयाथी पार्टी	डोर नं0 36-178ए, पदमावति नगर, कल्याणापूरम, नारायणावनम मंडल, जिला-चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश- 517581
1634.	नेहरु जनहित काँग्रेस	सैनीपुरा मोहल्ला, बाद शाहपुर, तहसील व जिला-गुडगाँव, हरियाणा ।
1635.	नेताजी आदर्श पार्टी	298, कुट्टीयानी, 28- थोडुपुझा, इडुडुकी जिला, केरल- 685584
1636.	नेताजी काँग्रेस सेना	रंगा प्लेस, ग्राउंड फ्लोर, एस० नं० 48/2/10, वाघजल नगर, अम्बेगाँव खुर्द, कटराज-पो० ओ०, पुणे-411046, महाराष्ट्र
1637.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राष्ट्रीय आजाद पार्टी	मो० गायत्री नगर, कस्बा व पोस्ट-बांदा, जिला-शाहजंहापुर, पिन कोड- 242402, उत्तर प्रदेश ।
1638.	न्यू भारतीय क्रान्ति पार्टी	ग्राम- सुंगुलपुर, पोस्ट व थाना- खेतासराय, तहसील-शाहगंज, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222139.
1639.	न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी	नं. 30-सी1, अंबु नगर, ईडरपलायम, पोस्ट, कोयम्बटूर, तमिलनाडु- 641025
1640.	न्यू इण्डिया पार्टी	म० नं० 20-3-314, विधानगर गोदावरीखानी-505209, जिला- करीमनगर, (आन्ध्र प्रदेश) ।
1641.	न्यू इंडिया यूनाईटेड पार्टी	नं. 4, द्वितीय तल, द्वितीय क्रास, डी.आर.बेन्द्रे लेआउट, गुब्बी क्रॉस, 350/1/4, कोठानूर, बेंगलोर, कर्नाटक- 560077
1642.	न्यू लेबर पार्टी	रूम नं० 8/249, पेरुम्बिल्लिशशेरी, पी.ओ - चेर्पु, जिला - तृस्सुर, केरल- 680561.
1643.	न्यू लाइफ पीपुल्स पार्टी	नं० 15 /16, जूडी फ्लैट्स, नं० 13 रोसरी चर्च रोड, संथोम, चेन्नई- 600004 तमिलनाडु ।
1644.	न्यू मदर लैंड पार्टी	एफ-111, साउथ सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226025
1645.	न्यू राष्ट्रीय समाज पार्टी	मकान नं. 167/2/5/एफ/4, पहली मंजिल, ब्रम्हानन्द नगर, ताडाली रोड, कामतघर, भिवंडी, जिला- ठाणे, महाराष्ट्र - 421305
1646.	न्यु सोशलिस्ट मूवमेंट	104, महाराणा प्रताप कॉम्प्लैक्स, अपोजिट एल्लीसब्रिज पो० ओ०- एल्लीसब्रिज, अहमदाबाद-380 006, गुजरात ।
1647.	निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल	मकान नं. 105टी, मोहल्ला- जंगल सालिकराम, बाइपास रोड, संग्राम चौक, पादरी बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273014
1648.	निर्भय भारतीय पार्टी	27, सहजानन्द बंगलो, मोटेरा, अहमदाबाद, गुजरात- 380058
1649.	निर्धन समाज पार्टी आफ इण्डिया	11 ए राजीव विहार (बन्दीबाबा मन्दिर के पास), मछरिया, नौबस्ता, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश - 208011 ।
1650.	निर्जातिता समाज बिप्लवी पार्टी	गाँव-दुर्गापुर पो०-हरीताला (बगुला), पी०एस०-हंसखली जिला-नदिया- 741502 पश्चिम बंगाल ।
1651.	निर्मल इण्डिया पार्टी	सा० 6 /8 एच -15, सत्संग नगर, बेनीपुर, पहाडिया, वाराणसी - 221007 उत्तर प्रदेश
1652.	निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी	मकान नं. 56, इन्दलपुर, नैनी, पोस्ट- डन्डी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211008
1653.	निज गोयन्कर रिबुलेशन फ्रंट	मकान नं. 9/222, पेट्रोंग, बायना वास्को-डा-गामा, गोवा ।
1654.	नूरी पार्टी	102, कदोदरा-बरदोली रोड, सूरत, गुजरात ।
1655.	नार्थ बंगाल पीपल्स पार्टी	ग्राम-रबिन्दापल्ली, पोस्ट-मोहनबत्ती, थाना-रायगंज, जिला-उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल- 733134
1656.	नार्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी	सागोलबंड टेरालाउक्राकपाम लेइकाई, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर- 795001
1657.	नार्थ ईस्ट सोशियल डेमोक्रेटिक पार्टी	मावली मावदतबाकी, डांग नाँगपाथा, शिलाँग- 793008 जिला ईस्ट खासी हिल्स मेघालय ।
1658.	न्याय पार्टी	नं.319, स्वामीपाड़ा, बुढाना गेट, मेरठ सिटी, उत्तर प्रदेश-250002
1659.	न्याय सत्ता पार्टी	ग्राउंड फ्लोर, मकान नंबर 303, गली नंबर 12, चंदन विहार, वेस्ट संत नगर, बुराडी रोड, दिल्ली-110084

1660.	न्यायधर्मसभा	प्रगति विहार, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखण्ड- 249408
1661.	ओडिशा जन मोर्चा	प्लॉट सं० -17, ग्राम नखोर, डाकघर गोपीनाथपुर, जिला-खुर्द, भुवनेश्वर-751002, ओडिशा
1662.	ओडिशा जनता पार्टी	एटी-छधरिया, पीओ-बगडा, पीस/जिला-केंद्रपाडा, भुवनेश्वर, ओडिशा-754212
1663.	ओडिशा कल्याण पार्टी	प्लॉट नं.44 (प्रथम मंजिल), सत्यनगर, पो.ऑ.-सत्यनगर, थाना-खारवेल नगर, नगर-भुवनेश्वर, जिला-खुर्दा, ओडिशा-7510007
1664.	ओडिशा प्रगति दल	खतियान नं.- 99/180, प्लॉट नं.- 420/1360, ब्रुनदामल, पोस्ट ऑफिस-बढमाल, थाना- कटरबाग तहसील- झारसूगुडा, जिला- झारसूगुडा, ओडिशा- 768202.
1665.	ओजस्वी पार्टी	फ्लैट संख्या-38, प्लॉट संख्या-36, अंजता अपार्टमेंट, पटपड़गंज, दिल्ली-110092।
1666.	वन इंडिया वन पीपल पार्टी	14/916, वडक्कनचेरी अंगडी, सीटि लाईट शोपिंग कोम्प्लेक्स, सेकंड फ्लोर, वडक्कनचेरी, केरल-678683
1667.	वन इंडिया वन पॉलिसी पार्टी	अरक्कल टॉवर, क्रिस्टोफर नगर, ओल्लुर गांव, त्रिशूर तालुक, त्रिशूर जिला, केरल - 680306
1668.	वन इंडिया पार्टी	डी-46 ए, कृष्ण विहार, दिल्ली- 110086
1669.	ऑपेन पीपल्स पार्टी	पवार हाउस, साईबाबा मंदिर के पास, मंगल रघो नगर, टिसगाँव रोड, कल्याण (ई), जिला-ठाणे, महाराष्ट्र-421306
1670.	उड़ीसा कम्यूनिस्ट पार्टी	एम. एल. ए. कॉलोनी, यूनिट-4 भुवनेश्वर, (उड़ीसा)।
1671.	उड़ीसा सोशलिस्ट पार्टी	म्यूनिसिपल कम्पाउण्ड, चौधरी बाजार, कटक-753009 (उड़ीसा)।
1672.	आवर महात्मा नेशनल पार्टी	नं. 62(द्वितीय तल), पिलैईयर कोईल स्ट्रीट, कामराज स्ट्रीट, गांधीनगर, के.के. नगर पोस्ट, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु - 620021
1673.	पचाई तमिझागम काँची	12/143, इंदिराकरई, हरिजन कॉलोनी, विजयापति, राधापुरम(तालुक), तिरुनेलवेली (जिला), तमिलनाडु- 627104
1674.	पञ्चासी परिवर्तन समाज पार्टी	मकान सं. 98, कल्याणी विहार, प्रशान्त पब्लिक स्कूल के निकट, कमता, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226028
1675.	पहाड़ी पार्टी	ग्राम-तल्ली बागी, पट्टी-सारजूला, पोस्ट-भागीरथपुरम, विकास खण्ड-चम्बा, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249145
1676.	पंच पार्टी	कैलाश चन्द्र मीना खोदकी धानी गांव, ग्राम व पोस्ट- रैसना, तहसील-नदोती, जिला- करूली, राजस्थान- 322215
1677.	पंचपौनिया समाज पार्टी	गांव और पोस्ट -आँटामुजीब नगर, वार्ड नंबर 8, पी0एस0 - हाथीदा, जिला-पटना, बिहार-803303
1678.	पंथर्स रिपब्लिकन पार्टी	'आनंदवन', महात्मा फुले नगर, पीर बाज़ार, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र-431005
1679.	पारडाइज पार्टी	कबिता अपार्टमेंट, श्रीनिकेतन रोड, पोस्ट-बोलपुर, जिला-बीरभूम, पश्चिम बंगाल- 731204
1680.	परम दिग्विजय दल	मकान न० - 7/297/7, विकास नगर, सेक्टर-7, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
1681.	पर्वतीय प्रजातांत्रिक पार्टी	39/ए, लेबौंग कार्ट रोड, नियर माहेश्वरी पेट्रोल पम्प, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल- 734301.
1682.	परचम पार्टी ऑफ इण्डिया	1-रहमत बानो मार्केट, मेडिकल कॉलेज रोड, सिविल लाइन्स, अलीगढ़ - 202002, उत्तर प्रदेश।
1683.	परिसरा बंधु पार्टी	नम्बर 281, जनानी, बीलेआऊट दुसरा स्टेज बस स्टेड के .सी.सी. सामने, विजयनगर, बेंगलूरु, कर्नाटक-560040
1684.	परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया	मोनु रावत, पोहरी बाईपास, इंटरसिटी बस वालों के पीछे वाली गली, राजपुरा, सर्कुलर रोड सर्किट हाउसिंग तिराहा, तहसील व जिला-शिवपुरी, मध्य प्रदेश- 473551
1685.	परिवर्तन समाज पार्टी	गंडे वाली सडक, लश्कर, ग्वालियर-474001, (मध्य प्रदेश)।

1686.	पार्टी फार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म	183, जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068, (पश्चिम बंगाल)।
1687.	पश्चिम बंगा राज्य मुस्लिम लीग	129, कोल्लिन स्ट्रीट कोलकाता-700016, (पश्चिम बंगाल)
1688.	पश्चिमांचल विकास पार्टी	क्वार्टर नं० 10 ई, सेंट जोसफ स्कूल के सामने, साखीपारा, जिला-सम्बलपुर, उडीसा-768001
1689.	पश्चिमांचल निर्माण पार्टी	श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, द्वारकाधाम शहर के पीछे, ग्राम - शिवया जनपद मेरठ, जिला - मेरठ, यू.पी.-250110
1690.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास पार्टी	म० सं० - 1, कसाना निवास, ग्राम - मोरना, सेक्टर - 35, नोएडा, जिला - गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश - 201308
1691.	पाशुमपोन मक्कल कडगम	नं० - 102, एल. बी. रोड, अडयार, चेन्नई, तमिलनाडु- 600020.
1692.	पथिक जनशक्ति पार्टी	सी/ओ राजकुमार, पी.ओ.-सिधानी, तहसील-टोहाना, जिला-फतेहाबाद, हरियाणा-125133
1693.	पथिक स्वराज पार्टी	सीओ/ रविन्दर सिंह देवधर, पुत्र शबलबीर सिंह देवधर., गांव और पोस्ट-बिहटा, गीरअंबाला-जिला .अंबाला कैट-, हरियाणा-133101
1694.	पटरी व्यापारी पार्टी	गीडागोरखपुर-, सेक्टर-22, भूखंड संख्या सी-5/23, गीडा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273209.
1695.	पैट्रियाटिक पार्टी ऑफ इण्डिया	4/28 विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश।
1696.	पट्टालि मक्कल कांची	63, नाटू मुथू नाइकेन स्ट्रीट, वनीया तेयनामपेट, चेन्नई-600018, तमिलनाडु
1697.	पीस अण्ड फ्रिडम पार्टी	सीटीएस नंबर 5214, फ्लॉट नंबर 180, नगर परिषद कॉलोनी, कोथलज रोड, परिवल मॉलजवळ, महाराष्ट्र- 431124
1698.	पीस पार्टी	जोहरा काम्पलैक्स, बड़हलगंज, पो०- बड़हलगंज, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
1699.	पीजेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी ऑफ इण्डिया	हरि खारुडे निवास, महात्मा फुले रोड, नयगांव दादर, मुम्बई (महाराष्ट्र)।
1700.	पैदल पार्टी	डी नं० 18-131 (ए), ग्राम - काटुरि वारी पालेम, पोदिलि मंडल, जिला - प्रकाशम, आन्ध्र प्रदेश - 523240
1701.	पेडारीकम निरुमुलना पार्टी	डी. नं० 66-1-3/ए. एस. अचूथापुरम, काकीनाडा-533004, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश।
1702.	पहचान पीपलस पार्टी	हनीफ मंजिल, चंदन चौक, रानी खेड़ा दरवाजा, निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ राजस्थान- 312601
1703.	पीपुल लिबरेशन पार्टी	4/611, पुष्पजेंथी रोड, चौथा ब्लॉक, मोगप्पैर ईस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600037
1704.	पीपल प्रोटेक्शन पार्टी	डी.न. 7-97/2, श्रीनगर कॉलोनी, सन रेज स्कूल, पसुममुला रोड, कुतलूर, हयातनगर, रंगारेड्डी जिला तेलंगाना - 501505
1705.	पीपुल्स एक्शन पार्टी	363, नैनागढ़, प्रेम नगर, झांसी, उत्तर प्रदेश-284003।
1706.	पीपल्स जस्टिस पार्टी	मकान संख्या 120/209, (120/096बी), वार्ड - हजरतगंज, रामतीर्थ, बेलदारिलेन, लोकभवन के पीछे, लालबाग, लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226001.
1707.	पीपल्स लिबरल पार्टी	104/01, ग्राम गंगाणा, ग्राम पंचायत बोरानाडा, तहसील - लूणी, जिला - जोधपुर, राजस्थान - 342012
1708.	पीपुल्स पार्टी	ए-23, सुभाष नगर, रूडकी, जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड
1709.	पीपल्स पार्टी ऑफ लिबर्टी	ए.पी 12/129, एम.एम.भवन, मदाधिलचीरा, अनद -पी.ऑ. नेदुमंगाडु, तिरुवन्नतपुरम, केरल- 690521
1710.	पीपल्स पार्टी ऑफ इण्डिया (सेक्यूलर)	डुप्लेक्स-38, सलेश्री विहार, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751021, उडीसा।
1711.	पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब	7112, वार्ड नं० 2, मलोट रोड, गीदरवाहा (मुक्तसर), पंजाब- 152101.

1712.	पीपल्स युनियन पार्टी	धर्मावत हाउस, हाउस नं० 1015, शुक्रावर पेठ, तिलक रोड, सवरगेट, पुणे-411002, महाराष्ट्र
1713.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलाइन्स	रागैलांग, इम्फाल-795001, मणिपुर
1714.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	मास बिल्डिंग, अरनाकुलम उत्तर, पो०-कोचीन-18, (केरल) ।
1715.	पीपुल्स ग्रीन पार्टी	19सी/1, जीवन ज्योति अपार्टमेंट्स, बार्ड नं० 1, महरौली, नई दिल्ली-110030 ।
1716.	पीपुल्स गार्जियन	डी-302, ब्लू हिल्स, नगर रोड, पुणे (महाराष्ट्र) – 411006
1717.	पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	111, आस्था कॉम्प्लेक्स, दहेज बाईपास रोड, नंदेवाल, तालुका एवं जिला- भरूच, गुजरात- 392001
1718.	पीपल्स रिप्रेजेंटेशन फॉर आईडेंटिटी एंड स्टेटस ऑफ मिजोरम (प्रिज्म) पार्टी	16- अपर रिपब्लिक, आइजोल, मिजोरम- 796001
1719.	पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी	साप्ताहिक जयभीम, आनंद टाकिज के सामने, सीताबादी, नागपुर-440012 (महाराष्ट्र) ।
1720.	पीपुल्स रिसर्जेन्स एन्ड जस्टिस अलायन्स	मकान नं. 156, खोमद्रम सेलुन्गबम लेयकई, थांगमेईबंद, पी.ऑ/पी.एस-लांफेल, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर- 795004
1721.	पीपुल्स रूलिंग पार्टी	फ्लैट नं०-74, गांधी नगर, चकाली गुन्टा, एटुकुरु रोड, कम्मा सैशशाह ग्राउण्ड, रेवेन्यु बार्ड-32, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश-522003
1722.	पेरियार अम्बेडकर मुनेत्र कडगम (पी.ए.एम्.के.)	एम्आईजी नंबर-8, डॉ. वी. आर. अम्बेडकर हाउस, टीएनएचबी, बरगुर, पी. आर और तालुक, कृष्णागिरी जिला, तमिल नाडु-635104
1723.	पेरुन्थालाईवर मक्कल काँची	एन आर डी टॉवरस, प्रथम एवेन्यू, अशोक नगर, चेन्नई-600083 तमिलनाडु ।
1724.	फूलन जनता पार्टी	ग्राम- मोहम्मदपुर कंध, पोस्ट - इमलो, विकास खण्ड धर्मापुर, तहसील - सदर, जिला - जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222180
1725.	फूले भारती लोक पार्टी	मेन गुरुद्वारा रोड, बाबा बकाला, जिला-अमृतसर, पंजाब-143201.
1726.	पिछड़ा सामान्य अल्पसंख्यक व्यापारी किसान पार्टी	मकान नं. 402 ख, नगला खंदारी, अलीपुर पट्टी, थाना व तहसील-भोगाँव, जिला- मैनपुरी, उत्तर प्रदेश ।
1727.	पिछड़ा समाज पार्टी यूनाईटेड	महूरिया काम्पलेक्स, मुक्त नगर, पुलगाँव रोड, पद्मनाभपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ -491001
1728.	पिछड़ा समाज पार्टी	मोहल्ला जती, नगीना, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश ।
1729.	पिछड़ावर्ग महापंचायत पार्टी	मो. जामालपुर, (करहाँ रोड), पोस्ट- मोहम्मदाबाद गोहना, जिला- मऊ, उत्तर प्रदेश- 276403
1730.	पॉलिटिकल ऐंसेशियल और ऐक्यूरेट कौंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स पार्टी	डोर नं० 24-21, बैस्या स्ट्रीट, पाँच रोड जंक्शन, अमेरिकन हॉस्पिटल रोड, नरसीपट्टणम, जिला – विजाग, आन्ध्र प्रदेश – 531116
1731.	पोलिटिकल जस्टिस पार्टी	म. न.796, जी-3, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1, साहिबाबाद, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश- 201005
1732.	पॉलिटिकल टीम इंडिया	मकान नं.182, असल कोर्टयार्ड, दहतोरा शास्त्रीपुरम, आगरा, उत्तर प्रदेश-282007
1733.	पॉन्डिचेरी पीपुल्स राइट्स पार्टी	#1, सुब्रमनियर कोइल स्ट्रीट, कुवायारपालयम, पंडीचेरी-605013
1734.	पूरबिहा लोग पार्टी	ग्राम-पिपरा तिवारी, पोस्ट-सखवनिया, जिला-खुशीनगर, उत्तर प्रदेश-274402
1735.	पूर्ण स्वराज मंच	मकान नं. 1/328, ग्वाल टोली, फतेहगढ़, जिला- फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश-209601
1736.	पूर्व सैनिक आल इंडिया दलित एवं निर्बल वर्ग विकास पार्टी	प्लॉट संख्या-96, ग्राम हांसा पुर निकट झुनझुनवाला डिग्री कॉलेज, द्वारिकापुरी, डाभासेमर, जनपद अयोध्या, उत्तर प्रदेश-224001
1737.	पूर्वांचल पीपुल्स पार्टी	12/391, गली नं० – 12, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

1738.	पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस	प्लॉट नं० 157-158, पॉकेट ई-20, सैक्टर-3, प्रथम तल, रोहणी, दिल्ली-110085.
1739.	प्रबल भारत पार्टी	ग्राम- अण्डहरा, पोस्ट+थाना- परसौनी, जिला-सीतामढ़ी, बिहार- 843325
1740.	प्रबुद्ध भारत प्रजासत्तक पार्टी	ए/101, पंचशील नगर, सेवा संघ नं० - 3, नियर अनिक डिपोट, सायन(पूर्व), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400022 ।
1741.	प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी	एम०डी०-26-17/6, एस०आर०टी०आर०एम०सी०एच० चेन्नई रोड, अम्बाजोगई, जिला-बीड-431517, महाराष्ट्र ।
1742.	प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा	मकान नं. - 130ए/3ए, तेलियरगंज, भूसावाली गली, पोस्ट - तेलियरगंज, जिला - प्रयागराज, यू.पी. - 211004
1743.	प्रगतिशील जनता अधिकार पार्टी	4 - का, गांव और पोस्ट भुवल चक -, पीजमानिया - .एस., जिला - गाजीपुर, उत्तर प्रदेश - 232336.
1744.	प्रगतिशील जनता पार्टी	बजरंग विहार कॉलोनी, दीघा आशियाना रोड, थाना-राजीव नगर, पोस्ट-आशियाना नगर, पटना-800025, बिहार
1745.	प्रगतिशील लोक मंच	ईश्वर सदन, सोनकर फार्म, धौलाखेड़ा, पो० ओ० - अर्जुनपुर (हल्द्वानी), जिला - नैनीताल, उत्तराखण्ड ।
1746.	प्रगतिशील मगही समाज	मकान नं०-605/334, वार्ड नं०-44, मोहल्ला-माइनपुर (अक्षयवट), थाना -सिविल लाईन्स, जिला -गया, बिहार।
1747.	प्रगतिशील मानव समाज पार्टी	गांव-वारी (नईपुरवा) पो० दशरथपुर-221304. जिला-भदोही, (उत्तर प्रदेश) ।
1748.	प्रगतिशील समाज पार्टी	58/12/1 डी, नवादा, सरकुल रोड, राजापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1749.	प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया)	सीपी.- 1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010.
1750.	प्रहर जनशक्ती पक्ष	मकान सं.- 1634, ग्रामपंचायत- बेलोरा, तहसील- चांदुरबाजार, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र- 444704
1751.	प्रजा अधिकार पार्टी	डोर नं.4-107-1, एस.सी.कॉलोनी, पंचलिंगाला ग्राम, कर्नूल मण्डल, कर्नूल जिला, आन्ध्र प्रदेश-518004
1752.	प्रजा कांग्रेस पार्टी	डी-6/6154/6, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070
1753.	प्रजा एकता पार्टी	मकान नं. 15-9-86 से 88, श्रीनिवासा निलयम, महाराजगंज, लोकालिटी-गौलीगुडा चमन, जला-हैदराबाद, तेलंगाना - 500012
1754.	प्रजा क्रिपा पार्टी	शॉप नम्बर -2, हरी ओम अपार्टमेंट, ब्लॉक सी-33/124-125, ओपीपी चोपडा कोर्ट, उल्हासमगर महाराष्ट्र-21003
1755.	प्रजा पालना पार्टी	मकान सं. 64-1डी-8ए/1, ट्रेजरी कॉलोनी, काकीनाडा, ईस्ट गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश- 533004
1756.	प्रजा परिवर्तन पार्टी	नं. 9/228, पहला मेन, तीसरा क्रॉस, (जयभीम पेट्रोल बंक के पीछे) ननजप्पा लेआउट, अनेकल टाऊन, बैंगलोर शहरी जिला, कर्नाटक-562106
1757.	प्रजा प्रस्थानम पार्टी	श्री बालाजी रेजीडेंसी, डोर नं० 1-116-3, प्लॉट नं. एमआईजी-48/12, जीएफ-1, एमवीपी कॉलोनी, विशाखापट्टणम-530017.
1758.	प्रजा राज पार्टी	287/264/1, मेरठ बुलन्दशहर रोड, हापुड - 245101 उत्तर प्रदेश ।
1759.	प्रजा सत्ता पार्टी	1-91/24, राघवेन्द्रा नगर, पार्वतापुर (ग्राम), ग्रा.पं. - घटकेसर मण्डल, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500098
1760.	प्रजा सेना पार्टी	एच. नंबर 4-3-167 गजुलपेट, मंटपल्ली टाउन और मंडल, जिला-जगितल, तेलंगाना- 505325
1761.	प्रजा सेवा पार्टी	डी.नं. 3 -1सी, रामचन्द्रापुरम ग्राम, ताडा (पी), साथयावेदु (एम), चित्तूर-जिला, आन्ध्र प्रदेश- 524401
1762.	प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी	सर्वे नं.-1073, वसंत वाडगो, निकट के-7 सर्किल, गाँधीनगर, रंधेजा रोड, गाँधीनगर, गुजरात- 382026
1763.	प्रजा शान्ति पार्टी	382, अपराजिता कॉलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद, आन्ध्रा प्रदेश ।

1764.	प्रजा विजय पक्ष	प्रथम माला, एच एच आई-08, अभीनव ऐवेन्यु, झाड़ेश्वर चौकडी, झाड़ेश्वर, तहसील भरूच, जिला-भरूच, गुजरात-392011
1765.	प्रजा रैयता राज्य पक्षा	मकान सं0 - 937, मंजूनाथा नगर, केन्गेरी रोड, तवाराकेरे, बेंगलुरु साउथ, कर्नाटक - 562130
1766.	प्रजा स्वराज पार्टी	मकान नं. 7-2-104/11, प्लॉट नं. 11, श्रीकृष्ण नगर, चिंतलकुंटा चेक पोस्ट, एल.बी.नगर, हैदराबाद, तेलंगाना राज्य - 500003
1767.	प्रजामहाराष्ट्र पक्ष	निकट परीजात भवन, तीसरी मंजिल, माथुर नगर, तुलिंग रोड नालासोपारा (पूर्व), ता0 - वसई, जिला - पालघर, महाराष्ट्र- 401209
1768.	प्रजामंडल पार्टी	बर्थवाल निवास, शीतला माता मंदिर मार्ग, लोअर भक्तियाना, श्रीनगर, गढवाल, उत्तराखण्ड - 246174
1769.	प्रजासत्तक भारत पक्ष	मु0-शिलेश्वर, पो0-भादस, ता0-मुलशी, जिला - पूणे - 412108, महाराष्ट्र
1770.	प्रजासत्तक लोकराज्य पार्टी	ग्राम व पोस्ट - परासी, तहसील - मनगवा, जिला - रीवा मध्य प्रदेश - 486111
1771.	प्रजासत्ताक समाजवादी भारत पार्टी	मकान नं0 - 1-7-281, यादव निवास, राजनगर, पोस्ट - यशवंत नगर, पावडेवाडी नाका, जिला - नांदेड, महाराष्ट्र - 431602
1772.	प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी	श्री राम सदन - 40, सरॉयपित्थू ऑशिक, नयागाँव (केशरुआ), सीतापुर रोड, हरगाँव, जनपद - सीतापुर, उत्तर प्रदेश।
1773.	प्रजातन्त्र आधार पार्टी	46, पुरानी फौजदार की चाली, मेम्को चार रास्ते के पास, नरोडा रोड, अहमदाबाद-382345 गुजरात।
1774.	प्रजातंत्र कांग्रेस पार्टी	स्टेशन चौक, मुख्य डाकघर के सामने, रायगढ, छत्तीसगढ
1775.	प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं. 33, मोहल्ला- बम्बाघेरा, टाउन व थाना- रामनगर, जिला- नैनीताल, उत्तराखण्ड
1776.	प्रजातांत्रिक जनसेवक दल	मुजफ्फरा बागडपुर, तहसील एंव जिला - हापुड, उत्तर प्रदेश- 245101.
1777.	प्रजातांत्रिक जनसेवक पार्टी	मकान सं.- 88, निवहारा-इकहारा, तहसील- करहल, पोस्ट- वरनाहल, जिला- मैनपुरी, उत्तर प्रदेश- 205264
1778.	प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी	गाँव- हकीमाबाद, तहसील - आस्टा, जिला - सिहोर, मध्य प्रदेश।
1779.	प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी	सी-17, यादव नगर, ग्राम - समयपुर, दिल्ली - 110042।
1780.	प्रजावाणी पार्टी	मकान नं. 11-83-लिंगडीवरी भावनाअमु, विनायक नगर, कुजाकुजा रोड, सूर्यपेट, तेलंगाना - 508214
1781.	प्रपंच तेलुगु भाषा परिरक्षण पार्टी	सं0 सं0 5-19, चिमनगुटपल्ली गाँव, वनपथी मंडल, वनपथी जिला, तेलंगाना-500089
1782.	प्रवासी निवासी पार्टी	महा महल बिल्डींग, टी.सी-1/1502/7, पजहाया रोड, मेडिकल कालेज पी.ओ. जिला- तिरुवनंतपुरम, केरला-695011
1783.	प्रवृत्ति पार्टी	980, प्रकाश पब्लिक स्कूल के पास, पालम गांव, नई दिल्ली-110045
1784.	प्रेम जनता दल	म. नं0 - 1-4-524/ए/7/1, भोलकपुर, बादी मस्जिद के पास, मुशीराबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
1785.	प्रेम वाहिनी दल	ग्राम व पोस्ट- अंतरपाड़ा, वाया- बालीपदर, जिला- गंजाम, ओडिशा।
1786.	प्रिज्म	टॉप फ्लोर, 4-सी.एच.एच.ए.-30, विज्ञान नगर, कोटा- 324005 (राजस्थान)।
1787.	पृथक बस्तर राज्य पार्टी	8, सीनियर एच0 आई0 जी0, सेक्टर-3, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
1788.	पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी	मकान नं. 45-ए, ग्राम- किरतपुर, पोस्ट- पिंडरा, तहसील- पिंडरा, थाना- फुलपुर, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
1789.	प्रोफेशनल पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं. 91, ब्लॉक- डी-1, श्याम विहार, नज़फगढ़, नई दिल्ली- 110043
1790.	प्राउटिस्ट ब्लॉक, इंडिया	द्वारा श्री रमेश कुमार, एच.एन.ए.-37 (खसरा नं. 2167/845), हर्षरूप कॉलोनी, फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली- 110074

1791.	प्राउटिस्ट सर्व समाज	सेवा निकेतन कम्पाउण्ड, आगरा रोड, एटा, उत्तर प्रदेश
1792.	पब्लिक अधिकार सोशलिस्ट इंडियन पार्टी	5/200,सेक्टरएच-1,जानकीपुरम,लखनऊ,उत्तर प्रदेश-226021
1793.	पब्लिक मिशन पार्टी	सीता कुंज, गोदावरी अपार्टमेंट के सामने, आशियाना दीघा रोड, पटना, बिहार-800014
1794.	पब्लिक पार्टी	“इकबाल महल”, 234ए, अटाला, इलाहाबाद – 211003 उत्तर प्रदेश।
1795.	पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी	14ए/57, पहला तल, डब्लु.ई.ए, करोलबाग, नई दिल्ली- 110005
1796.	पब्लिक उत्थान पार्टी	म.स. 236,फतेहगढ़,फतेहगढ़,पी.स.- खरगूपुर,तहसील-गोंडा,पावर हाउस के पास,जिला - गोंडा,उत्तर प्रदेश – 271204
1797.	पुडुचेरी डेवलपमेंट पार्टी	नं0 – 51, सेकण्ड क्रॉस, सेल्वा नगर, उरुवाईयार, पुडुचेरी - 605110 ।
1798.	पंजाब डेमोक्रेटिक पार्टी	958-मटौर सेक्टर-70, एस.ए.एस नगर, सिडिकेट बैंक से सटा हुआ, पंजाब- 160070
1799.	पंजाब एकता पार्टी	बी- XII/46, ग्राम – फरीदकोट, बार्ड नं0 – 10, पार्ट-2, तहसील - फरीदकोट, हरिन्दर नगर, जिला - फरीदकोट, पंजाब- 151203
1800.	पंजाब किसान दल	H.No.47,ग्राम - सराय मुगल,तहसील-राजपुरा,जिला-पटियाला,पंजाब-140417
1801.	पंजाब लेबर पार्टी	ग्राम और डाकखाना-आधनियों, तहसील-मलोत, जिला-मुक्तसर, पंजाब ।
1802.	पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी	मोहिंदर बाग गांव सिसवान में स्थित है,गुरुद्वारा शीश महल साहिब के पास,डाकघर मुल्लालपुर गरीबदास,तहसील खरड,जिला मोहाली,पंजाब-140901
1803.	पंजाब नैशनल पार्टी	157,युनीवरसिटी ऐनकलेव फेज-1,गुरू नानक देव विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परिसर के पास,लाधेवली,जालंधर,पंजाब- 144009
1804.	पुन्नगई देशम पार्टी	3/58B,मुख्य बाजार,पेयकुलम,अशिर्वाथपुरम - पोस्ट,साथ्यान्कुलम - तालुक,थूथुकुडी - जिला,तमिलनाडु – 628 613
1805.	पुराची भारतम	नं. 54, नेशनल हाईवे, पूनामल्ला, चेन्नई-56 (तमिलनाडु) ।
1806.	पुरातचिकारा थोझिललार कौची	नं0 3, करिकालन ईस्ट, प्रथम गली, (एस. पी. हॉस्पिटल के पीछे, अंजाप्पर होटल), अदमबक्कम, चेन्नई, तमिल नाडु ।
1807.	पूर्वांचल नवनिर्माण पार्टी	ग्राम- सिरिहिरा, पोस्ट- सेवापुरी, थाना- कपसेठी, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221403
1808.	पूर्वांचल जनता दल	ग्राम व पोस्ट - जनाडी, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश।
1809.	पूर्वांचल जनता पार्टी (सेक्युलर)	फ्लैट नं. 2, डी.डी.ए. फ्लैट्स, पॉकेट-I, फेस- I, सेक्टर- 12, द्वारका नई दिल्ली-110078
1810.	पूर्वांचल क्रान्ति पार्टी	यादवगंज, पोस्ट – सिकरारा, जनपद – जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
1811.	पूर्वांचल महापंचायत	नं0 - 601 डी, शिप्रा सन सिटी, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1812.	पूर्वांचल राज्य जनांदोलन	एसपी टावर, बुद्धपुरम, बडेवन, ग्राम सभामडवा नगर -, बारीपास चौराहे के पास, जनपदबस्ती -, उत्तर प्रदेश - 272001.
1813.	पुथिया मक्कल तमिल देशम काञ्चि	डी.नं.-6/58 साउथ स्ट्रीट, मुत्थुलक्ष्मीपुरम,मेगूहिणापुरम,तालुक-तिरुचेंदूर,जिला-थूथुकुडी,तमिलनाडु-628210
1814.	पुथिया तमिलागम	132, न्यू एम.एल.ए. होस्टल, गवर्नमेंट एस्टेट, चेन्नई – 600 002 (तमिलनाडु) ।
1815.	पिरामिड पार्टी ऑफ इण्डिया	2-1-83, कोला स्ट्रीट, तिरुपति- 517501, (आन्ध्र प्रदेश)।
1816.	कौमी एकता दल	भवन सं0 – 228, मो0 – अस्तुपुरा, तहसील – सदर, जनपद – मऊ, उत्तर प्रदेश ।
1817.	कौमि इत्तेहाद रिपब्लिकन पार्टी	47/1,चेमुनियपेटा,रेवन्यु बार्ड न0 47,(बिसाईड हरि टावर),नागाराजउपेटा कडापा,आन्ध्र प्रदेश- 516001
1818.	रचनात्मक जन मोर्चा	मकान संख्या – 752,खसरा नं0 – 146,ग्राउंड फ्लोर,निकट कन्या विद्यालय,बुराडी गांव,नई दिल्ली- 110084

1819.	रैडिकल डेमोक्रेट्स	घर क्रमांक 4-9-771/पी70, पवनागिरि कॉलोनी, हयातनगर, हैदराबाद, तेलंगाना -501505
1820.	रहबर पार्टी	वार्ड नं० 2, मोहल्ला कच्ची मस्जिद, रायसेन, तहसील व जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।
1821.	रायजोर दल	हाउस नंबर 1, चिडियाघर-नरंगी रोड, मॉडर्न स्कूल के पास, मथघरिया, पी.एस.-नूनमती, जिला कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-781020, असम
1822.	रायता भारत पार्टी	सेक्टर नं. 31, फ्लैट नं. 31/ए, नवानगर, बागलकोट, कर्नाटक - 587101
1823.	राजस्थान डेमोक्रेटिक फ्रंट	नम्बर 761, मात्मा गाँधी दस्तकर नगर, नायला, जयपुर, राजस्थान-303012
1824.	राजस्थान जन सत्ता	ग्रामीण कन्या छात्रावास, वाटर वर्क्स के पास, सादुलपुर, चुरू-331023, राजस्थान।
1825.	राजस्थान जनता पार्टी	ग्राम- नैथला, पोस्ट- निठारी, तहसील- मालाखेड़ा, जिला- अलवर, राजस्थान- 301001
1826.	राजस्थान नवनिर्माण पार्टी	मकान नं. 4एफ, प्रथम तल, रामलाल सदन, सिविल एयरपोर्ट रोड, पाबूपुरा, जोद्धपुर, राजस्थान- 342001
1827.	राजस्थान विकास पार्टी	43, चाँद बिहारी नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर-302012 (राजस्थान) ।
1828.	राजलोक पार्टी	बी-123, स्ट्रीट नं. 8, कमल बिहार, बुरारी, दिल्ली-110084.
1829.	राजनैतिक चेतना दल	प्लॉट नं. 78, खाता संख्या- 93, ग्राम- सिकरिया, पोस्ट- सुघड़ी, थाना- गोविन्दपुर, जिला- नवादा, बिहार- 805126
1830.	राजनैतिक क्रान्ति दल	मकान नं. 55, बाडुजई द्वितीय, निकट पुराना ओवर ब्रिज, जिला- शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश- 242001
1831.	राजनैतिक विकल्प पार्टी	204 - शाही भवन, डाक बंगला, पटना – 800001, बिहार ।
1832.	राज्य स्वराज पार्टी	931, इंदिरा नगर, देहरादून, उत्तराखंड-248006
1833.	राज्याधिकार पार्टी	एच-नं.10-4-ए /390, एडुगोट्टा, ईस्ट मैरीडपल्ली, सिकन्दराबाद-17, आन्ध्र प्रदेश ।
1834.	रक्षक जन मोर्चा पार्टी	अराजी नं - 813/म.न. - 180ए, गिरजा नगर, नई पी ए सी लाइन, देहली सुजानपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश – 208015
1835.	रक्षका सेना	नं. 604, वायुनन्दा लेआउट, हैब्ल, केम्पापुरा, बंगलोर – 560024, कर्नाटक।
1836.	रानी चेन्नमा पार्टी	वक्कलागेरी दयामवनकट्टी, गडग-582101, कर्नाटक ।
1837.	रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारी पार्टी	शॉप नं. 06, राहुल बाजार, कमिश्नियल काम्प्लेक्स, प्रथम तल, सीताबर्डी, नागपुर, महाराष्ट्र- 440012
1838.	राष्ट्र भक्त दल	बाबा बजरंगदास जी की बगीची खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर – 302012, राजस्थान।
1839.	राष्ट्र हित पार्टी	706/707 एम.के.हार्ड्स सीएचएस, बी विंग, सी.टी.एस.नं. 621, एल.वार्ड आफिस के सामने, एस.जी. बार्वे मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुम्बई-400070 महाराष्ट्र ।
1840.	राष्ट्र मंगल मिशन पार्टी	कामधेनु कृपा, काचो माढ, पिलाजी गंज, श्रीराम चौक, मेहसाना, गुजरात-384001
1841.	राष्ट्र निर्माण पार्टी	डी 25 डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली-110024 ।
1842.	राष्ट्र सामान्य प्रजा पार्टी	डोर नं०-3-44, अथवेली, मेडचल, तेलंगाना-501401
1843.	राष्ट्र समर्पण पार्टी	वार्ड संख्या-4, प्रोपर्टी संख्या-040000225, ओल्ड प्रोपर्टी संख्या डब्लू 4-448(ओल्ड 225), सावनेर, तालुक-सावनेर, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र-441107.
1844.	राष्ट्र सेवा दल	85/40, ऑफिसर फ्लैट, बेली रोड, पटना-800001.बिहार ।

1845.	राष्ट्र शक्ति	1112, एस /5, टैगोर गार्डन बस स्टैंड के पास, यमुना नगर-135001, जिला यमुना नगर, हरियाणा।
1846.	राष्ट्र उदय पार्टी	खसरा नं. 10, आतिफ विहार कॉलोनी, नजदीक सिटी आई.टी.आई., उत्तरधौना, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
1847.	राष्ट्र बाहिनी पार्टी	412, एस.के.श्याम हाईट्स, संपत हिल्स, बिचौली मर्दाना, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452016
1848.	राष्ट्र विकास झुंवेश पार्टी	दूसरी मंजिल, अपोलो एन्क्लेव, जैन देरासर के सामने, मोढेरा क्रॉस रोड, महेसाणा, गुजरात - 384002
1849.	राष्ट्रहित चिन्तक विपक्ष पार्टी	प्लॉट नं0 - 177-ई/2, वार्ड नं0 -2, महरौली, नई दिल्ली-110030
1850.	राष्ट्रवादी भारत पार्टी	एटी-511/5, अनंतपुर, वार्ड नंबर-10, गायत्री नगर, हुजूर रीवा, रीवा, मध्य प्रदेश-486001
1851.	राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी	बेगारिया का खेड़ा, पो0आ0-बरवान कलां, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1852.	राष्ट्रवादी जनता पार्टी	अनील भारती भवन, 43-ए, सुखवीर नगर, कराला, नई दिल्ली- 110081.
1853.	राष्ट्रवादी क्रान्ति दल	इन्दु निवास, गाँव देवी रोड, पोयसर, कांदिवली (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र- 400101.
1854.	राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक पार्टी (इंडिया)	35बी, सैनिक एन्क्लेव, सेक्टर- 1, मोहन गार्डन, नई दिल्ली- 110059
1855.	राष्ट्रवादी पार्टी (भारत)	ग्राम- ककराना, पोस्ट- धौलाना, जिला- हापुड, उत्तर प्रदेश- 245301
1856.	राष्ट्रवादी प्रताप सेना	ग्राम-नारायणपुर बासका पो0ऑ0-धौलाना, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1857.	राष्ट्रवादी विकास पार्टी	217,2 फ्लोर, देवकी टावर, चन्द्र नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201 011
1858.	राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी	एम.एम.एस., 1/84, सेक्टर - ए, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
1859.	राष्ट्रवादी चेतना पार्टी	रा, मकान सं. 16एफ/एफ, के.एच.सं0 28/10, रियाल गार्डन, नागलोई, नई दिल्ली-110041
1860.	राष्ट्रवादी इंसान पार्टी	18/84/6सी, पुरा दलेल, तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
1861.	राष्ट्रवादी जन चेतना पार्टी	ए-69, त्रिकम नगर सेक्शन-1, चौपाटी गार्डन के पास, एल.एच. रोड, सूरत, गुजरात-395010
1862.	राष्ट्रवादी जन कांग्रेस	संतोष भवन, रोड नं0 - 1 एक्स्टेंशन, राजवंशी नगर, पटना, बिहार - 800023
1863.	राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी	158/33ए-1, गंगा प्रसाद रोड, अंसार कॉम्प्लेक्स, मौलवीगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226018
1864.	राष्ट्रवादी जनताराज पार्टी	ए-404, अबजिबापा लेक व्यू, अपोजिट आर ए एफ गेट, निरंत चोकदी, वस्तराल, अहमदाबाद, गुजरात - 382418
1865.	राष्ट्रवादी जनलोक दल	934/1, नियर वडी, मोटामाढ़, एट व पो.ऑ- वालम, टी.ए- विसनगर, जिला- मेहसाणा, गुजरात- 384310
1866.	राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी (सत्य)	हरसरू, शिव मंदिर के पास, तहसील-हरसरू, जिला-गुडगाँव हरियाणा- 122505
1867.	राष्ट्रवादी जनसंघ	पकड़ी गांधीनगर मोड, (कतीरा रोड), जैन कॉलेज पूर्वी गेट के पास, कतीरा, आरा, नवादा, जिला-भोजपुर, बिहार-802301
1868.	राष्ट्रवादी जनविकास पार्टी	मकान सं. 7-जी-27, जवाहर नगर, श्री गंगानगर, राजस्थान- 335001
1869.	राष्ट्रवादी जनवादी मंच	मकान नं-160, जोधी का पूरा, आजमगढ़ नगर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
1870.	राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल	H.No. 73, मोहल्ला - रायसाहब, तहसील - सिरौली, गौसपुर, जिला - बाराबंकी, उत्तर प्रदेश - 225415.
1871.	राष्ट्रीवादी माइनोरिटी पार्टी	ग्राम-कदमपुरा, वार्ड-9, पोस्ट ऑफिस-कदमपुरा, जिला-सुपौल बिहार- 852134

1872.	राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी (एल. बी.)	एम. सी. यूनिट नं० 4 - 467, नूनसर जोहड़, पतराम गेट, भिवानी, जिला - भिवानी, हरियाणा - 127021
1873.	राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम- कल्याणपुर, पोस्ट- बड़हलगंज, तप्पा कस्बा, परगना - चिल्लूपार, जनपद- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273402
1874.	राष्ट्रवादी प्रजा दल	सी-2/60, राम पार्क-1 लोनी, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102
1875.	राष्ट्रवादी समाज पार्टी	16/17, सिविल लाईन्स, पदम अपार्टमेन्ट के पास, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
1876.	राष्ट्रवादी श्रमजीवी दल	512/695न, पहली गली, निशातगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश-226007
1877.	राष्ट्रवादी युवा पार्टी	आरसी हाउस, प्रगति नगर, चकमोहब्बत, पो.ओ- भीखनपुर, थाना- अहियापुर, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार- 842004
1878.	राष्ट्रीय बहुजन पार्टी	729/4, अंबेडकर चौक, ग्राम - नलेगांव, तालुक - चाकूर, जिला - लातूर, महाराष्ट्र- 413524
1879.	राष्ट्रीय आदर्श मैम्बर पार्टी	ग्राम व पोस्ट- उदयपुरा बीच का मुहल्ला, तहसील- राजनगर, थाना- खजुराहो, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश- 472339
1880.	राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी	प्लॉट नं०-4, पुष्पक नगर, जुनवानी रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़) पिन नं०- 490 020
1881.	राष्ट्रीय आम पार्टी	पार्टी कार्यालय 19ए, दूसरी मंजिल, ओम हीरा पन्ना मॉल, न्यू लिंक रोड, ओसिवरा, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400053
1882.	राष्ट्रीय आमजन पार्टी	बी-225, ओल्ड मिनाल, जे.के.रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462023.
1883.	राष्ट्रीय आदर्श पार्टी	पिथूवाला खुर्द, चन्दरबनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
1884.	राष्ट्रीय अहिंसा मंच	132/1, महात्मा गाँधी रोड, कोलकाता - 700 007
1885.	राष्ट्रीय एकता मंच पार्टी	डी-197, कुँवर सिंह नगर, नांगलोई, दिल्ली - 110041
1886.	राष्ट्रीय अम्बेडकर दल	अम्बेडकर भवन, बुद्ध विहार, सेन्दूल जेल रोड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
1887.	राष्ट्रीय अंत्योदय कॉंग्रेस	एस.एस. III/800, सैक्टर - 1, कोपरखैरणे, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र - 400709
1888.	राष्ट्रीय अन्याय निवारण सेना	138, जहागिरदारवाडी, पोस्ट- शिंगोली, तहसील व जिला- उस्मानाबाद महाराष्ट्र- 413501
1889.	राष्ट्रीय अपना दल	मकान नं० 232/81/4डी, तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
1890.	राष्ट्रीय आरक्षक मंच	4586, विजयनगर, 2nd स्टेज, देवराज मोहल्ला, मैसूर, कर्नाटक- 570017.
1891.	राष्ट्रीय आर्य राज सभा	769/2, विजय पार्क, झांग कॉलोनी, रोहतक - 124001, हरियाणा।
1892.	राष्ट्रीय अतुल्य युवा पार्टी	प्लॉट नं. 291, फ्लैट नं. 301, शिवनगर- 1, मुरलीपुरा, जयपुर, राजस्थान- 303328
1893.	राष्ट्रीय आज़ाद मंच	गाँव व पोस्ट - शाहजादपुर, तहसील- नारायणगढ़, जिला- अम्बाला, हरियाणा।
1894.	राष्ट्रीय बैकवर्ड पार्टी	1/44, शान्ति नगर, एटा-207001, उत्तर प्रदेश।
1895.	राष्ट्रीय बहुजन कॉंग्रेस पार्टी	टी ए - 137/3 तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110019.
1896.	राष्ट्रीय बहुजन हिताय पार्टी	सी.-158, कैप्टन सतीश मार्ग, ऋषि नगर, रानी बाग, नई दिल्ली - 110034.
1897.	राष्ट्रीय बहुजन क्रान्ति दल	ग्राम - दतावली गेसूपुर, जय भीम नगर, गढ़ रोड, निकट मैडिकल कॉलेज, तहसील - मेरठ, जिला - मेरठ, उत्तर प्रदेश।
1898.	राष्ट्रीय बाल्मिकी सेना पक्ष	जगद्गुरु महर्षि बाल्मिकी स्वामी मंदिर मार्ग, सी.एम.ई. राम नगर बोपखेल, पुणे - 411031 (महाराष्ट्र)।
1899.	राष्ट्रीय बन्धुत्व पार्टी	554, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
1900.	राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी	श्रीशिपमा बिल्डिंग, एमिटी विश्वविद्यालय गेट नं.1 के सामने, निजामपुर, मल्हौर, पी.एस-चिनहट, तहसील-सदर लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226028

1901.	राष्ट्रीय भागीदारी समाज पार्टी	गाँव-गढ़ी (मेहन्दा मोड़), तहसील-हाँसी, जिला-हिसार, हरियाणा-125033
1902.	राष्ट्रीय भाईचारा विकास पार्टी	सीपी - 15, रिको झुंझुनू, राजस्थान - 333001
1903.	राष्ट्रीय भारतीय अखण्ड पार्टी	मकान नं0 - 14, ग्राम व पोस्ट - बेहटा, विकास खण्ड - मसौली, थाना - सफदरगंज, जिला - बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
1904.	राष्ट्रीय भारतीय जन जन पार्टी	नियर ए.पी.एस, बिसाहडा, दादरी (गौतम बुध नगर) उत्तर प्रदेश - 203207।
1905.	राष्ट्रीय बुजुर्ग शक्ति पार्टी	मकान नं0 - 144, गांव-मांगावास, डाकखाना-पलडा, तहसील-बैरी, जिला-झज्जर, हरियाणा
1906.	राष्ट्रीय बुन्देलखंड विकास पार्टी	1/965, मानसरोवर पार्क, रामजी लाल की बगीची, नियर रेलवे लाइन फाटक, जी.टी.रोड, जी.टी.रोड, शाहदरा, दिल्ली- 110032
1907.	राष्ट्रीय चाणक्य पार्टी	फ्लैट नं. 726एफएफ, ब्लॉक-ए, सेक्टर- म्यू-II, ग्रेटर नोएडा, जिला- गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201310
1908.	राष्ट्रीय काँग्रेस (बाबू जगजीवनराम)	वार्ड सं0 45, मोहल्ला - बलदेवपुरी, जनपद - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
1909.	राष्ट्रीय काँग्रेस (जे0) पार्टी	सैंधरी, पोस्ट - हरथला, वाया-पाकवडा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
1910.	राष्ट्रीय दल युनाइटेड	जी- 3/792, वार्ड नं.- 69, दुर्गा अपार्टमेंट, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन-1, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201005
1911.	राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक फ्रन्ट	मकान नं0 - 397, ग्राम- सोनारी, पोस्ट - सोनारी(रामगंज), थाना - पीपरपुर, तहसील- अमेठी, जनपद- अमेठी, उत्तर प्रदेश - 228159
1912.	राष्ट्रीय देशज पार्टी	टुंगरी टोली, अरगोडा, सेन्ट फ्रांसिस स्कूल, पोस्ट-हारमू, जिला-रांची, झारखण्ड, पिन - 834012
1913.	राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी	मकान नं0-330/6, नया बाजार, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश - 173001
1914.	राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष नव भारत पार्टी	108, शंकर शाह नगर, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।
1915.	राष्ट्रीय एकता पार्टी	हाउस नं.83, ग्राउंड फ्लोर, गली नं.4, चांद मस्जिद की पास, जाफराबाद, दिल्ली - 110053
1916.	राष्ट्रीय एकता पार्टी (सैक्यूलर)	भवन नं0 543, मोहल्ला- उपादियान, वार्ड नं0 14, किठौर, जिला- मेरठ, उत्तर प्रदेश।
1917.	राष्ट्रीय गण संघ	एटी-68/1, खुदीराम सारणी, नामबोंगी, बालुरघाट, पोस्ट -बालुरघाट, थाना-बालुरघाट, जिला-दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल - 733101
1918.	राष्ट्रीय गरीब दल	110, रामनगर, पानीपत, हरियाणा।
1919.	राष्ट्रीय गरीब उत्थान पार्टी	ग्राम- नसोपुर, पो.- नगपुर, तहसील- जलालपुर, थाना- जलालपुर, जनपद- अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश- 224149।
1920.	राष्ट्रीय गरिमा पार्टी	बी-14, कस्तूरबा नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल - 462001, मध्य प्रदेश।
1921.	राष्ट्रीय जनरल पार्टी	वार्ड नं0 11, आदर्श नगर, कलेक्ट्रीएट रोड, बक्सर, बिहार - 802101।
1922.	राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी	सारखेल हाऊस, तिफरा, बिलासपुर - 495223, छत्तीसगढ़।
1923.	राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी	62, सिविल लाईन्स, रुड़की, जनपद - हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
1924.	राष्ट्रीय हिन्द एकता दल	गांव- नगला भाजा, पोस्ट- मिधौली, थाना-विष्णुगढ, तहसील- छिबरामऊ, जिला-कन्नौज, उत्तर प्रदेश- 209721
1925.	राष्ट्रीय हिन्दुस्तान शक्ति दल	आई- 26/1, गली नं. 10, ब्रह्मापुरी, दिल्ली- 110053
1926.	राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी	गाँव-मुमताज नगर, पोस्ट-मुमताज नगर, तहसील सोहावल, नजदीक सम्राट मेडिकल सेटोर, थाना-कैंट, जिला-अयोध्या, उत्तर प्रदेश- 224001.
1927.	राष्ट्रीय इन्डीपेंडेंट मोर्चा	माईनिंग रोड, किंओझार (ओ.एस.एम. ई. लेडीज़ हॉस्टल के सामने), पोस्ट/द्वारा : किंओझारगढ़, जिला : किंओझार - 758001 ओडिसा।
1928.	राष्ट्रीय जागृती पार्टी	रीषभ इंस्टीट्यूट, चिरैयाट्रॉड पुल, चौधरी पेट्रोल पम्प, कंकरबाग, पटना, बिहार - 800020

1929.	राष्ट्रीय जागरूक पार्टी	मकान संख्या- बी- 7/209, सट्टा बाजार, कोट कपूरा, जिला- फरीदकोट, पंजाब – 151204
1930.	राष्ट्रीय जयहिन्द पार्टी	आदर्श नगर, कोकर, थाना-सदर, जिला-रांची, झारखण्ड-8340041
1931.	राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी (यूनाइटेड)	मकान नं० – 710, नया पूर्वा, डिग्री कॉलेज चौराहा, कचहरी रोड, लिबर्टी शोरूम के सामने, जिला – रायबरेली, उत्तर प्रदेश ।
1932.	राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी	एम.आई.जी.-23, त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स, टीटी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश-462003
1933.	राष्ट्रीय जन गौरव पार्टी	470, परमानतपुर, (सपना आइस फैक्ट्री के पीछे), पोस्ट- कचहरी, तहसील- सदर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222002
1934.	राष्ट्रीय जन जन पार्टी	C/O परशुराम सिंह, नैली निवास, शिव नगर, रोड नंबर-1, फोर्ड हॉस्पिटल के पीछे, थाना-राम कृष्णा नगर, पो-राम कृष्णा नगर, खेमनीचक, जिला पटना, बिहार - 800027
1935.	राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी	जी – 290, ओल्ड सीमा पुरी, दिल्ली – 110095.
1936.	राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी सेक्युलर	खाता-187, खसरा-869, थाना-150, तौजी न.-525, ग्राम व पोस्ट- चोंढली, थाना-बेलदौर, जिला-खगड़िया, बिहार- 852161
1937.	राष्ट्रीय जन मंच	ग्राम व पोस्ट- गुडा, जिला- जालौन, उत्तर प्रदेश- 285122.
1938.	राष्ट्रीय जन सागर पार्टी	वॉटर बॉक्स के पीछे, नारेडा रोड, तहसील व जिला- बारां, राजस्थान-325205
1939.	राष्ट्रीय जन सहाय दल	112, न्यू कनाॅट प्लेस, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
1940.	राष्ट्रीय जन सहयोग पार्टी	प्लॉट नं. ए-40, गायत्री पुरम, शोभित यूनिवर्सिटी, पल्लवपुरम, फेस-2, मोदी पुरम, सिटी- मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250110
1941.	राष्ट्रीय जन समर्थन पार्टी	ए-122बी, ग्राउन्ड फ्लोर, हरि नगर, नई दिल्ली- 110064
1942.	राष्ट्रीय जन विकास पार्टी	मुहल्ला-सुन्दरपुर छट्टी पोखर, पोस्ट-लालबाग, जिला-दरभंगा, बिहार-846004
1943.	राष्ट्रीय जनाधार पार्टी	596 एस. के.- 04/01/01, सुमिरन खेड़ा, आदर्श विहार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1944.	राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी	61, मंगला पुरी फेस- 1, पालम, नई दिल्ली – 45.
1945.	राष्ट्रीय जनाधिकार सुरक्षा पार्टी	गाँव – कृष्णापुर, पोस्ट – धोपाहाट कृष्णापुर, जिला – 24, परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल ।
1946.	राष्ट्रीय जनाहिता पार्टी	न० 140, विद्यारन्यापुरा, नर्सिपुरा, मेन रोड, बैंगलोर, कर्नाटक- 560097
1947.	राष्ट्रीय जननायक जनता पार्टी	आर. जैड-3284/37, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110019
1948.	राष्ट्रीय जनसचेतन पार्टी	सेनारपुर, सुकान्ता नगर (मिलानपाली) (शिव मन्दिर के पास) पो० आफिस व पुलिस स्टेशन – सोनारपुर, कोलकाता – 700150, पश्चिम बंगाल ।
1949.	राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी	109- एफ, नजीम पुरा, भूड़, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश – 203001
1950.	राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी	बी.पी.ओ. - खनक, मकान नं० – 627बी निकट पंचायत घर, आदर्श कॉलोनी, तहसील – तोशाम, जिला – भिवानी, हरियाणा- 127040
1951.	राष्ट्रीय जन-जागरण मोर्चा	राज मंजिल, वार्ड नं० 12, गोपालगंज, पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट – गोपालगंज, बिहार ।
1952.	राष्ट्रीय जनक्रान्ति मोर्चा	ग्राम – बभने आलमनगर, पोस्ट – प्रतापपुर, जिला – चतरा, झारखण्ड ।
1953.	राष्ट्रीय जनक्रान्ति पार्टी	5/24 एच – 10 (आर०), आई०टी०आई० रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001
1954.	राष्ट्रीय जनमंच (सेकुलर)	गांव बेलापुर, तालुक-श्रीरामपुर, जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र-413715
1955.	राष्ट्रीय जनमत पार्टी	ग्राम – फतूहा, पोस्ट-हनुमानगंज, जिला-इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1956.	राष्ट्रीय जनमोर्चा	सी-69/10, गली नं०- 10, सी ब्लॉक, मुस्तफाबाद, दिल्ली - 110094
1957.	राष्ट्रीय जनप्रिय पार्टी	एच –II – 76/डी, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ – 226012, उत्तर प्रदेश ।

1958.	राष्ट्रीय जनराज पार्टी	28-ए, विशाल कुंज, दहतोरा रोड, बोदला, आगरा, उत्तर प्रदेश-282007
1959.	राष्ट्रीय जनसभा पार्टी	कोण्डागांव, फारेस्ट कॉलोनी वार्ड, जिला- कोण्डागांव, छत्तीसगढ़-494226.
1960.	राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी	यू.के. साहनी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कमरा नं-101, प्रथम तल, ग्राम-राजोपट्टी, जिला- सीतामढ़ी, बिहार-843302
1961.	राष्ट्रीय जनसंचार दल	600/279/031एन, सुमित नगर, फरीदीपुर, रिंग रोड दुबगा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226101
1962.	राष्ट्रीय जनसंघर्ष स्वराज पार्टी	अपर चुटिया, रांची, झारखण्ड – 834001
1963.	राष्ट्रीय जनसेना पार्टी	दुकान नं. 101, मदीना कॉम्प्लेक्स, कुंभारटेक, शिरपुर, जिला- धुले, महाराष्ट्र।
1964.	राष्ट्रीय जनसेवा – सेकुलर पार्टी	428, ब्राह्मण वाडा, पुराना वार्ड नं०- 23, बल्लभगढ़ – 121004, जिला – फरीदाबाद, हरियाणा।
1965.	राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी (एकलव्य)	पोस्ट व गांव – बिंजहोल, तहसील और जिला – पानीपत, हरियाणा – 132103.
1966.	राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी (सेक्युलर)	417-ए, जैना टावर-111, ए-1 ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली- 110058
1967.	राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी	मुहल्ला- थोक, वार्ड नं. 4, पुरानागंज, निकट रेलवे स्टेशन, मिश्रिख, जिला- सीतापुर, उत्तर प्रदेश- 261001
1968.	राष्ट्रीय जनशांति पार्टी	52/2, स्कूल वार्ड चौक, जी.जी.आई.सी. के पीछे, प्रतापगढ़ – 230001, उत्तर प्रदेश।
1969.	राष्ट्रीय जनसुराज्य पार्टी	मकान नं. 953/सी, गरोबा मैदान, भंडारा रोड, बगडगंज, नागपुर (पूर्व), महाराष्ट्र-440008
1970.	राष्ट्रीय जन-स्वाभिमान पार्टी	नं.1 बी,223,एमआईजी,आवास विकास कॉलोनी,रुकुनपुर,शिकोहाबाद,जिला-फिरोजाबाद,उत्तर प्रदेश-283135
1971.	राष्ट्रीय जनता पार्टी	निकट शिव मन्दिर कालोनी, सौरखा, जाहिदाबाद, सैक्टर – 115, नोएडा, जिला – गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश।
1972.	राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी	गोविन्द चिकित्सालय, परसिया मोड़, रसूलपुर, रसड़ा – बलिया, उत्तर प्रदेश।
1973.	राष्ट्रीय जनउत्थान पार्टी	ए-655-56, आवास विकास, हंसपुरम (कैनाल रोड), नौबस्ता, कानपुर नगर – 208021, उत्तर प्रदेश।
1974.	राष्ट्रीय जनविकास पार्टी (डेमोक्रेटिक)	मनोरमा सदन, इन्द्रपुरी सिपारा, पोस्ट आफिस- डेलवाँ, थाना- बेऊर, जिला- पटना, बिहार- 800020.
1975.	राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (क्रांतिकारी)	9/168, इन्द्रानगर, पानी टंकी के पास लखनऊ – 226016.
1976.	राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट)	1/73, शिव कटरा, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208007
1977.	राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी	788- ई/24, यूनियन बैंक के सामने, नजदीक पुरानी कचहरी, रोहतक रोड, सोनीपत - 131001, हरियाणा।
1978.	राष्ट्रीय कल्याण पक्ष	904, अटलान्टा टावर, इन्कलाब सोसायटी गुलबाई टेकरा, अहमदाबाद – 380006, गुजरात।
1979.	राष्ट्रीय कर्मयोग पार्टी	गाँव व पोस्ट – सुल्तानपुर, तहसील – नीलोखेड़ी, हरियाणा – 132116.
1980.	राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी	मकान नंबर 54के,वार्ड नंबर 4 (नया),वार्ड नंबर 8 (पुराना),मालवीय नगर,चित्तबडगांव,मिडिल स्कूल के पास,तहसील और जिला-बलिया,उत्तर प्रदेश-221713
1981.	राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टी	अजिंक्य राजवाड़ा भवन, शासकिय तंत्रनिकेतन के सामने, तुलजापूर रोड, निटुरे नगर, उस्मानाबाद, तालुक और जिला - उस्मानाबाद, महाराष्ट्र – 413501
1982.	राष्ट्रीय किसान कांग्रेस पार्टी	मकान नं० 1-11-602 रमामाता आंबेडकर नगर, गुरु गोविंद सिंघजी स्टेडियम के पास, ता. जि. नांदेड, महाराष्ट्र।
1983.	राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी	डब्लू-127, पहला तल, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048

1984.	राष्ट्रीय किसान पार्टी	गांव व पो-धानौधा, तहसील व जिला – महेन्द्रगढ़, (हरियाणा)।
1985.	राष्ट्रीय किसान समाज पार्टी (यूनाईटेड)	मौहल्ला – पटेगंज कांठ, पोस्ट – कांठ, तहसील- कांठ, जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश - 244501
1986.	राष्ट्रीय किसान श्रमिक पार्टी	ग्राम- तखत खेड़ा, पोस्ट- आकमपुर (बिहार), भगवन्त नगर, जनपद- उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209864
1987.	राष्ट्रीय कौमी एकता पार्टी	लिमडा लेन, मकरानी पाडा, जामनगर – 361001, (गुजरात)।
1988.	राष्ट्रीय क्रान्ति पार्टी	लोधी प्रज्ञापीठ, लौह पुरुष डा. साक्षी नगर, शिकोहाबाद रोड, जिला एटा – 207001, उत्तर प्रदेश।
1989.	राष्ट्रीय क्रान्तिकारी दल	गोपाल नगर, मेन सुरुखपुर रोड, नजफगढ़, नई दिल्ली – 110043.
1990.	राष्ट्रीय क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी	मकान सं०-65/25 के, छितवापुर रोड, लाल कुँआ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1991.	राष्ट्रीय कृषक दल	प्लाट नंबर 177, मकान नंबर-एसए-4/ए-5बी, दौलतपुर, पोस्ट खजूरी (पांडेपुर), जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221002
1992.	राष्ट्रीय लोक दल	406, वी.पी.हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
1993.	राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी	मकान नं. 31, ग्राम- कमसड़ी, पोस्ट ऑफिस - असावर, तहसील- मुहम्मदाबाद, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 233225
1994.	राष्ट्रीय लोक प्रजा राज्य पार्टी	बरकाती अपार्टमेन्ट, नार्मल चौक, बिजली ऑफिस के सामने, खुरमपुर, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273001
1995.	राष्ट्रीय लोक सर्वाधिकार पार्टी	म. नं० –630, ग्राम- पसौडा, बौद्ध विहार मंदिर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
1996.	राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी	सम्पत्ति स.39/34 ए.निकट साहबा बस अड्डा, जिला हनुमंगढ़, राजस्थान- 335501
1997.	राष्ट्रीय लोक तन्त्र दल	ग्राम मोहल्ला – नगला काशी तहसील – धौलाना, जिला – हापुड, उत्तर प्रदेश - 245301
1998.	राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी	जे-1201, आदित्य मेगा सीटी, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014
1999.	राष्ट्रीय लोकराज पार्टी	भवन सं० – 73/382, मोहल्ला – वनखण्डी टीला, (सहकारी बैंक के पीछे), मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281001
2000.	राष्ट्रीय लोकसत्ता पार्टी	नं.-287/3, मंगलपांडे नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250001
2001.	राष्ट्रीय लोकशक्ति पार्टी	अर्जुन नगर कालोनी, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश - 262802
2002.	राष्ट्रीय लोकस्वराज पार्टी	पद्मा फॉर्म, गाँव – छप्परा खेड़ा, नजदीक बालाजी मंदिर फूसगढ़, करनाल, हरियाणा
2003.	राष्ट्रीय लोकवादी पार्टी	ए/6ए, ग्राउण्ड फ्लोर, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली - 110015
2004.	राष्ट्रीय महा जनशक्ति दल	कमरा नं० -17, एम. नरेश मुन्ना चॉल, जयहिन्द नगर, पाईप लाइन, खार पूर्व, मुम्बई – 400 051, महाराष्ट्र।
2005.	राष्ट्रीय महाजन शक्ति पार्टी	मकान नं. 843/39, शिव उत्सव वाटिका, न्यू रेलवे स्टेशन मार्ग, अटर रोड, भिण्ड, मध्य प्रदेश- 477001
2006.	राष्ट्रीय महान दल	108/60, आवास विकास कॉलोनी, ग्राम तैमूरपुर, पोस्ट-बिजनौर, जिला- बिजनौर, उत्तर प्रदेश।
2007.	राष्ट्रीय महान गणतन्त्र पार्टी	गाँव – अड्डा छिनपारई, पोस्ट – छिनपारई, नौझील, मथुरा, उत्तर प्रदेश - 281203
2008.	राष्ट्रीय महाशक्ति पार्टी	5, रुपायातन एस. वी. रोड। विले पार्ले पश्चिम, मुम्बई-400056, महाराष्ट्र।
2009.	राष्ट्रीय महास्वराज भूमि पार्टी	एटी-3ए, प्रथम तल, धारावी विवेकानंद को.ओपी.हाउसिंग सोसाईटी एल.टी.डी., प्रभाकर कुंटे नगर, 90 फीट रोड, कुंवारवाड, धारावी, महाराष्ट्र, मुंबई-400017

2010.	राष्ट्रीय महिला जनशक्ति पार्टी	ग्राम सभा-सैंता जिगिनियाँ, पोस्ट-काँटा गुलजारपुर, ब्लॉक-फतेहपुर, जिला-उन्नाव, पिन-909801, उत्तर प्रदेश।
2011.	राष्ट्रीय महिला पार्टी	340, स्वाले नगर, रामपुर रोड, सी.बी.गंज, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश- 243502
2012.	राष्ट्रीय मजदूर कृषक पार्टी	एटी-एनएच-28,तेनुआ,हरैया,बस्ती,उत्तर प्रदेश-272155
2013.	राष्ट्रीय मजदूर विकास पार्टी	मकान सं. 502, यमुना रोड, प्रथम तल, ग्राम- मेहंदीपुर, तहसील व जिला- सोनीपत, हरियाणा- 131001
2014.	राष्ट्रीय मानव एकता काँग्रेस पार्टी	गुरुद्वारा के सामने, स्टेशन रोड, रायपुर,छत्तीसगढ़।
2015.	राष्ट्रीय मानव सम्मान पार्टी	मकान नं0-1485, किदवई नगर, भारद्वाजपुरम, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश – 211006.
2016.	राष्ट्रीय मानव सेवा पार्टी	खाता नं.60,खसरा नं.03,मौजा नं.82,श्रीनगर हाऊस,समूखिया मोड,नियर न्यू पुलिस लाईन बांका,जिला-बांका,बिहार-813102
2017.	राष्ट्रीय मानव विकास पार्टी	मकान नं. 249, ग्राम- साथलपुर, पो.ऑ- ढवारसी, तहसील- हसनपुर, ब्लॉक- गंगेश्वरी, जिला- अमरोहा, उत्तर प्रदेश- 244242।
2018.	राष्ट्रीय मंगलम पार्टी	19/23, वेस्ट मोती बाग, स्ट्रीट नं – 3, सराय रोहिल्ला, दिल्ली – 110 035.
2019.	राष्ट्रीय मराठा पार्टी	शिवनेरी सिंहगड बिल्डिंग, श्रीनगर (शिवनगर) कॉलोनी, बिंदर रोड, उदगीर, जिला – लातूर, महाराष्ट्र – 413517
2020.	राष्ट्रीय मार्क्सवादी दलित लहर पार्टी	ग्राम- छोंकरवाडा, तहसील- वैर,जिला- भरतपुर, राजस्थान।
2021.	राष्ट्रीय मताधिकार पार्टी	ग्राम+पो0 – अरेराज,वार्ड नंबर 11,शिव मंदिर से पूर्व,गायत्री ट्रेडर,जिला-पूर्वी चंपारण,बिहार-845411
2022.	राष्ट्रीय मतदाता पार्टी	मोहल्ला – सैय्यदवाडा, कस्बा – मलिहाबाद, जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2023.	राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी	ब्लॉक बी, संत नगर, गली नं0 57, बुरारी रोड,दिल्ली – 110009.
2024.	राष्ट्रीय मजदूर किसान पार्टी	आकाश भवन, आई0डी0बी0आई0 बैंक के समाने, मेन रोड दादरी, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, विकास खण्ड- विसरख, तहसील- सदर, जनपद- गौतमबुद्धनगर,उत्तर प्रदेश।
2025.	राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातांत्रिक पार्टी	अशोक एवन्यू, गांव – लालगंज,थाना – सदर,जिला – राँची , झारखण्ड।
2026.	राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी	मकान नं0 – 57, ग्राम-मानेसर, मोहल्ला – मोहन पट्टी, जिला – गुडगाँव, हरियाणा – 122050.
2027.	राष्ट्रीय नागरिक पार्टी	मकान नं. 725, खसरा नं. 40, गाँव- मैदानगढ़ी, नई दिल्ली- 110068
2028.	राष्ट्रीय नौजवान दल	20/575, डी0डी0ए0 फ्लैट, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली - 110062
2029.	राष्ट्रीय नव निर्माण भारत पार्टी	के-33, एफ/एफ, ए.बी., लाजपत नगर - II, नई दिल्ली- 110024
2030.	राष्ट्रीय नव प्रभात पार्टी	110/2,लक्ष्मीपुरम,निकट आर.बी.एम्.स्कूल,गांधीनगर,मुज़फ्फरनगर,उत्तर प्रदेश-251 001
2031.	राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी	प्लॉट नं.145,पैगम्बरपुर,पोस्ट-रसूलगढ़,थाना-सारनाथ,वाराणसी,उत्तर प्रदेश-221007
2032.	राष्ट्रीय पाँवर पार्टी	101, आश्रम एवन्यू, बी/एच, कोचरब आश्रम, पालडी क्रॉस रोड, ऐलीसब्रीज, अहमदाबाद, गुजरात - 380006
2033.	राष्ट्रीय प्रगति पार्टी	गढ़ पर, नारदीगंज रोड, नवादा, पोस्ट व जिला – नवादा – 805 110, बिहार।
2034.	राष्ट्रीय प्रजा काँग्रेस (सेक्यूलर)	12-11-113, ए. बी. नागेश्वर राव स्ट्रीट,आर्य पुरम राजमुन्दरी (आन्ध्र प्रदेश)
2035.	राष्ट्रीय रक्षा दल	मार्फत, होटल पंकज, सैक्टर – 22ए, चंडीगढ़।
2036.	राष्ट्रीय रक्षक मोर्चा	31, अलकापुरी, न्यू हाईकोर्ट के पीछे, सिटी सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश - 474011

2037.	राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी	2/36, रुचि खण्ड-1, शारदा नगर योजना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226012
2038.	राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी	डी- 26, मीरदरद रोड, नई दिल्ली- 110002
2039.	राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी	रुतनचक नया टोला, पोस्ट-हथुआ, जिला-गोपालगंज बिहार-841436
2040.	राष्ट्रीय सदभावना पार्टी	ग्राम- राघोपुर नरसंडा, पोस्ट- बाजितपुर, थाना- पातेपुर, जिला- वैशाली, बिहार- 843110
2041.	राष्ट्रीय साफ नीति पार्टी	ग्राम व पोस्ट- मनोहरपुरा, तहसील- बस्सी, जिला- जयपुर, राजस्थान- 303301
2042.	राष्ट्रीय सहारा पार्टी	जंगरा मार्किट दुन्दहारा, गुडगाँव – 122016, हरियाणा।
2043.	राष्ट्रीय सहयोग पार्टी	एफ- 130/4, ग्राउंड फ्लोर, गौतम नगर, नई दिल्ली- 110049
2044.	राष्ट्रीय समाधान जनमोर्चा	11, प्रकाश नगर, एमपीईबी अधिकारी कॉलोनी, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462023.
2045.	राष्ट्रीय समाज दल (आर)	मकान सं.193, वार्ड सं.7, शास्त्री नगर, कोरांव, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 212306
2046.	राष्ट्रीय समाज पक्ष	द्वारा एल. डब्ल्यू. काले, 17 – रघुनाथ दादोजी स्ट्रीट, चौथी मंजिल, हैन्डलूम हाउस के पास, फोर्ट, मुम्बई – 400001, महाराष्ट्र।
2047.	राष्ट्रीय समाजहित दल	मुहल्ला-देवी मंदिर कॉलोनी (डीएम कॉलोनी), पेट्रोल पम्प के बगल में, दीघा, पटना, बिहार-800011
2048.	राष्ट्रीय समाजवादी अपना दल	ग्राम – बासूपार (बनकट) निकट शिवा नरसिंह होम, पो – जीयनपुर, जनपद – आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
2049.	राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रान्ति पार्टी	बी-37/162, के. पी. गिरी कॉलोनी, बिरदोपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
2050.	राष्ट्रीय समाजवादी लोक अधिकार पार्टी	ए.टी.-ग्राम सिलाट, पोखरिया पोस्ट, वाया बिरौली (आर.ई), जिला- समस्तीपुर, बिहार-848113
2051.	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (सेक्यूलर)	ए /104, राजश्री एवेन्यू, बी./एच., इन्कम टैक्स के पीछे, दिनेश हाल के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद – 380009, गुजरात।
2052.	राष्ट्रीय समाजवादी स्वाभिमान मंच	प्लॉट नं. 33/34, लक्ष्मी नगर, रिसाली, भिलाई, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़ – 490006
2053.	राष्ट्रीय समानता दल	8/440, त्रिलोक पुरी, दिल्ली – 110091.
2054.	राष्ट्रीय समरसता पार्टी	सी- 133, डी.डी.ए फ्लैट्स, न्यू रणजीत नगर, पटेल नगर, नई दिल्ली- 110008
2055.	राष्ट्रीय सम्राट सेना पार्टी	हाऊस नं0 3115, एस. जीनगर ., दीघा, ऐरोली, नई मुंबई, महाराष्ट्र- 400708
2056.	राष्ट्रीय समता पार्टी (सेकुलर)	मकान नं0 – 27, ग्राम – वीरपुर सिंघाड़ा, पोस्ट – सिंघाड़ा, जिला – वैशाली, बिहार- 800011
2057.	राष्ट्रीय समता विकास पार्टी	मकान सं. 227/111, विष्णुपुरी भूतेश्वर, पोस्ट- कृष्णानगर, जिला- मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281004
2058.	राष्ट्रीय संविधानवादी पार्टी	ग्राम-रमपुरा, पोस्ट-हैदरपुर, जनपद-औरैया, उत्तर प्रदेश- 206129
2059.	राष्ट्रीय सनातन पार्टी	स्वाभिमान भवन, शिवधाम कॉलोनी, सी ब्लॉक समीप, सैनिक विहार, डीवाईडर रोड, नंगला तासी, थाना कंकड़खेडा, मेरठ कैंट, मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250001
2060.	राष्ट्रीय सेंगेल पार्टी	सिमडेगा भवन, डंगराटोली चौक के नजदीक, ऑपोजिट तनवीर पेट्रोल पम्प, पुरुलिया रोड, रांची, झारखण्ड- 834001
2061.	राष्ट्रीय संगम दल	7बी, ख्योरा, नवाबगंज, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208002
2062.	राष्ट्रीय संत संदेश पार्टी	263, बनारस निवास, मित्रनगर, लातूर, तालुक व जिला-लातूर-413512, महाराष्ट्र।
2063.	राष्ट्रीय संयुक्त पार्टी	5/36, रेलवे रोड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, जनपद – फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश -209625।

2064.	राष्ट्रीय संयुक्त समाज पार्टी	एन 8/236-आर-53-1, गणेश धाम कॉलोनी, नेवादा, सुन्दरपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221004.
2065.	राष्ट्रीय सर्वजन पार्टी	124/3, मदक खाना खुशीपुरा, झांसी-284001, उत्तर प्रदेश।
2066.	राष्ट्रीय सर्वांगीन विकास पार्टी	खसरा नं. 608, ग्राम - पसौदा, मेन वजीराबाद रोड, नियर गैरीमांजलि पब्लिक स्कूल, विपक्ष राजेंद्र नगर, गरिमा गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201005.
2067.	राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी	खसरा नं. 496/1, मेन वजीराबाद रोड, ग्राम- पसौदा, तहसील- लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
2068.	राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी	ए - 412, ए0जी0 कॉलोनी, थाना - शास्त्री नगर, जिला - पटना, बिहार - 800025
2069.	राष्ट्रीय सवर्ग समाज पार्टी	ग्राम- सखैला, पोस्ट गौराबादशाहपुर -, जिलाजौनपुर -, उत्तर प्रदेश - 222133.
2070.	राष्ट्रीय सवर्ण दल	दुवे का पड़ाव, अलीगढ़ - 202001,(उत्तर प्रदेश)।
2071.	राष्ट्रीय सैक्युलर कांग्रेस	आशीर्वाद अपार्टमेन्ट, मथुरा द्वारका रोड, सकुन्तला पथ, 5 वीं बयई लेन, दीसपुर, गुवाहाटी-6, असम ।
2072.	राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी	वार्ड नं.36,गांव-बिहार शरीफ,बड़ी दरगाह,नालंदा,बिहार-803101
2073.	राष्ट्रीय शहरी विकास पार्टी	म0 नं0 8/69(40,40ए) पुराना किला, बाबू बनारसी दास नगर, कैण्ट रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226001
2074.	राष्ट्रीय शक्ति पार्टी (इण्डिया)	80-ए, मुनिरका गाँव, नई दिल्ली-110067
2075.	राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी	गांव - लोहवन, पोस्ट - लोहवन, लक्ष्मी नगर - बलदेव रोड, जिला - मथुरा, उत्तर प्रदेश
2076.	राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी	थर्ड.एच.-2,नेहरु नगर,राकेश मार्ग,गाजियाबाद,उत्तर प्रदेश - 201001
2077.	राष्ट्रीय सूर्य प्रकाश पार्टी	द्वारा श्री पन्ना लाल, पुत्र श्री भोले शंकर, थाना-अवागढ़, जलेसर रोड, कस्बा व डाकखाना-अवागढ़, जिला-एटा, उत्तर प्रदेश ।
2078.	राष्ट्रीय स्वाभिमान संघ पार्टी	A - 104, सांघवी टॉवर, सामने हल्केश, मीराभायंदर रोड-, मीरा रोड ईस्ट, महाराष्ट्र - 401107.
2079.	राष्ट्रीय स्वराज्य सेना	03,दहिसर संकेत बिल्डिंग,शिव वल्लभ क्रॉस रोड,रावलपाडा,दहिसर (पू),मुंबई,महाराष्ट्र- 400068
2080.	राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी	ग्राम व पो0 - पिपरिया,वार्ड नं0 नं0- 3,थाना - मोहनियाँ,बिहार- 821105
2081.	राष्ट्रीय तीसरा विकल्प पार्टी	1372/12,न्यू गडौरा,बेहसा,कानपुर रोड,लखनऊ,उत्तर प्रदेश - 226002
2082.	राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल	3, रथद नगर, गोरखपुर रोड, आजमगढ़ - 276001, उत्तर प्रदेश।
2083.	राष्ट्रीय उन्नती पार्टी	प्रस्ताव संख्या 12-ए,ब्लॉक-के 4,मोहन गार्डन,उत्तम नगर,प्रथम पुस्ता,सोनिया विहार,दिल्ली- 110059
2084.	राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी	कैलाश इंडस्ट्रीयल इस्टेट के सामने,एस.आर.ए. बिल्डिंग नं0 1,रूम नं0 207,90 फीट रोड,विक्रोली,मुंबई-400079
2085.	राष्ट्रीय उत्तराखण्ड पार्टी	124/98, हरिद्वार रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
2086.	राष्ट्रीय वंचित पार्टी	मकान नं0 - 525(नया), 204(पुराना), पल्टन बाजार सदर, मकन्दुगंज, जिला - प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - 230001 ।
2087.	राष्ट्रीय विकल्प पार्टी	ग्राम-पिपरीली, पोस्ट-जहाँगीराबाद, जनपद-बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
2088.	राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी	प्लॉट सं0 58, न्यू कालोनी,तिलमापुर, आशापुर, सारनाथ, वाराणसी,उत्तर प्रदेश ।
2089.	राष्ट्रीय विकास मोर्चा	557, पाना उद्यान, नरेला, दिल्ली-40 ।
2090.	राष्ट्रीय विकास पार्टी	195, मेन अशोका इन्क्लेव, फरीदाबाद, हरियाणा
2091.	राष्ट्रीय विकासवादी जनता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- हरिहरपुर रैकवारी, जिला- बहराइच, उत्तर प्रदेश- 271870
2092.	राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी	एफ-25, प्रोफेसर कालोनी, कमलानगर, आगरा-282005, उत्तर प्रदेश ।

2093.	राष्ट्रीय युवा जनअधिकार पार्टी	दुकान नंबर-1, भीमनाथ शॉपिंग सेंटर, बड़े स्वामीनारायण मंदिर के बगल में, बोरिसाना, टीए - कलोल, जिला-गांधीनगर-382721
2094.	राष्ट्रीय युवा अधिकार दल	एटी- जी-67, राजीव नगर, बेगमपुर, पाल अस्पताल के पास, नई दिल्ली-110086
2095.	राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल	ग्राम-बलेजी, पोस्ट-फेफना, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश-277503
2096.	राष्ट्रीय युवा समाज पार्टी	18- मुस्कान मंजिल, रसुलाबाद, रहमत डुप्लेक्ष के सामने, शाह-ए-आलम, अहमदाबाद, गुजरात- 380028
2097.	राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी	कात्रे टाऊनशिप, सावता मैदान के सामने, जुनीवस्ती मेन रोड, बडनेरा जिला-अमरावती, महाराष्ट्र- 444701.
2098.	राष्ट्रीय आम जन सेवा पार्टी	सी-90, खसरा नं. 770, मदनपुर, खादर एक्सटेंशन, तहसील- महारौली, नई दिल्ली- 110076.
2099.	राष्ट्रीय अटल जनता पार्टी	नियर रिंग रोड क्रासिंग, 7, साकेत विहार, खुरम नगर साई गेस्ट हाउस, पहली मंजिल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226022
2100.	राष्ट्रीय हिन्द समाज पार्टी	हाउस नं. नया जुगौर आंशिक, तेह-लखनऊ जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226028.
2101.	राष्ट्रीय इन्साफ पार्टी	604, अनुभव ईलेडको, उद्यान-2, रायबरेली रोड, लखनऊ - 226025, उत्तर प्रदेश
2102.	राष्ट्रीय नव निर्माण पार्टी	जयमांदेवी पेंथो स्ट्रीट, ओल्ड ब्रह्मपुर, पोस्ट - ब्रह्मपुर, थाना - बडा बाजार, जिला - गंजम, ओडिसा-760009
2103.	राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी	72- तुलसी मंडी, होटल महारानी, महारानी चौक, पोस्ट- गुलजारबाग, थाना- आलमगंज, पटना सिटी, जिला- पटना, बिहार- 800007.
2104.	रायलसीमा कांग्रेस पार्टी	5/62, पेड्डुरु रोड, गालीवीडु कास्पा, गालीवीडु पोस्ट एवं मण्डल, वाई.एस.आर. कडपा जिला, आन्ध्र प्रदेश - 516267
2105.	रायलसीमा परिरक्षण समिति	डोर नं. 70-125-बी-71, हाईवे के निकट, कल्लुर, कर्नूल टाउन, आन्ध्र प्रदेश - 518003
2106.	रायलसीमा प्रजा समिति	मकान नं.5-54, चौदेश्वरी बाजार, पोस्ट एवं मंडल-कोडुमूर, कर्नूल जिला, आन्ध्र प्रदेश-518464
2107.	रायलसीमा राष्ट्र समिति	डोर नं. 22/160, वसन्थपेटा, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, प्रोद्वातुर - 516 360, आन्ध्र प्रदेश ।
2108.	रीयल डेमोक्रेसी पार्टी	37, अक्षर डायमंड मार्केट, सरदार चौक, मिनी बाजार, वराछा रोड, सूरत, गुजरात - 395006 ।
2109.	रिफार्मस पार्टी ऑफ इंडिया	1-10-50, बैप्टिस पेटा, एलुरु- 534001, आंध्र प्रदेश
2110.	रिज़नल डेमोक्रेटिक सेकुलर कांग्रेस	लोअर लम्पेयरिंग, पोस्ट - लाबन, जिला - ईस्ट खासी हिल्स, शिलांग - 793004, मेघालय ।
2111.	रिपब्लिकन बैकवर्ड कांग्रेस	प्लॉट सं० - 04, गली सं०-1, वार्ड सं०-1, एम. सी. - कालोनी, चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाण ।
2112.	रिपब्लिकन बहुजन सेना	305, शाहू स्मृति बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, महात्मा फुले नगर, मीनाताई ठाकरे उद्यान के पीछे, ठाणे (वेस्ट), महाराष्ट्र - 400606
2113.	रिपब्लिकन पक्ष (खोरिपा)	ईसा हटमेंटस, 8-9, आजाद मैदान, मुम्बई महा नगर पालिका के सामने, किला, मुम्बई-400001, (महाराष्ट्र) ।
2114.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया	सतनाम मैनसन, तीसरा मंजिल, बिल्डींग नं.245, पी डिमैलो रोड, रोल नं.1393, म्यूनिसीपल को-आपरेटिव बैंक के उपर, जीपीओ के अपोजिट, मुंबई -400001
2115.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)	नं.3/4, ईसा हटमेंट, आजाद मैदान, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र-400001
2116.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	मुकुन्द निवास, इंडिया नगर, लाटूर-413512(महाराष्ट्र) ।
2117.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (कर्नाटक)	कार्यालय नं.- 49/1, बी. नागासंद्र, यमलूर पोस्ट, बैंगलूरु, कर्नाटक-560037.

2118.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खोब्रागडे)	गीता विला, ईस्ट मारेड पल्ली, सिकन्दराबाद, (आन्ध्र प्रदेश)।
2119.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (राष्ट्रीय)	मकान नं0 - 67, 68, गली नं0 - 15, ब्लॉक - 28, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली - 110032
2120.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (रिफॉर्मिस्ट)	बी-12/704, विजय पार्क, कासारवडावली, जी.बी. रोड, ठाणे (पश्चिम), महाराष्ट्र - 400615
2121.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (शिवराज)	10, सोलई स्ट्रीट, अयानावरम, चेन्नई-600023, (तमिलनाडु)।
2122.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सोशल)	प्रोपर्टी नं. 2618, वार्ड नं. टुकुम-2, (पुराना वार्ड 1 सी), समता कॉलोनी, एसटी वर्कशॉप के सामने, ताडोवे रोड, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र- 442401
2123.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भारत	नं. 2001, पहली ए-मेन रोड आठवां क्रॉस, जैमुनी राव सर्किल (ओटागेयर) एम.सी. लेआउट, विजयनगर, बैंगलूर, कर्नाटक- 560040.
2124.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी	बी-9/667, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005
2125.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)	1/16, संजय काम्पलैक्स, टी. टी. नगर, भोपाल-462003, (मध्य प्रदेश)।
2126.	रिपब्लिकन सेना	शॉप नं0 -6, न्यू निर्मल सोसाइटी, 189, ढोले पाटील रोड, अक्षय कॉम्प्लेक्स समोर, पुणे, महाराष्ट्र - 411001
2127.	रिवोल्यूशनरी कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रसिक भट्ट)	84-आशुतोष मुखर्जी रोड, कोलकाता-700025, पश्चिम बंगाल।
2128.	रेवोल्यूशनरी गोवन्स पार्टी	घ.क्र.2385/ए, नागझरवाडा, बिचोलिम, उत्तर गोवा, गोवा- 403504
2129.	रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	शहीद सरवण सिंह चीमा मेमोरियल ट्रस्ट भवन, 352/1, फगवाड़ी मोहल्ला, गढा, जालंधर, पंजाब - 144022।
2130.	रेवोल्यूशनरी पार्टी	एस एच-3/40, आर.एस., विश्वनाथपुरी कालोनी, नवलपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221003
2131.	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)	टीसी 24/113, पनविला, थाईकाडु पो. आ., तिरुवनन्थापुरम, पिन कोड- 695014
2132.	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ केरल (बोल्शेविक) आर. एस. पी. बी	केरला स्टेट कमिटी कार्यालय, फ्यूचर सेंटर, शाहोदरा, समाजम रोड, चेट्टाकुलंगरा, तिरुवनंतपुरम (केरल)
2133.	राइट इंडिया मूवमेंट पार्टी	सेंट्रल मेल बॉक्स, श्री दी एम के हाइट्स, फ्लौट नंद 402, नंद 32-10-32, वेंकटेश्वरा कॉलोनी, वार्ड नं0 65, शीला नगर, विश्वपट्टणम, आन्ध्र प्रदेश- 530012
2134.	राइट पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम व पोस्ट - उत्तर बहीरगाछी, पी.एस. - नाकाशीपाड़ा, जिला - नदिया, पश्चिम बंगाल - 741126
2135.	राइट टु रि कॉल पार्टी	एफ-001-ए, सुपथ-2 कॉम्प्लेक्स, जुना वाडज बस स्टेन्ड के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात- 380013
2136.	राइजिंग पीपल्स पार्टी	मकान नं0-202, भूतल, फैलोशिप कॉलोनी, दीमापुर, नागालैंड-797112
2137.	रोटी कपडा और मकान पार्टी	ब्लॉक डी, बाबा कॉम्प्लेक्स, हर्ष नगर इटावा, उत्तर प्रदेश- 206001.
2138.	रॉयल इंडिया पीपल्स पार्टी	कमरा नं. 35/549 (10/37/153), आदम बाजार बिल्डिंग, श्रीसूर, केरला -680001.
2139.	रायथु बिद्दा पार्टी	8-16-93/1, सौभाग्य कॉलोनी, श्रीराम नगर, चिंतालकुन्टा, हैदराबाद, तेलंगाना- 500074
2140.	साफ पार्टी	547/229, जलालपुर, राजाजी पुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226017
2141.	सब जन विकास राष्ट्रीय पार्टी	शॉप/हाउस ऑफ नवी रसूल अंसारी पुत्र मोहम्मद हुसैन, गांव व पोस्ट- बारागाँव, वाया खरासारा, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश-277302
2142.	सब्बाथ पार्टी	दुकान नं. - 3, लक्ष्मी निवास बिल्डिंग, एम. एन. रोड, कुरला (पश्चिम), मुंबई - 400070, महाराष्ट्र।
2143.	सभी जन पार्टी	ई-1/32, दीनदयालपुरम, तौधकपुर रोड, नौबस्ता, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208021.
2144.	सबका दल यूनाइटेड	ग्राम व पोस्ट- सैरपुर, रायथा रोड, ब्लॉक- चिनहट, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226201।

2145.	सबकी पार्टी	बी-1/1, सेक्टर-जी, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2146.	सबसे अच्छी पार्टी	मकान संख्या- 222, अमीपुर नंगौला, माजरा- हैदरनगर, तहसील व जिला- हापुड़, उत्तर प्रदेश।
2147.	सबसे बड़ी पार्टी	41/48, पॉकेट- 2, मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली- 110091
2148.	सचो सच पार्टी	डी-2/2406, एकता नगर, पी.ओ जवाला आटा मिल्स, अमृतसार, पंजाब 143003
2149.	साडा हक पार्टी	मकान सं. 29/9/3, 29/8/2/3, वीपीओ महीलपुर, तहसील- गढ़शंकर, जिला- होशियारपुर, पंजाब- 144527
2150.	साडा पंजाब पार्टी	शांति नगर, ढंडारी कलां, लुधियाना, पंजाब – 141001 ।
2151.	सदान विकास पार्टी	नॉर्थ ऑफिस पारा, गौरी शंकर नगर, मकान नं.-276, दोरन्डा, राँची, झारखण्ड ।
2152.	सैनिक समाज पार्टी	317, शिवा डिस्पोजल कौम्प्लेक्स, संयुक्त यात्रा बस अड्डा रोड, चन्द्रभागा, आदर्श ग्राम, ऋषिकेश, जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड-249201
2153.	सजग समाज पार्टी	मोहल्ला- नासही, पोस्ट- जफराबाद, तहसील/सदर/जिला- जौनपुर उत्तर प्रदेश- 222180
2154.	सकाला जनुला पार्टी	नं.7-23/1, एम.बेंकटायपलेम, खम्मम ग्रामीण, खम्मम जिला, तेलंगाना- 507003
2155.	सामान्य प्रजा पार्टी	डी0 नं0 48-11-10/4, अशोक नगर, एम.वी.एस. ज्वैल्स के सामने, असीलामेट्टा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश - 530016
2156.	समग्र उत्थान पार्टी	मकान नं. बी/9, विवेकानन्द पार्क मार्ग, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना, बिहार- 800013
2157.	समग्र विकास पार्टी	1147/8 (157), पी0 एल0 शर्मा रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश – 250001
2158.	समैक्या तेलुगु राज्यम	डी. नं. 1-39-बी (क्रम सं. 1026ए), चायापुरम गाँव, वज्राकरुर मंडल, अनन्तपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश - 515842
2159.	समैक्यांध्र परिरक्षणा समिति	मकान नं. 8-3-580/1, येल्लारडुगुडा, अमीरपेट - 500073, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
2160.	समाज अधिकार कल्याण पार्टी	ऑफिस नं.822-823, आठ बाँ तल, मैसर्स बाजवा डेवलपमेंट लिमिटेड, सन्नी बिजनेस सेन्टर, न्यू सन्नी एन्क्लेव, सेक्टर – 125, मोहाली, पंजाब
2161.	समाज भलाई मोर्चा	134/17-सी, मिलाप नगर, होशियारपुर, पंजाब – 146001
2162.	समाज परिवर्तन पार्टी	ग्राम-सलारपुर, पोस्ट-करोरा, तहसील-मछलीशहर, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
2163.	समाज रक्षक पार्टी (भारतीय क्रांती)	ग्राम-केन, पोस्ट-कनवार, तहसील-सिराथु, जनपद-कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश- 212217
2164.	समाज सेवा पार्टी	मकान नं. 27, बहरामगढ़, तहसील- बुढाना, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश.
2165.	समाज सेवक पार्टी	568ख/223 सेक्टर-7, नियर पुराना भारत गैस गोदाम, गीतापल्ली, आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2166.	समाज शक्ति पार्टी	मकान नं0 सी-5/382, न्यू रिसेटलमेंट कॉलोनी, भलसवा, दिल्ली-110042
2167.	समाज सुधारक पार्टी	मकान सं.723/2, मंगल पाण्डेय नगर, सेक्टर-2, विश्वविद्यालय रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250004
2168.	समझदार पार्टी	ग्राम – माहरी(बडौली), पी.ओ. – माहरी, जिला - बलिया, उत्तर प्रदेश – 221716
2169.	सामाजिक नवनिर्माण पार्टी	6, फरीदीनगर, पिकनिक स्पॉट रोड, घनश्यामकुंज, इंदिरानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश –226016
2170.	सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी	बी -172, टी.डी.आई. सिटी, फतेहाबाद रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश - 282006.

2171.	सामाजिक संघर्ष पार्टी	मकान नं0 59, गली नं0 2, गुरु अर्जुन देव नगर, तरन तारन रोड, अमृतसर, पंजाब-143002
2172.	समाजतांत्रिक पार्टी ऑफ इण्डिया	40/1, बी0 रोड0, बामनगाछी, हावड़ा-711006, पश्चिम बंगाल।
2173.	समाजवादी आम जनता दल	बेलातल रोड, लाया पैलेस के पीछे, वार्ड नं.-2, नौगोंव, जिला-छत्तरपुर, मध्य प्रदेश- 471201
2174.	समाजवादी आन्दोलन पार्टी	ग्राम+पोस्ट-दौलतपुर गौहावर बिल्लौच, तहसील-चांदपुर, जिला-बिजनौर, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश-246734
2175.	समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक	7-5-14/बी, वेंकटेश्वर कॉलोनी, महबूब नगर, तेलंगाना - 509001
2176.	समाजवादी जन परिषद	जय माल्हा प्रसाद, रेती बुन्देर रोड, महागिरि, ठाणे (पश्चिम) - 400601, (महाराष्ट्र)।
2177.	समाजवादी जनता पार्टी (चन्द्र शेखर)	L एक्सटेंशन 358, मोहन गार्डन, रामा पार्क रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली - 110 059
2178.	समाजवादी जनता पार्टी (कर्नाटक)	कमरा संख्या-21, द्वितीय तल, हमीद शाह कॉम्प्लेक्स, नं.-2, कब्बनपेट, मेन रोड, उल्सूर गेट, पुलिस स्टेशन के पीछे, बंगलूर-560002, कर्नाटक।
2179.	समाजवादी जनक्रान्ति पार्टी	ए-454, शास्त्री नगर, दिल्ली- 110052.
2180.	समाजवादी लोक परिषद	कुसुमपुरम कॉलोनी, नल्लुपुर रोड, पोस्ट - कुरथोल, थाना - परसा बाजार, पटना बिहार-804453
2181.	समाजवादी समाज पार्टी	वार्ड नं. - 13, लोहिया नगर, नगर पंचायत - सलेमपुर, जनपद - देवरिया, उत्तर प्रदेश - 274001
2182.	समान आदमी समान पार्टी	ग्राम- अमिलवान, पोस्ट ऑफिस- खुटार, थाना माड़ा, जिला- सिंगरौली, मध्य प्रदेश- 486886.
2183.	समान अधिकार पार्टी	62/271, नगला काछियान, (मुस्तफा क्वार्टर कॉलोनी) आगरा कैन्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश।
2184.	समान भागीदारी पार्टी	538ख/404, दीनदयाल नगर, खदरा, सीतापुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226020
2185.	सामान्या मक्कल नाला काची	एस०एफ०न०1172/12 ए, करूर बाईपास रोड, इन्दिरा नगर, इरोड, तमिलनाडू-638002
2186.	सामान्य जनता पार्टी (लोकतांत्रिक)	नं0 - 17, मकान नं0 - 29, बसावना दुर्गा (कोरम्मा कैम्प), गंगावती, जिला - कोप्पल, कर्नाटक - 583227
2187.	समर्थ भारतवर्ष पार्टी	39ए- डी.डी.ए फ्लैट्स (पुराना), चिल्ला, मयूर विहार, फेस-I, दिल्ली- 110091
2188.	समर्थ किसान पार्टी	प्रबंधक- मदर टेरेसा कान्वेंट स्कूल, ग्राम व पोस्ट - मनौरी, तहसील - चायल, जनपद - कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश।
2189.	समता क्रान्ति दल	प्लॉट नं. 3547/3875, मौजा गौतम नगर, नगर, गार्गे छाका, टेम्पल रोड, ओल्ड उन, भुवनेश्वर-751002, ओडिसा।
2190.	समता पार्टी	220, विठ्ठलभाई पटेल हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
2191.	समता समाधान पार्टी	ई-1/150, अरेरा कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश।
2192.	समता संघर्ष पार्टी	55बी, राधेपुरी एक्सटेंशन-1, दिल्ली - 110051
2193.	समतामूलक समाज पार्टी	194, कांशी सदन, ए.बी.रोड, ग्राम व पोस्ट- रेन्हट, लैण्ड सर्वे नं.- 299/01/1(एस), पटवारी रेन्हट, तहसील-घाटीगाँव, जिला-गवालियर, मध्य प्रदेश-475330
2194.	समाथुवा मक्कल कझगम	139- टी.एच. रोड, कलादीपेट, थिरुवोतियूर, चेन्नई तमिल नाडु- 600019
2195.	संभाजी ब्रिगेड पार्टी	साई कॉम्प्लेक्स, गाला नं.7, नवा मोंडा, हिंगोली, तालुका एवं जिला- हिंगोली, महाराष्ट्र-431513
2196.	संविधान बचाओ पार्टी	24/ए/2, एस.डी.मुखर्जी लेन, डाकघर-रिसडा, थाना-रिसडा, जिला- हुगली, पश्चिम बंगाल-712248

2197.	समदर्शी समाज पार्टी	ग्राम- मानिकापुर मजरे सराय पाण्डेय, पोस्ट- जौरास, परगना व तहसील- हैदरगढ़, जिला- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश ।
2198.	समनक जनता पार्टी	सर्वे नंबर 120, प्लॉट नंबर 9, भावसार चौक के पास, अनिकेतनगर, तरोडा, (केडी(., मालेनगांव रोड, नांदेड, टीनांदेड - और जिला .के., महाराष्ट्र - 431605.
2199.	सामूहिक एकता पार्टी	13/51, परमट, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208001
2200.	सम्पर्क विकास पार्टी	शाप न.3,नंदकिशोर अपार्टमेंट,निकट चंद्रनगर बस स्टॉप,नारायणनगर,पालदी,अहमदाबाद,गुजरात-380007
2201.	सम्पूर्ण समर्पण पार्टी	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर, भुजौली कॉलोनी, प्लॉट नं. ई.डब्ल्यू.एस- 209-210, देवरिया, उत्तर प्रदेश-27400
2202.	सम्पूर्ण भारत क्रांति पार्टी	डब्ल्यू जैड- 150, ग्राम- बुढेला, विकासपुरी, नई दिल्ली- 110018
2203.	सम्पूर्ण समाज पार्टी	म.न. 464, ग्राम व पोस्ट- गैरवाह, थाना- सरपतहाँ, तहसील- शाहगंज, जनपद- जौनपुर, उत्तर प्रदेश-223103
2204.	समरस समाज पार्टी	राजी जरई, मौजा – घामडौज, तहसील – सोहना, जिला – गुडगाँव, हरियाणा ।
2205.	सम्राट अशोक सेना पार्टी	मकान नं. 1546, ग्राम व पोस्ट- बेलसर, तहसील- तरबगंज, जिला- गोण्डा, उत्तर प्रदेश-271401
2206.	सम्राट मिहिर भोज समाज पार्टी	एफ-64/सी9/197,सेक्टर-40,नोएडा,(नियर साईनाथ मंदिर),जिला- गौतम बुद्ध नगर,उत्तर प्रदेश-201303
2207.	समृद्धा ओडिशा	201, सीतलकुंज अपार्टमेंट, प्लॉट नं0 एम 63, मधुसूदन नगर, भुवनेश्वर- 751001, उड़ीसा।
2208.	समता दल (प्रगतिशील)	मकान सं0 - 480, गाँव – लिसाडी, तहसील व जिला – मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250002
2209.	समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी	के – 56/114-7 (रानीफाटक), असनगंज, वाराणसी, 221 001, उत्तर प्रदेश
2210.	समता विकास पार्टी	मकान हरभजन जांगडे, वार्ड न0 17,मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश ।
2211.	समतावादी रिपब्लिकन पार्टी	108, रामपुरम, पी.ए.सी. रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
2212.	समुगा मक्कल काची	नं. 3, मुदालियर गली, वलाम गाँव, काँचीपूरम जिला, तमिल नाडु – 602105
2213.	सम्यक् परिवर्तन पार्टी	ग्राम – जानकी नगर, रानीपुरवा स्कूल के पीछे, विकास खण्ड – झंझरी, निकट मण्डे नाला पुल, पोस्ट – बस स्टाप, जनपद – गोण्डा, उत्तर प्रदेश
2214.	सम्यक पार्टी	ग्राम व पोस्ट- माण्डा, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-212104
2215.	सनातन संस्कृति रक्षा दल	ग्राम - तराँव, पो. थाना एवं तहसील - कोराँव,जिला - इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2216.	संगठित जनता पार्टी	नं.177,शिवा खण्ड,विश्वकर्मा नगर,दिल्ली-110095
2217.	संघर्ष पार्टी ऑफ इंडिया	मकान सं. 314, शान्ति निकेतन, डी0 एम0 रोड, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश – 203001
2218.	संघर्ष समाज पार्टी	मकान नं0 – 44, ग्राम – ढका, पोस्ट – अखा, तहसील – आँवला, जिला – बरेली, उत्तर प्रदेश - 243001
2219.	संघर्ष सेना	11, साईराज कॉम्पलेक्स, पंडित नाका, शाहपुर, ता. शाहपुर, जिला. ठाणे, महाराष्ट्र – 421601
2220.	साँझी विरासत पार्टी	506, चन्द्रलोक कॉलोनी, गली नंबर- 3, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली- 110093
2221.	संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी	नए विग्रहपुर, मीठापुर, (बस स्टैंड) पटना-800001, बिहार
2222.	सन्मान राजकीय पक्ष	56, तिरुपति नगर, लोहारा, तालुक व जिला – यवतमाल महाराष्ट्र - 445002

2223.	संयोगवादी पार्टी	मकान नं.3, पहली मंजिल, कमर्शियल 1, परस तिएरिया, सेक्टर 137, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201304
2224.	संयुक्त भारत पक्ष	रत्नम बंगलो, नजदीक मीनताई ठाकरे गार्डन, एम्.आई.डी.सी.रोड, बदलापुर (पूर्व), तालुका-अम्बरनाथ, ठाणे, महाराष्ट्र-421503
2225.	संयुक्त जनादेश पार्टी	356/225/257, अशोक नगर, काले पहाड, आलमनगर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226017.
2226.	संयुक्त किसान विकास पार्टी	ग्राम- सुरौन्धा, पोस्ट- बड़की बसौली, थाना- डुमरांव, जिला- बक्सर, बिहार- 802119
2227.	संयुक्त क्रांति पार्टी	वार्ड नं.-3, लांजी, बालाघाट, मध्य प्रदेश - 481222
2228.	संयुक्त समाज मोर्चा	92-सी, वार्ड नंबर 13, भगवानपूरा रोड, समराला, लुधियाना, पंजाब- 141114
2229.	संयुक्त समाजवादी दल	11, जोन्स लाइन्स, आगरा-282004, उत्तर प्रदेश।
2230.	संयुक्त संघर्ष पार्टी	शोरूम नंबर 10, निचला भूतल, हाई ग्राउंड रोड, नाभा, उप-तहसील- जीरकपुर, मोहाली, जिला-एस.ए.एस. नगर-140603 (पंजाब)
2231.	संयुक्त विकास पार्टी	ग्राम – सारसौल, पोस्ट ऑफिस – मुनी, थाना – अरनियाँ, तहसील – खुर्जा, जिला – बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।
2232.	सपाक्स पार्टी	144, विद्यानगर, होशंगाबाद रोड भोपाल, मध्य प्रदेश- 462004
2233.	सर्व साँझी पार्टी	सागर हास्पिटल, नियर पीर बाबा मादी शाह जी, बस्ती ख्वाजू, होशियारपुर, पंजाब- 146001
2234.	सरदार पटेल सिद्धान्त पार्टी	ग्राम- नेवादा, पोस्ट- बहुता, तहसील- पट्टी, जिला- प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश- 230135।
2235.	सरदार वल्लभभाई पटेल पार्टी	1, ओलेकर हाऊस, दत्तापेडा रोड, बोरीवली पूर्व, मुम्बई - 400 066
2236.	सर्व जन पार्टी (भारत)	ई-734, कृष्णा मंदिर के पीछे, शकरपुर, दिल्ली- 110092
2237.	सर्व जन सर्व समाज पार्टी	2/248, टी एफ, सुभाष नगर, नई दिल्ली - 110027
2238.	सर्व राज्य पार्टी	548घ/17, तेजी खेड, तालकटोरा रोड, मानक नगर, जे.आर.पी.एफ. के पास, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226011.
2239.	सर्व समाज पार्टी	46, राजीव नगर, मण्डी चौक, गढमुक्तेश्वर, हापुड, उत्तर प्रदेश- 245101
2240.	सर्व सम्भाव पार्टी	यादव भवन, पुवायाँ रोड, ग्राम व ब्लॉक- बान्दा, तहसील- पुवायाँ, जिला- शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।
2241.	सर्व विकास पार्टी	गाँव – प्रतीत नगर, एन0 एच0 – 58, पोस्ट ऑफिस के नजदीक, रैवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड -249205
2242.	सर्व हित पार्टी	602-बी, खसरा सं0 298/199, 298/207, 298/209, मौहल्ला बाँस, सुनार वाली गली, ग्राम – घिठोरनी, नई दिल्ली - 110030
2243.	सर्व जन समाज पार्टी (नन्द किशोर चावला)	चावला प्रोपर्टीज, लक्ष्मी विहार, कैमरी रोड, हिसार, हरियाणा।
2244.	सर्व जनता पार्टी	सेन्ट्रल पार्टी ऑफिस #17, जावाली (ग्राम), पिलंगिरी (पोस्ट), शिमोगा (तालुक), जिला- शिमोगा-577 227, कर्नाटक।
2245.	सर्व समाज जनता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- ओरिल (खपडियाचक), तहसील- फूलपुर, जिला- आजमगढ़ उत्तर प्रदेश- 223222
2246.	सर्व समाज जनहित पार्टी	धूरीपुर (जखौँव) म ज्ञानपुर रोड गोपीगंज, तहसील-ज्ञानपुर, जिला- भदोही, उत्तर प्रदेश- 221304
2247.	सर्व समाज कल्याण पार्टी	बिजराज भवन, ग्राम – सिंघारपुर, पो. - अहमदपुर, मथुरा रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
2248.	सर्व सुरक्षा पार्टी	ग्राम व पोस्ट- तिलखवार, जिला - करछना, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
2249.	सर्वधर्म पार्टी (मध्य प्रदेश)	120/1, अशोका गार्डन, तहसील – नजूल, जिला – भापाल – 462023, मध्य प्रदेश
2250.	सर्वजन हिताय पार्टी	70/59, लीडर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211003

2251.	सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी	कॉफेड, मीन भवन, तृतीय तल, न्यू पुनाईचक, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पटना, बिहार – 800023
2252.	सर्वजन समाज पार्टी (डी)	ग्राम व पोस्ट आफिस - वाडला बांगर, तहसील-गुरुदासपुर, जिला-गुरुदासपुर,-143511 पंजाब।
2253.	सार्वजनिक आदर्श सेना	20/1, दूसरा मेन, 8 क्रॉस, चामुंडी ले आउट, विध्यारणयापूरा, बेंगलुरु-560097
2254.	सरवर पार्टी	ग्राम व पोस्ट-बसंतपुर, कैम्पियरगंज, जनपद- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273158
2255.	सर्वे भवन्ति सुखिनः पार्टी	ग्राम व पोस्ट - ममदर, तहसील व थाना - रामपुर नैकिन, जिला - सीधी, मध्य प्रदेश।
2256.	सर्वहारा दल	केवला फरियट्टा, बाया – गिधौर, जिला – जमुई, (बिहार)।
2257.	सर्वहारा विकास पार्टी	मकान नं० 102, जंगल मातादीन, आर्यपुरम कॉलोनी, पोस्ट - पदारी बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश – 273014
2258.	सर्वहित समाज सेवा पार्टी	मकान नं० – 177, ग्राम व पोस्ट – शाहजहाँपुर बैजना, थाना – दादों, जिला – अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202133 ।
2259.	सर्वजन आवाज पार्टी	नं.528, ब्लॉक-बी, प्लैटिनम हाइट्स, सेक्टर-18बी, द्वारका, नई दिल्ली-110078
2260.	सर्वजन लोक शक्ति पार्टी	टी.ए.184/2, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110019
2261.	सर्वजन नवयुग विकास पार्टी	ग्राम+पो0 – बिसुनपुर, बेदौलिया, थाना-जन्दाहा, जिला-वैशाली, बिहार-844505
2262.	सर्वजन समता पार्टी	774, गीतांजलि विहार, वार्ड नंबर 28, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201102
2263.	सर्वजन सनातन पार्टी	म. नं.-बी-1/148, ए-1ए, अस्सी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221005
2264.	सर्वजन सेवा पार्टी	163/200/1, सलारी का हाता, चिकमण्डी, मौलवीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-18
2265.	सर्वलोकहित समाज पार्टी	16/94, ए-ब्लॉक, बाबा कॉलोनी, बुराडी, दिल्ली-110084
2266.	सर्वोदय भारत पार्टी	बी – 19, सेक्टर – 'O', अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2267.	सर्वोदय कर्नाटक पक्ष	“अनिकेतना”, प्रथम तल, एस.जे.एम. समुदाय भवन, कालीदास रोड, गाँधीनगर, बेंगलोर – 560 009, (कर्नाटक) ।
2268.	सर्वोदय प्रभात पार्टी	बी-3/231, नंद नगरी, दिल्ली-110093
2269.	सर्वप्रिये समाज पार्टी	मोहल्ला- अशोक नगर शहरिया, विष्णुपुरम कॉलोनी, जिला- इटावा, उत्तर प्रदेश-206001
2270.	सर्वसमाज न्याय पार्टी	ओशन टावर पर नंबर 101, कॉर्मिशनल कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 1152/53, झोटवाडा रोड, जयपुर, राजस्थान- 302012.
2271.	सर्वशक्ति दल	डी-60, देव नगर, मुरलीपुरा, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान- 302039
2272.	सर्वश्रेष्ठ दल	ग्राम – शाहदाऊदपुर उर्फ ककोरगहना, पो. एवं तहसील – सदर, जिला – जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
2273.	सशक्त भारत पार्टी	मकान नं० 345, पराशर भवन, जाटों का मोहल्ला, पोस्ट-कन्नौज, तहसील-भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़ राजस्थान- 312613
2274.	साथी और आपका फैसला पार्टी	प्लॉट नं० - 2005, ग्राम - चमरहरा, महनार रोड, जिला - वैशाली, बिहार - 844507
2275.	सत्ता कल्याण पार्टी	नं० डी-144, परस प्रभु सोसाइटी, निकट सोनल पार्क, इसानपुर, जिला-अहमदाबाद, गुजरात-382443
2276.	सत्तरी युवा मोर्चा	एच नं० – 48, कनकिरे, गुलेली, सत्तरी, गोवा ।
2277.	सत्तातगम मक्कल कच्ची	1-3/1020 बी, ग्रीन गार्डें, यूड्यूरियल पुन्ना रोड, विनायगम्पट्टी, जिला-सेलम, तमिल नाडु- 636008.
2278.	सत्य बहुमत पार्टी	ए-112, प्रताप नगर, गली नं. 15, मयूर विहार फेस-1, दिल्ली-110091

2279.	सत्य क्रान्ति पार्टी	म0 नं0 – 176 ई, शिवपुर, सहबाजगंज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।
2280.	सत्य शिखर पार्टी	मकान सं0 - 70-ए, ग्राम – नरहरपुर (शंकरपुर), पोस्ट ऑफिस – मियागंज, जिला – फैजाबाद, उत्तर प्रदेश - 224208
2281.	सत्या विकास पार्टी	बी-7,सैलजा अपार्टमेंट,निकट सुगम फ्लैट,वासना अहमदाबाद,जिला-अहमदाबाद,गुजरात-380007
2282.	सत्यनिष्ठ जन सेवक पार्टी	मकान नं.128,वार्ड नं.5,ललित नगर,एसडीएम निवास के सामने,तहसील व पोस्ट-सुन्दर नगर,जिला-मण्डी,हिमाचल प्रदेश-175019
2283.	सत्यावादी रक्षक पार्टी	बी/501,योगी पूजन अपार्टमेंट, अक्षर फार्म रोडविधा नगर ., गुजरात-388120
2284.	सौराष्ट्र जनता पक्ष	मकान संख्या- 6/3/116, हिम्मत लाल परमार रोड, वादिपारा, सुरेन्द्र नगर, गुजरात- 363001
2285.	सवर्ण समाज पार्टी	ईस्ट ऑफ स्टेडियम, नन्द हार्डवेयर, सिरमौर रोड, रीवा-486001, (मध्य प्रदेश) ।
2286.	सेक्यूलर एलाइंस ऑफ इण्डिया	केशवानी कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, नवजीवन कॉर्पोरेटिव बैंक लि0, चोपडा कोर्ट ब्रांच, उल्हास नगर, 421003, महाराष्ट्र ।
2287.	सेक्यूलर डेमोक्रेटिक कांग्रेस	नं. 958/डी, वार्ड नं. 13, (पुराना नं. 722/डी, वार्ड नं. 10), (केलाकम पुलिस स्टेशन के पास), पी.ऑ- केलाकम ग्राम पंचायत, जिला- कन्नूर, केरल- 670674
2288.	सेकुलर इंकलाब पार्टी	मकान नं.202,राजीव गार्डन,लोनी,गाज़ियाबाद,उत्तर प्रदेश-201102
2289.	सेक्युलर नेशनल द्रविड़ पार्टी	काडक्कावूर बिल्डिंग, थुमपारा नगर,मुन्डाक्कल, कोल्लम शहर, कोल्लम-691001, केरल ।
2290.	सेक्यूलर पार्टी ऑफ इंडिया	मं. नं. 122-ए, रामविहार, ओल्ड जानीपुर,जम्मू-180007, (जम्मू व कश्मीर) ।
2291.	सेक्युलर रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी	एडम स्टार कॉम्प्लेक्स, कमरा नं. 132, पहली मंजील, द्वितीय ब्लॉक, थोडुपुझा, इडुक्की जिला, केरल।
2292.	सहजधारी सिख पार्टी	622/9, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, रायकोट, जिला लुधियाना, पंजाब ।
2293.	सर्व भलाई पार्टी	मकान सं. 625, नया आजाद नगर, सुल्तान विंड रोड,अमृतसर पंजाब-143001
2294.	सर्विस अदहेयार्ड विथ इंटीग्रिटी देसम पार्टी	प्लॉट नं-29,फेज-1,मेन रोड,नियर पुलिस स्टेशन,वनास्थालिपुरम,हैदराबाद तेलंगाना - 500070
2295.	सेवा दल	532,(ऑपोज़िट 126-आर),सी॰आर॰कॉलेज रोड,माडल टाउन,रोहतक-124001,हरियाणा
2296.	सेवा साम्राज्य पार्टी	ढबुनाईक तांडा, आनंदवाडी, ता0 – पालम, जि0 – परभणी, महाराष्ट्र – 431536
2297.	शक्ति सेना (भारत देश)	सिमी भवन, नेशनल हाईवे 43,कास लेन तिराहा, देवपुरी, रायपुर छत्तीसगढ़- 492015
2298.	शक्तिमान समाज पार्टी	प्लॉट नं.-133,कौशलपुरी फेस-II, ग्रामर स्कूल के पास, पोस्ट-खोजपुर, जिला-अयोध्या (फैजाबाद), उत्तर प्रदेश- 224001.
2299.	शाने हिन्द फोरम	बी-111/1, बी- ब्लॉक, अशोक बिहार फेज-1, नई दिल्ली- 110024
2300.	शान्ति मोर्चा	एक्स-919, चाँद मौहल्ला, गाँधी नगर, दिल्ली - 110031.
2301.	शाइनिंग इंडिया पार्टी	वार्ड नं. - 6, पोस्ट - देशनोक, जिला - बीकानेर, राजस्थान - 334801
2302.	शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) (सिमरनजीत सिंह मान)	ग्राम-किला, यस हरणाम सिंह-पो. आ. तेल्लानिमा,जिला-फतेहगढ़ साहब, पंजाब-140406.
2303.	शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त)	प्लॉट न.92,सेक्टर-82,एयरपोर्ट रोड,साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली),पंजाब-140308.
2304.	शिरोमणि अकाली दल (टकसाली)	नं. 30, गुरु हर राय अवेन्यु, खालसा कॉलेज के सामने, अमृतसर, पंजाब-143001

2305.	शिरोमणि लोक दल पार्टी	भवन संख्या – 108, कृष्ण मंदिर के निकट, दाना मंडी के सामने, जी.टी. रोड, अमृतसर, पंजाब ।
2306.	शिवराज्य पार्टी	फ्लैट नं. बी/102, डेक्कन अपार्टमेन्ट, यूनिनयन पार्क, पाली हिल, खार (पश्चिम)- 400052
2307.	शोषित इंकलाब पार्टी	मुरलीचक, जगदेव पथ, नजदीक जगदेव स्मृति अपार्टमेन्ट्स, डाकघर - बी.बी. कॉलेज, पटना, बिहार- 800014
2308.	शोषित समाज दल	सैंटर ऑफिस:- दक्षिणी मंदिरी, पटना-800001, (बिहार) ।
2309.	शोषित संदेश पार्टी	गिर्द बड़गाँव, संद रविदास नगर, भदोही, उत्तर प्रदेश ।
2310.	श्रम शक्ति पार्टी	जे-1749, जे- ब्लॉक, जहाँगिरपुरी, दिल्ली- 110033
2311.	श्रमजीवी पार्टी	1-6-48, ओल्ड अलवाल, पोस्ट बोल्लाराम, सिकन्द्राबाद - 500010, आन्ध्र प्रदेश ।
2312.	श्री जनता पार्टी	मान्डा सदन, द्वारिका नगर, रीवा, मध्य प्रदेश-486001
2313.	शुभा कर्नाटक	'हाउस नं. 1262, कुस्तगी रोड, फस्ट क्रास, गजेन्द्रगड, जिला-गडग- 512114, कर्नाटक ।
2314.	सिक्किम नेशनल पीपल्स पार्टी	द जोंग, एम.जी.मार्ग, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम-737101
2315.	सिक्किम राज्य मंच पार्टी	यंगोंग बाजार, पी.टी.सी. रोड, पोस्ट ऑफिस- यंगोंग, थाना - रवाँगला, दक्षिण सिक्किम, सिक्किम- 737134
2316.	सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी	सेन्ट्रल पेन्डम, सजोंग वार्ड नं.- 3, पोस्ट ऑफिस- अपर पेन्डम, थाना- रोंगपो, पूर्व सिक्किम- 737132
2317.	सिक्किम यूनाइटेड फ्रंट	सापकोटा बिल्डींग, असम लिंग्जे सोराने, पो.ऑ- असम लिंग्जे, पी.एस- रानीपूल, पूर्व सिक्किम- 737135
2318.	सिरूप्पानमई मक्कल नाला काँची	नं. 16ए, 9वीं क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, पामल, काँचीपुरम जिला, चेन्नई तमिलनाडु- 600075
2319.	स्मार्ट इंडियंस पार्टी	ग्राम पंचायत- घाना खमरिया, जैन बिल्डिंग के सामने, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482005
2320.	समस्त भारतीय पार्टी	डब्ल्यू-6/5, डीएलएफ सिटी, फेज-III, गुडगाँव-122002, हरियाणा ।
2321.	सोशल एक्शन पार्टी	मइलाकल हाऊस, रात्री, पठानामट्टा जिला, पिन-689072, (केरल) ।
2322.	सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इण्डिया	सी-4, हज़रत निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली-110013.
2323.	सोशल जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं. 2-97, चिनाराविराला गाँव, हयातनगर- मंडल, रंगा रेड्डी- जिला, तेलंगाना स्टेट- 501505
2324.	सोशल मूवमेंट पार्टी	प्रधान कार्यालय- 539, लेन नं. 29, राजपुरा मंगोत्रियां, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर-180001
2325.	सोशलिस्ट जनता पार्टी	एक्स. बी-1, साह विकास अपार्टमेन्ट, पटपडगंज, दिल्ली-110092
2326.	सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया)	लोहिया मजदूर भवन मकान सं0 41/557, डॉ. तुफेल अहमद मार्ग, नरही, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2327.	सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी	स्टेट कमेटी ऑफिस, ट्यूटर्स, लेन, स्टेच्यू, त्रिवेन्द्रम-695001, (केरल) ।
2328.	सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट)	48- लेनिन सरानी (पहली मंजिल), कोलकाता-700013, पश्चिम बंगाल.
2329.	सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी	प्लॉट नं. 218, विनायक एनक्लेव के पीछे, ग्राम - कोलथिया, पोस्ट - आईगिनिया, जिला-खोर्दा, भुवनेश्वर, ओडिसा - 751019
2330.	सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी	पोस्ट बाक्स नं. 1089, जनरल पोस्ट ऑफिस, श्रीनगर-190001, जम्मू व काश्मीर ।
2331.	सोनांचल संघर्ष बाहिनी	भूमि सं0 597, विकास नगर, राबटर्सगंज वार्ड नं0 12, पुराना वार्ड-6 जिला-सोनभद्र, उत्तर प्रदेश- 231216.
2332.	साउथ इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक	63, मुनीसीपलायम रोड, (42/4-68सी), अरापालयम, कनमईकरई मेन रोड, मदुरई, तमिलनाडु - 625016

2333.	स्टार अल्ट्रास्टिक हामेनेटेरियन यूनिटी पार्टी	तहसील रोड, गौरीगंज, जिला-अमेठी, उत्तर प्रदेश-227409
2334.	स्टेट समविभाजन पार्टी	मकान संख्या – 56, गाँव – सोनखास, ता. – नेर, जिला – यवतमाल, महाराष्ट्र - 445102 ।
2335.	स्टुडेंट्स युनाइटेड फार नेशन पार्टी	डी.नं. 12-464/4, बी- ब्लॉक, टाडेपल्ली, जिला- गुन्तूर, आन्ध्र प्रदेश - 522501
2336.	सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी (सुभास पार्टी)	एफ-10, पटेल नगर-111, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201003
2337.	सुदेशी मक्कल नीधि काची	नं. 24/38, एफएफ2, कुट्टी ग्रामिणी स्ट्रीट, राजा अन्नामलैपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600028
2338.	सुधारवादी पार्टी	मो. पिऊनी बाग, वार्ड नं.-32, बेतिया, पोस्ट-बेतिया, थाना- बेतिया-नगर, जिला- पश्चिम चम्पारण, बिहार- 845438.
2339.	सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी	ग्राम: मीरन गंज, पो - रामपुर रसडा, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश - 221712.
2340.	सुहेलदेव पार्टी	ग्राम व पोस्ट - फुलेश, जिला - आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, पिन - 223224
2341.	सुमिति मुक्ति मोर्चा	प्लॉट नं. 347(एलआर) 391(आरएस), खेतान नं. 2194(एलआर), मोजा- पंचनई, एरिया 5 डिसमिल, पोस्ट- माटीगारा, जिला- दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल- 734010
2342.	सुनहरा भारत पार्टी	बिल्डिंग नंबर #बी-17, 2173/2ए/1ए, जम्मू कॉलोनी, अब्दुल्लापुर रोड, लुधियाना, पंजाब-141003.
2343.	सुन्दर समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट – नांगोई, तहसील-खारसिया, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़- 496 665 ।
2344.	सुनहरा पंजाब पार्टी	319, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009
2345.	सुपर नेशन पार्टी	57/1, थाथावल्ली गांव, कुरुमभगेरी पोस्ट, तिरुपत्तुर तालुक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु- 635653
2346.	सुपर स्टार्स मक्कल कलगम	डी. नं0 26, एवीपी ले आउट, द्वितीय गली, गांधी नगर, तिरुपुर, तमिल नाडु- 641603
2347.	सुप्रीम जीरो पार्टी ऑफ भारत	वार्ड नं.6, होल्डिंग नं.222, उपरी शाही, खोरधा म्युनिसिपलिटी, पोस्ट/थाना/जिला-खोरधा, ओडिशा-752056
2348.	सुराज सेवा दल	ग्राम – रामडी जसुवा, पो0 – फतेहपुर, तहसील – हल्द्वानी, जिला - नैनीताल, उत्तराखण्ड
2349.	सुरक्षा समाज पार्टी	मोहल्ला – तरकापुर (सोनकर बस्ती), भवन संख्या – 1102/1, वार्ड संख्या – 7, पो0 व तहसील – सदर, जनपद – मीर्जापुर, उत्तर प्रदेश – 231001
2350.	सूर्या जनसेवा पार्टी	#2, सेकेंड फ्लोर, 5 क्रॉस, अंजना नगरा, बैंगलोर कर्नाटक- 560091
2351.	सुशासन पार्टी	हाउस नं0-558, गाँव व पोस्ट-बडसी, तहसील-बवानीखेड़, जिला- भिवानी-127032, हरियाणा ।
2352.	स्वतंत्र भारत सत्याग्रह पार्टी	शॉप नं0 – 7 व 8, अपर ग्राउन्ड फ्लोर, भगवती आर्केड, जवाहर रोड नं0 – 5, उधना उद्योग नगर, उधना, सूरत, गुजरात – 394210 ।
2353.	स्वाभिमान जनता दल	निर्भय कोल्ड स्टोर, खलवाईनगर, डुमराँव, बक्सर, बिहार- 802119
2354.	स्वाभिमान पार्टी	31/666 न्यू शान्ति नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़.-492001
2355.	स्वाभिमानी पक्ष	जयसिंगपुर, जिला – कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416 101
2356.	स्वच्छ भारत पार्टी	साँई बाबा मंदिर भोज्यावास, भोंकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान ।
2357.	स्वच्छ स्वस्थ स्वावलम्बीजन पार्टी	मकान संख्या 108, पयागीपुर, निकट आई.टी.आई. के सामने, सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश- 228001
2358.	स्वदेश जन सेवक पार्टी	जे.पी.नगर, नई बस्ती, प्रेमचक उर्फ उमरगंज, बलिया, उत्तर प्रदेश- 277001

2359.	स्वदेशी एकता मंच	बी-3/253, विनय खण्ड-3, गोमती नगर, गोमती नगर रेलवे स्टेशन के सामने, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010
2360.	स्वदेशी हिन्द पार्टी	ग्राम व पोस्ट-हतिंसा, मथुरा रोड क्रासिंग के पास, तहसील एवं जिला- हाथरस, उत्तर प्रदेश- 204101
2361.	स्वाधीन स्वराज पार्टी	213/63, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 200001
2362.	स्वराज (जे)	जंगल सुहास कुंवारी (महावीर छपरा). पोस्ट आफिस-महावीर छपरा, पुलिस स्टेशन-बेलीपर, तह0-सदर, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
2363.	स्वराज भारतीय न्याय पार्टी	एच.नं.सी-50, मेन 20 फुटा रोड, मीत नगर, शाहदरा, दिल्ली-110094
2364.	स्वराज इंडिया	यूनिट 109, प्रथम तल, एम.एम. हाउस, 59 रानी झांसी रोड, नई दिल्ली - 110055
2365.	स्वराज जनता पार्टी	बी-79-बी, गली नं.7, फेज-1, शिव विहार, करावल नगर, दिल्ली- 110094
2366.	स्वराज क्रांति पार्टी	बी-31, दूसरा तल, टेजेन्द्रा कॉम्प्लेक्स, सी.एम.सी. के सामने, ओढव रोड, ओढव, अहमदाबाद, गुजरात-382415
2367.	स्वराज पार्टी (लोकतांत्रिक)	मकान नं0 – 17, ग्राम – मोगलपुरा, ग्राम पंचायत – मोगलपुरा, पो0 ऑ0 – बख्तियारपुर, जिला – पटना, बिहार – 803212
2368.	स्वराज्य निर्माण सेना	मकान नं0 396/1, इंदिरा वसाहत, उत्तम नगर, पुणे, महाराष्ट्र – 411023
2369.	स्वराज्य पार्टी ऑफ इंडिया	बी-33, सैक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ-226024, उत्तर प्रदेश।
2370.	स्वराज्य राष्ट्र निर्माण सेना	एच. नंबर 797, वार्ड नंबर. 01, पोस्ट- कोरेगाँव, भीमा, तालुक- शिरूर, जिला पुणे, महाराष्ट्र- 412216
2371.	स्वराज्य सेना (महाराष्ट्र)	नं. 586, मुहल्ला- मासुडी, पोस्ट- टाका, तहसील- औसा, जिला- लातूर, महाराष्ट्र- 413520
2372.	स्वर्ण भारत पार्टी	जी-249 पालम विहार, गुडगाँव, हरियाणा – 122017
2373.	स्वर्णिम भारत इन्कलाब	एल.जी. - 22, सनराईज टावर, 579, एम. जी. रोड, इन्दौर, मध्य प्रदेश।
2374.	स्वतंत्र भारत पक्ष	“राही”, खोकादपुरा, औरंगाबाद-431001, (महाराष्ट्र)।
2375.	स्वतंत्र इंडियन लेबर पार्टी	खसरा नं०916, गाँव – धिलावल, गर्हिया, पो० – भोपल पट्टी, पी.एस० – मऊ दर्वाजा, जिला– फरुखाबाद, उत्तरप्रदेश – 209625
2376.	स्वतंत्र जनताराज पार्टी	811/1, सिविल लाइन आंशिक, वार्ड नं0 – 52, झांसी, उत्तर प्रदेश- 284001
2377.	स्वतंत्रता पार्टी (जन)	195, सेंट मेरीस रोड, आलवारपेट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600018
2378.	स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी	12-एच, ट्रैफिक कोतवाली के सामने, दरियागंज, नई दिल्ली-110 002.
2379.	स्वतंत्र समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट – लेभरी, थाना-दरौली, प्रखण्ड/अंचल-मैरवा, सिवान- 841239, बिहार।
2380.	स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी	नं0-2, महावीरनगर, अपोजिट कल्याण मिल, नियर चेतना होटल, नरोदा रोड, सैजपुरा-भोगा, अहमदाबाद, गुजरात-382345
2381.	स्वयम कृशी पार्टी	नं.-17/बी, नन्जप्पा काम्प्लेक्स, ग्राउण्ड फ्लोर, कनकपुरमेन रोड, बनाशंकर, शकाम्बरी नगर, बैंगलुरु कर्नाटक- 560070
2382.	तमिल मनीला काँग्रेस (मूपनार)	नं0-4, अशोक रोड, अलवरपेट, चेन्नई – 600018.
2383.	तमिल मानिला काची	नं0 - 74, जरमियाह रोड, वेपेरी, चेन्नई, तमिलनाडु - 600007
2384.	तमिल मानिल मुरपोक्कु द्रविड कझगम	नं. 27, प्रथम तल, गुडीयात्तम रोड, रेलवे काल्याण मण्डम के सामने, काटपाडी, वेल्लूर-जिला, तमिलनाडु- 632007
2385.	तमिल नाडु इलैंगयर काची	नं.- 23, गणेश एवेन्यु, शक्ति नगर, पोरुर, चेन्नई, तमिल नाडु- 600116
2386.	तमिलनाडु पीजेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी	नं0 1, जयाम्मल रोड, तेनामपेट, चेन्नई-600018, (तमिलनाडु)।
2387.	तमिल तेलुगु नेशनल पार्टी	पुराना नं. 4/51, नया नं. 197, पेरुमाल कोइल स्ट्रीट, टी.इडैयार पोस्ट, तिरुकोइलूर तालुक, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु- 607203

2388.	तमिल थायग मक्कल मुन्नेत्र कच्ची	नंबर 61/2, दूसरी मंजिल, 5 वीं मेन रोड, सी.आई.टी. नगर, नंदनम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600035
2389.	तमिलागा मक्कल द्रविड मुन्नेत्र कजगम	3-196, पोस्ट - वेम्बरपट्टी, वेम्बरपट्टी, तालुक व जिला - डिडिगुल, तमिलनाडु - 624008
2390.	तमिलागा मक्कल मुन्नेत्र कजगम	563-शान्ति कॉलोनी, एन.के.बी. नगर, पलायमकोटाई, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु।
2391.	तमिलगा मक्कल नाला काची	2/272, ए राजपालयम मेन रोड, कुवलैकन्नी (पीओ), तेनकासी जिला, तमिलनाडु- 627753
2392.	तमिलगा मक्कल तन्तुरीमई काची	मकान नं. 4ए, महालक्ष्मी नगर, कोर्ट के निकट, कटनाचमपट्टी गांव, रासीपुरम तालुका, नामक्कल जिला, तमिलनाडु- 637408
2393.	तमिलह स्ताभन कांग्रेस	26/1. 33इ, हेनरी रोड, नीसामोनी नगर, नागरकोईल, तमिल नाडु- 629001
2394.	तमिलार देशीय मुन्नई	119/ए, डिपोलाईन, सी.पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु -600043
2395.	तमिलार मक्कल कांची	ग्राम - दुमबलाअल्लीडेम, पोस्ट ऑफिस - गेंडीगानहल्ली, तालुक - पालकोड, जिला - धर्मापुरी, तमिलनाडु - 635205
2396.	तमिलनाडु महात्मा गांधी मक्कल कांची	9-2/1 सी, तेटीविलय वीडू, श्री देवीकुमारी महिला कॉलेज के पास, कुलीतुरै, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु - 629163.
2397.	तमिलनाडु मक्कल नालवडुवु पेरीयक्कम	नंबर 6 ए, 10 वीं क्रॉस स्ट्रीट, थिरुवेगदा नगर, थिरुनिन्नवुर, थिरुवल्लूर जिला, अवधी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, थिरुवल्लूर संसद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु- 602024.
2398.	तमिलनाडु मक्कल उरीमई कांची	43, वी.ओ.सी. नगर, किचीपलायम, सलेम, तमिलनाडु- 636015
2399.	तमिलनाडु तेलुंगु मक्कल काची	मकान नं0 - 1/803, करपगम विश्वविद्यालय के सामने, पोलाची मेन रोड, कोयमबटूर, तमिल नाडु - 641021
2400.	तामिज़ागा मूरपोक्कू मक्कल काच्चि	82/1, 5वीं स्ट्रीट, पदमानाभा नगर, अडयार, चेन्नई -600 020 तमिलनाडु।
2401.	तमिझग वाडुवुरीमई कांची	13-6-54, पिलैयार कोयल स्ट्रीट, समराजापेट्टई पोस्ट, मेचेरी मेत्तुर तालुक, सलेम जिला, तमिल नाडु - 636451
2402.	तमिज़र देसम काच्चि	27/44, कुडी स्ट्रीट पेरिया, कोठमंगलम रामजी नगर, तिरुचि पश्चिम तालुक, पिराटियुर पश्चिम गांव, तिरुचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु-620009
2403.	तरंग पार्टी	के/पी.एच.55/26, योगेन्द्र विहार नौवस्ता, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208021
2404.	ताराराणी पक्ष	वार्ड नं. 6, मकान नं. 2067, धानगर माल (शिवनगर), कोरोची, तहसील- हातकणंगले, जिला- कोल्हापुर महाराष्ट्र- 416109
2405.	तीन एक पार्टी	कार्यालय - पोडलगुडा, पी.ओ. माझीगुडा, जिला - नबरंगपुर, ओडिशा - 764059.
2406.	तहरिक इंकलाब पार्टी	अनसर नगर, अब्दुल राशीद मंजिल, ताजोद्दीन बाबा नगर, नियर इलाही मस्जिद, लातूर, महाराष्ट्र- 413520
2407.	तेजस जनकल्याण पार्टी	26ए, सेंट्रल रोड (गोल्फ ग्रीन), जादवपुर, कोलकाता, (केएमसी वार्ड नंबर- 095) पश्चिम बंगाल - 700032.
2408.	तेलंगाना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	म0 नं0 - 3-4-760/19, नारायणगुडा फलाईओवर ब्रिज के बाजू में, बरकतपुरा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500027
2409.	तेलंगाना इंटी पार्टी	14-70, वी.टी. कॉलोनी, पोस्ट व मंडल- नकरेकल, जिला- नलगोंडा, तेलंगाना - 508211
2410.	तेलंगाना जागीर पार्टी	मकान नं. 4-32/1, मुनुगानूर -गाँव, अब्दुलापुरमेट- मण्डल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना स्टेट- 501511
2411.	तेलंगाना जन समिति	मकान नं. 7-1-215/ई, बलकमपेट, नेचर केयर हॉस्पिटल के पास, हैदराबाद, तेलंगाना- 500016

2412.	तेलंगाना कार्मिका रैतु राज्यम पार्टी	गाँव – बैरानपल्ली, पोस्ट – सिद्दापुर, मंडल – हसनपल्ली, जिला – वरंगल, तेलंगाना ।
2413.	तेलंगाना लेबर पार्टी	म. न. 8-2-293/82/बी.जे.आर./ए/1, बी.जे.आर. नगर, फिल्म नगर, जुबिली हिल्स, मंडल - शेखपेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500096
2414.	तेलंगाना लोकसत्ता पार्टी	प्लॉट संख्या-46, फ्लैट संख्या-201, गनरौक टीचर्स कॉलोनी, त्रिमुलघेरी, सिकन्द्राबाद-500015 आन्ध्र प्रदेश ।
2415.	तेलंगाना माइनोंरिटीज ओबीसी राज्यम	17-3-4, रियान बाज़ार, याकूतपुरा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500 023
2416.	तेलंगाना प्रगति समिति	एडीआर एस्टेट हाउस नं0-2-22-295, दूसरी मंजिल, भाग्यनगर कॉलोनी, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, केपीएचबी मेन रोड, कुकतपल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500072
2417.	तेलंगाना प्रजा समिथि (किशोर, राव और किशन)	मकान नं0 10-4-108, गिरमाजीपेट, वारंगल-506002 आन्ध्र प्रदेश ।
2418.	तेलंगाना प्रजा शक्ति पार्टी	मकान नं.- 3-5-233, प्रथम तल, कोटा गली, शिवाजी नगर, अपोजिट आंध्र बैंक, आर.आर.चोत्रास्था, निजामाबाद, तेलंगाना – 503001
2419.	तेलंगाना प्रजला पार्टी	मकान नं.- 12-13-830/15, गोकुलनगर, स्ट्रीट नं. 1, तारनाका, सिकन्द्राबाद, तेलंगाना- 500017
2420.	तेलंगाना राष्ट्र पुनःनिर्माण समिति	म. नं0 1-3-186/ए, विद्यानगर, भोनगीर, जिला – नलगोंडा, आन्ध्र प्रदेश – 508116
2421.	तेलंगाना रिपब्लिकन पार्टी	मकान सं.- 2-134, तानेदारपल्ली गांव, मरिगूडा मंडल, नलगोंडा जिला, तेलंगाना- 508245
2422.	तेलंगाना सकलाजनुला पार्टी	म0 नं0 4-2-99, एन एफ सी (न्यूक्लियर फ्यूल कारपोरेशन कॉलोनी), बंदलागुडा जागीर (गांव) व (पोस्ट), राजेन्द्र नगर मण्डल, रंगा रेड्डी, जिला-500086, आन्ध्र प्रदेश।
2423.	तेलंगाना स्टुडेंट्स यूनाइटेड फॉर नेशन पार्टी	मकान संख्या 3-85, बोरमपेट ग्राम, कुतुबुल्लापुर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना-500043
2424.	तेलंगाना युवा शक्ति	फ्लैट नं. 404, मकान संख्या- 2-2-25/ए/1, जीलानी मिडोस अपार्टमेंट्स, अंबरेपेट, हैदराबाद, तेलंगाना- 500013
2425.	तेलंगाना इंडिपेंडेंट पार्टी	मकान नं. 5-2-13, तिरूमाला नगर, मौलाली, आर.आर. डिस्ट्रिक्ट, कपरा सर्कल, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश- 500040
2426.	तेलुगु बहुजन पार्टी	8/160-ए, मित्तपालेम स्ट्रीट, गुडूर, एसपीएसआर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश – 524101
2427.	तेलुगु कांग्रेस पार्टी	8-2-38, अपोजिट जी.पी. ऑफिस, भवानीनगर, वेमुलावाडा, करीम नगर जिला, आन्ध्र प्रदेश-505302
2428.	तेलुगु जनता पार्टी	नं.70-7/16/2ए, रामाययापेटा, टी.एस.आर.नगर, रोड नं.2, काकीनाडा अर्बन मंडल, जिला-इ.जी., आन्ध्र प्रदेश-533003
2429.	तेलुगु प्रजा पथम पार्टी	4-96/25/3, जीएफ – 103, चिनामुसिदिवाडा, रेवेन्यु वार्ड 70, विशाखापटनम् जिला, आन्ध्र प्रदेश- 530051
2430.	तेलुगु राष्ट्र शक्ति पार्टी	302, जीवीआर, रेसिडेन्सी, जीवीआर टावर के साथ में, गन्नावरम, जिला-कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश-521101
2431.	तेलुगु विजयम पार्टी	फ्लैट नं.306, श्रीनिवासा टॉवर्स, केरला होटल के समीप, इब्राहिमपट्टणम, विजयवाडा, कृष्णा जिला, आन्ध्र प्रदेश- 521456.
2432.	थक्कम कच्ची	1/2755, नेहरू स्ट्रीट, (ओल्ड आने थेरेसा स्ट्रीट), बी.पी.सिंह नगर, पंमाथुकुलम, चेन्नई, तमिल नाडु-600052
2433.	तमिलागा मक्कल सुथंथिरा कलगम	19/1, सेलप्पा काउंडर स्ट्रीट, वेलयावुथमपलायम, पी. पुगालुर तालुक, करुर – जिला, तमिलनाडु – 639117
2434.	तमिज़ देसिया मुनेत्र कझगम	नंबर 143-ए, मेला बीठी, मेन रोड, तिरुप्पन्दल-पोस्ट, थिरुविदैमरुथुर-तालुक, तंजावुर जिला, तमिलनाडु, पिन-612504
2435.	तमिज़ पेरासरू कच्ची	3/6, पारी स्ट्रीट (एक्स.), चूलैमेडू, चेन्नई, तमिलनाडु- 607203

2436.	थमिजगा द्रविड काची	नंबर 32/217, गांधी रोड, पश्चिम तांबरम, तांबरम (टीके), चेंगलपट्टूर जिला, चेन्नई, तमिलनाडु-600045
2437.	थमिझग मुनेत्र कांग्रेस	नं0 91, पुन्नूसामी नगर, तृतीय गली, पेरांम्बर, डिविजन 68, चेन्नै - 600011, तमिलनाडु।
2438.	तमिलग पैंप्पालर मक्कल कट्ची	नम्बर-72, नेवेली मेन रोज, पार्वतीपुरम, वडलूर पोस्ट, कुरिन्विपाडि तालुक, कडलूर जिला, तमिलनाडु- 607303
2439.	तमिझार मुन्नेत्रक कझगम	2/5, तिरुवाल्लूर सलाए, पेरुमाल नगर, मोगापेयूर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600037.
2440.	दि अग्रणी पार्टी	अनमोल हाउस, लीची बगान, पंखातोली, पो.- रमना, जिला-मुजफ्फरपुर बिहार-842002
2441.	दि फ्यूचर इंडिया पार्टी	सं0 - 2/191 बी, नेताजी स्ट्रीट, एलीट स्कूल के सामने, एम0 ए0 नगर, रेडहिल्स, चेन्नई, तमिलनाडु - 600052
2442.	द इम्पेरियल पार्टी ऑफ इण्डिया	190, श्रीनगर मेन, इन्दौर - 452001, मध्य प्रदेश।
2443.	द इंडियन एस्पिरेशन पार्टी	ऑफिस यूनिट नं.- 205, पेनिन्सुला प्लाजा, ए/16, वीरा इंडस्ट्रियल एस्टेट, वीरा देसाई रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र- 400053
2444.	दि लोक पार्टी ऑफ इंडिया	कमरा नं0 7, बिल्डिंग नं0 61, प्रथम तल, द्वितीय लेन, एम. आर रोड, कामाथिपुरा, मुम्बई - 400 008 महाराष्ट्र
2445.	दि नेशनल रोडमैप पार्टी ऑफ इण्डिया	बी-145, न्यू अशोक नगर, दिल्ली- 110096.
2446.	द प्लुरल्स पार्टी	सुखवासो कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, वेस्टर्न होटल के सामने, प्लॉट नं- 130, दानापुर-खगौल रोड, पोस्ट-दानापुर, जिला-पटना बिहार-801503
2447.	दि पब्लिक वेलफेअर पार्टी	सोनापुर कॉम्प्लेक्स, आल्हाद नगर, वार्ड नं0 - 14, जिला कॉम्प्लेक्स हाई स्कूल के पूर्व में, गडचिरोली, महाराष्ट्र- 442605
2448.	दि रिलीजन ऑफ मैन रिवाल्विंग पोलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया	कवितीर्थ, कवितानगर, पो0-बोंगाव, जिला-24-परगनास (उत्तर)- 743235, (पश्चिम बंगाल)।
2449.	थर्ड व्यू पार्टी	203, हिल व्यू, प्लॉट नं0-85, लूलानगर, माऊट कार्मेल कोनवेंट स्कूल के नजदीक, पुणे-411040 (महाराष्ट्र)।
2450.	थोझीललार पार्टी	नं0 28 ए, मेट्टु स्ट्रीट, नेमलीचेरी, क्रोमपेट, चेन्नई-600044 तमिलनाडु।
2451.	तृणमूल तमिल नाडु कांग्रेस	189/1, अमरावती स्ट्रीट (नियर फाइव रोड्स), रेड्डीयार गांव, जिला - सलेम - 636004 तमिल नाडु।
2452.	तिपरालैण्ड स्टेट पार्टी	ओल्ड कालीबाडी रोड, कृष्णानगर, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा- 799001.
2453.	टीपू सुल्तान पार्टी	56/2, आत्तार हाउस, नियर कर्बला बेस, रेविवार पेठ, अंबाजोगाई, जिला-बीड, महाराष्ट्र- 431517
2454.	टोला पार्टी	मकान सं0 - 56, वार्ड सं0 - 14, अंधुवा पट्टी, होडल (पलवल), हरियाणा।
2455.	टोटल विकास पार्टी	सी-95ए-1, आर डी सिटी, सेक्टर - 52, गुडगांव, हरियाणा - 122011
2456.	त्रिपुरा पीपुल्स पार्टी	8/9, जेल आश्रम रोड, धलेश्वर, अगरतला, त्रिपुरा- 799007
2457.	ट्रुथ, इक्वलिटी, जस्टिस अप्लाएंग सर्विस दल	बी-35 आनंदलोक, श्रीजी बाबा विद्यालय के पास, पोस्ट - कृष्णा नगर, गोवर्धन मार्ग मथुरा, तह0 व जिला - मथुरा, उत्तर प्रदेश-281004.
2458.	तुलुवेर पक्ष	डोर नं0 - 2-139(5), कोयोरु क्रॉस लैला गांव, बेलथांगडी, दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक- 574214.
2459.	ट्वेंटी 20 पार्टी	बिल्डिंग नम्बर IV/172, ऐकरनाडु पंचायत, कदायिरूपू पी.ओ, कुनाथुनाडु तालुक, एरनाकुलम जिला, केरल- 682311
2460.	उदारवादी समरसता पार्टी	मकान नं0 133/1, हरिजन बस्ती, गाँव समयपुर, दिल्ली- 110042
2461.	उदय चन्द्रा देशम पार्टी	नं0-27, कामराज नेदुचलाई, ओल्ड पेरुंगलाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु-600063
2462.	उदीयमान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया	4/3C, ओरिएंट रो, ग्राउंड फ्लोर, कोलकाता-700017
2463.	उजाला पार्टी	ई-26, गली नं.9, नियर वाटर टैंक, सुभाष विहार, भजनपुरा, दिल्ली- 53

2464.	ऊलागा मक्कल काची	नं. 15/24ए, मेथुकुम्मल जंक्शन, मेथुकुम्मल पोस्ट, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु- 629172
2465.	उलजयपाली मक्कल काची	74, शान्ति नगर, प्रथम गली, एस0 एस0 नगर पोस्ट, चेन्नई-600062, तमिलनाडु।
2466.	उम्मीद पार्टी ऑफ़ इंडिया	ग्राम- शिशु, गाँव शिशु - .ओ.पी /, वार्ड - 12, तहसील दान्तेरामगढ़ -, पीरानोली - .एस., जिलासीकर -, राजस्थान - 332405.
2467.	युनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सेकुलर	539/13 शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश
2468.	युनाइटेड गोअंस डेमोक्रेटिक पार्टी	पहली मंजिल, कासा डोस अलिया, डोस, गोमंत विद्या निकेतन के पीछे, एक्सडे फारिया रोड, माडगांव (गोवा) — 403601।
2469.	यूनाइटेड गोअन्स पार्टी	शॉप नं0 - 7, म0 नं0 - 18/5/6, ग्रामीलो अपार्टमेंट, डोन्ड्रीम, तेलिगो, तिसवाडी, गोवा।
2470.	युनाईटेड इंडिया पार्टी	4-2-256/के/1, भीमूनिपट्टनम एन.टी.पी.सी, रामागुन्दम (मण्डल), करीमनगर, तेलंगाना - 505215
2471.	युनाइटेड नागा डेमोक्रेटिक पार्टी, नागालैण्ड	वाडे नं. 7, एगापे स्कूल के पास, चुमुकोडिमा — 797103, दीमापुर— 797112 (नागालैण्ड)
2472.	युनाईटेड नेशनल पार्टी	गांव - शांतीनगर, मौजा - सन्नपुरा, पोस्ट - गोंसली, तहसील - बाह, जिला - आगरा, उत्तर प्रदेश।
2473.	यूनाईटेड पीपुल्स फ्रंट	सिटी रेजेंसी बिल्डिंग, आर. के. बी. रोड, डिब्रुगढ़, असम—786001
2474.	युनैटेड रिपब्लिक ऑफ़ भारत पार्टी	डोर नं. 6-9-1373ए डिफेंस कॉलोनी, ए.पी.एच.बी. पोस्ट ऑफिस के निकट, तिरुपती कंचीमातम हॉस्पिटल के बगल में, आन्ध्र प्रदेश- 517501
2475.	यूनाइटेड रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया	80/81, सी.ए.एच. कॉलेज बाय-पास रोड, मेलवीशरम, वालाजा तालुक, जिला- वेल्लोर, तमिलनाडु- 632509.
2476.	यूनाइटेड सेक्यूलर काँग्रेस पार्टी ऑफ़ इंडिया	2 / 104 बी, कुर्ला जयहिंद बुद्धविकास, एस0 आर0 ए0 गृहनिर्माण संस्था मर्यादित नेहरू नगर, कुर्ला (पूर्व), मुंबई — 400024, महाराष्ट्र।
2477.	युनाईटेड सोशलिस्ट पार्टी	बी 41-एच/6, ब्राइट स्ट्रीट, दूसरा तल, पोस्ट- सर्कस एवेन्यू, थाना- कराया, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700017
2478.	यूनाईटेड स्टेट्स ऑफ़ इंडिया पार्टी	नं. 10/116, मथागनेरी, साउथ स्ट्रीट, सेम्बीकुलम(पोस्ट), वडाकनकुलम (वाया), तालुक - राधापुरम, जिला - तिरुनेलवेली, तमिलनाडु - 627116
2479.	यूनिवर्सल ब्रदरहुड मूवमेंट	57-डी, साथुर मेन रोड, कोविलपट्टी, जिला - तुत्तुकुडी, तमिलनाडु - 628501
2480.	यूनिवर्स सिटीजन पार्टी	15-5-122, वनय निलाया, अपोजिट कर्नाटका लॉ एंड फार्मसी कॉलोज, ध्यानमंदिर राज, रामपुरे कॉलोनी, बीदर कर्नाटक- 585401
2481.	अर्बन एवं रूरल पार्टी	मकान संख्या 660/7/पी.003, गौरा बांग, कुर्सी रोड, (फूल बाग), लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226026
2482.	उरिमई मीटप्पू कडगम	न्यू नं0 —10ए, कृष्णा स्ट्रीट. ईरमबुलियुर, वेस्ट तम्बारम, चेन्नई— 600045, जिला—कांची, तमिलनाडु।
2483.	उत्कल भारत	प्लॉट नं0 296/2624, स्थान — गोविन्दा प्रसाद, ईस्ट कनाल रोड, टविन ब्रिज के सामने, पो0 ऑ0 — जी. जी. पी. कॉलोनी, भुवनेश्वर — 751010, उड़ीसा।
2484.	उत्कल समाज	आनन्दायन, प्लॉट नं0 567/2 कानन विहार, फेस — 2, भुवनेश्वर — 751031 उड़ीसा।
2485.	उत्कृष्ट पार्टी	प्रथम तल, राकेश क्लाय हाऊस, मेन बाजार, ग्राम- नारौत मेहरा, तहसील व जिला- पठानकोट, पंजाब
2486.	उत्तमा प्रजाकिया पार्टी	7/ए, 1st क्रॉस, 3rd स्टेज, 3rd फेस, 6th ब्लॉक बीएसके, बीएसके 3rd स्टेज, कथिरिगुप्पे, बैंगलुरु, कर्नाटक- 560085
2487.	उत्तर भारतीय विकास सेना	201/202, द्वितीय तल, सुकुमार कॉर्नर, 127- जे.पी. रोड, दाऊद बाग लेन, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र- 400058

2488.	उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना	मकान नं. 3, सेक्टर 15-ए, जिला- गौतमबुद्धनगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201301
2489.	उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी	552/2, राजेन्द्र नगर, सेकेंड स्ट्रीट, लखनऊ — 226004, (उत्तर प्रदेश)।
2490.	उत्तर जनशक्ति सेना	म0 न0 66, 67, शिवपुर कॉलोनी, (अनचटगेरी लेआउट), नियर राजधनी कॉलोनी, गोकुल रोड, हुबली कर्नाटक- 580028
2491.	उत्तर कर्नाटक पार्टी	नं.25,4 क्रॉस, एम.एस.आर.नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक- 560054
2492.	उत्तर राष्ट्र तेलंगाना पार्टी	मं० नं0 4-32/बी, गांधीनगर, ब्रह्मानपल्ली, जक्रानपल्ली, जिला - निजामाबाद, तेलंगाना- 503224
2493.	उत्तराखंड जनता पार्टी	प्लॉट न.6, प्रकाश एन्क्लेव, शिमला रोड, सेवलाकलां जिला देहरादून उत्तराखंड- 248001
2494.	उत्तराखण्ड जनएकता पार्टी	18 एफ, सेक्टर-3 बी, निकट सी ब्लॉक, टाईप-II, नई टिहरी उत्तराखण्ड- 249001
2495.	उत्तराखण्ड जनशक्ति पार्टी	सुशीला बर्थवाल निवास, निकट दूरदर्शन प्रसार भारती कार्यालय, हरिद्वार बाई-पास रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड- 248001
2496.	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल	रोचिपुरा, पो0 ऑ0 माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2497.	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक)	85/ 12 — बी, नाथ विला रोड, देहरादून — 248001, (उत्तराखण्ड)।
2498.	उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी	साह भवन, वीर चन्द्रा सिंह, गढ़वाली मार्ग, गैरसेन, जिला — चमोली, उत्तराखण्ड।
2499.	उत्तराखण्ड प्रगतिशील पार्टी	13, सुभाष रोड, (सेन्ट जोसेफ स्कूल के पिछले गेट के सामने), देहरादून - 248001, उत्तराखण्ड।
2500.	उत्तराखण्ड रक्षा मोर्चा	मकान नं0 1. ग्राम-नौका (दौडावाला), पोस्ट—मोथरोंवाला, विकासखण्ड—रायपुर, जिला—देहरादून, (उत्तराखण्ड)
2501.	उत्तराखंड समानता पार्टी	33, गंगोत्री विहार, लेन न० - 1, नेहरूग्राम रोड, देहरादून, उत्तराखंड - 248005
2502.	वडा तमिलनाडु मुन्नेरा कच्ची	नंबर 209/42, श्री अय्यप्पा नगर, कालिअम्मन कोइल स्ट्रीट, विरुगम्बाक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु-600092
2503.	वैचारिक क्रान्ति पार्टी	एफ-11, 12, 13, ईश्वरी दयाल कॉम्प्लेक्स- 92, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2504.	वालामाना तमिझागम काँची	एच-982, 23rd स्ट्रीट, 13 मेन रोड, अन्नानगर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600040
2505.	वलीमई वलरची इंडियन्स पार्टी	411डी, गौंदची पालायम, वादामुगम वेलूड, ईरोड जिला, तमिलनाडु- 638112.
2506.	वाल्लारासु पार्टी	एच. नंबर-6(23), मोसक्यू स्ट्रीट, मायलापोरे, मायलापोरे, चेन्नई, तमिलनाडु- 600004.
2507.	वंचित बहुजन अघाडी	सर्वे नं. 858ब/2 'आकाश' भिगवण रोड, रानडे पेट्रोल पम्प के पीछे, अशोक नगर, बारामती, जिला - पुणे, महाराष्ट्र - 413102
2508.	वंचित समाज पार्टी	सर्किल- बाँकीपुर, राजस्व सर्किल- 13, वार्ड- 36, मोहल्ला- पम्प हाउस गली तालाब पार, लालजी टोला, थाना- गाँधी मैदान- पटना, जिला- पटना, बिहार- 800003
2509.	वंचितसमाज इंसाफ पार्टी	39, आर्दश नगर, द्वारा — डॉ0 शेख महोली रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
2510.	वन्दे भारत पार्टी	गद्दोपुर मथिया, निकट आईटीआई विद्यालय, पोस्ट-गद्दोपुर मझावा, जिला- अयोध्या, उत्तर प्रदेश-224001
2511.	वन्दे रिपब्लिक पार्टी	555, नीती खण्ड-3, निकट पीपल चौक, इंदिरापुरम, जिला- गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014
2512.	वास्तविक भारत पार्टी	726/2 / K1, ग्राम उमरिया खास, तहसील - भंथावगढ़, जिला - उमरिया, मध्य प्रदेश - 484661
2513.	वसुधैव कुटुम्बकम पार्टी	वार्ड नं.-07, होल्डिंग नं. 1050 नया, मोहल्ला- साहेबदादगंज, जिला- दरभंगा, बिहार।

2514.	वसुंधरा जन विकास दल	खाता नं0 – 39, 59, प्लॉट नं0 – 32, 35 तथा 36, मौजा तथा थाना नं0 – 371, न्यू थाना नं0 – 27, एन.एच – 2, शिव सागर, जिला – रोहतास, बिहार – 821111 ।
2515.	वीरथ थियागी विश्वन्थदास थोझिलालकर काची	मणिकावसागर आरंगम, नंबर 1/9, चेंगम से तिरुवन्नमलाई मुख्य सडक, करियामंगलम गाँव और पोस्ट, चेंगम तालुक, तिरुवन्नमलाई जिला, तमिलनाडु- 606709
2516.	वेनुकाबदिनावर्गाला महिला रायतू पार्टी	डोर नं.- 3-110ए, चक्रयापालेम गांव, कोलिपारा मंडलम, गुंटूर जिला, आन्ध्र प्रदेश।
2517.	विचार जाग्रति कांग्रेस पक्ष	डोर नं0 — 275, हेवालु गांव व पोस्ट, देवागिरी तालुक व जिला कर्नाटक ।
2518.	विदर्भ माझा पार्टी	237, पोस्ट- उबली, तहसील- कलमेश्वर, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र ।
2519.	विदर्भ राज्य अघाड़ी	ब्लॉक नं. 4, दफ्तरी कॉम्पलेक्स, दादाजी धुनीवाले मठ के विपरीत, नागपुर रोड, ग्रामपंचायत नलवाड़ी, जिला- वर्धा, महाराष्ट्र
2520.	विद्यार्थुला महिलाला रैतुला महासेना पार्टी	डोर नं. 74-6/1-1ए, वीएसआर रोड, अयाप्पानगर, पाटामाता, विजयवाडा, आन्ध्र प्रदेश।
2521.	विद्यारथुल राजाकिया पार्टी	मकान नं.- 11-13-624/4, फ्लैट- 402, आई.बी.नगर, सरूरनगर (एम), कॉलोनी, रोड नं. 3, रंगारेड्डी- जिला, आन्ध्र प्रदेश- 501505
2522.	विडियल बलरची पेरनि	37-बी, कीलतेरू, इच्चीकामालैपट्टी, के. सातानूर (पोस्ट), तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु- 620021.
2523.	विडियलै तेडुम इंदियरगल पार्टी	10/2032, साउथ तिरुपाचेट्टी, पोस्ट – तिरुपाचेट्टी, तालुक – तिरुपवनम, जिला – शिवगंगै, तमिलनाडु - 630610
2524.	विदुथलाई चिरुथईगल काची	नं0 — 16, चिन्नईया गली, टी — नगर, चेन्नई — 17, तमिलनाडु ।
2525.	विदुथलाई कलाम काची	डी. नं. 2-48, बोदीनाईकेनपट्टी ओरपुरम वार्ड-2, बोदीनाईकेनपट्टी (पी), सिंगलंडापुरम वाया, रासीपुरम (टीके), नामक्कल जिला, तमिलनाडु- 637412
2526.	विदुथलाई मक्कल मुन्नेत्र कजगम	नं0 — 11, कबिलार स्ट्रीट, देवानामपट्टीनम, कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु ।
2527.	विजय भारत पार्टी	मकान नं. 402, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 2-3, गली नं. 3, फ्रेन्ड्स एन्क्लेव, शाहवेरी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201009
2528.	विजय भारत मक्कल (पीपुल) पार्टी	70, द्वितीय तल, ब्रोड बाजार स्ट्रीट, अम्बूर — 635802, जिला — वेल्लोर, तमिलनाडु
2529.	विजया जनता पार्टी	नं0 9, ओम साई शाक्ति निलाया, भारथिनागरा, हुनासामारानाहल्ली पोस्ट, जाला हुवाली, बैंगलुरु नार्थ तालुक, बैंगलुरु कर्नाटक- 560058
2530.	विकास इंडिया पार्टी	टी-192, गली नं0-2, गौतमपुरी, दिल्ली- 110053
2531.	विकास इंसाफ पार्टी	मकान नं. 23, वार्ड नं. 10, महमूदपुर परगना, पी.सी.एफ. गोदाम के पास, तहसील-सदर, जिला- फतेहपुर उत्तर प्रदेश- 212601
2532.	विकास मंच	भूरा चौक, पोस्ट ऑफिस&तहसील- नोखा, जिला- बीकानेर, राजस्थान- 334803
2533.	विकास पार्टी	सत्याग्रह मार्ग, दारूल सफा कम्पाउंड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
2534.	विकासशील इंसान पार्टी	घर अपना अपार्टमेन्ट, वार्ड नं. 38, फ्लैट नं. 604, फेज - 03, अभियंता नगर, रंजन पथ, पो.ऑ.- दानापुर कैन्ट, पी.एस-रूपासपुर, जिला-पटना, बिहार- 801503
2535.	विकासशील जनता पार्टी	फस्ट फ्लोर, (ग्रुण्ड फ्लोर आर्युवेदिक चिकित्सालय), चौहान मार्केट, बेहटा चौराहा, लालगंज, नियर हनुमान मंदिर, वैशवारा, राय बरेली, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश- 229206
2536.	विलेजर्स इंडिया पार्टी	तलपाली पाडा (दुर्गामंदप चौक के पास) जिला-बोलनगीर ओडिशा- 767001

2537.	वीर के वीर इंडियन पार्टी	प्रथम तल्ला, बी-2, सारथी कम्पलेक्स-2, मनेकपुरा, लिलियारोड, अमरेली, गुजरात- 365601.
2538.	विशाल जनता पार्टी	नं.1/4649/183, बुद्ध बाजार गली, सब गली नं.8, मंडोली रोड, न्यू मार्डन शाहदरा, दिल्ली-110092
2539.	विशाल पार्टी ऑफ इंडिया	गांव – चौहडा, डाकघर – डगाम, तहसील – गढ़शंकर, जिला – होशियारपुर, पंजाब – 144527
2540.	विश्व शक्ति पार्टी	बी -10/144, प्रदीप विहार, नथ्यूपुरा मोड़, दिल्ली — 110084
2541.	विश्व आदर्श भारत पार्टी	मकान नं. 251, मेगा पैथोलॉजी, कोर्ट के पीछे, सूख विलास कॉलोनी बड़वानी, तहसील- बड़वानी, जिला- बड़वानी, मध्य प्रदेश- 451551
2542.	विश्व बंधुत्व पार्टी	ग्राम-धूरीपुर, पोस्ट-बदौनाडीह, थाना-कादीपुर, जिला-सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश-228175.
2543.	विश्व भारत पार्टी	एच.नं०-5-6-160-बी, कृष्ण नगर एनटीपीसी, ज्योतिनगर, रामागुंडम, पेद्दापल्ली-जिला, तेलंगाना-505215
2544.	विश्व हिन्दुस्तानी संगठन	3/105, आनन्दनगर, 100 फुट रिंग रोड, सटेलाईट वेजलपुर, अहमदाबाद, गुजरात ।
2545.	विश्व जागृति पार्टी	74/16ए, परमहंस मार्ग, शिपरा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान- 302020
2546.	विश्व जना पार्टी	डोर नं. 4-122, पद्मावती नगर, थोगाटावरी स्ट्रीट, पोदालाकुर, जिला- एसपीएसआर नैलोर, आन्ध्र प्रदेश।
2547.	विश्व जन साम्राज्यम पार्टी	एम.आइ.जी.-74, म.नं०15-13-VII-एम-74, फेज-VII, केपीएचबी कॉलोनी, कुक्कटपल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना- 500085.
2548.	विश्व मानव समाज कल्याण परिषद	ग्राम व पोस्ट – चन्दापुर, वजीरगंज, जनपद - गोंडा, उत्तर प्रदेश।
2549.	विश्व शांति पार्टी	प्लॉट नंबर III-एफ/621, सेक्टर-III-एफ, वैशाली, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201010
2550.	विश्व तमिल कझागम	डोर नं० 70/2, ब्लॉक नं० 1, राजीव नगर, कंधमपट्टी, सलेम वेस्ट (टीके), जिलासलेम-, तमिलनाडु – 636005
2551.	विश्वनाथ प्रताप जनता दल	वार्ड नं० – 02, मालवीय नगर, भारतीय स्टेट बैंक के सामने मेन रोड, माधौगढ़, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश- 2285123
2552.	विजन इंडिया पार्टी	16-216, शिव गिरी कॉलोनी, मुलापेट, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश-524003
2553.	विश्व भारथ पीपल्स पार्टी	18/9, पूंगा नगर, इरुपुर, कोयमबटूर, तमिलनाडु- 641103
2554.	विवासायीगल मक्कल मुन्नेत्र कौची	403, एसआरपीके कॉम्पलेक्स, उदय्यरपलयम, थालावइपट्टी- पोस्ट, अतुर- तालुक, सिलम-जिला, तमिलनाडु- 630102
2555.	वोआईस ऑफ लेबर पार्टी (जम्मू और काश्मीर)	खसरा नं. 539, गांव- आत्ति, पोस्ट- फतेहपुर, तहसील व जिला- राजौरी, जम्मू और काश्मीर- 185131
2556.	वोटर्स इंडिपेन्डेंट पार्टी	नं. 903, प्रथम तल, छठा ब्लॉक, 80 फीट रोड, कोरामंगला, इजीपुरा, वार्ड नं. 148, बैंगलोर, कर्नाटक- 560095
2557.	वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल	मकान नं० 385, गली नं० 12/3, वज़ीराबाद गांव, दिल्ली-110084
2558.	व्यवसायी किसान अल्पसंख्यक मोर्चा	गृह संख्या - 12, महाराजगंज, जमुई, जिला - जमुई, बिहार - 811307
2559.	व्यवस्था परिवर्तन पार्टी	बौद्ध डायमण्ड, तालुक पंचायत रोड, कोर्ट के सामने, पोस्ट व तालुक- घोघा, जिला- भावनगर, गुजरात।
2560.	वतन जनता पार्टी	3/4/7 ए, मुगलपुरा, अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2561.	वाजिव अधिकार पार्टी	ग्राम व पोस्ट – पोहदी बेला, ब्लॉक – घनश्यामपुर, जिला- दरभंगा, बिहार - 847427 ।
2562.	वैल्फेयर पार्टी ऑफ इण्डिया	ई – 57/1, अबूल फजल एनक्लेव-1, जामिया नगर, नई दिल्ली – 110025.
2563.	वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी	42 – आनन्द पलित रोड, कोलकाता – 700014, पश्चिम बंगाल ।

2564.	वाई. एस. आर. तेलंगाना पार्टी	401-ए, तीसरी मंजिल, सिद्धार्थी श्रावती अपार्टमेंट, नंबर 8-3-169/35, प्लॉट नंबर 35, सिद्धार्थी नगर, युसूफगुडा, तेलंगाना, हैदराबाद-500038
2565.	येकिकुथा संकशेमा राष्ट्रीय प्रजा पार्टी	डी नं0 7-1-500, एन जी ओ कॉलोनी, वाए एस आर स्टीट, सिद्धावातम रोड, बडवेल - 516227, वाए एस आर जिला, आन्ध्र प्रदेश।
2566.	यंग इंडिया पार्टी	सर्किल नं. 28, होलिंग सं. 128/113, आर्य कुमार रोड, मछुआटोली, थाना- कदमकुआं, जिला- पटना, बिहार -800004
2567.	यंग इंडिया ट्रेस पार्टी	येलम गल्ली, तुगाव (एच), ता0 भालकी, जि0 बिदर, कर्नाटक।
2568.	यंग इंडिया युनाइटेड पार्टी	हाऊस ऑफ मदन मोहन मिश्रा, गांव- मंगलपुरवा, पोस्ट- पारसा, गोंदारी, ब्लॉक- हलधरमउ, तहसील- कनल गंज, जिला- गोण्डा, उत्तर प्रदेश- 271126
2569.	यंग स्टार इम्पावरमेंट पार्टी	34, ग्राउंड फ्लोर, दूसरा मेन रोड, 11वीं क्रॉस रोड, सिंगासंदरा, सुभाष नगर, बी - ब्लॉक, बेगुर गांव, होबली, बैंगलोर-560068, कर्नाटक.
2570.	यूथ एण्ड स्टूडेंट्स पार्टी	आर. पी. एस्टेट्स, 4/1, पूनामाली हाई रोड, कोयमबेदू, चेन्नई - 600107.
2571.	यूथ इंडिया पीस पार्टी	असेसमेंट नं.- 18, ग्राम- काठा नं.- 215, यशवंतपुर हुबली, बैंगलोर नार्थ तालुक, बैंगलोर, कर्नाटक- 560022
2572.	यूथ सोसलिस्ट पार्टी	मकान नं0 - 248, सिहोरा गोविन्द (गोविन्द नगर), पोस्ट व थाना - कटघर, तहसील व जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244001।
2573.	वाई. एस. आर. बहुजन पार्टी	28/434, रामेश्वरम, प्रोद्दातुर -516360, जिला-कडपा, आन्ध्र प्रदेश।
2574.	युग क्रांति दल	मकान नं.192, गली नं.1, वार्ड नं.1, पंजाबी कॉलोनी (धर्मपुर), समस्तीपुर टाऊन, बिहार-848101
2575.	युग निर्माण पार्टी	बी-84, द्वितीय तल, घडोली डेयरी फार्म, मयूर विहार फेज-III, दिल्ली- 110096.
2576.	युग परिवर्तन पार्टी	म. नंबर -2179, मोतीराम कॉलोनी, नियर मोहित पब्लिक स्कूल, नूरवाला, पानीपत, हरियाणा- 132103
2577.	युग तुलसी पार्टी	मकान नं. 5-9-296, फ्लैट नं. 310, प्रसाद अपार्टमेंट, गनफाउन्डरी, एबीडस, हैदराबाद, तेलंगाना -500001.
2578.	युवा आम दल आदमी विकास	अप्रा सिटी, फेज-2, सेक्टर-सी, ग्राम-मिशरौलिया स्टेट, पोस्ट- मिश्रौली, निकट-जेल रोड, जिला-बस्ती उत्तर प्रदेश- 272001
2579.	युवा अनुभव पार्टी	मकान नं0 - 393- आई, हरितिमा, राजीव नगर, पश्चिमी बशारतपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
2580.	युवा भारत आत्मनिर्भल दल	एफ/49/1ए, अयोध्या नगर, शिव मंदिर के पास, एन- 7, सिडको, औरंगाबाद, महाराष्ट्र- 431003
2581.	युवा भारत राष्ट्रसेवा पार्टी	एलजीएफ-138, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049
2582.	युवा बिहार सेना	मकान नं0 17, बटुकेश्वर दत्ता लेन, न्यू जक्कनपुर, पटना बिहार-800001
2583.	युवा जनकल्याण पार्टी	दुकान नं. 6, लक्ष्मी आशीर्वाद को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, प्लॉट नं.- 23, सेक्टर- 25, कामोटे, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र - 410209
2584.	युवा जनक्रान्ति पार्टी	कस्बा-केराकत, मो0 - शेखजादा द्वितीय, जनपद - जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
2585.	युवा जनता पार्टी	भवन सं0 - 91/1, ग्रान्ट गंज, मैन मार्केट महोबा, जिला - महोबा, उत्तर प्रदेश - 210427
2586.	युवा कर्नाटक पक्षा	# 66, आनेपुरा - गांव, निधारमंगला -पोस्ट, मालूर- तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक- 563137
2587.	युवा क्रांतिकारी पार्टी	आर्दश नगर, रोड नं. 1ई, समस्तीपुर, बिहार- 848101
2588.	युवा पार्टी	1-8-1-83, गैरेज नं0 - 83, ग्राउंड फ्लोर, बागलिंगम्पल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश

2589.	युवा पार्टी (डेमोक्रेटिक)	प्लॉट नं० - 63, गुरुकृपा सोसाईटी, पंच फलिया, दाभोलिगम, कटरगम, सूरत, गुजरात- 395004
2590.	युवा सरकार	161, वनमाली पार्क सोसायटी, हरीकृष्णा चौक, धर्माकुल आश्रित रोड, पुना - सिमाडा, सूरत-394211, गुजरात ।
2591.	युवा शक्ति संगठना	भांगडिया वाडा, तिलक वार्ड, चिमूर, तहसील - चिमूर, जिला - चन्द्रपूर, महाराष्ट्र ।
2592.	युवा स्टार पार्टी	ग्राम-अकहा, पोस्ट-जयंती ग्राम ईसापुर, थाना-भगवानपुर, जिला- बेगूसराय बिहार-851112
2593.	युवा तरम पार्टी	8-1-32/4, नजदीक हनुमान मंदिर के पीछे, वार्ड नं०-1, गतैगुदेम, गाँव- पल्लवांचा-मंडल, बद्रादरी कोठगुदेम- जिला, तेलंगाना-507115
2594.	युवा तेलंगाना पार्टी	प्लॉट नं. 143 & 144, रॉक टॉऊन कालोनी, अलकापुरी, मन्सूराबाद, एल.बी. नगर, हैदराबाद-500068, तेलंगाना ।
2595.	युवा वाहिनी पार्टी	डी- 95, एल डी ए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226012
2596.	युवा विकास पार्टी	सेरावां, अतरामपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2597.	जोरम पीपुल्स सुवमेंट	ट्रेजरी स्क्वायर, आईजॉल, मिजोरम-796001

सारणी-I (ख)**असूचीबद्ध पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.)***

क्रम सं०	पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के नाम	मुख्यालय का पता
1.	आर्थिक समानता पार्टी	189, बी ब्लॉक, गली नं० 4/6, करावल नगर, दिल्ली-110094.
2.	अ-चिक नैशनल काँग्रेस (डेमोक्रेटिक)।	डाकोपगरे (ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के सामने) तुरा, वेस्अ गारो हिल्स, मेघालय-794101
3.	अजेय भारत पार्टी	ए-14, मोहन एस्टेट्स, मथुरा रोड, नई दिल्ली ।
4.	अखंड भारत महासंघ सर्वहारा क्रांतिकारी पार्टी	सनफूल, कोटा-1, (राजस्थान) ।
5.	अखिल भारतीय आजाद लोकहित काँग्रेस पार्टी	खाडी मौहल्ला, खटीकों का चौक, भिवानी, हरियाणा ।
6.	अखिल भारतीय दलित उत्थान पार्टी	ए-201/2, गली नं० 1, विकास मार्ग, शक्करपुर, दिल्ली-110092.
7.	अखिल भारतीय क्रान्ति दल	7 प्रेम कॉलनी, प्रगति पथ, प्रथम तल, कल्याण नगर, हनुमान मन्दिर के पीछे, टोंक रोड, जयपुर-302011, राजस्थान ।
8.	अखिल भारतीय रिवाल्युशनरी शोषित समाज दल	वैशाली नगर, सिद्धेश्वर बेस, स्था० और० पो०-लादुर, जिला-लादुर - 413512 (महाराष्ट्र) ।
9.	अखिल भारतीय नागरिक सेवा संघ	प्लॉट नं० 98, रतन लाल नगर, कानपुर - 208022, उत्तर प्रदेश ।
10.	अखिल जन विकास दल	50 ए / 1ए, नाहरपुर, राव एस. के. शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, सैक्टर - 7, रोहिणी, दिल्ली-85.
11.	ऑल इंडिया अम्बेडकर मक्कल मुन्नेत्र कडगम	104, वालाजा रोड, तीसरी मंजिल, अरीबु मनी आरंगम, ट्रिप्लीकेन, चेन्नई, तमिलनाडु.-600002
12.	ऑल इंडिया बाबू जगजीवन राम बाबा साहेब नेशनल काँग्रेस	सी-22, बेसमेंट, चिराग एनकलेव, नई दिल्ली-110048
13.	ऑल इंडिया क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक एण्ड बैकवर्ड पीपुल्स पार्टी	ब्लाक ए-1, फ्लैट-2, कोलकत्ता - 700054, (पश्चिम बंगाल)
14.	ऑल इण्डिया दलित वैलफेयर काँग्रेस	फ्लैट नं० 44, सेक्टर बी-4, नरेला, दिल्ली
15.	ऑल इंडिया लोकराज पार्टी	गांव-मेहरबान, तहसील और जिला- लुधियाना (पंजाब)
16.	ऑल इण्डिया महिला डेमोक्रेटिक फ्रंट ए०आई०एम०डी०एफ०)	मकान नं० 6-1-57/62, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद-500004, आंध्र प्रदेश

17.	ऑल इंडिया मुत्ताहिदा क़ौमी महज़	मकान नं० 19-2-23/एम/जे/5/ई, प्रथम तल, बहादुरपुरा, मक्का कॉलोनी, हैदराबाद-500053 आन्ध्र प्रदेश ।
18.	ऑल इंडिया रक्षा पार्टी	पोस्ट बॉक्स सं०- 136, मुख्य डाक घर, करनाल-132001, हरियाणा ।
19.	ऑल इंडिया ट्राइब्स एण्ड माइनोंरिटीज़ फ्रंट	विंडरूथ हिल एनेक्सी, शिमला-2, (हिमाचल प्रदेश) ।
20.	ऑल जे एण्ड के पीपुल्स पैट्रियाटिक फ्रंट	जवाहर नगर, हाऊस नं०-97, पुलिस स्टेशन, राघ-बाघ, श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) ।
21.	अल्पजन समाज पार्टी	डाक बंगला मार्केट परिसर, प्रथम तल, दुकान सं०-28, डाक बंगला मार्केट, पो. ऑ. – सासाराम, थाना-सासाराम, जिला – रोहतास, बिहार – 821115.
22.	अम्बेडकर क्रान्ति दल	शान्ति होम्योपैथिक स्टोर, आर्य समाज चौक, बदायूँ, उत्तर प्रदेश ।
23.	अम्बेडकर प्रगतिशील रिपब्लिकन दल	डा०लोहिया कॉलोनी, शाहजहाँपुर, पिन-242001, (उत्तर प्रदेश) ।
24.	एंटी रिजेशन पार्टी ऑफ इंडिया	हाऊस नं० 1184, सैक्टर-21-बी, चण्डीगढ़ ।
25.	आर्य सभा	7, जन्तर-मन्तर रोड, नई दिल्ली-110001.
26.	असम गण परिषद् प्रगतिशील	प्रधान कार्यालय-जी. एस. रोड, उलूबारी, गुवाहाटी-781 007, असम ।
27.	अति पिछड़ा जन दल	ग्राम: रामपुर बाकली, पो० एवं जिला-बिजनोर, उत्तर प्रदेश ।
28.	आवामी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया	बुखारा, बख्शीवाला रोड, बिजनौर-246701, (उत्तर प्रदेश) ।
29.	बारथा समुथाया मुनेत्र मुन्नानी	400/12, प्रथम तल, टाऊनशिप कमर्शियल कॉम्पलैक्स, कामराजर नगर, मेन रोड, अवाडी, चेन्नई-600 071, तमिलनाडु ।
30.	बहुजन एकता पार्टी (आर)	सूराज भवन, आर.डी.-136ए, धर्मपुरा एक्स. नजफगढ़, नई दिल्ली-110043
31.	बहुजन किसान दल	किसान भवन, ऋषम विहार, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ।
32.	बहुजन लोकतांत्रिक पार्टी	जी-161, जे. जे. कॉलोनी, वजीरपुर, दिल्ली -110052.
33.	बहुजन शक्ति	माइन्स रेस्क्यू स्टेशन कैम्पस, पोस्ट-धनसार, जिला-धनबाद, झारखण्ड ।
34.	बाम पार्टी	538के/780, त्रिवेणी नगर-II, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
35.	बारक वैली टेरीटोरी डिमांड कमेटी	स्वराज भवन, सिलेहर रोड, पो० ऑ०, थाना और जिला-करीमगंज, पिन-788711, असम ।
36.	बेगमपुरा सांझा फ्रंट	193, न्यू रसीला नगर, बस्ती दनिशमंदन जालंधर, पंजाब ।
37.	भारत महाशक्ति पार्टी	11ए, डी.डी.ए फ्लैट्स, प्रियदर्शिनी विहार, लक्ष्मी नगर दिल्ली 110092.
38.	भारत बचाओ पार्टी ऑफ इण्डिया	एस-528, ग्रेटर कैलाश पार्टी-1, नई दिल्ली -110048.
39.	भारत देशम् पार्टी	मकान सं. 8-3-270/1, नेहरू नगर, नवी लाइन, मेन रोड, गुंटुर-522 001, आन्ध्र प्रदेश ।
40.	भारत जन पार्टी	324, कैलाश नगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
41.	भारत विकास पार्टी (सेकूलर)	खसरा नं० – 21/25, नजदीक एच. पी. पेट्रोल पम्प, उपकार प्रोपर्टीज, ए-ब्लाक, हिमगिरी इन्क्लेव, बुराडी, दिल्ली -110084
42.	भारतीय द्रविड़ मक्कल काची	2036, 15वीं मेन रोड, अन्ना नगर पश्चिम, चेन्नई-600 040, तमिलनाडु ।
43.	भारतीय जन शब्द	331 (311), वार्ड नं. – 1, कालरा हाउस, मण्डेला, पोस्ट ऑफिस, वेला नाडु तिरुवनन्तापुरम – 695 543, केरल ।
44.	भारतीय युवथा, समथा, राष्ट्रीयथा कांग्रेस पार्टी	फ्लैट नं. जी-1, भूतल, ए. आर. के. रेजिडेन्सी प्लॉट नं. 304, सर्वे नं. 153, 154, 163 व 143, बोदूपल, ग्राम एवं ग्राम पंचायत – घटकेसर (मंडल), जिला- रंगारेड्डी, हैदराबाद – 500038, आन्ध्र प्रदेश ।
45.	भारतीय अष्ट जन पार्टी	151, सी. सेक्टर, दूसरी मंजिल, कमरा नं० 203, इन्दर पुरी, भोपाल – 462022 (मध्य प्रदेश) ।
46.	भारतीय आवाज पार्टी	मिलन कमेटी सेवा संघ, संतोष नगर बेहराम बाग, जोगेश्वरी पश्चिम, मुम्बई – 440102, महाराष्ट्र ।
47.	भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान दल	बंसल गांव, पो. ऑ. – धेघाट, पट्टी-मल्ला, चौकौट, जिला – अल्मोडा (उत्तराखण्ड) ।

48.	भारतीय बौद्धिक विचार पार्टी	गाँव-बल्लानगला पट्टी, पो० शाहपुर खेडी, तह० - धामपुर, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश।
49.	भारतीय काँग्रेस (एम)	16, बतरा कालोनी, एमएक्स सोनीपत .टी., हरियाणा।
50.	भारतीय जन किसान पार्टी	1080C, बाबाजी का बाग, तिलक रोड, बलुआ घाट, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
51.	भारतीय जन समाजवादी पार्टी,	ए - 62, जे० जे० कॉलोनी, खानपुर, नई दिल्ली - 110062.
52.	भारतीय लोक कल्याण दल	एरिया/पोस्ट/तहसील-बिकाबुर, जिला-फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)।
53.	भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी (गांधी-लोहियावादी)	सत्यवती निवास, राम दास पथ, मीठापुर बी. ऐरिया, पटना-800001, बिहार।
54.	भारतीय मानवता विकास पार्टी	133/4, कुतब एन्क्लेव, फेस-II, नई दिल्ली- 110016.
55.	भारतीय परिवर्तन पार्टी	70-ए, डी.डी.ए, फलैट्स, पाण्डव नगर, मैट्रो स्टेशन शादीपुर के पास, नई दिल्ली- 110008.
56.	भारतीय पूर्वांचल पार्टी	ई-68, प्रेमचन्द कॉलोनी, पांडेयपुर (1), वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
57.	भारतीय राष्ट्रीय जनहित पार्टी	सी-2968, सपना कॉलोनी, लखनऊ-226017, (उत्तर प्रदेश)।
58.	भारतीय राष्ट्रीय स्वदेशी काँग्रेस पक्ष	308, रामनगरी, 2/सी, तीसरा तल, अलन्दी रोड, भोसरी, पुणे-411039, महाराष्ट्र।
59.	भारतीय समाज कल्याण पार्टी भारत	रवेन्द्र इलैक्ट्रॉनिक्स, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, हाथरस, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)।
60.	भारतीय सर्वकल्याण क्रान्ति दल	2/643/सी, रामाबाग कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़-202 001 (उत्तर प्रदेश)।
61.	भारतीय शक्ति सेना	शक्ति सेना भवन, बैरियर नं० 6, औद्योगिक क्षेत्र बहादुराबाद, हरिद्वार - 249 402 उत्तराखण्ड।
62.	भारतीय श्रमिक दल	एल-238, विकास प्राधिकरण कॉलोनी, इंदिरा नगर, राय बरेली (उत्तर प्रदेश)।
63.	भारती समाजवादी मोर्चा	3/1108, देहरादून चौक, सहारनपुर-247001. (उत्तर प्रदेश)।
64.	भारती लोक लहर पार्टी	136, अजीत नगर, अमृतसर (पंजाब)।
65.	भारतीय देशभक्त संघ (ब्रजेश)	शॉप नं० -1, खसरा नं० 1494, नेहरू इन्क्लेव, बैंक वाली गली, अलीपुर, दिल्ली- 110036.
66.	भारतीय गणतंत्र पार्टी	मकान नं. 5, गंगाधाम, कुन्दन नगर, बाग मुगालिया, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश।
67.	भारतीय गोरखा जनशक्ति	26/2, एन.डी. लामा रोड दार्जिलिंग-734101, (पश्चिम बंगाल)।
68.	भारतीय हरित क्रान्ति दल	गांव व पो० सोन्टा, वायां -अलीपुर, खेरी, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।
69.	भारतीय हिन्द एकता दल	डिफेंस कालोनी, अनिल शहीद नगर, इज्जतनगर, नैनीताल रोड, बरेली - 243122 उत्तर प्रदेश।
70.	भारतीय जन सनमति पार्टी	ग्राम- हरौला, सेक्टर -5, नोएडा, उत्तर प्रदेश।
71.	भारतीय जन काँग्रेस (राष्ट्रीय)	113/70 बी, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पटना -800023, (बिहार)।
72.	भारतीय जनता की एकता पार्टी	प्लॉट संख्या 29-ए एण्ड 30ए, खसरा नं० 20/1/1, गांव राजापुरा खुर्द दिल्ली, कालोनी मोहन गार्डन, आर-III, ए-2, नई दिल्ली -110059
73.	भारतीय स्वर्ण समता पार्टी	201-सी, गोयल एन्क्लेव, फैजाबाद रोड, चिनहट लखनऊ उ. प्र.
74.	बुद्धिविवेकी विकास पार्टी	आर(यू)- 9, द्वितीय तल, पीतमपुरा, दिल्ली - 110088.
75.	चंडीगढ़ विकास पार्टी	मकान नं० 230, सेक्टर 9-सी, चंडीगढ़ - 160009.
76.	छत्तीसगढ़ नव निर्माण सेन	सी० आर० 12, आर० डी० ए० बिल्डिंग, गुरुनानक मार्किट, शारदा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।
77.	चिल्ड्रन फर्स्ट पार्टी ऑफ इंडिया	703-704, देवथा प्लाजा, 132, रेजीडेंसी रोड, बैंगलुरु -560025, कर्नाटक।
78.	डेमोक्रेटिक इन्साफ पार्टी	डी-62, जी. टी. बी. नगर (करेली), इलाहाबाद, (उत्तर प्रदेश)।

79.	डेमोक्रेटिक जनता दल (.एण्ड के .जे)	344 ई. पी. किस्टेन कॉलोनी (शहीदी चौक), जोगी गेट, जम्मू (जम्मू व कश्मीर)।
80.	देसिया फारवर्ड ब्लाक	नं० 5, एम० पी० एवेन्यू मजेस्टिक कॉलोनी, शालीग्रामम, चेन्नई – 600093, तमिलनाडु।
81.	एकता क्रान्ति दल यू.पी.	मार्फत-सत्यपाल सागर, अमनजय, जलाल नगर, छोटी लाइन के सामने, शाहजहांपुर, (उत्तर प्रदेश)।
82.	फेडरल काँग्रेस ऑफ इण्डिया	होलम्बी खुर्द, गाँव व पो० – होलम्बी कलां, दिल्ली – 110082.
83.	फार्वर्ड ब्लॉक (सोशलिस्ट)	टेम्पल स्ट्रीट, पो. ऑ. व जिला – जलपाईगुडी – 735101 (पश्चिम बंगाल)।
84.	गरीब जनता पार्टी	राजिन्दर नगर, मेन बाजार, पो. ऑ. – विजय नगर, बटाला रोड, अमृतसर (पंजाब)।
85.	ग्रामांचल पार्टी	3/ए, सत्य नगर, सेन्ट्रल स्कूलके सामने, भुवनेश्वर- 7, उड़ीसा।
86.	गुजरात युवा विकास पार्टी	मार्फत दरबार कूबा ट्रान्सपोर्ट, बस स्टेशन के पास, वाइनगर-384355, जिला-मेहसाना (गुजरात)।
87.	हरित प्रदेश पार्टी	मकान नं० - 349, ग्राम व पोस्ट बिलसूरी, जिला - बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश - 203205
88.	हरियाणा जनता पार्टी	गांव व पोस्ट – रीसालु, तहसील व जिला – पानीपत, हरियाणा – 132103
89.	हरियाणा सामाजिक न्याय पार्टी	कोठी. नं०-239, सेक्टर -7, अर्बन एस्टेट, कुरुक्षेत्र- 136118, हरियाणा।
90.	हिन्द एकता मिशन	ग्राम-लेडूवावर, पोस्ट-कौवरागहनी, तहसील-फूलपुर, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
91.	हिन्द मोर्चा	समाज सुधार आश्रम, सिरसपुर, दिल्ली
92.	हिन्द रक्षा सेना	डब्ल्यू जैड-13 बी, प्रथम तल, मुखराम पार्क एक्सटेंशन, तिलक नगर, नई दिल्ली - 110018
93.	हिन्द राष्ट्रीय एकता पार्टी	प्लॉट. नं० 104, अंगुरी पैलेस, वजीराबाद रोड, पासुन्डा गरिमा गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी०-201005
94.	हिन्द स्वराज्य गणतन्त्र पार्टी	एस-41, पंचशील पार्क, नई दिल्ली - 110017.
95.	हिन्दुस्तान ऐक्शन पार्टी	156, खन्ना नगर, लोनी, गाजियाबाद-201102 उत्तर प्रदेश।
96.	हिन्दुस्तान पीपुल्स पार्टी (राजपाल)	85ए-मोहिले नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
97.	हिन्दुस्तानी गरीबवादी पार्टी	61, अग्रवाल चैम्बर्स, विकास मार्ग, वीर सावरकर ब्लॉक शकरपुर, दिल्ली - 110092
98.	हिन्दुस्तान सुरक्षा पार्टी	नार्थ-इस्ट जोन, बरपेटा रोड, ट्रिस्ट लोज के पास वार्ड नं० 6, जिला बरपेटा, (आसाम)।
99.	इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी	1, बलवन्त राय मेहता लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली- 110001.
100.	इंडियन सेक्युलर काँग्रेस	202, पाकेट-बी, एस.एफ.एस. (डी.डी.ए. फ्लैट्स), सुखदेव विहार, नई दिल्ली – 110025.
101.	इण्डियन वोटर्स वेलफेयर पार्टी	नं०-608, 14वीं मेन, गोकुल प्रथम स्टेज, बेंगलोर-560054, कर्नाटक।
102.	इंडियनस फ्रंट	37-12-62, एन०जी०जी०ओ०एस० कॉलोनी, पी० आर० गार्डन्स, विशाखापट्टनम-530007, आन्ध्र प्रदेश।
103.	इष्टतन्त्र परिषद	ग्राम-दिव्यसिंहपुर, खाता संख्या – 638, प्लॉट नं. 1343, पोस्ट-रायगुरुपुर, थाना – गदिसागोडा, जिला – पुरी, ओडिसा
104.	जे०एण्ड०के० सिटीजन्स पार्टी	हीरा बिल्डिंग, अवी गुजर, लाल चौक, श्रीनगर(जम्मू और कश्मीर)।
105.	जगत तेलुगु मुन्नेत्र कडगम	नं० 33, हाल्स रोड, पी. ए. टावर, एफ-9 ओर 10, एगमोरे, चेन्नई-600008, तमिलनाडु।
106.	जय जनता जनार्दन पार्टी	मोहल्ला-मनोहरीगंज, मर्दन नाका शहर बाँदा, परगना व जिला-बादा, उत्तर प्रदेश।
107.	जय समाज भारतीय समाज पार्टी	टाउन एरिया सादात, पोस्ट – सादात, जिला – गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।
108.	जम्मू एण्ड कश्मीर नैशनल युनाइटेड फ्रंट	पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, अम्फला चौक, करन नगर, जम्मू तवी - 180005, जम्मू व कश्मीर।

109.	जम्मू और कश्मीर सेव श्रीनगर फ्रंट	नायब मुफ्ती आजम मंजिल, तेलबल रोड, हाबक क्रॉसिंग, श्रीनगर – 190006 जम्मू और कश्मीर ।
110.	जम्मू एण्ड कश्मीर अवामी लीग	बी – 24, इन्द्रानगर, श्रीनगर – 190001 (जम्मू व कश्मीर) ।
111.	जम्मू एण्ड कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट	कुर्सू राजबाग, श्रीनगर – 190008, कश्मीर ।
112.	जम्मू एण्ड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट । (सेक्युलर)	राजबाग, लिटिल एन्जल्स स्कूल के पास, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर ।
113.	जन एकता पार्टी	147/5, आई० टी० आई० के पीछे, शमशेरपुर, पौंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश ।
114.	जन लोकमत पार्टी	2, हसरत बिल्डिंग, आध्यात्मिक नगर, रेलवे फ्लाई ओवर के नीचे, डासना, गाजियाबाद – 201302 उत्तर प्रदेश ।
115.	जन शान्ति संगठन	एए – 14, चंदन वन, फेज – 1, मथुरा उत्तर प्रदेश – 281001.
116.	जन हितकारी पार्टी	ए/13 – 14, इंडस्ट्रियल एस्टेट, रसूलगढ़, भुवनेश्वर – 751010, उड़ीसा ।
117.	जन उन्नयन मंच	मार्फत डोलफिन इंजिनियरिंग कम्पनी, 39, शेक्सपियर सरणी, कोलकाता – 700017, पश्चिम बंगाल ।
118.	जनादेश पार्टी	राधे निवास, जरीमरी, जगताप वाडी, कुर्ला अंधेरी रोड, मुंबई – 400072
119.	जननायाहा मुनेत्रा कजगम	नं० 32, न्यु टेन्क गली, नूंगमबक्कम, चेन्नई – 600034, तमिलनाडु ।
120.	जाथिया तेलुगु अभिवृद्धि सेवा समुह	नं० 171, केशवईगुंटा, निकट – एस० जी० एस० आर्ट्स कॉलेज, तिरुपति – 517501 जिला – चित्तूर, आंध्र प्रदेश
121.	झारखण्ड जन मोर्चा	द्वितीय मंजिल, अजमेरी टावर, मल्लाह टोली, रांची – 834001, झारखण्ड ।
122.	झारखण्ड जनाधिकार मंच	भुवनेश्वरी लोक, काली मंदिर रोड, वर्धमान कम्पाउन्ड, रांची – 834001, झारखण्ड ।
123.	झारखण्ड वनांचल काँग्रेस	5, रातू रोड, रांची – 834005, झारखण्ड ।
124.	कैविनयगेर मुन्नेत्र कडगम	श्री विश्वेश्वर भवनम, 76, मिलर्स रोड, किलपोक, चेन्नई – 600010 (तमिलनाडु) ।
125.	कामगार समाज दल	मकान नं० 9/237, मोहल्ला : रायडोपुर, पोस्ट एवं जिला – आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
126.	कर्नाटक क्रान्ति दल	नं० 240, सिक्सटीन्थ मेन, सिक्सथ क्रॉस, फर्स्ट फेज, II स्टेज, वी.टी.एम. (ई डब्ल्यू एस) लेआउट, बंगलौर – 560076 (कर्नाटक) ।
127.	कर्नाटक तामीझार मुन्नेत्र कडगम	नं. 6, II फ्लोर, चिक बाजार रोड, क्रॉस शिवाजी नगर, बंगलौर – 560051, (कर्नाटक) ।
128.	केरला जनपक्षम	पुरा - 36, श्यामला निवास, पूजापुरा पी० ओ०, थिरुवनन्थापुरम - 695012.
129.	किसान गरीब नागरिक पार्टी	203, मरकज ब्यू द्वितीय तल, 24, अपोजिट कैरिट सिनेमा, जोगेश्वरी पश्चिम, मुम्बई - 400103 महाराष्ट्र ।
130.	किसान मजदूर बहुजन पार्टी	जे-1/2, दली बाग कॉलोनी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
131.	किसान व्यवसायी मजदूर पार्टी	प्रकाश भवन, नरही बाजार, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
132.	कोंगुनाडु जननायगा काँची	“इराई अरुल” नं० – 24, मेथा लेआउट, लक्ष्मीपुरम, पीलामेडु (पो.ऑ.), कोयमबटूर, तमिलनाडु – 641004
133.	कोसल पार्टी	जी. एम. कॉलेज रोड, सम्बलपुर - 768004, (उड़ीसा) ।
134.	क्रान्ति दल	132, बाबूगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
135.	क्रान्ति परिषद्	म० नं० 2019, मिस्त्रीखान रोड, नाहरगढ़ रोड, जयपुर (राजस्थान)।
136.	क्रांतीसेना महाराष्ट्र	5-ए, ज्योतिसदन शितलादेवी, टेंपल रोड, माहिम, मुम्बई, महाराष्ट्र।
137.	लेबर एण्ड जॉब सीकर्स पार्टी ऑफ इण्डिया	66, रोयेपेट्टा हाइ रोड, मायलापोर, चेन्नई-600004. (तमिलनाडु)।
138.	लाल मोर्चा	आर० जेड० सी० – 113, विष्णु गार्डन, ख्याला, नई दिल्ली – 110018.
139.	लट्टिन काँग्रेस	बवाली, पोस्ट-खाश, जिला-मेरठ-250621, (उत्तर प्रदेश)।

140.	लोक परिवाण	"सौभाग्य" 12-13 तिलक नगर-II महामन्दिर, जोधपुर – 342 010, राजस्थान।
141.	लोको संमिलोन	पोस्ट ऑफिस-जलेश्वर, जिला-गोलपारा, असम।
142.	लोकसेना	63/एचओ/एसओ, मदनमोहन बर्मन एस्टेट कोलकाता-700007, पश्चिम बंगाल।
143.	लोकतांत्रिक चेतना पार्टी	मुमताज मंजिल, आजाद नगर, बादा, उत्तर प्रदेश।
144.	लोकतांत्रिक जनता फ्रंट	ई0-13/307, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जवाहर पार्क, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
145.	महागुजरात जनता पार्टी	ए-203, सत्यमेव-1, एस.जी. रोड, हाई कोर्ट के सामने, अहमदाबाद गुजरात।
146.	महाकौशल विकास पार्टी	"शान्ति कुटीर" 281, संजीवनी नगर, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।
147.	महानायक सरदार पटेल संघ	52/98, द्वितीय तल, चितरजंन पार्क, नई दिल्ली- 110019.
148.	मक्कल काँग्रेस वजहापडियार	18, तेलुगु ब्राह्मण स्ट्रीट, वेलाचेरी, चेन्नई-600 042, तमिलनाडु।
149.	मक्कल देसिया जननायका काची	245/6, आर. के. मुद्रु रोड, माइलापोर, चेन्नई-600 004, तमिलनाडु।
150.	मक्कल मरुमलार्ची मुनेत्र कडगम	नं० 13ए, प्रथम तल, थियागाराजन नगर, कोडुंगईयुर, चेन्नई – 600118 तमिलनाडु।
151.	माना पार्टी	5-4-719, कैटलमण्डी, नामपाल्ली, हैदराबाद-500 001, आन्ध्र प्रदेश।
152.	मणिपुर पीपुल्स पार्टी(डेमोक्रेटिक)	क्वार्टर नं० 1, टाईप-4, बाबूपाडा, इम्फाल-795001, (मणिपुर)।
153.	मर्यादी दल	ग्राम चोरकरवाडा, तहसील- वैर, जिला- भरतपुर, राजस्थान।
154.	मातृ भक्त पार्टी	रघुनाथ फार्म, ग्राम व पोस्ट-कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा।
155.	एम जी आर थोंडरकल काञ्ची	नं. 18/33ए, वट्टाविलई, कप्पिवारी पोस्ट, कन्याकुमारी, जिला- 629156, तामिल नाडु।
156.	मिजोरम काँग्रेस पार्टी	हैडक्वार्टर्स- आइजॉल, मिजोरम-796 001।
157.	नागा नेशनल पार्टी	हैडक्वार्टर्स अजा डेली ऑफिस, चर्च रोड, देवलाहलैंड, इम्फाल, (मणिपुर)।
158.	नेशनल जनक्रान्ति दल	के-316, बस टर्मिनल के पास, कुतुब मीनार के सामने, एम.बी रोड, लाडो सरास, नई दिल्ली-110030
159.	नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी	हाउस नं.1080, ब्लॉक-पी/1, सुलतान पुरी कलोनी, नई दिल्ली-110041
160.	नैशनल सेक्युलर पार्टी	सी-20/बी, फर्स्ट फ्लोर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016
161.	नेशनल स्टुडेन्ट्स पार्टी	16/2 कर्णनीश्वरार पागोडा स्ट्रीट, मायलापोर, चेन्नई-600004, (तमिलनाडु)।
162.	नेशनल विकास पार्टी (इण्डिया)	बी-40/ए-11, गणपति पेराडाइज सेन्ट्रल स्पाइन, विद्या धर नगर जयपुर-302023, राजस्थान।
163.	नव निर्माण नागरिक समिति	6/7/8, शंकरमठ रोड, बासनगुडी, बंगलौर-560004, (कर्नाटक)।
164.	नव तेलंगाना पार्टी	म० नं० 8-2-598/बी, रोड नं० 8, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034
165.	नेताजी सुभाष पार्टी	शाजनवा, जिला-गोरखपुर, (उत्तर प्रदेश)।
166.	न्यूज काँग्रेस	बाई महल, दूसरी मंजिल, वादिया गली, तारदेव, मुम्बई-400 034, महाराष्ट्र।
167.	निस्वार्थ सेवा पार्टी	वेद आर्युवेदिक स्टोर, बस स्टैंड के पास, महेन्द्रगढ़, हरियाणा।
168.	उड़ीसा गण परिषद्	ए/52, खरवेला नगर, यूनिट-III, भुवनेश्वर-751001.
169.	उड़ीसा मुक्ति मोर्चा	15, भौमा नगर, यूनिट- IV, भुवनेश्वर-751001, उड़ीसा।
170.	पहचान मंगलकारी पार्टी	एल-II 56, मदनगीर, दिल्ली-110 062।
171.	पश्चिमी प्रजातंत्र मोर्चा	386, शाहनृत्यन, मेरठ, उत्तर प्रदेश
172.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्वराज पार्टी	सरधना रोड, कंकड़ खारा, मेरठ (उत्तर प्रदेश)।
173.	पैट्रियाट	28-अप्पावु स्ट्रीट, कुड्डालोर पोर्ट, पिन-607003, तमिलनाडु।
174.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक कांग्रेस ऑफ इण्डिया	बाँकरा, पोस्ट ऑफिस-बिराती, कोलकाता-700 051, पश्चिम बंगाल।
175.	पीपुल्स पॉवर पार्टी	पो० बी० नं० 16, शिवाजी नगर पोस्ट ऑफिस, मुम्बई-400043, महाराष्ट्र।
176.	प्लेन्स ट्राइबल्स काउन्सिल ऑफ असम	पी०ओ० व टी० ओ० कोकड़ाझाड़, जिला-कोकड़ाझाड़, (असम)।
177.	प्रबुद्ध भारत पार्टी	7ए, हॉस्पिटल स्ट्रीट, प्रथम तल, कोलकाता- 700 072, पश्चिम बंगाल।

178.	प्रजा भारथ पार्टी	प्लॉट नं० 106, ब्लॉक 'ए', अर्चना अपार्टमेंट, ईस्ट मैरिडपल्ली, सिकन्दराबाद-500026 (आन्ध्र प्रदेश)।
179.	प्रजा चैतन्य पार्टी	1-7-578/31/2, जेमनी कालोनी मुर्शिदाबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
180.	प्रजातान्त्रिक लोक एकता दल	3, कौटिल्य मार्ग, पटना-800 001, बिहार।
181.	प्रोग्रेसिव पार्टी	बी ब्लॉक, गली नं० -5, शनि बाज़ार रोड, अमृत विहार, बुराड़ी, दिल्ली - 110084।
182.	प्रोग्रेसिव पिपुल्स पार्टी	मकान नं.-975, 976, श्याम कॉलोनी, बुद्धविहार फेस-II, कृष्णा मंदिर के पास, थाना - विजय विहार, दिल्ली - 110086।
183.	पुडुचेरी पडाईपली मक्कल काञ्ची	सं० 4, फर्स्ट स्ट्रीट, थेंड्रल नगर, पुडुचेरी-605013.
184.	पंजाब पीपुल्स पार्टी	14, सैक्टर-28, अरुण विहार, नोएडा-201303 (उत्तर प्रदेश)।
185.	पंजाब विकास कांग्रेस पार्टी	पंज पीर चौक, जालन्धर, पंजाब।
186.	पंजाबी दल	मकान नं० बी.बी/30ए, रामगढ़िया गुरुद्वारा रोड, बरनाला-148101, जिला-संगरूर (पंजाब)।
187.	पूर्वांचल गण परिषद्	मकान नं. 34, पाकेट 28, सेक्टर 24, रोहिणी, दिल्ली-110085.
188.	पूर्वांचल जनशक्ति पार्टी	श्री विश्वेश्वर आश्रम सतुवाभार, पोस्ट-बिहारी बुजुर्ग, खजनी, गोरखपुर-273 212, उत्तर प्रदेश।
189.	पूर्वांचल विकास पार्टी	एल-131, गली नं. 5, महीपाल पुर एक्सटेंशन, नयी दिल्ली- 110037.
190.	पुथिया नीधि काची	6, नार्थ बौग रोड, टी. नगर, चेन्नई-600017 (तमिलनाडु)।
191.	कौमी जनता दल	9 बी, त्रिलोकनाथ रोड, लाल बाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
192.	राजस्थान देव सेना दल	बस स्टैण्ड के सामने, धमाई हवेली, दूदू, जयपुर, राजस्थान।
193.	राजदल हरियाणा	डी / एस 45, ब्रास मार्केट, बावल रोड, रेवाड़ी-123401, हरियाणा
194.	राष्ट्रसमर्पित जनसमूह	एच-101, ग्राउण्ड फ्लोर, चन्दु पार्क, कृष्णा नगर, नई दिल्ली-110051.
195.	राष्ट्रवादी समता पार्टी	196 /187क, ग्राम-बलीपुर खुर्दवां, तहसील-गौरीगंज, जिला-अमेठी, उत्तर प्रदेश।
196.	राष्ट्रवादी स्वर्ण एकता पार्टी	प्लॉट नं० - 11, द्वितीय तल, अवधपुरी खण्ड - 1, खरगापुर मार्केट, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
197.	राष्ट्रीय अग्रणीय दल	ग्राम-खमौना, पोस्ट-रेसीपुर, थाना-जन्सा, जनपद-वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
198.	राष्ट्रीय आवामी दल	152, काजी टोला, सैलानी रोड, ओल्ड सिटी, बरेली-243005, उत्तर प्रदेश।
199.	राष्ट्रीय देहात मोर्चा पार्टी	601, रोहित हाउस , 3- टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली - 110001
200.	राष्ट्रीय एकता विकास पार्टी	नूर मस्जिद के पास, मदाना मस्जिद ट्रांसफार्मर वाली गली, अशोक विहार, वार्ड नं० 42, लोनी, तहसील एवं जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
201.	राष्ट्रीय हमारा दल	22/191, ढोली खार, मन्टोला, आगरा (उत्तर प्रदेश)।
202.	राष्ट्रीय हिन्दुस्तान सेना, कर्नाटक	शिवा शक्ति, 141, न्यू बस स्टॉप के पीछे, वासवी नगर, हुबली - 580 030, कर्नाटक।
203.	राष्ट्रीय हित कांग्रेस	712, जी- ब्लॉक, मिलिट्री रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005.
204.	राष्ट्रीय इन्दिरा पार्टी	दत्तपुरा, सब्जीमण्डी के पास, मुरैना, मध्य प्रदेश।
205.	राष्ट्रीय जन समानतावादी (अम्बेडकर)	71- बी, पॉकेट ए -3, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110019
206.	राष्ट्रीय जनआन्दोलन पक्ष	'पोवराभवन' नं० 567 (38) , 60 फीट रोड, गोकुल मथीकेरे लेआउट, बंगलौर - 560054 , (कर्नाटक)।
207.	राष्ट्रीय जनता जनार्दन पार्टी	सूरज का पुरवा, अतरारूरल, पो० ऑ० अतरा जिला-बाँदा, उत्तर प्रदेश।
208.	राष्ट्रीय जनहित पार्टी	कोठी नं० 75, सेक्टर - 17, पंचकुला- 134109. (हरियाणा)।
209.	राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी (सेक्यूलर)	फ्लैट नं० 153-154, वीर चन्द पटेल पथ, पटना- 800001 (बिहार)
210.	राष्ट्रीय कामगार पार्टी	बी डब्ल्यू-97, डी, शालीमार बाग, दिल्ली - 110088
211.	राष्ट्रीय कमजोर वर्ग पार्टी	केन्द्रीय कार्यालय - पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पोस्ट ऑफिस, (उच्च तल), पटना - 800023 (बिहार)।
212.	राष्ट्रीय क्रांतिकारी जनता पार्टी	407, दुर्गा चैम्बर्स, डी. बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005.

213.	राष्ट्रीय लोक जागृति पार्टी	बैरक नं० - 27 के पास , बुद्ध विहार के सामने, भीम नगर, उलहासनगर - 421001, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र।
214.	राष्ट्रीय लोक सेवा मोर्चा	206, लव कुश टावर, एक्जीवीशन रोड, पटना 800001, बिहार।
215.	राष्ट्रीय लोकहित पार्टी	ए-40/35 ए, अमरपुर मढिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
216.	राष्ट्रीय मच्छुवा समाज पार्टी	रेलवे रोड, दादरी, नियर रावाजी फार्म हाउस, गोतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) ।
217.	राष्ट्रीय मानव अधिकार पार्टी	17/700, ग्राम- गोपालपुर, पो. आजादपुर (तिमारपुर), दिल्ली - 110009
218.	राष्ट्रीय प्रगतिशील प्रजातन्त्र पार्टी	3518, दरीबापन, शीला सिनेमा के सामने, पहाडगंज, नई दिल्ली - 110055.
219.	राष्ट्रीय राजधानी कांग्रेस दिल्ली	8, नाथ मार्किट, नई सड़क, दिल्ली - 110006.
220.	राष्ट्रीय समाधान पार्टी	121-ए० आर० - 3/ए० -2, मंगल बाजार, मोहन गार्डन, नई दिल्ली - 110059.
221.	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी "प्रगतिशील"	बी - 248, मोहन नगर, थाटीपुर, मोरार, ग्वालियर, (मध्य प्रदेश)।
222.	राष्ट्रीय सर्वसमाज पार्टी (इंडिया)	प्लॉट नं०-256, मीतला धाम, रहीवासी संघ, जरी वर्गीस टर्मट कम्पनी के सामने, जनरल ए. के. वैद्य मार्ग, मलाड (पूर्व), मुम्बई-400097, महाराष्ट्र ।
223.	राष्ट्रीय स्वर्ण शक्ति पार्टी	299, ग्राउन्ड फ्लोर, गगन विहार, दिल्ली-110051
224.	राष्ट्रीय सिन्धी कांग्रेस	437/बी/1, रुबिया हाऊस, बी/एच, एलिस ब्रिज शॉपिंग सेन्टर, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 006, गुजरात ।
225.	रिपब्लिकन लेबर पार्टी	ब्लॉक-4, हाउस नं०-236, 7 वीं माइल चुमुकेडिया, दीमापुर-797 103, पोस्ट बॉक्स - 354, नागालैण्ड ।
226.	रिपब्लिकन प्रेसिडियम पार्टी ऑफ इंडिया	उरूली-कंचन, पुणे-412202, (महाराष्ट्र) ।
227.	सामाजिक एकता पार्टी	22, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सोनीपत-131001, (हरियाणा) ।
228.	सामाजिक जनतांत्रिक पार्टी	मुकाम राजा मार्किट, सिनेमा रोड, गोपाल गंज नगर पालिका, पोस्ट - गोपालगंज-841428, जिला- गोपालगंज (बिहार) ।
229.	सम्पूर्ण क्रान्ति दल	ग्राम - खजूरी कलौ, पोस्ट - खजूरी खुर्द, कोराँव, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
230.	संयुक्त दस्तकार पार्टी	पी- 205, बस्ती ख्वाजा, मीर दर्द, बेरन रोड, नई दिल्ली- 110002
231.	सर्व समाज विकास पार्टी	बाम्बा रोड, सैलाई, पो. ओ. - सैलाई, जिला - फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
232.	सर्वहारा समाज पार्टी	68-ए ब्लॉक, दारूलशफा, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
233.	सर्वोच्च राष्ट्रीय विकास महापरिषद	सी - 90, डी डी ए फ्लैट, वैस्ट गोरख पार्क (न्यू जाफराबाद) , शाहदरा, दिल्ली - 110032
234.	सत्य विजय पार्टी	101- सी, प्रेस हाऊस, 22, फिरोज गाँधी प्रेस कॉम्प्लेक्स, आगरा - मुम्बई रोड, इन्दौर - 452008 , मध्य प्रदेश।
235.	सत्यवादी पक्ष	कमरा संख्या - 4-5, ओरायान कॉम्प्लेक्स, होटल राजधानी के सामने, रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद - 431005, महाराष्ट्र ।
236.	सेक्युलर डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया	6-2-44/3ए, जम्मीबांदा स्ट्रीट, खम्माम-507001, आन्ध्र प्रदेश ।
237.	शेतकरी विचार दल	49, ममता, आनन्दनगर को-ओप. हाउसिंग, गुलमोहर रोड, सावेदी, अहमदनगर-414001, (महाराष्ट्र) ।
238.	शिरोमणि यूथ अकाली दल (कहलो)	5/5051, शक्ति नगर, खंडवाला, चहार्ता, अमृतसर (पंजाब) ।
239.	शोषित समाज अधिकार पार्टी	तहसील-कोल, थाना-गांधी पार्क, जनपद-अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202001
240.	श्री भारत विकास पक्ष	220, श्री जी काम्पलेक्स, एलिसब्रिज पोस्ट आफिस के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380006 (गुजरात) ।
241.	सिक्किम गोरखा प्रजातांत्रिक पार्टी	सिम्मा बिल्डिंग, डाक घर व थाना-सिगंटम, पूर्वी सिक्किम-737134, (सिक्किम) ।
242.	सिक्किम हिमाली राज्य परिषद पार्टी	तुलसीकुंज बिल्डिंग, टेलिफोन एक्सचेंज के निकट, पो0आ0 - दारा गांव, 31-ए, नेशनल हाईवे, टाडोंग बाजार, टाडोंग, गंगटोक-737102, सिक्किम ।
243.	सिक्किम जनपार्टी एकता-	तिन्जीर, नामची, साउथ सिक्किम-737126

244.	सिक्किम लिब्रेथन पार्टी	तिन्तेक, पूर्व सिक्किम, गंगटोक सिक्किम – 737134
245.	सिक्किम संग्राम परिषद्	देवराली बाजार, पो.ऑ-ताडॉग, गंगटोक, सिक्किम-737102।
246.	सिंह जन सेना पार्टी	पब्लिक लाइब्रेरी के पास, बेरावल-362265,(गुजरात)।
247.	सरपंच समाज पार्टी	टी-47, ओल्ड नांगल, दिल्ली कैंट-110010.
248.	सुराज पार्टी	6-81, ऑफिस बिल्डिंग, विशाल एस्टेट्स, ग्राम - अन्नाराम, मंडल - जिन्नाराम, जिला - मेडक, आंध्र प्रदेश - 502 313
249.	स्वराज दल	नं.4, स्टाप, पाट्टर गुड्डा पोस्ट गाराहेहाराम, पोर्ट ब्लेयर-744101, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह।
250.	स्वर्ण युग पार्टी	नं. 26, "अम्मा", प्रथम मुख्य रोड, डॉलर कॉलोनी, आर.एम.वी. द्वितीय स्टेज, बेंगलूर-560094, कर्नाटक।
251.	स्वतंत्र आदर्शवादी भारतीय क्रान्ति पार्टी	गांव व पोस्ट-लुदुही, यन्हा माहुली, जिला-संत कबीर नगर, खलीलाबाद, उत्तरप्रदेश।
252.	तमिल मनिला कायदे मिल्लत लीग	579, अन्ना सलाई तेनामपेट, चेन्नई-600006, तमिलनाडु।
253.	तमिलीना विद्याल पुलिकल इयाक्कम	अन्नई इल्लम, पल्लावन नगर, थर्ड स्ट्रीट, थेनी मेन रोड, मदुराई – 625 016, तमिलनाडु।
254.	तमिलनाडु जननायक काँग्रेस	327, लोयड्स रोड, रोयापेट्टा, चेन्नई-600014, तमिलनाडु।
255.	तमिझार पार्टी	8/43, एम.टी.सी. रोड, मट्टुर डैम, 1,सलेम जिला, चेन्नई-600017, (तमिलनाडु)।
256.	थन्थई पेरियार द्रविड मुन्नेत्र कडगम्	23, अलगप्पन स्ट्रीट, थेन्काराय पेरियाकलम, जिला – थेनी, तमिलनाडु – 625601.
257.	टीपू सुल्तान नैशनल रिपब्लिक पार्टी	नं0 24, फर्स्ट मेन, 13वां क्रॉस, बापूजीनगर, मैसूर रोड, बेंगलूर-560026, कर्नाटक।
258.	त्रिकलिंगा कांग्रेस	पालांका कोलीगाडिया, पोस्ट- गुनठनी बारचाना, जिला- जयपुर, पिन- 754024
259.	त्रिलिंगा प्रजा प्रगति पार्टी	बी-118, मधुरानगर, एस.आर. नगर पोस्ट, हैदराबाद-500038, आन्ध्र प्रदेश।
260.	तृणमूल गण परिषद्	आनन्द प्लाजा काम्पलेक्स, चौथी मंजिल, गणेशगुरी चरीएली, गुवाहाटी- 781006, असम।
261.	यूनाइटेड बोडो नेशनलिस्ट लिबरेशन फ्रंट	मार्फत देवरी बोरा, रामभापुरी, कहिलीपाडा, गुवाहाटी, (असम)।
262.	यूनाइटेड इंडिया पीपुल्स पार्टी	मन्जामाट्टम मूझूर, पो. ऑ. कोट्टायम, जिला (केरल)।
263.	यूनाइटेड इंडियन डेमोक्रेटिक काउन्सिल	नं0 1205, ए-स्टेज, राजाजी नगर, बंगलूर-560010, (कर्नाटक)।
264.	यूनाइटेड माइनॉरिटीज फ्रंट, असम	उलुबारी, गुवाहाटी — 781007, (असम)
265.	यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (सोशलिस्ट)	टेंगखुल एवेन्यू, इम्फाल, मणिपुर—795001.
266.	यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ऑफ असम	एस. एस. रोड, लखटोकिया, गुवाहाटी—781001, असम
267.	यूनाइटेड रिजर्वेशन मूवमेंट काउन्सिल ऑफ असम	पो0 बाँ. नं0 2, पो0 — रेहाबाड़ी, गुवाहाटी — 781008, (असम)।
268.	यूनाइटेड ट्राइबल नेशनलिस्ट्स लिबरेशन फ्रंट	देउलगुरी, हरिसिंह, दारंग—784510, (असम)।
269.	उर्स संयुक्त पक्ष	नं0 46, पैलेस रोड, बंगलूर — 560001, कर्नाटक।
270.	उत्तराखण्ड संस्कृति परिषद्	डी— 355, विनोद नगर (पश्चिम), दिल्ली — 110092
271.	उत्तराखण्ड सेना पार्टी	जय माता दी अपार्टमेंट, 10/1, नजदीक शंकर मंदिर, जुना कल्वा, बेला रोड, कल्वा, थाने (वेस्ट), महाराष्ट्र- 400605
272.	उत्तराखण्ड जनवादी पार्टी	53 — के, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
273.	विदर्भ विकास पार्टी	ब्लॉक ए0 सेकेंड फ्लोर, पूनम चैम्बर्स, छिन्दवाडा रोड, नागपुर —13, महाराष्ट्र।

274.	विदर्भ राज्य पार्टी	कामगार भवन, बैद्यनाथ चौक के पास, ग्रेट नाग रोड, नागपुर—3, महाराष्ट्र।
275.	विधायक दल	एच0 आई0 जी0 — 205, सेक्टर—1, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
276.	विकास परिषद्	62 — ए, शास्त्री कॉलोनी, अम्बाला कैन्ट—133001, हरियाणा।
277.	विश्व विकास संघ	एफ—53/एफ—1, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली —110095।
278.	विवासायी अंभु काची	नं0 14, राघव नाटन स्ट्रीट, उतिरामेरूर — 603406, (तमिलनाडु)।
279.	वार वैट्रन्स पार्टी	ए/ 301 — 302, पर्ल अपार्टमेंट, आई. सी. कॉलोनी, बोरीवाली (पश्चिम), मुम्बई — 400103, (महाराष्ट्र)।
280.	वेस्ट बंगाल प्रगतिशील इन्दिरा काँग्रेस	68 — बी, ए. पी. सी. रोड, कोलकता —700009 पश्चिम बंगाल।
281.	यूथ त्रिगेड	गांव काकगाची, पॉ0 ऑ0 भन्देरहाली, जिला — हुगली, पश्चिम बंगाल।
282.	युवा जागृति दल	3—बी, प्रयोशा फ्लैट्स, जिमखाना के पास, सैक्टर—19, गांधीनगर —382 019, गुजरात।

*आयोग के दिनांक 25.05.2022, 20.06.2022 और 13.09.2022 के आदेश के अनुसार इन पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (प.अ.रा.द.) को सम्यक सत्यापन और नोटिस भेज दिए जाने के उपरांत सूची से हटा दिया गया है। उन्हें भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के अंतरिम आदेश, जिसमें सामान्य प्रतीक का प्रत्याख्यान किया जाना शामिल है, के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया गया है। सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ)/ रिटर्निंग अधिकारियों (आरओ) को सलाह दी जाती है कि यदि सूची से हटाया गया कोई पंजीकृत अमान्यताप्राप्त दल सामान्य प्रतीक के लिए संपर्क करता है तो आयोग के दिनांक 25.05.2022, 20.06.2022 और 13.09.2022 के आदेश में यथा अधिकथित यथोचित सम्यक तत्परता और प्रक्रिया का पालन किया जाए। चूंकि उनके पते 'अस्तित्व में नहीं हैं', इसलिए सूची से हटाए गए पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए सामान्य प्रतीक का दावा करने के लिए अपेक्षित प्ररूप क और ख अप्रवर्तनशील हो गए हैं।

सारणी-1 (ग)

निष्क्रिय पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (प.अ.रा.द.)**

क्रम सं०	पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के नाम	मुख्यालय का पता
1.	आदर्श जनहित पार्टी	हाथी वाली गली म0 नं0 — 22, वार्ड नं0 -9, आसफाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश — 283203
2.	आधुनिक विकासवादी पार्टी	डी-1/425, सेक्टर — एच, एल0डी0ए0 कॉलोनी कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3.	अंहिसा दल	सिकरवार सदन, एल-1/108, 109 सैक्टर-बी, प्रियदर्शनी कॉलोनी, सीतापुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4.	एम्स पार्टी	आजाद चौक, पिपराही बाजार, पोस्ट-पिपराही, जिला-शिवहर, बिहार-843334।
5.	अखंड भारत नेशनल पार्टी	22-3-947/33/ए/1/1 मेगा सिटी नं. 125, पुरानी हवेली, सेटविन ऑफिस के सामने, हैदराबाद - 500002, आन्ध्र प्रदेश।
6.	अखण्ड देशम पार्टी	6, द्वारिकापुरी, सैक्टर — 8, इन्दिरा नगर, लखनऊ — 226016 (उत्तर प्रदेश)
7.	अखण्ड झारखण्ड पीपुल्स फ्रंट	ग्राम व पो. आ. — गिद्धौर, जिला-जमुई, बिहार-811305.
8.	अखिल भारतीय अमन कमेटी	1/9986, वैस्ट गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032.
9.	अखिल भारतीय अत्यंत पिछड़ा संघर्ष मोर्चा पार्टी	ट्रांसफार्मर लेन, उत्तरी नवादा, आरा, जिला-भोजपुर, बिहार-802301.
10.	अखिल भारतीय आजाद पार्टी	फौव्वारा तिराहा, नई सडक, शहजादपुर, जनपद — अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश।
11.	अखिल भारतीय देश भक्त मोर्चा	पुरन्दरपुर, जी.पी.ओ.पटना, (बिहार)।
12.	अखिल भारतीय मानव अधिकार दल	1602, डी.डी.ए. जनता फ्लैट्स, जी.टी.बी. एन्क्लेव, दिल्ली-110093.
13.	अखिल भारतीय मानव सेवा दल	ए-74, सेक्टर-12, नोएडा (उत्तर प्रदेश)।
14.	अखिल भारतीय राम राज्य परिषद्। (प्रेम बल्लभ व्यास)	श्री कृष्ण बोध धाम, 7, शंकराचार्य मार्ग, सिविल लाईन्स, दिल्ली-110054
15.	अखिल भारतीय लोक दल	ए — 1, मेन रोड, गोकल पुरी, नियर अग्रवाल स्वीट कॉर्नर, शनि साई मन्दिर, दिल्ली — 110094

16.	अखिल भारतीय लोकतान्त्रिक कांग्रेस	एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश)।
17.	अखिलेन्द्रा महादेसम	डोर नं० 2-9-53, नवाबपेट, मेडक - 502110, मेडक डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश।
18.	ऑल इंडिया अथिथानार मकल काची	एच. ओ. 24, थंगम कॉलोनी, अन्नागार वीट, चेन्नई -40, तमिलनाडु
19.	ऑल इण्डिया बहुजन सम्मान पार्टी	107, टीकरी कलॉ, नई दिल्ली-110041
20.	ऑल इण्डिया मुक्ति दल पार्टी	प्लॉट नं० 158/1, म० नं० 37-93/55/1, रोड नं. 3, मथुरानगर, नेरेदमेट क्रोसिंग रोड्स, सिकन्दराबाद-500094, आन्ध्र प्रदेश।
21.	ऑल इंडिया पार्टी फॉर द प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स	100 ए/5, 11 वां सैक्टर, 66 वी स्ट्रीट, पुनम बालम सलाई, के०के० नगर, चेन्नई-600078
22.	ऑल इंडिया राजीव क्रान्तिकारी कांग्रेस	बी-58, गली नं.18, जितार नगर, नई दिल्ली- 110051
23.	ऑल इण्डिया सिंगारावेलार मुन्नेत्र कडगम्	संख्या 2/305, सिंगारावेलार नगर, नीलंगकराई, चेन्नई-600041, तमिलनाडु।
24.	ऑल इण्डिया तमिल मक्कल मुनैत्र कडगम	न० 25, वीरापांडी स्ट्रीट, पेराम्बूर, चैन्नई - 600039 तमिल नाडु।
25.	ऑल इण्डियंस गांधी कांग्रेस	212, कालिका नगर, अंदरहल्ली, मेन रोड, बैंगलुरु-560058, कर्नाटक।
26.	अम्बेडकर नेशनल मक्कल काँची	दरवाजा नं० 53, गाँधी रोड (फोर्मली पीरन लेन), थिरुपत्तूर, जिलावेल्लोर-, पिन कोड-635601, तमिलनाडु।
27.	अम्बेडकर समाज पार्टी	304, मन्दाकिनी एन्क्लेव अलकनन्दा, नई दिल्ली - 110019.
28.	आन्ध्र प्रदेश नवोदया प्रजा पार्टी	नं० 3-11, तुक्कुगुडा गांव, महेश्वरम मंडल, मनखाल पोस्ट, रंगा रेड्डी जिला, आन्ध्र प्रदेश।
29.	अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण कांग्रेस पार्टी	ग्राम व पो० सरकड़ा विशनोई, विकास खण्ड डिलारी, तह० ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश - 244401
30.	अति पिछड़ा पार्टी	मो० बडी पहाडी, पो० सोहसराय, थाना-लहेरी, जिला-नालन्दा-803118, बिहार।
31.	अति पिछड़ा वर्ग महासंघ	3/1274, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
32.	आजाद हिन्दुस्तान पार्टी	ई ब्लॉक-265, यादव नगर, नई दिल्ली -110042
33.	बहुजन समाज मुक्ति मोर्चा	मकान नं० - बी-198, गली नं० - 11, भूतल, भजनपुरा, दिल्ली-110053।
34.	बहुजन उदय मंच	ग्राम-चालकपुर, पोस्ट-जमीन रसूलपुर, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
35.	बेस्ट क्लास पार्टी	मकान नं० 94, मुहल्ला एलवल, सदर-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-276001
36.	भारत अभ्युदय पार्टी	6-6-35, अनुसूया निलयम, कवाडीगुडा मेन रोड, कवाडीगुडा, सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500380
37.	भारत भ्रष्टाचार मिटाओ पार्टी	मकान संख्या - नया नं० 4, भू-तल, बेगम विहार, ब्लॉक-ए, खसरा नं०-16/19, गाँव-बेगमपुर, नजदीक-भैरो मंदिर, दिल्ली-110086।
38.	भारत देशभक्त संगठन	19/460, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
39.	भारत मंगलम परिषद्	जमो बाजार, हास्पीटल चौक, पो० आ० जमो बाजार, जिला सिवान, बिहार।
40.	भारत पुनर्निर्माण दल	के.जे.- 116, कवि नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
41.	भारतीय नेताजी पार्टी	3857, चौथा क्रॉस, गायत्री नगर, बंगलौर - 560021, (कर्नाटक)।
42.	भारतीय प्रजा शक्ति	सं० 931, 932, करबला मैदान, रेलवे स्टेशन क्रॉस रोड, चन्नापटना टाउन व तालुक, रामनगरा जिला, पिन कोड - 571501 कर्नाटक।
43.	भारतीय जागृति दल	आर. जेड 21 - डी, गली नं० 4, सिडिकेट एन्क्लेव, निकट डाबडी मोड, दिल्ली - 110045
44.	भारतीय जनवादी पार्टी	ए-559, शास्त्री पार्क एक्सटेंशन, बुलन्द मस्जिद, दिल्ली-110053.
45.	भारतीय क्रान्तिकारी दल	ए-5, प्रियदर्शनी विहार, नई दिल्ली-110092.
46.	भारतीय नवयुवक चेतना पार्टी	429/263, निकट अम्बर मैरिज हॉल, मौज्जम नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
47.	भारतीय रविदास पार्टी	मोहल्लाकुंडगढ-, पोस्टसदर-, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश।
48.	भारतीय सत्य विजयी पार्टी	सी-120, बेगम विहार एक्सटेंशन, बेगमपुर, दिल्ली -110086.

49.	भारतीय उत्तम सेना	ग्राम व पोस्ट – खेड़ायाँ, थाना – आन्दर, जिला – सिवान, बिहार ।
50.	भारतीय देशभक्त पार्टी	92/एच/2, प्रताप मार्केट, मुनीरका, (मार्फत सोमू प्रेस), नई दिल्ली -110067.
51.	भारतीय ग्रामवासी पार्टी	ग्राम - विक्रमपुर बाँसपार (मणि चौराहा), पो0 - बैतालपुर, जिला -देवरिया, उत्तर प्रदेश
52.	भारतीय जन सेवा पार्टी	शरीफ मार्केट, हरदोई रोड, सिकरोरी, पोस्ट-काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 227107
53.	भारतीय मजदूर किसान कांग्रेस पार्टी	डी-40, मेरठ रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद -121003, उत्तर प्रदेश ।
54.	भारतीय नौजवान इन्कलाव पार्टी	2/26, मन्डौली एक्सटेंशन, मन्डौली चुंगी, शाहदरा, दिल्ली -110093.
55.	भारतीय नौजवान दल	मकान नं.882, गली नं.16, फेस -4, पुष्कर विहार, शिव विहार, करावल नगर, दिल्ली - 110094
56.	भारतीय प्रजातन्त्र निर्माण पार्टी	7/7/47-ए न्यू कॉलोनी लाल बाग, पोस्ट ऑफिस – फैजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
57.	भारतीय राजनीतिक विकल्प पार्टी	ग्राम – नयाटोला बरियारपुर, पंचायत – चम्पापुर, वार्ड नं० 13, थाना – बख्तियारपुर, जिला – पटना बिहार ।
58.	भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा	वार्ड नं० - 3, विकास नगर, राबर्टसगंज, जनपद - सोनभद्र, उत्तर प्रदेश – 231216
59.	भारतीय सवैधानिक जनहित पार्टी	विक्रम गोल्ड फार्म, गांव - सरायजोगा, पोस्ट-कान्था, नवाबगंज उन्नाव, उत्तर प्रदेश।
60.	भारतीय सर्वसमाज पार्टी	लाल सिंह कचरी वाला, शनि बाजार वाली गली, टुण्डा नगर, जौहरी पुर, दिल्ली ।
61.	भारतीय शक्ति दल	डी – 236, विवेक विहार, दिल्ली – 110095 ।
62.	भारतीय शान्ति क्रान्ति पार्टी	1/80, रतन विहार, किराडी, नांगलोई, नई दिल्ली – 110041
63.	भारतीय श्रमिक पार्टी	79/4, जूही सफेद कॉलोनी, साकेत नगर, कानपुर नगर – 208014, उत्तर प्रदेश ।
64.	बुंदेलखंड एकीकृत पार्टी	बुंदेली सदन, ग्राम एवं पो० – सतारी, जिला – महोबा, उत्तर प्रदेश।
65.	बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा	श्री सुखलाल आइस फैक्ट्री भवन, इलीट चौराहा, झांसी – 284001, (उत्तर प्रदेश) ।
66.	क्रिश्चियन मुन्नेत्र कडगम	93 तैयप्पा मुदाली स्ट्रीट, चेन्नई – 600001. (तमिलनाडु)।
67.	दलित समाज पार्टी	नव चेतना पथ, शिवपुरी, पो. ऑ. – अनीशाबाद, पटना – 800002, (बिहार) ।
68.	दिल्ली परिवर्तन पार्टी	ई-37, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110027.
69.	देश भक्त पार्टी	बी – 114, प्रीत विहार, दिल्ली – 110092.
70.	देसिया पातुकाप्पु कडगम	'अरिवागम' 33, रामकृष्ण स्ट्रीट, गांधी नगर, सालीग्रामम, चेन्नई – 600093 (तमिलनाडु) ।
71.	इलेचिया धीरविडा मुन्नेत्र कजगम	'इलेचियागम', 4-ए, हिन्दी प्रचार सभा स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई – 600017, तमिलनाडु।
72.	गांधीवादी राष्ट्रीय काँग्रेस	टीचर्स कॉलोनी तहसील रोड, महोरिया, पोस्ट – महोरिया टाऊन और जिला – मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) ।
73.	गरीब राज पार्टी	मं० नं० 748ए, झारखण्डी कायस्थवाड़ा, सिकन्दराबाद, जिला – बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश ।
74.	गरीब समाज पार्टी (शोषित)	हाजीपुर मालीपुर रोड, निकट राम जानकी मन्दिर, शंकरगढ़, थाना व तहसील – जलालपुर, जिला – अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश – 224149.
75.	गरीब विकास पार्टी	प्रोफेसर कॉलोनी, बेलबनवा, मोतीहारी, बिहार – 845401.
76.	गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा	नॉर्थ प्वाइंट, सिंगामारी, दार्जिलिंग-734 104, पश्चिम बंगाल ।
77.	हमारा दल	सी-112, सेक्टरजी-, एल० डी० ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ -12 उत्तर प्रदेश ।
78.	हिन्द किसान मजदूर पार्टी	31/419, केला हाऊस, महाराणा प्रताप नगर, आगरा - 4 (उत्तर प्रदेश) ।
79.	हिन्दुस्तान नेशनल पार्टी	नं० 103/68, कॉलेज रोड, नंगनल्लूर, चेन्नई -600114, तमिलनाडु ।
80.	हिन्दुस्तानी स्वराज पार्टी	69, अशोक मोहल्ला, नांगलोई, दिल्ली -110041.
81.	इंडियन बहुजन संदेश पार्टी) (कांशीराम	बी-525, गुरु हरिकिशन नगर, नई दिल्ली ।
82.	इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फ्रंट	मकान नं०-404, संजय कॉलोनी, अर्थला मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
83.	इंडियन जस्टिस पार्टी	5, पुसा रोड, तीसरी मंजिल, करोल बाग, नई दिल्ली -110005.

84.	इंडियन नेशनल ग्रीन पार्टी	ए-44, पर्यावरण काम्पलेक्स, सैदुला जैब, नई दिल्ली-30.
85.	इंडियन ओसनिक् पार्टी	के-316, एमरोड .बी.,लाडो सराय, नई दिल्ली -110030
86.	इंडियन पीपुल्स काँग्रेस	79, लायर्स चैम्बर्स, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली -110001
87.	इंडियन यूथ पार्टी	7/545, विकास नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
88.	इंकलाब पार्टी ऑफ इंडिया	मौहल्ला पश्चिमी लखपेड़ा, टाउन एवं पोस्ट-मोहम्मदी, जिला-लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, पिन-262804.
89.	इन्कलाब विकास दल	92, ग्रामगावांडी-, सरदार पटेल पार्क के पास, धौडा, दिल्ली ।
90.	जगनमय नारी संगठन	सेक्टर-21/5, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
91.	जाग्रत भारत पार्टी	101, विधायक निवास, राजेन्द्र नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
92.	जय जवान जय किसान मजदूर काँग्रेस	डब्ल्यू जैड-553-ए/3, सोनी कुंज, नांगल राय, नई दिल्ली-110046.
93.	जन अधिकार मंच	9 शिवाखण्ड, झिलमिल, दिल्ली – 110095.
94.	जन भावना पार्टी	सी – 103, गणेश नगर, पाण्डव नगर कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली – 110092 ।
95.	जन एकता दल	घेर कटेबाज खान, मस्जिद काले खान के पास, रामपुर, जिला – रामपुर – 244 901, उत्तर प्रदेश ।
96.	जन क्रांति स्वतंत्रता पार्टी	226/27, गली नं० – 6, महावीर नगर, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
97.	जन लोक कल्याण पार्टी	ग्राम तथा पोस्टबुगाडा :, तहसील – शामली, जिला – मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश ।
98.	जन मोर्चा	1, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली – 110001.
99.	जन समर्थन दल	12, कृष्णा विहार, ज्वाला नगर, रामपुर, उत्तर प्रदेश ।
100.	जन संग्राम पार्टी	मकान नं.482, सेक्टर-3ए, आवास विकास कालोनी, बोदला, आगरा-7 उत्तर प्रदेश।
101.	जन प्रिय	ए/2, कास्टेल-5, कार्नवेल रोड, बंगलौर – 560025, (कर्नाटक) ।
102.	जनता विकास मंच	सी-216, आवास विकास कॉलोनी, मीरा भवन, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश ।
103.	जनलोक राष्ट्रीय पार्टी	452, सेक्टर – 19, द्वारका नई दिल्ली ।
104.	जनसत्ता पार्टी	एल-14, महेन्द्रा पार्क, आदर्श कॉलोनी, नई दिल्ली – 110003.
105.	जनशोषित समाज पार्टी	ए-618/7, गली नं०-8, भजनपुरा, दिल्ली – 110053.
106.	कामराजार अदितनार कड़गम	6-ई, संस्थान कोइल स्ट्रीट, पुधुकुदिइरुप्पु, नागेरकॉइल - 629001 (तमिलनाडु) ।
107.	कन्नडनाडु पार्टी	54, ग्राउन्ड फ्लोर, प्रसन्ना कॉलोनी, बसावेश्वर नगर, गोकुल रोड, हुबली – 580030 कर्नाटक ।
108.	कोंगू नाडु मुनेत्र कड़गम	320, बेस्ट काम्पलेक्स कुमारन रोड, त्रिपुर -641601, कोयम्बटूर (जिला), तमिलनाडु ।
109.	कोशी विकास पार्टी	मछली भवन, डॉ अम्बेडकर मार्ग, गांव, पो0 व जिला - खगड़िया, बिहार - 851204.
110.	लेबर समाज पार्टी	चेम्बर नं० 91, सिविल कोर्ट, राजनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
111.	लघुजन समाज विकास पार्टी	बड़ापुरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश।
112.	लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी	20, भारतीय नगर, अल्लागप्पापुरम, कराईकुडी-630003, तमिलनाडु।
113.	लोक जनहित पार्टी	ग्राम - डालूपुर सुल्तानपुर,पोस्ट – प्रेमपुर, जनपद – कन्नौज उत्तर प्रदेश ।
114.	लोक शक्ति	83, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003.
115.	लोक विकास पार्टी	41, विज्ञान विहार, दिल्ली-110092.
116.	लोकनायक पार्टी	172/3 सी, पूर्वी मोती बाग, सराय रोहिल्ला, दिल्ली – 110 007.
117.	मानीला कोंगु पेरावाई	नं० 41, नारायणगुरु रोड, साईबाबा कॉलोनी, कोयम्बटूर-641011, तमिलनाडु।
118.	महा लोकतंत्र पार्टी	शॉप नं.4, बसन्त गंगा मार्केट, मकान नं. 762/648, पुराना कटरा, इलाहाबाद-211002, उत्तर प्रदेश
119.	महिला अधिकार पार्टी	29-ए नहरपुर, सेक्टर-7, रोहिणी,दिल्ली-110085.
120.	मानव समाज पार्टी	9538, गोशाला बारादरी किशनगंज, दिल्ली-110006.
121.	मार्क्सिस्ट कोअर्डिनेशन	टैम्पल रोड, पुराना बाज़ार, धनबाद, जिलाधनबाद-, झारखंड-826001
122.	मोमिन कान्फेंस	47/26, वारिस प्लाजा, हुसैन गंज, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001, (उत्तर प्रदेश) ।

123.	मुसलसल ईमान समाज पार्टी	261, चक्की वाली गली, रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
124.	मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश	सुल्तान मंजिल, तकिया पीर जलील, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
125.	नामाधु द्रविड इयक्कम	एस.सी.सी. एन्थनी पिल्लई इलम, न्यू नं० 41, ओल्ड नं० 18. 7 कॉस स्ट्रीट, शिनाय नगर पश्चिम, चेन्नई-600030 (तमिलनाडु) ।
126.	नेशनल लोकहिन्द पार्टी	सी-1375, राजाजीपुरम, लखनऊ-226 017, उत्तर प्रदेश।
127.	नेशनल सर्वसमाज पार्टी	मकान संख्या-66, खसरा सं०-1995, इकबाल कालोनी, निकट सना मस्जिद, ग्राम पसौन्डा, परगना लोनी, तहसील व जिला गजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201001
128.	नेशनल वेलफेयर पार्टी	16, नेहेरूजी नगर, करुप्पारायन, कोयल स्ट्रीट, समुन्दीपुरम साउथ, त्रीपुर – 641603, तामिलनाडु
129.	नेशनलिस्टिक तेलंगाना राष्ट्र समिति	23-6-431/1, गोवलिपुरा, हैदराबाद-500 265, आन्ध्रा प्रदेश ।
130.	नव युवक दल	ग्राम- टिकरा, पोस्ट-धुंघटेर, -तहसील - फतेहपुर, जिला- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश – 225302 ।
131.	नवभारत निर्माण पार्टी	30, डी. एसकॉम्पलेक्स .सी.डी.आई., माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली-110 002.
132.	नेलोपा (युनाइटेड)	बी. डी. ओ. बिल्डिंग, दुर्गा देवी मार्ग, शीश महाल, हुसैनाबाद चौक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
133.	न्यू ऑल इन्डिया कांग्रेस पार्टी	ए-138, मेन विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली -110092 ।
134.	न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया	द्वितीय तल, 9 ए /83, डब्ल्यूकरोलबाग . ए .ई ., नई दिल्ली-110005 ।
135.	पार्टी किसान मजदूर व्यापारी	रेलवे रोड, हाथरस जंक्शन, महात्मा प्राकृतिक चिकित्सालय, नंगला हीरा, हाथरस जंक्शन, महामाया नगर, हाथरस, उत्तर प्रदेश ।
136.	पीपुल्स डेमोक्रेटिक फोरम	सी-177, सेक्टर-'जे', अलीगंज, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
137.	पीपुल्स मूवमेंट ऑफ इण्डिया	9/215/15, योजना-3, आवास विकास कॉलोनी, झूंसी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 211019
138.	प्रगतिशील पार्टी	111, बादशाह नगर, लखनऊ, 226007 (उत्तर प्रदेश) ।
139.	प्रजा पार्टी	3-5-898/1, हिमायतनगर, हैदराबाद-500029 (आन्ध्र प्रदेश) ।
140.	प्रजातांत्रिक बहुजन शक्ति दल	टी-1, श्रीराम हाउस, 117 एच-2/52, पांडुनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
141.	प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी	गांव व पोस्ट – सूरजावाली (सलेमपुर), जिला-बुलन्दशहर-203001, उत्तर प्रदेश।
142.	पब्लिक डेवलपमेंट पार्टी	मुरलीपुर शेख सलाह तकिया, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
143.	पूर्वांचल राज्य बनाओ दल	374, बक्शीपुर, उत्तर पावर हाऊस के नजदीक, जिलागोरखपुर-, उत्तर प्रदेश ।
144.	राष्ट्रवादी बहुजन क्रान्ति पार्टी	मौहल्ला – चिरंजीलाल, कस्बा – अफजलगढ़, तहसील – धामपुर, जनपद – बिजनौर, उत्तर प्रदेश – 246722
145.	राष्ट्रवादी जनतांत्रिक पार्टी	अम्बर विला, 127/660 डब्ल्यू-1, साकेत नगर, कानपुर-208014 उत्तर प्रदेश।
146.	राष्ट्रवादी लेबर पार्टी	डी-12/104, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली -110085
147.	राष्ट्रवादी सेना	मुख्य शाहदरा चौक, दिल्ली – 110032.
148.	राष्ट्रीय अमन सेवा	अमन हाउस, संजय गांधी नगर, रोड नं० 9, शिवाजी नगर सं० 2, गोवंडी, मुम्बई, महाराष्ट्र -400043.
149.	राष्ट्रीय ग्रामीण पार्टी	ग्राम – चकरेशानपुर (केमराला) पो०आ० घोड़ी बछेरा (दादरी), जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
150.	राष्ट्रीय हिन्दू सेना	158/1, देव नगर, जिला फिरोजाबाद – 283203 उत्तर प्रदेश ।
151.	राष्ट्रीय जन संसद	शक्ति नगर, पुराना जीरोड .टी.,खुरजा, जिला – बुलन्दशहर – 203131, उत्तर प्रदेश ।
152.	राष्ट्रीय जन सेवक पार्टी	गांव – नांगला जमालपुर, पोस्टपंचली खुर्द -, बागपत रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
153.	राष्ट्रीय जनरक्षक पार्टी	ग्राम – बिर्जापुर, पोस्ट – अडूकी, जिला – मथुरा, उत्तर प्रदेश।
154.	राष्ट्रीय जनसंघ	पुराना – 20, नया-35, विक्टोरिया पार्क, स्पोर्ट्स कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
155.	राष्ट्रीय जनता कांग्रेस	12, सिरी फोर्ट रोड, नई दिल्ली – 110049.
156.	राष्ट्रीय जनतंत्र पक्ष	24, स्टार अपार्टमेंट्स, विद्या विहार मार्ग, सेक्टर – IX, रोहिणी, दिल्ली -110085
157.	राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी	एम – 12 , मीर विहार, मदनपुर डबास, दिल्ली।

158.	राष्ट्रीय लोकमंच	1303, नौरंग हाऊस, बीब्लॉक-, 21- कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली -110001
159.	राष्ट्रीय लोकशाही पार्टी	सर्वे नं0 - 40/1, 40/2 एवं 40/3, मकान सं0 - 411 एवं 412, ग्राम - बीड बुद्रुक, तालुक - कर्जत, जिला - रायगड, महाराष्ट्र
160.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समभाव सेकुलर पार्टी	म0नं0 411, कृष्णबिहारी नगर, बांदा सागर रोड वर्मा तिराहा, जिला व तहसील - फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।
161.	राष्ट्रीय परिवर्तन दल	बी - 4 ए/25, राणा प्रताप बाग, दिल्ली - 110007.
162.	राष्ट्रीय पीस पार्टी	17जी/322, सैक्टर -17, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
163.	राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक पार्टी	मकान नं. 38, ग्राम - जनौर, पोस्ट कन्धीकला, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
164.	राष्ट्रीय साधु विचार काउंसिल	रैदोपुर न्यू, ऑफिसर कॉलोनी, न्याय मार्ग, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
165.	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (यूनाईटेड)	9, कम्युनिटी सेन्टर, अशोक विहार, फेस -II, दिल्ली - 110052.
166.	राष्ट्रीय समदर्शी देशभक्त दल	खुशकरी सदन, आनन्द नगर, मण्डी रोड तिराहा, कासगंज, कांशीराम नगर, उत्तर प्रदेश।
167.	राष्ट्रीय साम्यवादी आर्यन पार्टी	570/20, विराट नगर, आलम बाग, लखनऊ-226005, उत्तर प्रदेश।
168.	राष्ट्रीय संघर्ष पार्टी	फरीदाबाद, सुजानगंज, जौनपुर-222201, उत्तर प्रदेश।
169.	राष्ट्रीय सर्वजन समाज पार्टी	ग्राम व पो0 - मानधाता, तहसील सदर -, जिला प्रतापगढ़ -, उत्तर प्रदेश।
170.	राष्ट्रीय विकलांग पार्टी	114, डी. डी-पॉकेट .ए .2, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली -110045
171.	राष्ट्रीय युवा संघ	बी-117, गली नं .6, पूर्वी विनोद नगर, दिल्ली-110091.
172.	राष्ट्रीय प्रजा चक्रव्यूह पार्टी	नं0 73, शान्तिनिकेतनम, डीहल्ली मेन रोड .के ., पालार नगर, बीईएमएल नगर (पोस्ट), बंगारपेट (तालुक), कोलार (जिला), कर्नाटक -563115।
173.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (काम्बले)	ए, 703, सूर्याकिरण, को. औप. हाऊसिंग सोसाईटी, प्लॉट नं. 12 एण्ड 13, सेक्टर-5, धनसौली, नवी मुंबई- 400701, महाराष्ट्र।
174.	गरीबजन समाज पार्टी	बी-8, न्यू साई प्लाजा, कंकरखेरा, सरधना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250004
175.	रिवल्यूशनरी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इण्डिया	5221, गली नं.-115, बीब्लॉक-, सन्तनगर, बुराडी, दिल्ली-110084
176.	सब समान पार्टी	मकान सं0 - 95 क, गांव सरसण्डा, पोस्ट - गोपरामऊ, तहसील व जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश
177.	सदभावना पार्टी	कमरा नं. 14, प्रथम तल, लखनऊ होटल श्रीराम रोड, चौराहा अमीनाबाद, लखनऊ-226018, (उत्तर प्रदेश)।
178.	शक्ति भारत देशम	सं. 2/58, वैरावन चेट्टी स्टोर, पाचीयाम्मन पाडीथुराई, मदुरै-625001, तमिलनाडु।
179.	सामाजिक इंसाफ पार्टी (राष्ट्रवादी)	मकान नं0 - 53, ग्राम - लहरी, पोस्ट - कुरियार, जिला - बस्ती, उत्तर प्रदेश।
180.	सामाजिक न्याय पार्टी	एम-22, महावीर पार्क, मारिस रोड, अलीगढ़-202001, (उत्तर प्रदेश)।
181.	समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक	14, डॉ. विशंभर दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
182.	समाजवादी क्रान्ति दल	3/197, विधायक पुरम, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
183.	समुगा समतुवा पडाई	4/388, राम गार्डन, अन्ना सालई, पालावाक्कम, चैन्नई -600041, तमिलनाडु।
184.	सनातन समाज पार्टी	रामानन्द नगर, बेगमपुरा, अयोध्या, फैजाबाद, (उत्तर प्रदेश)।
185.	संयुक्त समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट - खारी, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश
186.	सर्वजन कल्याण पार्टी	के-73 के सामने, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना बिहार-800020
187.	सार्वजनिक क्रान्ति पार्टी	सूर्य लॉज, रोड वेज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
188.	सर्वजन महासभा	बी-36/40, कबीर नगर, दुर्गाकुंड, वाराणसी - 221 005, उत्तर प्रदेश।
189.	सतयुग पार्टी	ग्राम-सूखा टोला, डुमरी, पोस्ट-कसया, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।
190.	शिरोमणि अकाली दल (रिपब्लिक)	9. हकीकत नगर, गुरु तेग बहादुर नगर, दिल्ली-110009
191.	शिवाजी कांग्रेस पार्टी	मकान नं. 31, पो0 खाकुर्दी, तालुकामालेगांव-, जिलानासिक-, महाराष्ट्र।
192.	शोषित समाज पार्टी	4/8, त्यागराज नगर (दरजंग बस टर्मिनलसफ), नई दिल्ली -110003.
193.	श्रेष्ठतम राष्ट्र पार्टी	ग्राम-जगसड़, पोस्ट-सरवासा, जनपथ-खीरी-लखीमपुर, उत्तर प्रदेश।
194.	शिक्षित बेरोजगार सेना	चन्दन कुमार बहराइच, खजूरावन, मदयाहुन, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
195.	सोशलिस्ट पार्टी (लोहिया)	सिद्धीकी बिल्डिंग, 6122, बाडा हिन्दू राव, दिल्ली-110006.

196.	सोशललिस्ट पार्टी सेकुलर	505/506, भिलावाँ, लखनऊ कानपुर रोड, (अजन्ता अस्पताल के सामने), आलमबाग, लखनऊ -5, उत्तर प्रदेश ।
197.	सुखी समाज पार्टी	344 भौझा, गाजियाबाद – 201001 उत्तर प्रदेश ।
198.	स्वराज पार्टी(सुभाष चन्द्र) यस- (बोस	ग्राम व डाकघर सेमरीखान कोट, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश-272192 ।
199.	स्वराष्ट्र जन पार्टी	तरकापुर फुलवरिया, पोस्ट-सदर, जिला-मिर्जापुर-231001, उत्तर प्रदेश ।
200.	ताई नाडु पार्टी	44/15, कामराज रोड, शिवाजी नगर, बैंगलूरु-560001, कर्नाटक
201.	तमिल देसियक काची	80 ए, चामुन्डी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सलेम-636007, (तमिलनाडु) ।
202.	तमिल मनिला द्रविड मुनेत्र कडगम	द्वार नं0 296, अम्बेडकर स्ट्रीट, उथुक्काडु गांव व पोस्ट, वाल्जाबाद वाया काँचीपुरम तालुका व जिला, तमिल नाडु ।
203.	तामिज़ागा मक्कल जननायगा काच्चि	वनाविल ईलम, संख्या 9पूर्व सातवीं गली, पुडुकोट्टई-622001 तमिलनाडु ।
204.	थल्ली तेलंगाना पार्टी	प्लॉट नं0-50, रोड नं0-5, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033, आन्ध्र प्रदेश।
205.	दि ह्यूमेनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	34, लवीना, 52 ए, टैगोर रोड, सान्ताक्रुज (पश्चिम), मुम्बई-400054, (महाराष्ट्र)।
206.	उज्जवल राष्ट्र पार्टी	ग्राम – अहिरावाँ, पोस्ट – बेरुआ, तहसील – सण्डीला, जिला – हरदोई, उत्तर प्रदेश – 241304
207.	यूनाइटेड सिटिजन पार्टी	डी — 29, कोन्डली, दिल्ली-110096.
208.	यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	29 / 116, गली नं0 —10, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली—110 032.
209.	यूनाइटेड फ्रंट (पार्टी)	अबु फाखरुद्दीन प्लाजा, लंगर टोली चौराहा, बारी पथ, पटना—800004, बिहार ।
210.	यूनाइटेड नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी	डी—786, जैतपुर विस्तार, पार्ट — II, बदरपुर, दिल्ली-110 044.
211.	उपेक्षित समाज पार्टी	एफ—15, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट के पास, नई दिल्ली—110011.
212.	उत्तर प्रदेश यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट	38 — रोयल होटल, विधान सभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
213.	विकासशील समाज पार्टी	305 ऐ, साहारा शॉपिंग सेन्टर, फैजाबाद रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
214.	वोटर्स पार्टी	ए, 1/75, फ्रीडम इन्क्लेव, नेब सराय, इग्नू रोड, नई दिल्ली – 110068 ।
215.	यूथ डेमोक्रेटिक फ्रंट	मकान सं0 1-10-63/5, प्लॉट सं0 44, चिकोटी गार्डन्स, बेगमपेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
216.	यूथ फॉर इक्विलिटी	पी-90ए, द्वितीय तल, साऊथ एक्सटेंशन -II, नई दिल्ली –110034 ।
217.	युवा जन जागृति पार्टी	315, फ्रीवे ट्रेड सेन्टर, आई.ओ.सी.पेट्रोल पम्प के सामने, नरोल-असलाली हाईवे, अहमदाबाद, गुजरात- 382427
218.	युवा क्रान्ति दल	बी – 667, अमन विहार, पोस्ट ऑफिस-सुल्तानपुरी, जिला- उत्तर -पश्चिम, नई दिल्ली-110 086.

**आयोग के दिनांक 13.09.2022 के आदेश के अनुसार निम्नलिखित दलों को निष्क्रिय घोषित कर दिया गया है। उनको व्यक्तिगत रूप से और सीईओ तथा ईसीआई की वेबसाइट के माध्यम से नोटिस तामील किया गया था। ईसीआई के उक्त अंतरिम आदेश द्वारा सामान्य प्रतीक की उनकी मांग पर विराम लगा दिया गया है। सभी सीईओ/आरओ को सलाह दी जाती है कि यदि कोई 'निष्क्रिय' दल सामान्य प्रतीक के लिए संपर्क करता है तो आयोग के दिनांक 13.09.2022 के आदेश में यथा अधिकथित यथोचित सम्यक तत्परता का पालन किया जाए। चूंकि उक्त दलों ने अपेक्षित सारवान परिवर्तनों, विशेष रूप से वर्ष 2014 से अपने पदाधिकारियों के विवरण को अद्यतन (अपडेट) नहीं किया है, इसलिए प्ररूप क और ख स्वीकार करने के आधार समाप्त हो गए हैं।

[सं. 56/2022/रा0दल अनु.-III]

आदेश से,

दिलीप के.वर्मा, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th May, 2023

O.N. 14(E).—WHEREAS, the Election Commission of India has decided to update its Notification No.56/2021/PPS-III, dated 23rd September, 2021, as amended from time to time, specifying the names of registered unrecognised parties [RUPPs], issued in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968;

NOW, THEREFORE, in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and in supersession of its aforesaid notification No.56/2021/PPS-III, dated 23rd September, 2021, as amended from time to time, published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (iii), the Election Commission of India hereby specifies: -

- (a) In Table I (A), the registered unrecognized political parties [RUPPs] and postal address of their Headquarters;
- (b) In Table I (B), the list of delisted registered-unrecognized political parties [RUPPs] and postal address of their Headquarters; and
- (c) In Table I (C), the list of inactive registered-unrecognized political parties [RUPPs] and postal address of their Headquarters.

TABLE – I (A)**REGISTERED UNRECOGNISED POLITICAL PARTIES [RUPPs]**

Sr.No.	Name of RUPP	Headquarter of RUPP
1	2	3
1.	Aadarsh Bharat Nirman Dal	Village- Bhaini Bheron, Teshil- Meham, District- Rohtak, Haryana- 124112
2.	Aadarsh Janata Sewa Party	Ranjit House, Didwara Raod, Salwan, District – Karnal, Haryana
3.	Aadarsh Mithila Party	At & P.O. Thahra Gopalpur, Via – Dighra, District – Samastipur, Bihar – 848115
4.	Aadarsh Sangram Party	D/S- 1252, Sector- D, L.D.A Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226012.
5.	Aadarshwaadi Congress Party	E.W.S. – 04, Kausalpuri Colony, Phase-2, Near of Water Tank, Gramsabha– Gaddopur, Vikas Khand – Masoadha, Tahsil – Sadar, District – Faizabad, Uttar Pradesh.
6.	Aadhi Aabadi Party	D-1385/7, D- Block, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016
7.	Aadi Bharat Party	116, Bopal Haat & Homes, Inside Sun city, Bopal, Ahmadabad, Gujarat- 380058
8.	Aadijan Mukti Sena	‘First Floor’, 21, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (Madhya Pradesh)
9.	Aadim Samaj Party	H. No. 84, Village – Mawai Kala, Post – Naribari, Shankargarh, Allahabad, Uttar Pradesh
10.	Aadivasi Sena Party	At & Post – Rupvel (Nishal Falia), Tal. Vansada, Distt. Navsari-396 321, Gujarat.
11.	Aajad Bharat Party (Democratic)	Village+Post – Behta Buzurg, Vikas Khand – Bhitargaon, District – Kanpur, Uttar Pradesh.
12.	Aam Aadmi Mukti Morcha	4 U.F. Babar Place, Todarmal Road, Near Bengali Market, New Delhi-110001.
13.	Aam Aadmi Parivartan Party	Satya Sai Colony, Preet Vihar, Near Sammer Vila School, Chhapraula, Gaudam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201001
14.	Aam Aadmi Sangharsh Party (S)	D- 489, Street No.- 7, Mukandpur Extension, Part- 1, New Delhi- 110042.
15.	Aam Adhikar Morcha	Manoj Mandal, Adarsh Nagar, Chethariya Peer, Ward No. 15, P.O. & P.S.- Kahalgaon, District- Bhagalpur, Bihar - 813203
16.	Aam Bharat Party	C/o Arvind Kumar Dikshit, No. 3 rd Floor, 2 nd Building, Ambika Complex, Damodar Area, Taluk-Idar, district-Sabarkantha Gujarat- 383430.
17.	Aam Bhartiya Party	103-Radio Colony, Indore, Madhya Pradesh- 452001
18.	Aam Dal	Plot/Bhawan No. 191, Budha Enclave, Lohia Nagar, Meerut, Uttar Pradesh.
19.	Aam Hindustani Party	Village Bhagauti Dubey ka Bhiswan, Post- Chauri Chaura, District- Gorakhpur, Uttar Pradesh-273201.
20.	Aam Jan Majdoor Party	Bhadpar Chauraha, Bhadpar, Tehsil-Laharpur, District- Sitapur, Uttar Pradesh-
21.	Aam Jan Niti Party	Ward No. 8, Sector No. 12L, Near G.G.S.Public School, Hanumangarh Junction, District- Hanumangarh, Rajasthan- 335512
22.	Aam Jan Party (Secular)	Meena Vatika, Maa Durganagar, Village- Chaksakra, Post- Chandralya, P.S- Hajipur sadar, District- Vaishali BIHAR

23.	Aam Janata Jagrukta Party	Jafar Baitha Market,Dagarua,P.S.-Dagaria,Post-Dagarua,Via-Gulabbagh,District-Purnea,Bihar – 854326
24.	Aam Janata Party	Village – Jigina, P.O. – Manjhariya Vikram, District – Basti, Uttar Pradesh.
25.	Aam Janata Party (Sarvajana Hitaya)	243-244, 2 nd Floor, Radha Chambers, Plot No. – 9, G – Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi – 18.
26.	Aam Jankranti Party	Village & Post – Bhagipur, Shikohabad Road, Near Modern English School, District – Etah, Uttar Pradesh – 207001.
27.	Aam Janmat Party	HIG Flat No – 7HF/25,Bahadurpur Housing Colony,Patna,Bihar-800026
28.	Aam Janshakti Party	WZ-J-62, Uttam Nagar, Delhi - 110059.
29.	Aam Janta Party (India)	Behind Ranipurwa Primary School,Janki Nagar, Post – Bus Stop, District – Gonda, Uttar Pradesh.
30.	Aam Janta Party (Socialist)	Village & Post-Indaipur,Distt.-Ambedkar Nagar,Uttar Pradesh-224129
31.	Aam Janta Party Democratic	House No. 1403, Bela, Ward No. 4, Gram Panchayat Bela, Tehsil- Umred, District- Nagpur, Maharashtra- 441115
32.	Aam Janta Party Rashtriya	Flat No. 804, 8th Floor, Gharouda Complex, Jagdeo Path More, Bailey Road, Patna, Bihar - 800014.
33.	Aam Janta Pragati Party	B-141,Amar Jyoti Colony,Sector – 17,Rohini,Delhi – 110081
34.	Aam Lok Party United	House No. 328,Street No. 4,Neta ji Park Haibowal, Kalan,Ludhiana,Punjab-141001
35.	Aam Nagrik Party	Village- Baulla Mazupur, Post- Kiratpur Nimana, Block-Gonda, Tehsil- Eglash, District- Aligarh, Uttar Pradesh.
36.	Aam Nagrik Yuva Party	Village- Nalhad, Post office- Nalhad, Tehsil and District- Nuh, Haryana- 122107
37.	Aamjan Ekta Party	Mohalla-Munshipura,Near Tehsil-Kasba-Nakud,Tehsil & Thana-Nakud,District-Saharanpur,Uttar Pradesh-247342
38.	Aanaithinthiya Jananayaka Pathukappu Kazhagam	1/47B, JSM Cathedral Road, Itteri, Distt.-Tirunelveli Tamil Nadu - 627007
39.	Aap Aur Hum Party	Ward No. 24, House No. 714/647, Mohalla- Basanti Gali, District- Muzaffarpur, Bihar
40.	Aap Sabki Apni Party	Vinayaka Height at Main Road, Tarbahar, Ward No.15, Bilaspur, Chhattisgarh – 495001
41.	Aapka Gantantra Party	Venkat Ward -13,Gali No.2,Shastri Colony,Katni,Madhya Pradeh-483501
42.	Aapka Hamara Party	Gram – Mahudar, Post – Rewali, District – Hazaribagh, Jharkhand – 825301.
43.	Aapki Apni Adhikar Party	H.No.381/5, New Parvatiya Colony, Saran School Road, Mahadev Chowk, Village – Saran, NIT Faridabad, Haryana.
44.	Aapki Apni Party (Peoples)	Khasra No. 19/26, Near Amrit Vihar, Main Road Burari, Burari, New Delhi- 110084
45.	Aapki Awaaz Party	206,Chandra Prakash,Residency,Sidsar Road,Bhavnagar,Gujarat-364002
46.	Aapna Punjab Party	H.No. 2442, Phase- 11, Sector – 65, S.A.S. Nagar, Mohali, Punjab.
47.	Aapni Sarkar Party	6/Shantikunj Society, Opp- Gayatri Temple, National Highway, Kalol, District- Gandhinagar, Gujarat- 382721
48.	Aapnni Democratic Party	Dhani Amrud Ke Baag Wali, Dhaulatpur Road, Village- BhodiaKhera, Tehsil & District- Fatehabad, Haryana- 125050
49.	Aapsi Sahyog Party	E-737,E-Block,J.J. Colony,Mangolpuri,Delhi- 110083
50.	Aarakshan Virodhi Party	DT-146, Tirkha Colony, Ballabgarh, Faridabad, Haryana – 121004.
51.	Aarthik Vikas Party	Nil Kanth Dham Math Jinda Naga Samadhi, Gram- Kittukhedi, Post- Zarda, Tehsil- Malhargarh, District- Mandsaur, Madhya Pradesh- 458553
52.	Aarthik Vyavastha Parivartan Party	House No. 166, Village- Teja Ka Pura, Abdalpur Khas, Post- Harisen Ganj, Mau, Aaima, Thana- Soraon, Tehsil- Soraon, District- Allahabad, UTTAR PRADESH – 226020
53.	Aas Punjab Party	1901,1902,Chowk Shakti Nagar,Amritsar,Punjab-143001
54.	Aasra Lokmanch Party	Mhada Colony, Gala No. 683, Gut No. 74, Devlai, Tq. and District – Aurangabad, Maharashtra - 431 001.
55.	Aawaam Adhikar Jagran Party	Village – Sarokhanpur, Near Govt. Hospital (CHC), Post – Badlapur, District – Jaunpur, Uttar Pradesh - 222125.

56.	Aawami Pichhada Party	H. No. 269, Arazi No.1, Chak Rashid Dehati, Adilabad, Power House Mohammadabad, Ghazipur, Uttar Pradesh-233227
57.	Aazad Samaj Party (Kanshi Ram)	H. No. 180, Gali No. 3/22, (Khasra No. 265), Gokul Pur Village, Haqa Shahdara, Delhi-110094
58.	Aazadi Ka Antim Aandolan Dal	M.I.G.D. – 27, Shailendra Nagar, Raipur-492001 Chhattisgarh.
59.	Abhay Samaj Party	Village – Andhya, Post – Harpur Tiwari, Tehsil – Sadar Maharajganj, District - Maharajganj, Uttar Pradesh.
60.	Abhinav Bharat Jansewa Paksh	Kamini Housing Society, Gali No.-1, Mahalaxmi Nagar, Gas Godown Chha Bajula, Ambarnath (East), District – Thane, Maharashtra-421501.
61.	Abhinav Bharat Party	RB-10, Block-RB, Inderpuri, Delhi-110012.
62.	Abhinav Loktantra Party	H.No.97, Thakur Patti Leekhli, Post – Mariyada, Tehsil – Sikrai, District – Dausa, Rajasthan – 303326
63.	Abhinav Rajasthan Party	C-14, Gandhi Nagar, Merta City, District- Nagaur, Rajasthan-341510
64.	Abua Jharkhand Party	Road No. 7, Middle Daudnagar, Dibdih, Ranchi, Jharkhand – 834002.
65.	Action Party	Village and Post- Maigalganj, Main Market, Near Haricharneshwar Mahadev Mandir, Block- Pasgawan, District- Lakhimpur (Khiri), Uttar Pradesh.
66.	Action Party for Peoples Progress	No. 13/7, Aishwarya Building, Shop No. 11, 3 rd Cross Street, Trustpuram, Kodambakkam, Chennai, Tamil Nadu- 600024
67.	Adarsh Jan Shakti Party	H.No. 10204, Araie Wali Gali, Maan Auto Stand, Durga Puri, Haibowal Kalan, Ludhiana, Punjab.
68.	Adarsh Jankalyan Dal	Village-Chanduara, P.O.-Jatdumri, P.S.-Punpun, Distt.-Patna Bihar-804453
69.	Adarsh Janta Party	Gram – Kudhi, P.O. - Katnaharsha, Adarsh Nagar, Shikohabad, District- Firozabad, Uttar Pradesh- 283135
70.	Adarsh Lok Dal	Abu Nagar, Opposite Police Station Fatehpur City, District, Fatehpur (U.P.).
71.	Adarsh Manavtawadi Party	D. S. /919, Sector-C, Sitapur Road Yojna, Janakipuram, Lucknow, Uttar Pradesh.
72.	Adarsh Nyay Rakshak Party	Village and Post- Matool, Tehsil- Khargapur, District- Tikamgarh, Madhya Pradesh- 472115
73.	Adarsh Political Party	405, Kundan Bhawan Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110 033.
74.	Adarsh Rashtriya Vikas Party	H.No. 1369, Suraksha-1, Sector –4, ELDECO, Rai Bareilly Road, Lucknow, Uttar Pradesh
75.	Adarsh Samaj Party	B-505, Kamla Nagar, Agra, Uttar Pradesh.
76.	Adarsh Vyawastha Party	Sugahi Ward No.12, Village- Banjaria, Town Area Salempur, District- Deoria, Uttar Pradesh- 274509.
77.	Adarshwadi Dal	Jawahar Road, Khurja-203136, Distt. Bulandshahr, (U.P.).
78.	Adarshwadi Party (Loktantrik)	H.No.81, Mohalla-Chitrasai, Near Ashok Inter College, Sadar Jaunpur, Uttar Pradesh- 222001
79.	Adhikar Party	234, Khirki Alibeg, Rekabganj, Faizabad, Uttar Pradesh-224001.
80.	Adhikar Vikas Party	Shivala Chhaya House No. 10/571, Arun Nagar, Alpo Aaya Varg Society, Ward No. 10, Tehsil – Huzur, District – Rewa, MADHYA PRADESH
81.	Adhunik Bharat Party	299A, Nankari IIT, Kanpur Mahanagar, Kanpur Uttar Pradesh- 208016
82.	Adim Bhartiya Dal	Beldar Bhawan, Kuri Bazaar Marg, (Balua) Kuri Bazaar, Distt. Gorakhpur – 273404, Uttar Pradesh.
83.	Adivasi Jan Kalyan Party	C/o Dakshin Gujarat Gamit Samaj Seva Trust Panwadi, Near Gujarat Traders, Vyara, District- Tapi, Gujarat-394650.
84.	Advait Ishawasyam Congress	Guruaaiyanwari Ashram, Riva Naka, Meher, Distt. Satna, Madhya Pradesh.
85.	Agar Jan Party	V-949, Aggarwal Wali Gali, Near Main Krishna Gali, Moujpur, Delhi-110053.
86.	Agila India Makkal Kazhagam	No.3, Second Cross, Vallalar Nagar, Pethuchettipet, Lawspet Post, Puducherry- 605008.
87.	Ahila India Dhayaga Makkal Munnetra Katchi	No.1/407, Iyer Colony, Thanakkankulam, Tirunagar, Madurai, Tamil Nadu – 625006
88.	Ahimsa Socialist Party	D. No. 5/125, West Palapatty, Post- Sellappampatty, Taluk and District- Namakkal, Tamil Nadu-637019.

89.	Ahinsa Samaj Party	Priyadarshni Colony, Near of Vridha Ashram, Ward No.47, Chhindwara, Tehsil and District- Chhindwara, Madhya Pradesh- 480001.
90.	Ahinsawadi Janata Party	Near N.T.P.C. Main Gate, Noufari, Village – Lodhai, Shamshabad Road, Agra, District – Agra, Uttar Pradesh.
91.	Aihra National Party	1/24, S.F., KMT Bhawan, St. # 2, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
92.	Aim Political Party	543, Babasheb Ambedkar Society, Room No.179, CEN No. 301, Capt. Prakash Pethe Marg, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai, Maharashtra – 400005.
93.	Akali Dal (1920)	296, Sector 10-A, Chandigarh-160010.
94.	Akhand Aryavart Access Party	At – 1/4961, Balbir Nagar Ext., Street No.4, Shahdara, Delhi-110032
95.	Akhand Bharat Chetna Dal	Plot No. 9, Khasra No. 114/2, Sai Colony, Bhaijan Rikshe Vale Ke Peeche, New Colony, Garha, Jabalpur, Madhya Pradesh- 482003
96.	Akhand Bharat Ekta Manch	A-204, Fairdeal House, Near Swastik Cross Road, C.G. Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat-380009.
97.	Akhand Bharat Janpriya Party	Ganesh Sharma, Road No. -3, Bajrangpuri, Bhagat Singh Path, Guljarbagh, Patna, Bihar-800007
98.	Akhand Bharat Party	47 – Rukmani Vihar, Opposite to Mandi Samiti, Bye-Pass, Mathura, Uttar Pradesh – 281001.
99.	Akhand Bharat Samaj Party	E-14, First Floor, DDA Mini Market, Sultan Puri, Delhi – 110086
100.	Akhand Bharat Samrajya Party	F 305, Rajharsh Colony, Kolar Road, Akbarpur Bhopal, Madhya Pradesh- 462042.
101.	Akhand Bharat Swatantra Party	Village- Patni, Post and Thana- Chiklana, District- Saharanpur, Uttar Pradesh.
102.	Akhand Bharat Vikas Party	Plot No. 100, Transport Nagar, Saharanpur, Uttar Pradesh-247001
103.	Akhand Bharatheeya Aawaaz	A – 54, Manek Nagar CHS Ltd., M.G. Road, Kandivali (West), Mumbai – 400067 Maharashtra.
104.	Akhand Bharatiya Kavach Party	B-33, Ashok Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
105.	Akhand Bhartiya Yuva Party	421/6, Block-B, Laxmi Vihar, Burari, New Delhi- 110084
106.	Akhand Hind Party	B-13, Rafiq Compound, Kishan Nagar, West Durgati Marg, Dahisar (East), Mumbai, Maharashtra-400068.
107.	Akhand Loktantrik Party	Main Road Opposite State Bank, C/o Sahetreen Bai Sahu, Ward No. 02, Lavan, District-Balodabazar, Bhatapara, Chhattisgarh-493526
108.	Akhand Manav Party	House No.C-20, Nilbad Bala jee Nagar, Phase-I, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, Madhya Pradesh-462044
109.	Akhand Rashtrawadi Party	7/5/67/2, Vikas Nagar, Sector – 7, Lucknow, Uttar Pradesh - 226002.
110.	Akhand Rashtriya Rakshak Party	B/267, Shree Jivrajpark, Near Narayan Nagar, Post-Khodiarnagar, Ahmedabad, Gujarat- 382352
111.	Akhand Samaj Party	2/45, Baloo Aada, Sanjay Gandhi Nagar, P.N.Road, P.S- Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
112.	Akhand Samta Party	Flat No. R-202, Teera Green, Alwar by Pass Bhiwadi, Tehsil- Tijara, District- Alwar, Rajasthan- 301019.
113.	Akhil Bharat Hindu Mahasabha	Mandir Marg, New Delhi-110001.
114.	Akhil Bharat Samagra Kranti Party	Rajendra Pandey's House, In front street of Dr. Saleem Ahmad, Katra, Basti, District Basti, Pin Code No.272001, Uttar Pradesh.
115.	Akhil Bharatiya Ashok Sena	117/0/117, Gita Nagar, Kanpur-208025 (Uttar Pradesh).
116.	Akhil Bharatiya Congress Dal (Ambedkar)	Ch-1, Kumbha Nagar, Housing Board, Chittorgarh-312001 (Rajasthan).
117.	Akhil Bharatiya Gareeb Party	Village-Kurana, Post Simmavali, Distt. Ghaziabad (U.P.).
118.	Akhil Bharatiya Gorkha League	Mahabir Building, Ladenla Road, Darjeeling – 734101(West Bengal).
119.	Akhil Bharatiya Hind Kranti Party	Krishna Bhavan, Semriya Chowk, Satna, Madhya Pradesh.

120.	Akhil Bharatiya Jan Sangh	T-14, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020
121.	Akhil Bharatiya Jan Shakti Party	2538,Hudson Line,GTB Nagar,Delhi-110009
122.	Akhil Bharatiya Kisan Mazdoor Morcha	Shri Mahatma Gandhi Vichar Kendra, Uldan, Jhansi. (Uttar Pradesh).
123.	Akhil Bharatiya Loktantra Party	Vill & P.O.Dattavali, Distt. Meerut (U.P.).
124.	Akhil Bharatiya Manavata Paksha	Manavata Bhavan Pentry (Koke),Teh. Sindevahi, Distt.-Chanderpur,Maharashtra.
125.	Akhil Bharatiya Muslim League (Secular)	Khari Kuan, Mughalpura Ist, Muradabad-244001, Uttar Pradesh.
126.	Akhil Bharatiya Rajarya Sabha	Adarsh Gurukul Shahi, District Pilibhit-262001 (Uttar Pradesh).
127.	Akhil Bharatiya Samajwadi Congress	C-31, Hauz Khas, August Kranti Marg, New Delhi- 110016.
128.	Akhil Bharatiya Sangharsh Dal	Nangli Bhattha, Fethehgarh Choorian Road, Amritsar-143001, Punjab.
129.	Akhil Bharatiya Sena	Om Kala Niketan Sankalap,Co-op. Housing Society, Anandgar, Vikhorili Park Site (West), Mumbai-400079 (Maharashtra).
130.	Akhil Bharatiya Shivsena Rashtrawadi	Akhil Bharatiya Shivsena Bhawan, Gur Mandi, Ludhiana (Punjab).
131.	Akhil Bharatiya Socialist Party	3,Circular Road,Prayagraj,Uttar Pradesh-211001
132.	Akhil Bhartiya Aamjan Party	Mukam, Post Ladpura, Via-Gagwana, District-Ajmer, Rajasthan-305023'.
133.	Akhil Bhartiya Aapki Apni Party	F-2, Ground Floor, Rajendra Park, Nangloi, New Delhi-110041
134.	Akhil Bhartiya Aarakshit Samaj Party	392B, Sector-B, Sarvdharm Colony, Kolar Road, Bhopal, Madhya Pradesh- 462042
135.	Akhil Bhartiya Apna Dal	1372, Ganesh Nagar, Malik Mau Aima, District- Raebareli, Uttar Pradesh-229010
136.	Akhil Bhartiya Ekata Party	Jadhavwadi Road, Hanuman Chowk, Tehsil & District- Osmanabad, Maharashtra-413501
137.	Akhil Bhartiya Gondwana Party	263, Rahul Nagar, Kolar Road,Bhopal-462003,MADHYA PRADESH.
138.	Akhil Bhartiya Jan Morcha	House No. 960, Pratap Nagar, Bhanpur, Bhopal, Madhya Pradesh- 462037.
139.	Akhil Bhartiya Janadesh Party	House No.43,Village-Delhua near Berubarvari,Main Road,Shuukhpura,Bansdih-Road,District-Ballia,Uttar Pradesh-277301
140.	Akhil Bhartiya Janata Sahara Party	7/96-97, Vikas Nagar, Lucknow (Uttar Pradesh).
141.	Akhil Bhartiya Janhit Party	Post – Sajani,Taluk – Hatkanagale, District – Kolhapur, Maharashtra – 416115.
142.	Akhil Bhartiya Jansatta Party	60, Chaudharana, Post- Jais, District- Amethi, Uttar Pradesh- 229305
143.	Akhil Bhartiya Jharkhand Party	Village – Kinudeeh, Post – Karandeeh, Jamshedpur-831002, Distt. – Poorvi Singhbhoom, Jharkhand.
144.	Akhil Bhartiya Kalyan Party	Mohalla- Mirdhan South, Post- Dariyabad, District- Barabanki, Uttar Pradesh-225403
145.	Akhil Bhartiya Kisan Majdoor Party	Village-Faridpur,Tehsil-Tigaon,District-Faridabad,Haryana- 121101
146.	Akhil Bhartiya Kranti Sena Paksh	Shop No. 01 in Maharana Pratap Chowk,Opp Bhagat Singh School,Bajaj Nagar,Waluj MIDC,District-Auragabad,Maharashtra- 431001
147.	Akhil Bhartiya Lokadhikar Party	Shop No. 9, 'B' Wing, Bhuraj Enclave, Samarth Wadi, Near Mankhurd Station (E) Road, Mumbai, Maharashtra – 400088.

148.	Akhil Bhartiya Manavadhikar Vichar Manch Party	Ballia(Jilebiamore), Sultanganj, Deoghar Road, Post – ManjhaliMatihani, Via – Belhar, District – Banka, Bihar.
149.	Akhil Bhartiya Manavataavadi Party	House No. 820, Gopu Colony, Raja Garden, Near Sector-19, Sarvodaya Hospital, Faridabad, Haryana-121002.
150.	Akhil Bhartiya Mithila Party	Vilas Rai Complex, Sitamarhi Road, N.H.-77,Near S.S.B.Head Quarters, Rusulpur, Muzaffarpur, Bihar-842004.
151.	Akhil Bhartiya Naitik Party	Moh. Kanhaipurwa, Near Bilgram Chungi, Janpad – Hardoi, Uttar Pradesh – 241001.
152.	Akhil Bhartiya Navnirman Party	Village- Sikatiya, Post- Langri, Thana- Hata, District- Kushinagar, Uttar Pradesh- 274203
153.	Akhil Bhartiya Parivar Party	A-37,Pocket-11,Bhutal,DDA Janta Flat,JASOLA,Delhi- 110025
154.	Akhil Bhartiya Rashtriya Parivar Party	B-19/70-4, Dyodhiabeer, Bhelupur, Varanasi, UTTAR PRADESH.
155.	Akhil Bhartiya Sarvadharm Samaj Party	72, Bajrang Nagar, Road No.6, Manewada Road, Post- Parvatinagar, Nagpur, Maharashtra- 440027
156.	Akhil Bhartiya Sarvjan Hit Party	448/986, Mallahi Tola-1,Nagaria,Lucknow,Uttar Pradesh – 226003
157.	Akhil Bhartiya Sawarn Party	177/Q/94, LIC Society, Sharda Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208024.
158.	Akhil Bhartiya Sudhar Party	House No. 2389, 1 st Floor, Hudson Lane, Kingsway Camp, Delhi-110009.
159.	Akhil Bhartiya Swarajya Dal	H. No. 22/178, Manjh Khore Ramed, Tarous Chauraha, Hamirpur, Uttar Pradesh
160.	Akhil Bhartiya Vikas Congress Party	S-7,Vikasdeep Basement, Station Raod, Lucknow -226001 Uttar Pradesh.
161.	Akhil Hind Forward Bloc (Krantikari)	Ward No.36, Holding No. 711/499, Railway Hunder Road, Upadhyay Lane, West Lohanipur, Kadamkuan, Patna Bihar – 800003.
162.	Akhil Rashtrawadi Party	Moharvati Sisoudiya Bhawan, Near Dak Bangla, Nadri Gate, Kasganj, District Eta (Uttar Pradesh).
163.	Akhila Bharatiya Rytha Party	No. 127, Shravanabelagula Town, Bangaluru Main Road, Channarayapatna Taluk, Hassan District, Karnataka-573135.
164.	Akhila India Jananayaka Makkal Katchi (Dr. Isaac)	No. 171, Kannan Nagar, Winterpet, Arakonam, Vellore Distt., Tamil Nadu.
165.	Akhila Kerala Trinamool Party	House No. 161, Swathi Nagar, Edaikkode Desam, Pallichal Village, Nemom Post Office, Thiruvananthapuram, Kerala – 695020
166.	Akhila Vijaya Party	D-591,5 th Floor, Hubdown Market,Geeta Mandir,Bus Stop,Ahmedabad,Gujarat- 380022
167.	Akhila India Vallalar Peravai	43, Pillayar Koil Street, Veera Ragavapuram,Chennai – 600 077, Tamil Nadu.
168.	Akhila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam	144/82,Mariamman Kovil Street,Thuvakudi-Post,Thiruvurumbur-Taluk,Trichirappalli-District Tamil Nadu- 620015
169.	Al-Hind Party	B-2/40, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029.
170.	All Bharath Thozilalar Katchi	No. 106/1, (Old No. 19) Thiruvalluvar Street, Karuppachavady, Krishnankuppam Post, Kurinjepady, TK. Kullanchavady Way, Cuddalore District, Near Sri Dulukanathamman Koil, Tamil Nadu – 607302.
171.	All India Azaad Congress Party	H. No. 5-9-30/C, Madison House, Basheer Bagh, Hyderabad, Andhra Pradesh
172.	All India BC, OBC Party	H.No. 1-1-109/18, Ramdas Nagar, Kapra, ECIL, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh – 500062
173.	All India Bharti Jug Party	Near Luxmi Narain Mandir, Grain Market, Mansa – 151 505, Punjab
174.	All India Democratic Party	M – 77, Sector - 9A, Saket Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh – 462024

175.	All India Disabled Party	Plot No. 57, Bhagavan Sri Sesasthiri Nagar, Malapatti Road, Don Bosco College Backside, Balakrishnapuram Panchayat, Dindigul, Tamil Nadu- 624003.
176.	All India Federal Bloc	Malekkudy, Elembakapilly P.O., Koovappady, Ernakulan District, Kerala- 683544
177.	All India Forward Bloc (Subhasist)	49-M, Mothilal, 1st Street, Madurai- 625010, (Tamil Nadu)
178.	All India Hindustan Congress Party	191-C, Chandranagar A, Nau Dukan, Kalwad Road, Govindpura, Jhotwada, Jaipur, Rajasthan – 302012
179.	All India Jaihind Party	D.No. 22-77, Bhagat Singh Nagar, 6 th Line, Yanamalakuduru, Vijaywada, Andhra Pradesh- 520007
180.	All India Jan Congress Party	A-1B/110A, Krishna Apartments, LIG Flats, A-1B, Paschim vihar Delhi- 110063
181.	All India Jan Samasyanivaran Party	Ward no.1, At Post & Tehsil - Kalmeshwar, District - Nagpur, Maharashtra – 441501
182.	All India Jana Andolan Party	Khadalay, Pudung Busty, Relly Road, Kalimpong Khasmahal, Post and Police Station- Kalimpong, Dist- Darjeeling, West Bengal- 734301
183.	All India Jananayaka Makkal Kazhagam	No. 137, Kesava Garden, 3 rd Block, Demellous Road, Channai, Tamil Nadu- 600012
184.	All India Janaraksha Party	K.No. 1403/VS-17/1404/VS 18, Gangadharpura, Doddaballapura Town, Bangalore Rural - District, Karnataka
185.	All India Kisan Janatha party	Door No. 2-221, Jayapuram Village, Kudair Mandal, Anantapur District, Andhra Pradesh - 515751
186.	All India Kissan Mazdoor Morcha	Gali Gujjar Singh Wali, Inside Bagdadi Gate, Firojpur City, Punjab-152002
187.	All India Krantikari Congress	184/1469, Moti Lal Nagar-1, Goregaon (West), Mumbai-400104, Maharashtra
188.	All India Labour Party	34/1-A, Lower Range, Kolkata, West Bengal- 700019
189.	All India Legal Rights Party	D. No. 27, New No. 8j, Kalayanavainayagar Koil street, Pandian Nagar, Thirunagar, Distt.-Madurai, Tamil Nadu –625006
190.	All India Liberal Party	Plot No. 48, Near Vinayaka Temple, Sector-6, M.V.P. Colony, Visakhapatnam- 530017, Andhra Pradesh
191.	All India Mahila Empowerment Party	D.No. – 9-4-135/35/A, 9-4-135/35, Plot No. – 35, Survey Nos. 206, 207, 210, 199, 198, 195/2, Aruna Colony, Tolichowki, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500008
192.	All India Majlis-E-Inquilab-E-Millat	No. 23-1-1009/13, Moghalpura, Hyderabad, Telangana- 500002
193.	All India Makkal Nalvalvu Katchi	No. 2/259, Ondibadanayakanpatti, Palakkanuthu Post, Dindigul District, Tamil Nadu- 624619
194.	All India Makkal Rajya Kazhagam	Plot No.6-7, Sheikh Mohamed Nagar, Alundur, Srirangam-Taluk, Distt.- Tiruchirapalli, Tamil Nadu-620012
195.	All India Manavadhikar Rajnaitik Dal	Village & Post – Rajapur, Thana – Cholaapur, Tehsil & District – Varanasi, Uttar Pradesh - 221101
196.	All India Manchi Party	Flat No. F-5, Sai Apartment, Katuru Road, Vuyyuru, Krishna District, Andhra Pradesh.
197.	All India Mazdoor Party (Rangreta)	H.No. 2453, Bagh Wala Khuh, Jandiyala Guru, District – Amritsar, Punjab
198.	All India MGR Makkal Munnetra Kazhagam	Flat No.- A-4, Srinivas Arcade, No. 1/2, Arunachalam Road, Chennai, Tamil Nadu- 600093
199.	All India Minorities Front	148, South Avenue, New Delhi-110001
200.	All India Moovendar Munnani Kazhagam	Lake Area, Melur Road, Madurai-625107, (Tamil Nadu)
201.	All India Nyay Paksh	H. No.-1106, Sector 16-17, District- Hissar, Haryana- 125001
202.	All India Pasumpon Munnetra Kazhagam	No. 47B/2, Sorgavasal Street, C.N.Graman, District- Tirunelveli, Tamil Nadu- 627001
203.	All India Pattali Munnetra Katchi	No.-90, Gandhi Road, Kallakuruchi, Viluppuram (DT), Tamil Nadu – 606202

204.	All India People Development Party	D. No. 1/119-B, North Street, Aanaikutt Dam (Post), Thiruththangal(Root),Sivakasi (Taluk),District-Virudhunagar, Tamil Nadu- 626130.
205.	All India Peoples' Front (Radical)	B.P.- 18, 40- Feet Road, Patel Nagar, Mugal Sarai, Chandauli, UTTAR PRADESH.
206.	All India Pichhada Jan Samaj Party	475/15 Ka, Kadam Rasool, Daliganj, Lucknow, Uttar Pradesh
207.	All India Praja Party	H.No.- 5-1-240, 2 nd floor, Jambagh, Street No.- 17, Near Flower Market, Hyderabad, Telangana- 500095
208.	All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam	D. No. 33, Kannadasan Main Road, 1 st Floor, S.S. Colony, Madurai, Tamil Nadu- 625010
209.	All India Ravidas Samata Party	Bhagwat Singh Bhawan No. 10, Sector – 11, Shastrinagar, Meerut, Uttar Pradesh.
210.	All India Samata Party	H.No. 23-8/3, Millennium Township Shadnagar, Farooqonagar Mandal, Ranga Reddy District, Telangana State- 509216
211.	All India Samathuva Makhal Katchi	2, Kalyani Nagar, Kattivakkam, Chennai – 600041, Tamil Nadu
212.	All India Sathyajothi Party	Ongarakudil,19, Extension,Thuraiyur, Trichy District, Tamil Nadu - 621010.
213.	All India Secular Front	Furfura,Post-Furfura,P.S.-Jangipara,District-Hoogly,West Bengal–712706.
214.	All India Shiromani Baba Jiwan Singh Mazhabi Dal	Village & P.O. Majitha, Amritsar (Punjab).
215.	All India Tafsili United Party	Village Simulpur, Post-Thakur Nagar, Distt. 24-Parganas (N) (West Bengal).
216.	All India Ulama Congress	No 20-24, Jafferabad Village, Gulbarga Taluka, District - Gulbarga, Karnataka
217.	All India Uzhavargal Uzhaippalargal Katchi	Door No.55, First Floor,Sinavar Street, Tiruppattur-635601,Tamil Nadu,CHENNAI.
218.	All India Women Democratic Freedom Party	No. 36, Ganesh Nagar, Near Ambedkar Nagar Bus Stop, 200 Feet Road, Kolathur, Chennai, Tamil Nadu – 600099.
219.	All India Women United Party	Room No-1, 4th Floor, A-117, Shubrati Apartment, Okhla Village, Jamia Nagar, New Delhi - 110025.
220.	All India Youth Development Party	4/286,Kallipuram Vattam,Vella Kuttai Village,Vaniyambadi Taluk,Vellore District,Tamil Nadu – 635752.
221.	All Indian Rajiv Congress Party	41/238, Alapur House, Radhakrishna Mandir Lane, Narhi, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
222.	All Indian Republican Party	Shop No. 4 in Street No. 33, Plot No. 2814, Mauja Bhanapeth, M.G. Road, Tehsil & District- Chandrapur, Maharashtra- 442401
223.	All Indians Party	Door No. 30-3-11, Assam Gardens, Visakhapatnam, Andhra Pradesh- 530020
224.	All J & K Kisan Majdoor Party	Standard Hotel, Saheed Chowk, Jammu, Jammu & Kashmir.
225.	All Jammu & Kashmir Liberal Democratic Party	M.P. Gali, Raj Bagh, Srinagar, Jammu & Kashmir.
226.	All Jammu and Kashmir Republican Party	1464, Mohalla Khwaja Bazar, Near Power Station, Anantnag, Pin Code -192101, Jammu and Kashmir.
227.	All Pensioner's Party	No.12D, PavodumThoppu, Nellorepet, Gudiyattam,Vellore District, Tamil Nadu - 632602.
228.	All Peoples Party	Door No. 1-138, Pallegunta Village. & Post,Gurazala Rural Mandal, Guntur District. Andhra Pradesh.
229.	Alliance of Democratic Reforms Party	Flat No. 106, Sai Sri Towers, 3-6-429/106, Himayath Nagar, Street No. 4, Hyderabad-500029.
230.	Allied Millennials Party of India	At-51,3 rd Street, Annai Theresa Nagar,Madipakkam,Chennai,Tamil Nadu - 600091

231.	Aman Aur Shanti Tehreek-E-Jammu & Kashmir	JK-E-Khdmak Markaz, K.P. Chowk, Khanabal, Anant Nag, Near Govt. Higher Secondary School, Jammu & Kashmir- 192101
232.	Aman Party of India	83, Sushila Vihar Phase – 1, Ward No. 2, Bhoad, Bulandshahr, Uttar Pradesh.
233.	Aman Samaj Party	V-1452, Street No. 4, Vijay Park, Delhi – 110053.
234.	Ambedkar Bahujana Samatha Party	08-7, Timmajipet (Vill. & Mandal), Nagarkurnool, Telangana - 503001
235.	Ambedkar Janatha Party	No. 57/1, Savimana Enterprises, Badrappa Layout, Kodigehalli, Nagashettyhalli, Main Road, Bagalore-560092, Karnataka.
236.	Ambedkar National Congress	8-3-323, Amreetpet Cross Road, Hyderabad (Andhra Pradesh).
237.	Ambedkar Peoples Movement	39. Saravana Street, T. Nagar, Chennai- 600017 (Tamil Nadu).
238.	Ambedkar Political Party	D.No.321/1S,S.Meenakshipuram,Sowdarpatti(P.O.),Thirumangalam(T.K.),Madurai(D.T.),Tamilnadu-625704
239.	Ambedkar Samaj Vikas Party	H.No.- 49, Mohalla- Tilak Nagar, Yamuna Nagar, Tehsil- Jagadhri, District- Yamuna Nagar, Haryana- 135003
240.	Ambedkar Sena Party	Village-Kabri,Near Ravidas Mandir,Tehsil and District-Panipat,Haryana-132013
241.	Ambedkar Vikas party	Village-Rohta,Indira Awas Colony,P.S.Sadar Bazar,Agara,Uttar Pradesh-282009
242.	Ambedkar Yug Party	240/71 F/3, Stainly Road, Kamla Nagar, Allahabad, Uttar Pradesh.
243.	Ambedkarbadi Party	136/1,Diamond Harbour Road, Kolkata-700063 (West Bengal).
244.	Ambedkarist Republican Party	Behind Rashtrabhasha Prachar Sammittee, Wardha-442001, Distt. –Wardha, Maharashtra.
245.	Ambedkarite Party of India	API, Central Secretariat, Plot No.1672, Near Buddha Vihar, Nara Road, Indora (Warpakhad), Nagpur-440014, Maharashtra
246.	Amma Makkal Munnettra Kazagam	New No.15, Old No. 8, Ground Floor, West Cott Road, Royapettah, Chennai-600 014,Tamilnadu
247.	Amra Bangalee	No.2, Ballav Street, Kolkata-700004 (West Bengal).
248.	Anaithindia Samudaya Munnetra Kazhagam	No.7/13, East Meda Street, Thiruvathipuram & Post Cheyyar Taluk – 604 407, Thiruvannamalai Distt., Tamil Nadu.
249.	Anaithindia Uzhaikkum Padaippali Vazhvirimai Katchi	No.27,Regunathapuram East Street,Devakottai,Sivagangai District,Tamil Nadu-630302
250.	Anaithindiya Samuthaya Makkal Katchi	80, Kuzhandhai Velan Lane, Main Road, Dindigul, Tamil Nadu – 624001.
251.	Anaithinthiya Thamizhaga Munnetra Kazhagam	10/2, Nalvar Nagar, Kalveerampalayam, Bharathiar University (Post) Coimbatore-641048 (Tamil Nadu).
252.	Anaithu India Makkal Katchi	No. 176/9, 37D, Taluk Office Road, Opp. To Police Quarters Hosur, Krishnagiri District, Tamil Nadu- 635109
253.	Anaithu Makkal Arasiyal Katchi	No 1/111,East Coast Road,Injambakkam,Chennai,Tamil Nadu- 600115
254.	Anaithu Makkal Katchi	No. 44, 2 nd floor, Narayanasamy Street, Pulianthope, Near Perambur Barrack Road, Chennai, Tamil Nadu- 600012
255.	Anaithu Makkal Munnetra Kazhagam	D. No. 199/416 (RS No. 177-1B), 1 st Floor, Arcot Road, Vadapazhani Chennai-600 026 Tamil Nadu.
256.	Anaithu Makkal Puratchi Katchi	No. 268, Amman Koil Street, Aladi Post- Viruthachalam(TK), Cuddalore(DT), Tamil Nadu - 606115
257.	Anaithu Ulaga Tamilargal Munnetra Kalagam	No.17,Ezhil Nagar,perumalpuram,Palyamkottai,Tirunelveli,Tamil Nadu-627007
258.	Anaithumakkal Neethi Katchi	D. No.11, Ground Floor, 8 th Street Extension, Ahimsapuram, Sellur, Madurai,Tamil Nadu - 625002.
259.	Anarakshit Samaj Party	H. No. 371, 1 st Floor, Mohalla - Sadhvada, Kaimganj, Distt. - Farrukhabad, Uttar Pradesh.

260.	Anbu Udhayam Katchi	12/11, Subash Illam, Theni – Gudalur – 625518, Tamilnadu.
261.	Andaman & Nicobar Janta Party	Garacharma Village, TTI Road, Tehsil - Port Blair, District - South Andaman, Andaman & Nicobar Islands - 744103.
262.	Andaman Nicobar Democratic Congress	Vill. & P.O. – Ramakrishnapur, Little Andaman, A & N Islands – 744207
263.	Andhra Chaitanya Party	Door No. 12-20-3, Gudu Street, Bheemunipatnam, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh- 531163
264.	Andhra Pradesh Rashtra Samaikya Samithi Party	H. No. 11-8-118/2(Old), 11-8-99/84(New), Narsimhapuri Colony, Ashtalakshmi HYD-VIJAYAWADA Highway, Hyderabad-500 035, Andhra Pradesh.
265.	Andhra Pradesh Rashtra Samithi	Door No. 15-8-158/B, Jakeer Hussain Nagar, 3 rd Lane, Nandivelugu Road, Old Guntur, Guntur District, Andhra Pradesh- 522001
266.	Andhra Rastra Praja Samithi	Behind AC Stadium, Koneyapalem Gate, Dargamitta, Nellore, Andhra Pradesh-524001
267.	Angika Samaj Party	Aanand Ashraya, P.O- Old Jute Mill, Sharifganj, Ward No. 42, District- Katihar, BIHAR-854105.
268.	Anjaan Aadmi Party	House No. 391/117A/1, Radha Nagar Colony, Phulwariya Road Daraganj, Allahabad Uttar Pradesh.
269.	Anjuman Party	House No. 95, Nijaatpura, Nazarali Marg, Kotwali Road, Ujjain, Madhya Pradesh- 456006.
270.	Anna Democratic Human Rights Movement Party of India	Amla Bhavan, thrikkannamangal, Kottarakkara, P.O.- Kollam, Kerala- 691506
271.	Anna Dravidar Kazhagam	No. 8/1, Cutchery Road, Thiruthuraipoondi, District- Thiruvarur, Tamil Nadu- 614713
272.	Anna M.G.R. Jayalalitha Dravida Munnetra Kazhagam	1/213, Thirusakthimutram, Keelaveethi, Patteshwaram, Kumbakonam (Taluka), Thanjavur (District), South India, Tamil Nadu - 612703
273.	Anna Makkal Iyakkam	No. 660, R.K.J. Vallivelan Nagar, Pammathukulam, Pothur Village, Ambattur Taluk, Chennai, Tamil Nadu-600052
274.	Anna Makkal Katchi	No.20C, Railway Station Road, Chinnasalem Vilupuram, Tamil Nadu-606201
275.	Anna MGR Dravida Makkal Kalgam	No.150, 3 rd Cross Street, Srilakshmi Nagar, Alwarthirunagar, Chennai, Tamil Nadu- 600087
276.	Anna MGR Dravida Munnetra Kazhagam	H. No. – 176, Ward No. – 5, East Street, Palodai Colony, Aanaimalaiyanpatty, Uthamapalayam – Taluk, Theni – District, Tamil Nadu – 625526.
277.	Anna Puratchi Thalaivar Amma Dravida Munnetra Kazhagam	No. 1/424, Thotathupalayam, Lakshmi Nagar, Pooluvapatti (Post) Tiruppur, Tamil Nadu- 641602.
278.	Anna YSR Congress Party	D.No. 7/2-2, Chilakalabavi Street, Kadapa, Andhra Pradesh- 516001
279.	Annadata Party	Village- Baghala, Post- Dubha (Via- Jasara), P.S. Lalapur, Tehsil- Bara, District- Prayagraj, Uttar Pradesh- 212107
280.	Annan Tamilaga Rising Kazhagam	223, GST Road, Chromepet, Chennai, Tamil Nadu-600044
281.	Anndata Karigar Party	Ganiyare- Badhan, District- Singrooli, Madhya Pradesh- 486886
282.	Anti Corruption Dynamic Party	Plot no. 52, Ganesh Nagar, Veppampattu – Village, Thiruvellur- District, Tamil Nadu- 602024
283.	Apna Dal Bahihari Party	Village- Mahakharpur, Post- Raghavapur, Tehsil- Harraiya, Distict- Basti, Uttar Pradesh-272155
284.	Apna Adhikar Party	Masiha Drug House, Line Bazaar, Purnia, BIHAR.
285.	Apna Bharat Vikas Party	Village - Kashipur (Mishra Newri), District - Ballia, Uttar Pradesh – 277 001
286.	Apna Bharatiya Sanatan Party	Jay Shesh Market, Village Kirtar Tara, Post- Birshahpur, Distt.-Mirzapur, Uttar Pradesh- 231001
287.	Apna Dal	1/2A.P. Sen Road, Lucknow, (U.P.).
288.	Apna Dal (Kamerawadi)	126/17-B.B.N. Road, Lalbagh, Distt.-Lucknow Uttar Pradesh- 226001

289.	Apna Dal United Party	Village – Siswa, Post & P.S. – Kasya, District – Kushinagar, Uttar Pradesh – 274402
290.	Apna Desh Party	H. No. – 457, Majorganj, District - Sultanpur, Uttar Pradesh
291.	Apna Kisan Party	Amla Tola, Ward No- 30, Hotel Jai, New Market, Katihar, Bihar- 854105
292.	Apna Raj Front	House No.1096, Sector-7, Bahadurgarh, Haryana.
293.	Apna Samaj Party	SCF- 49, Phase 3B2, Mohali, Punjab- 160059
294.	Apna Sangharsh Kisan Ekta Party	2379/2, Krishna Nagar, Aarti Chowk, Near Aman Hospital, Super X-Ray Wali Gali, Ludhiana, Punjab – 141001
295.	Apni Ekta Party	Near Old Tehsil Complex, Jhaloor Road, Vil -Sherpur, Tehsil-Dhuri, Distt.- Sangrur, Punjab – 148025
296.	Apni Janta Party	735/4, (1286/60), Gali No.13, Siddharth Puram (Chauhan Puri), Nai Basti, Lallapura, Distt. Meerut, Uttar Pradesh-250002
297.	Apni Jantantrik Party	H. No. 234-K, Sankat Mochan Bhawan, Village and Post- Amarapur Aun, District- Unnao, Uttar Pradesh- 209827
298.	Apni Party (Secular)	Village - Unchi Dankaur, Town - Dankaur, District- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh- 203201
299.	Apni Party India	F-4/149, 2 nd Floor, Sector-16, Rohini, New Delhi- 110089
300.	Apni Prajahit Party	Plot No. 12, Din Praja Hit Colony, Opposite Shree Complex, Narendra Nagar, Vivekanand Nagar, Nagpur, Maharashtra-440015
301.	Apni Zindgi Apna Dal	A-119, Ground Floor, Near- Angel Mega Mall, Kaushambi, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201010.
302.	Appamma Makkal Kazhakam	3/59, Mariyamman Kovil Street, Ammapalayam Post, Perambalur Tk. & Dist., Tamilnadu - 621101.
303.	Arjak Adhikar Dal	No.128/169/26A, K-Block, Kidwai Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh-208011
304.	Arunachal Congress	G- Extension, Naharlagun (Arunachal Pradesh)
305.	Arya Dal	Central Camp Office – 775, Shanti Colony, Itawa, Uttar Pradesh.
306.	Aryavart Party	Village & Post – Barsaina, Thana – Ahirauli, District – Kushinagar, Uttar Pradesh – 274207
307.	Asankhya Samaj Party	A-490, Gali No. 22, Shyam Colony, Buddh Vihar, Phase –2, Delhi-110086.
308.	Asli Bharat Party	C-48, South Extension, Part-I, New Delhi- 110049
309.	Asli Deshi Party	Shop No. 10, First Floor, B- Block, Central Market, Dilshad Garden, Delhi- 110095
310.	Asom Jana Morcha	Ward No. 25, Village- Azad Nagar, P.O.- Chutahaibor, Mouja- Nij Sahar, P.S & District- Nagaon, Assam- 782002.
311.	Asom Songrami Mancha (Asom)	H.No.5A, Rajgarh Bye Lane No.4, Guwahati, Assam-781003
312.	Assam Dristi Party	Doom Dooma Pather Gaon, P.O.-Hansara, District- Tinsukia, Assam- 786790.
313.	Assam Jatiya Parishad	First floor of house no. 33, Lamb Road, Uzan Bazar, Guwahati, PS. Latasil, PO. Uzan Bazar, District – Kamrup(M), Assam – 781001
314.	Atal Janshakti Party	Village- Yarta, Post- Sikandarpur, Tehsil- Hariya, District- Basti, Uttar Pradesh- 272190
315.	Atulya Bharat Party	91, Pili Kothi, Near Guruharikishan Public School, Hari Nagar, New Delhi-110064.
316.	Autonomous State Demand Committee	Rongniheng, Diphu-782460, Karbi Anglong (Assam).
317.	Avirat National Seva Party	#24, Sri Lakshmi Nilaya, 1 st Block, 2 nd Cross, Akshay Nagar Bengaluru, Karnataka - 560016.
318.	Awami Aamjan Party	New Adarsh Nagar, Ashapura Colony, Jalore, District-Jalore, Rajasthan-343001
319.	Awami Party	E-11/77, New Colony, Hauzrani, Malviya Nagar, New Delhi-110017.
320.	Awami Samta Party	Building No.631/135, Pani Gaon, Sector – 9, Post – Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226016
321.	Awami Vikas Party	606/607, Zayfreen Chambers, Oil Depot Road, Opp. Sewree Railway Station, Sewree (E), Mumbai, Maharashtra - 400015
322.	Ayya Munnetra Kazhagam	Door No.180/128, Thirugnanasambandar Road, Race course, Coimbatore Tamil Nadu - 641018
323.	Azad Bharat Congress	218, Second Floor, LSC Market, Block –A, Samarat Enclave Pitampura, New Delhi- 110034.
324.	Azad Bharat Party (National)	Village- 50 Kutiya Rampur, Pargana & Tehsil- Narwal, District- Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 209401
325.	Azad Bharat Party (United)	D-59/14A/-1/A, Shivpurva, Rathyatra Road Mahmoorganj, Varanasi, Uttar Pradesh- 221010
326.	Azad Janata Party	208, Dhilian Complex, Akashganga Supaila, Bhilai, District - Durg, Chhattisgarh.

327.	Azad Kranti Party	H.No. 559, Block- G, Scheme No. 40, Panki, Gangaganj, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208020
328.	Azad Mazdoor Kissan Party	D-4, Prem Nagar-III, Shani Bazaar Road, Kirari Nahar, Nangloi, New Delhi-110086.
329.	Azad Party	Khanuhat, Block- Motigarpur, Sultanpur, Uttar Pradesh- 228132
330.	Azad Samaj Party	Village – Mandusara Bujurg, Post - Fatehpur, P.S. – Ranipur, District – Mau, Uttar Pradesh - 276402.
331.	Azad Shivalik Bharat Party	Up-Mahal, Village-Dangoli Khewat, No. 58, Khatoni No. 218, Khasra No. 109, Tehsil-Una, District-Una, Himachal Pradesh- 174303
332.	Azhagu Tamil Desiyam	TI, Third Floor, Land Marvel Apartments 30, Sadayappan Street, Mandaveli, Chennai Tamilnadu – 600028
333.	B.C. Bharatha Desam Party	H.No.12-13-426, Street No.1, Tarnaka, Hyderabad – 500 017 Andhra Pradesh.
334.	B.C. United Front	15, Saptagiri Nagar, Rethi Bowli, Hyderabad – 500 028, Andhra Pradesh.
335.	Backward Classes Democratic Party, J&K (BDP)	Peer Bagh Colony, Opp. Army Gate, Sunjwan Road, Jammu, Jammu & Kashmir – 180 004.
336.	Badavara Shramikara Raitara Congress Party	1/A, Parvathi Nagar Main Road, Bellary-583103 Karnataka
337.	Bahadur Aadmi Party	S-11/37-38A, Chaukaghat, Varanasi, Uttar Pradesh-221002
338.	Bahadur Insan Nagrik Dal	Khata No.678, Village Tema Z. Sherpur, Post Gaura, Distt. Bhadohi, Uttar Pradesh- 221404
339.	Bahujan Andolan Party	Shahajipura, Saraytareen Sambhal, Near Prathama Bank, District Sambhal, Uttar Pradesh- 244302.
340.	Bahujan Awam Party	H. No. 52/42/A/2, Edmasten Road, Tashkand Marg, Civil Line, Allahabad, Uttar Pradesh.
341.	Bahujan Azad Party	Village- Sagram Fandah, Post Office & Police Station- Riga, District- Sitamarhi, Bihar-843327
342.	Bahujan Bal Party	D.S.-50/G-II, LDA Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh
343.	Bahujan Bharat Party	Vatsalabai Mohan Kamble, Dharavi Kumbharvada, 90 Foot Road, V.O.C., Mumbai City, Maharashtra- 400017
344.	Bahujan Dravida Party	House No. 6659, Block No. 9, Dev Nagar, Karol Bagh, New Delhi- 110005
345.	Bahujan Gondwana Party	Ward No. 8, Behind Ram Janki Temple, Burhar, District- Shahdol, Madhya Pradesh- 484110
346.	Bahujan Hasrat Party	Village- Kharuwanwa, post- Kunwar Pur, Tehsil- Machhlisahar, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222202
347.	Bahujan Kranti Party (Marxwad- Ambedkarwad)	Village – Dhansua, Post – Central Jail, Fatehagarh, Distt. Farrukhabad, Uttar Pradesh – 209 601.
348.	Bahujan Lok Dal	Nadraganj Ramsagar Road, Masjid Gali (Bdi Daha), Gaya, Bihar-823001
349.	Bahujan Lokrajya Party	Maitra Niwas, Tembhurni Road, Kurduwadi Tal - Madha, District- Solapur, Maharashtra- 413208
350.	Bahujan Maha Party	B-245, Street No. 2, Mandawali, Fazalpur, Near Sadbhavna Apartment, Back of Mother Dairy, Delhi-110092.
351.	Bahujan Mazdoor Party	Khasra No. 249, Village- Sikrari, Tehsil- Tundla, P.S. Pachokhra, Janpad/District- Firozabad, Uttar Pradesh- 283204
352.	Bahujan Mukti Party	Flat No. 14, Aasha Pushp Vihar, Sahkari Aavas Samiti, Sector – 14, Kaushambi, Gazhiabad, Uttar Pradesh.
353.	Bahujan Nyay Dal	596/1, New Paharpur, Police Colony, Thana- Gardnibagh, Post- Anisabad, District- Patna, Bihar- 800002
354.	Bahujan Party	125/98, New L.I.G. Barraha –7, Kanpur-208027 Uttar Pradesh.
355.	Bahujan Rayat Party	198K-E, Datt Ho, Sosa Rabade Colony, Kolhapur, Maharashtra – 416001.
356.	Bahujan Republican Ekta Manch	Hardas Nagar, Kamptee, District Nagpur, Maharashtra.
357.	Bahujan Republican Socialist Party	4/17, B.D.D, Worli, Mumbai, Maharashtra-400018.
358.	Bahujan Sadan Morcha	Isari Bazar, Post - Isari Bazar, District – Giridih, Jharkhand-825107.

359.	Bahujan Samaj Party (Ambedkar)	H.No.- B-33/103, Mohalla Shehrian, Kapurthala, Punjab’.
360.	Bahujan Samaj Party (Ambedkar-Phule)	H.No. V-25, Sandhya Venus Apartment S.P.Nagar, Moula-ali, Hyderabad, Andhra Pradesh
361.	Bahujan Samaj Vikas Party	20-B.D.S. Commercial Market, Village – Sadarpur, Sector- 45, Post Office- Arun Vihar, Sector – 37, Noida, Janpad – Gautambudhnagar, Uttar Pradesh.
362.	Bahujan Samajwadi Party (Baba Saheb)	53-54, 1 st Floor, Commercial Complex, South Patel Nagar, In Front of Metro Pillar No. 190, New Delhi - 110008.
363.	Bahujan Samyak Party (Mission)	83K/1, Rithora, Bareilly, Uttar Pradesh- 243122
364.	Bahujan Sangharsh Dal	Opposite Padav Police Station, Laxmanpura, P.O. Laskar, (Gwalior), Madhya Pradesh.
365.	Bahujan Sangharsh Party (Kanshiram)	Bahujan Bhawan, Khabbashpur, Post-Malikipur, Zila-Ropar, Punjab.
366.	Bahujan Sena	124A/G-1, Sector-6, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201012
367.	Bahujan Sewa Party	899, Phoolbag Colony, Kursi Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226021
368.	Bahujan Shoshit Samaj Sangharsh Samta Party	DDA shop No.16, First Floor, CSC No. V. Sector-5, Rohini, Delhi- 110082
369.	Bahujan Suraksha Dal	1/7, G.H. Board, Hardasnagar, Stadium Road, Old Bapunagar, Ahmedbad-380024 Gujarat.
370.	Bahujan Utthan Party (G)	Village- Lonapur, Mazra-Vilai Kheda, Near Purva Madhyamik School Lonapur, Post- Laulai, Tehsil/Pargana - Sadar, District- Lucknow, Uttar Pradesh- 226028
371.	Bahujan Vijay Party	98/5, Post Office Gali, Village – Khutbhar, Post & Tehsil – Khajani, District – Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273212.
372.	Bahujan Vikas Aaghadi	A-301, Arti Apartment, Vartak Raod, Virar (West), Taluka – Vasai, District – Thane, Maharashtra-401 303.
373.	Bahujana Desham Party	Door No. 4/32, Gaddameeda Harijana Wada, Singareddy Palli, Penagalur Mandal, Y.S.R., Kadapa- District, Andhra Pradesh- 516127
374.	Bahujana Left Party	H.No. 6-73, SC Wada, Peddalingapur Village, Mandal Illanthakunta, District- Rajanna Sircilla, Telangana State- 505405
375.	Bahujana Raajyam Party (Phule Ambedkar)	H.No- 4-33-163, Venkateshwara Nagar, Kukatpally, Pipe line Jagadgirigutta, Balanagar Mandal, Medchal District, Hyderabad, Telangana- 500037
376.	Bahujana Rashtra Samithi	Plot No. 34/2, Lalithanagar, West Marredpally, Secunderabad, Telangana- 500026.
377.	Bajjikanchal Vikas Party	Sahjanand Nagar, Bhagwanpur, N.H. 28, Muzaffarpur – 842002 (Bihar).
378.	Baliraja Party	Plot No. 1, Commercial Complex, Prithviraj Nagar, Belatrodi road, Nagpur, Maharashtra- 440034.
379.	Banchita Swaraj Party	117, No., Dr. B.R. Ambedkar Road, P.O. and P.S.-Nalhati, District-Birbhum-737220, West Bengal.
380.	Banga Bharat Party	Vill.- Ghanashyampur, P.O.- Purandarpur, P.S. Kandi, Distt.- Murshidabad, West Bengal - 742140
381.	Bangali Nabanirman Sena	C/o Supriya Das, Chengkuri Road, Eastern Bye Lane, P.O. – Ambicapatty, P.S. – Silchar Sadar, District – Cachar, Assam - 788004.
382.	Bangla Bikashbadi Congress	Yusufgnaj Afaque Nagar, Near Golghar-Chabutara House, P.O & P.S- Islampur, District- Uttar Dinajpur, West Bengal- 733202
383.	Bengaluru Nava Nirmana Party	101, Brigade Paramount, 5, Old Madras Road, C.V. Raman Nagar, Bengaluru - 560093
384.	Berojgar Aadmi Adhikar Party	D-2/329, Shiv Durga Vihar, Lakkarpur, Faridabad, Haryana.
385.	Bhaarateeya Janashakthi Congress	D.No. 4-148/A, Paniyoor Road, Udupi - District, Uchila, Karnataka-574117
386.	Bhagidari Kranti Dal	Village & Post – Mawai Padiyana, Block – Sarojni Nagar, Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh – 226008.
387.	Bhagidari Party(P)	30/5B/4, South Lokpur, Naini, Distt – Prayagraj, Uttar Pradesh- 211008
388.	Bhapase Party	Village – Massa (Khn), Tehsil – Kalam, District – Usmanabad, Maharashtra - 413507.

389.	Bharastachar Apraadh Mukh Nyay Dal	H. No. – A-1061, Sector- I, L.D.A.Colony, Kanpur Road, Post- L.D.A. Colony, District- Lucknow, Uttar Pradesh- 226012
390.	Bharat (Integrated) Rakshak Party	H. No. - B-98, Mayfield Garden, Sector -50, Gurugram, Haryana -122018.
391.	Bharat Bharati Party	38,Kaushalpuri,Gaumati Nagar Extension,Gali No. 10,Lucknow,Uttar Pradesh - 226010
392.	Bharat Bhavishya Party	House No. 94 S, Village -Mugeeshpur, P.S. - Taarun, Post – Chandrikaganj, District – Faizabad, Uttar Pradesh – 224141.
393.	Bharat Bhoomi Party	House No. 48, Village- Khapri (Taandpara), Post Office- Pakaria, Tehsil – Pamgarh, Thana- Mulmula, District- Janjgir-Champa, Chhattisgarh- 495553
394.	Bharat Dal	Bharat Sevadham Aranyak, Krantideep Mourana, Nurpur, Distt. Bijnaur (U.P).
395.	Bharat Ekta Mission Party	171/123,Aaraghar,Distt.-Dehradun,Uttarakhand- 248001
396.	Bharat Gaurav Party (India)	13/543,Sector-13,Indiranagar,Lucknow,Uttar Pradesh-226016
397.	Bharat Jago Janta Party	New Market, Sahara India Bank Building, High School Para, Katihar, Patna, Bihar- 854105
398.	Bharat Jan Aadhar Party	Flat No. 4, Kurla Amar CHS Society, Opp. Janseva Petrol Pump, Kale Marg, Kamani, Kurla (West), Mumbai, Maharashtra- 400070
399.	Bharat Jan Jagran Dal	Ward No. -5,Nara Parsauni,Bhairaganj,West Champaran,Bihar-845106
400.	Bharat Jan Shakti Party	H.No. 15/281, Shakti Nagar, Shukla Ganj, District- Unnao, Uttar Pradesh- 209861
401.	Bharat Jansangram Party	H. No. 366, Ahilya, New Shangani Nagar, Post- HVPM, Amravati, Maharashtra- 444605.
402.	Bharat Janta Dal (Tughlaq)	Village- Nirmani, Post- Nirmana, Block- Baghra, Thana- Shahpur, Dist- Muzaffarnagar. Uttar Pradesh.
403.	Bharat Jodo Party	Mohammad Ali Marg, 786/1, Jogi Nawada, Near Barkhandi Nath Mandir, Bareilly, Uttar Pradesh- 243006.
404.	Bharat Ka Kisan Majdoor Party	Village-Baliyan (Nayan Nagar),Post – Baliyan,Maharajganj, Siwan,Bihar-841506.
405.	Bharat Kalyan Party	Village – Mevli, Tehsil – Kheragarh, District – Agra, Uttar Pradesh- 283115
406.	Bharat Kaumi Dal	Village – Lathardeva Hoon, Post – Jhabreda, District – Haridwar, Uttarakhand.
407.	Bharat Ki Lok Jimmedar Party	3/250, Vishwas Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (Uttar Pradesh).
408.	Bharat Kranti Rakshak Party	Barakkatpur, Post-Badagaon,Distt.-Koshambi, Allahabad, Uttar Pradesh.
409.	Bharat Labour Praja Party	4-25, Seethanagar Colony, Somulagudem (P), Palvanha (M), Khammam District- 507115, Andhra Pradesh.
410.	Bharat Lok Sewak Party	Shop No. 16, D-Block Market, Pushpanjali Enclave, Pitampura, New Delhi- 110034
411.	Bharat Mahaparivar Party	1286, Ground Floor, DDA Market, New Meena Bazar, Seemapuri, Delhi- 110095
412.	Bharat Mata Party	Village & Post – Katka, District – Mirzapur, Uttar Pradesh
413.	Bharat Mata Saput Party	Village- Dehariya Daya Ram, Post- LoharaKhas, District- Bhadohi, Uttar Pradesh- 221303
414.	Bharat Naman Party	Village & Post - Manshapur, Block - Katehari, Dist. - Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh - 224168.
415.	Bharat Nav Nirman Party	A – 2, Nitesh Villa, Vivekanand Colony, Nayakhera, Ambabari,Jaipur- 23,RAJASTHAN.
416.	Bharat Navnirman Voter Sena	1255-F, Basantvihar,Kanpur-208021Uttar Pradesh.
417.	Bharat Nirman Party	High School Road,P.O.-Triveniganj,Distt.-Supaul-852139,Bihar.
418.	Bharat Nyay Dal	N. H. – 58, Delhi By-Pass Road, Gopal Vihar, H. No. 48, Meerut, Uttar Pradesh.
419.	Bharat Parivar Party	Bharat Hridya Ashram, Mohalla- Karaccha, Jawalapur, Haridwar, Uttarakhand- 249407.
420.	Bharat Peoples Sena	Plot No. 6-4-787, Phule Nagar, Somnathpur Road, Taluk- Udgir, District- Latur Maharashtra.
421.	Bharat Prabhat Party	105, 1 st Floor, A.G.C.R. Enclave, Near Karkardooma Court, Delhi- 110092
422.	Bharat Rakshak Party (Democratic)	Village Post Pakka Saharna,Tehsil Zila Hanumangarh, Rajasthan.

423.	Bharat Swabhiman Party	55/1/228, Ground Floor, Bhavapur, G.T.B.Nagar, Karelie, Prayagraj, Allahabad, Uttar Pradesh- 211016
424.	Bharat Uday Mission	C-3/4, Suman Nagar, V.N. Purav Marg,Chembur, Mumbai – 400071.
425.	Bharat Utthan Party	Village- Harni Ausari, Pragana-Hissampur, Post- Arai Umri Tehsil- Kaiserganj, District-Bahraich, Uttar Pradesh - 271904.
426.	Bharat Vahini Party	Matrimandir, Plot No. E-185, Ram Path, Shyam Nagar, Jaipur, Rajasthan- 302019.
427.	Bharat Vaibhav Party	C-4,Shivdham Welfare Society,Near B.M.C. Colony,M.D. Nagar,Nalasopara East,Palghar,Maharashtra – 401209
428.	Bharat Vikas Morcha	Sekhpura Road, Madhupur, Distt. Devghar, Jharkhand.
429.	Bharat Vishal Party	A/6A, DDA Flat, Munirka, New Delhi – 110067.
430.	Bharateeya Bahujana Praja Rajyam	D. No. 956, Arundelpet, 10th Lane, Guntur-522 002 Andhra Pradesh.
431.	Bharateeya Manavadhikar Party	21, Rajendra Mullick Street,Kolkata – 700007,West Bengal.
432.	Bharath Dharma Jana Sena	Building No.V/489, Mararikkulam North Panchayat, East of Kanichikulangara Temple, Mararikkulam North Village, Cherthala Taluk, Alappuzha (Dist), Kerala - 688544
433.	Bharath Praja Spandana Party	D.No. 2-42, Kalavacharla Village, Nidadavole Mandal, West Godavari District, Andhra Pradesh.
434.	Bharath Samaj Devlop Party	D. No. 40-31-26, Dharama Nagar, Visakhapatnam, Andhra Pradesh- 530008.
435.	Bharatha Makkal Katchi	Near Door No. 44 & 45 (Old Door No.38), S.S. Colony, Ponmeni Narayanan Street, Distt.-Madurai, Tamil Nadu - 625016
436.	Bharatha Prajaakeeya Party	H. No.-3-175/1, Bodhampally(Village),Dabba(Post),Koutala(Mandal),Kumarambheem Asifabad(District),Telangana State – 504299
437.	Bharatha Sevai Katchi	No. 1 & 2 Gooms road, Parrys, Chennai, Tamil Nadu - 600001
438.	Bharatheeya Chaithanya Party	D. No. 9-186/7, High School Road, Venkat Nagar, Kadiyam, East Godavari District, Andhra Pradesh – 533103
439.	Bharatheeya Jawan Kisan Party	XL,VI/2694(SB/S/867H),P.O. Civil Station,Near Sannidhanam Tourist Home & Best Engineering,Kannur,Kerala – 670001
440.	Bharatheeya Sadharma Samsthapana Party	House No.3/17, Dorasani Palli, Proddatur Mandal, Kadapa District, Andhra Pradesh.
441.	Bharathiya Praja Seva Party	D.No. 6-3-360/1,Sri Krishna Devaraya Nagar,Badvel townl,YSR Kadapa - District,Andhra Pradesh- 516227.
442.	Bharathiya Belaku Party	No. 54, Govt. School Road, Village- Gopannahalli, Taluka- Maddur, District- Mandya, Bengaluru, Karnataka- 571422
443.	Bharathiya Pragnavantha Congress	No. 60c, 80 Feet Road, ITI Layout, Mallathahalli, Nagarrabhavi Ward, Bangalore, Karnataka- 560056
444.	Bharatiy Aam Janta Adhikar Party	101-D,East Luxmi Market,Patpar Ganj Road, Gali No.-4,Delhi-110092
445.	Bharatiya Aam Awam Party	Saristabad, Indrapuri Path, Gali No. E, Gardanibagh, Patna, Bihar- 800001
446.	Bharatiya Aamjan Party (Vivekanand)	150, Ganesh Colony, Gali No. 8, Near Jain Mandir, Jhothwada, Jaipur, Rajasthan- 302012
447.	Bharatiya Aavaam Ekta Party	23C, Sector A, SainikVihar, Nanda Nagar, Kuraghat, Gorakhpur, Uttar Pradesh.
448.	Bharatiya Atragami Dal	44,Sri Krisna Nagar,Road No.1,P.S.Budha Colony,Patna,Bihar-800001
449.	Bharatiya Ambedkar Party	Main Bazar, Krishna Nagar, Jaura Fatak, Amritsar (Punjab).
450.	Bharatiya Apna Samaj Party	LIG-A/LGF-03,Yashodhara Kunj Awasiya Yojna,Gorakhpur,Uttar Pradesh- 273016.
451.	Bharatiya Asha Party	H. No. 590,Village-Bharan,Near Govt. High School,Tehsil-Meham,District-Rohtak,Haryana- 124111

452.	Bharatiya Awam Taaqat Dal	Village- Sujanidih (Rampur), Post- Sohansa (Mungara Badshapur), Tehsil- Machhlishahar, Distirct- Jaunpur, Uttar Pradesh-222204
453.	Bharatiya Backward Party	71, Surya Apartments, Fraser Road, Patna –800001 (Bihar).
454.	Bharatiya Bahujan Congress	117, Khodiyar Krupa Soc.,Nr. Kantareshwar Mahadev Temple, Katargam, Surat, Gujarat
455.	Bharatiya Bahujan Parivartan Party	Khasra No. 139/2, Vill. – Lakhwaya Rasoolpur, Rohta Road, Meerut, Uttar Pradesh.
456.	Bharatiya Bahujan Party	156, Bharauli, Shahganj, Jaunpur, Uttar Pradesh.
457.	Bharatiya Bahujan Samta Party	Village & Post- Surjannagar, District- Moradabad, Uttar Pradesh-244602.
458.	Bharatiya Berojgar Party	Village-Kanta Karaundi , Post- Meerak Nagar, Police Station- Nigoha, Tehsil- MohanlalGanj, District- Lucknow, Uttar Pradesh- 226302
459.	Bharatiya Chhatrasangh Bharat	Premghan Marg, Badli Ghat, Mirzapur, Uttar Pradesh-231 001.
460.	Bharatiya Congress Paksha	Kasba Peth, In Front of Linbuwali Sawari, Post-Barshi, District- Solapur, MAHARASHTRA.
461.	Bharatiya Democratic Socialist Alliance Party	H.No.198, Mohalla- Katchhpura (Shakya Nagar), Ward No.8, P.O- Raja ka Rampur, District- Etah Uttar Pradesh.
462.	Bharatiya Development Party	Building No.14/54,S B Building, Opposite Sree Krishna temple, Asramam, Kollam, Kerala-691002
463.	Bharatiya Dr. B.R. Ambedkar Janata Party	No.18, 12th Cross, MTS, Layout, Kengeri Upanagara, Bangluru- 560060 KARNATAKA.
464.	Bharatiya Eklavya Party	Village and Post Belhar Kalan, Tehsil Mahdawal, District Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh.
465.	Bharatiya Ekta Dal	189, Basant Apartment, Vasant Vihar, New Delhi – 110057.
466.	Bharatiya Gana Parishad	House No. 3, Bye Lane No.4, Ward No. 16, Bishnu Rabha Path, Lalganesh (Odalbakhra), P.S- Dispur, District- Kamrup Metro, Guwahati, Assam -781034
467.	Bharatiya Gaon Taj Dal	Village-Kuka, P.O. – Maqsubpur, District Kapurthala, (Punjab).
468.	Bharatiya Gorkha Prajatantrik Morcha	47/1, Victoria Road, Ward No. 17, P.O., P.S. & District - Darjeeling, West Bengal.- 734101.
469.	Bharatiya Grameen Dal	Aryavart Prakashan Mandir, Bus Stop Gosaiganj, Janpad- Lucknow, Uttar Pradesh.
470.	Bharatiya Hindu Sena	G-17, Ridhi Sidhi Tower, Sector-5, Plot No.4, Near Sun and Moon Tower, Vidhadhar Nagar, Sikar Road, Jaipur, Rajasthan-302023.
471.	Bharatiya Hitrakshak Party	No.33 Meera Niwas, Pushkar Park, Baben, Near Baben Prathmik Shala, Taluka – Barodoli, District – Surat, Gujarat- 394601
472.	Bharatiya Inqalab Party	Village – Rana Pratap Nagar, Islampur, Post & P.S. – Islampur, Distt. – Nalanda, Bihar. (Pin – 801303)
473.	Bharatiya Jai Bheem Party	1304, Bhantlaiya, Sindhi Camp, Distt. Jabalpur, Madhya Pradesh.
474.	Bharatiya Jan Berojgar Chhatra Dal	Near R.T.O. Office, Hussainganj, Siddharth Nagar, Uttar Pradesh.
475.	Bharatiya Jan Jagriti Party	Brijdham Ashram, Ranhera, Tehsil-Chhata, District-Mathura (Uttar Pradesh).
476.	Bharatiya Jan Kranti Dal (Democratic)	F-23, Sainik Society, Shakti Nagar, Jabalpur, Madhya Pradesh.
477.	Bharatiya Jan Morcha Party	Ward No.–1, Satna Road, Amarpatan, District – Satna, Madhya Pradesh - 485775
478.	Bharatiya Jan Sabha	C/o Raja Ram Yadav, Raghuvir Nagar, New Colony, Devaria (U.P).
479.	Bharatiya Janchetna Dal	No.70, LIG Indra Nagar, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208026
480.	Bharatiya Jankranti Party	12/17, Chakkuwala, Dehradun, Uttarakhand.
481.	Bharatiya Jantantra Sanrakshan Vikas Party	Village – Panditpur, P.S. and Anchal - Piprakothi, District – Purwi Champaran, Bihar – 845429

482.	Bharatiya Kamera Varg Party (Kanshiram)	House no. 198, Pataudi Road, Near I.T.I., Rewari, Haryana -123401.
483.	Bharatiya Karyasth Sena	121, Vishnu Colony, Shahganj, Agra-282010. Uttar Pradesh.
484.	Bharatiya Kisan Parivartan Party	Nagla Dakhal, Kotla Road, Ferozabad-283203, District Ferozabad, Uttar Pradesh.
485.	Bharatiya Kisan Rajnaitik Dal	Plot No-04,Khasra No. 151/01,Semra Gaudhi,Madigawn,Sita Road,Lucknow,Uttar Pradesh- 226021
486.	Bharatiya Kisan Sena Loktantrik	House No. 392/1, Chak Raghunath, Naini, Allahabad, Uttar Pradesh.
487.	Bharatiya Liberal Party	C-79, 1 st floor, Gali No. 4, Radhey Shyam Park Extension, Radhey Shyam Part Exnt. Colony, Ghondli Ward, Krishina Nagar, Delhi- 110051
488.	Bharatiya Lok Sena	Lower Ground Floor, Office No. – 2, Building No. – A.- 212-C, Tirupati Plaza, Street No. -1, Shakarpur Vikas Marg, Delhi- 110092.
489.	Bharatiya Lokshakti Party	371-5,Beghar Vasahat,Main Road Majale,Taluka-Hatkanangale,District-Kolhapur,Maharashtra- 416109
490.	Bharatiya Majdoor Janta Party	Village – Lalpura, Post – Kukthari (Pinahat),Tehsil – Bah, District – Agra, UTTAR PRADESH - 283123.
491.	Bharatiya Minorities Suraksha Mahasangh	410, Arcadia Building, Sir J.J.Road, Opp. J.J.Hospital Mumbai-400008 (Maharashtra).
492.	Bharatiya Momin Front	174, Anand Puri, West Boring Canal Road, Patna-800001 (Bihar).
493.	Bharatiya Mool Niwasi Samaj Party	77/129, Bhagat Singh Colony, Tarla Adhoiwala, Dehradun, Uttarakhand.
494.	Bharatiya Mulnivasi Aazad Party	At-Room No. -601,Building No.-3,Avenue-H,Rustumjee Evershine Global City,Virar West,Distt.-Palghar,Maharashtra- 401303
495.	Bharatiya Nagrik Party	Village Kanasi, P.O. Kanasi, Distt. Farukhabad-207501(Uttar Pradesh).
496.	Bharatiya National Janata Dal	701 A, 7th Floor, Meghmalhar Complex,Sector No.11, Gandhinagar, Gujarat – 382010.
497.	Bharatiya Nav Kranti Party	Village- Makhmailpur, Post-Saraikhwaja, Distt.- Jaunpur, Uttar Pradesh.
498.	Bharatiya Navyuvak Party	H. No. 572, Bye Saheb Ki Pared,Near of Priya Bread Factory, Laxmiganj, Lashkar, Gwalior,Madhya Pradesh.
499.	Bharatiya New Democratic Party	Village and Post- Dara, P.S- Joynagar, District- South 24 Parganas, West Bengal- 743337
500.	Bharatiya Nyay-Adhikar Raksha Party	Purbo Bishnupur, P.O. – Ramakanta Nagar, P.S - Mandirbazar, District - 24 Paragna (South), West Bengal - 743395
501.	Bharatiya Parivartan Congress	126, Adivasi Colony, Near Rashtra Sant Tukdoji Maharaj, Cancer Hospital, Manewada Road, Nagpur-440027, Maharashtra.
502.	Bharatiya Peoples Party	House No. T-9, 595/16/11, Shivshakti Nagar, Syed Chincholi Road, Filter Bed, Gulbarga, Karnataka-5851004.
503.	Bharatiya Pichhra Dal	Village – Khujri, Post – Sagar, Via – Chakarmatha Camp, Distt. Bilaspur, Chhattisgarh – 495 220.
504.	Bharatiya Pragati Party	C/o Chandra Prakash,Village and Post Belsad,District – Tapagaur,P.S. – Paikaliya Tehsil – Haraiya,Basti – 272163 Uttar Pradesh
505.	Bharatiya Praja Aikyata Party	No. 01,Kote Street,Near Venkatesswara Temple,Kodigehalli L,Sahakaranagar Post,Bangalore,Karnataka – 560092
506.	Bharatiya Praja Paksha	No.374/A, I-Floor, I-Block, I-Cross, Ravindranath Tagoor Nagar (R.T.Nagar), Bangalore-560032 (Karnataka).
507.	Bharatiya Praja Surajya Paksha	A/P- Khandaj, Taluka- Baramati, District- Pune, Maharashtra- 413116.
508.	Bharatiya Prajagala Kalyana Paksha	No. 23, Flat No. 401, 4 th floor, Everjoy, Nandanavana, 3 rd Cross, Dwarka Nagar, Channasandra, Bangalore, Karnataka- 560098.
509.	Bharatiya Prajashakti Party	29/3, Panchkuiyan, Jhanshi, Uttar Pradesh.

510.	Bharatiya Prajatantrik Shudh Gandhiwadi Krishak Dal	Misda, Distt. Janjgeer, Vikas Khand Navgarh, Chhattisgarh, Chhattisgarh.
511.	Bharatiya Rashtravadi Paksha	12, Juna Power House, Behind Rotary Hall, Jail Road, Mehsana (Gujarat) Pin-384002.
512.	Bharatiya Rashtravadi Samanta Party	F-402, Road No. 9-F, Vishwakarma Industrial Area, Jaipur-302013.
513.	Bharatiya Rashtriya Bahujan Samaj Vikas Party	G-96, Shantipuram, Phaphamau, Allahabad, Uttar Pradesh
514.	Bharatiya Rashtriya Mahila Sarvodaya Congress	No.2, 1 st Floor, Vayuputra Arcade, Ward No.15, Near NTT, P.B. Road, Dharwad, District – Dharwad, Karnataka – 580001
515.	Bharatiya Rashtriya Mazdoor Dal	Naya Sarafa, Gwalior-474001 (Madhya Pradesh).
516.	Bharatiya Rashtriya Morcha	D-6, Pratap Bagh Colony, New Hanuman Mandir, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
517.	Bharatiya Republican Paksha	Dr. Ambedkar Bhawan, Gokuldas Pasta Road, Dadar, Mumbai-400014 (Maharashtra).
518.	Bharatiya Sahyatra Party	545Ka/AV-006, Avanti Vihar, Old Para Police Station, Hardoi Ring Road, Post-Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh - 226017.
519.	Bharatiya Sadbhawana Samaj Party	Khan Manjil Khaparganj, Bilaspur, Chhattisgarh.
520.	Bharatiya Samaj Dal	85, Chowk Makandu Ganj, Pratapgarh, Uttar Pradesh.
521.	Bharatiya Samajwadi party (Loktantrik)	Moh. Chahshiri, Punjab & Sindh Bank Lane, Civil Lines, Bijnor, District-Bijnor, Uttar Pradesh-246701
522.	Bharatiya Samatawadi Party	No.60, Part No.3, Bijlinagar, Chinchwad, Pune, Maharashtra-411033.
523.	Bharatiya Sampuran Krantikari Party	A-1/150, Aman Vihar, Nangloi, New Delhi – 110041.
524.	Bharatiya Samrat Subhash Sena	Village – Ajitpur, Post – Kankhal, Laksar Road, Haridwar, Uttarakhand – 249408.
525.	Bharatiya Samta Samaj Party	Gram - Dehramau, Post – Gosainganj, Zila – Lucknow – 227 125 (U.P.)
526.	Bharatiya Samtawadi Party (A)	Near Khan Atta Chakki, Opposite Devi Lal Colony, Saraswati Vihar, Mehlana Road, Tehsil & District- Sonapat, Haryana- 131001
527.	Bharatiya Sangharsh Morcha	C4/33, EWS Vishwa Bank Colony, A.D.A, Naini, Tehsil-Karchana, Prayagraj, Uttar Pradesh-212301
528.	Bharatiya Sanghathit Party (S)	Sai Green City, Ator Road, Near Morti, Rajnagar Extension, NH-58, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201 017.
529.	Bharatiya Sangram Parishad	48, Bank Street, Khatau Building, Ground Floor, S.B.S Road, Opposite Old Custom House, Fort, Mumbai, Maharashtra - 400001
530.	Bharatiya Sant Mat Party	Bahu Jholri Road, V.P.O. – Nahar, Tehsil – Kosli, Distt. – Rewari, HARYANA.
531.	Bharatiya Sarvjan Vikas Party	Village- Harshpur (pure Ralhi), Post- Kotwashukulpur, Tehsil- Lalganj, P.S. Sangipur, District- Pratapgarh, Uttar Pradesh- 230136
532.	Bharatiya Sarvodaya Kranti Party	113, Malikpur, G.T.B. Nagar, Delhi-110009’.
533.	Bharatiya Satyarth Sangathan	Bharat Nagar, Prem Vidyalaya, Railway Crossing, Opposite Radhapuram Housing Colony, Near Birla Mandir, Varindavan Road, G.T.V – 3, Mathura-281003, (U.P.)
534.	Bharatiya Subhash Sena	Vill. & Post Office: Bankasiya Shivratn Singh, Janpad-Gonda -271302. (U.P.).
535.	Bharatiya Suheldev Janata Party	Village and Post- Chitbaragaon, House No. 885B, Ward No. – 8, Indira Nagar, Tehsil – Balia, Balia, Uttar Pradesh – 221713
536.	Bharatiya Suraj Dal	Sinha Bhawan, Exhibition Road, Behind Reserve Bank of India, Patna, Bihar – 800001
537.	Bharatiya Swajivi Nagrik Party	Village- Kukuriha, Post- Rudrapur Korwa, Thana- Rudrapur, Tehsil- Rudrapur, District- Deoria, Uttar Pradesh.

538.	Bharatiya Swatantra Party	Village- Naugai, P.O. – Raghunathnagar, Teh. – Vadrufnagar, Distt:- Sarguja, Chhattisgarh
539.	Bharatiya Yuva Jan Ekta Party	261, Kesar Palace, Abuparvat, Th. Abu Road, District - Sirohi, Rajasthan – 307501
540.	Bharatiya Yuva Party (Democratic)	Ward No. 54, Circle No. 71, Biscoman Golambar, Near B.S.N.L Telephone Exchange, Post Office- Gulzarbagh, Kumhrar, Patna, Bihar- 800007.
541.	Bharatiya Yuva Shakti	Haveliyo ka Vaas, Gram Panchayat – Kosewal, Tehsil – Sumerpur, District – Pali, Rajasthan.
542.	Bharatrashttra Democratic Party	Shop No. 22, CSC-II, DDA Market, I.P. Extension, Patparganj, Delhi-110092.
543.	Bharatwasi Party	Ambedkar Nagar Poorvi, Ramkola Road, Post – Padrauna, Distt. – Kushinagar, Uttar Pradesh-274304
544.	Bharipa Bahujan Mahasangha	Dr. Ambedkar Bhawan, Gokuldas Pasta Road, Dadar, Mumbai-400014 (Maharashtra).
545.	Bharosa Party	H.No. 8-233, Pocharam Grama Panchayat, Ghatkesar Mandal, District- Medchal, Telangana – 500088
546.	Bharti Jan Suraksha Party	Head Office, Dholwha Road, Near Heera Colony, Town & P.O. Haryana, Distt. Hoshiarpur, Punjab -144208
547.	Bharti Samudaya Party	7C-10, Vrindavan Yojana, Raibareli Road, P.S. – P.G.I., Tehsil - Lucknow, District – Lucknow, Uttar Pradesh – 226002.
548.	Bhartiya Aam Aadmi Parivar	1000 Jay Ambey Apartment, DDA LIG Flates, New Kondali, Mayur Vihar Phase -3, Delhi-110096
549.	Bhartiya Aam Janta Vikas Party	Village and Post- Dulma, Thana- Madhuban Motihari, District- East Champarn, Bihar
550.	Bhartiya Ahinsa Party	728, Nirala Nagar, Ayodhyapuri, Raebareli, Uttar Pradesh.
551.	Bhartiya Amrit Party	Khasra No. 661/3, Kachhariya, Bhopal road Biaora, District- Raigarh, Madhya Pradesh-465674
552.	Bhartiya Anarakshit Party	House No.08, Anandvan, NH-2, Nawada, Post- Aurangabad, District- Mathura, Uttar Pradesh-281006
553.	Bhartiya Anarya Party	Rajvanshi Market, Bus Stand, Rajgir, Thana. & P.O. Rajgir, Distt. Nalanda, Bihar-803116
554.	Bhartiya Antyodaya Party	8-Preet Vihar, Phase-II, Indira Gandhi Marg, Niranjanpur- Dehradun, Uttarakhand-248171
555.	Bhartiya Apna Adhikar Party	Near Kirar Hostel, Rampuri Aou Khana Kala Shabad, Pratap Aashram, Gwalior, Madhya Pradesh - 474012
556.	Bhartiya Arakshan Mukti Dal	291, Agnipotra Nagar cakdikhedha, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208017
557.	Bhartiya Arya Kranti Manch	83 Ram Vatika Colony, Behind Geeta Palace, Shyamganj, Bareilly, Uttar Pradesh – 243005
558.	Bhartiya Asmita Party	H. No. 302, Village-Katbav, Dahagaon Road, Pst-Vashind, Taluka-Shahpur, District- Thane, Maharashtra- 421601.
559.	Bhartiya Awaam Activist Party	Village-Keshru, P.S. – Chandauti, District – Gaya, Bihar - 823002.
560.	Bhartiya Awam Party (Rastriya)	House No. 30, (B.P.20) Bechupur, Patel Nagar (40 Feet Road), Mughalsarai, District – Chandauli, Uttar Pradesh- 232 101.
561.	Bhartiya Azad Sena	15 No. Chowk, Barkagaon, District- Hazaribagh, Jharkhand- 825311
562.	Bhartiya Bahujan Kranti Dal	Sevagadh Building No. 02, Azadegaon, Dombivali East, District- Thane, Maharashtra-421201
563.	Bhartiya Bhaichara Party	H. No. 61/3, Village- Chhalera Bangar, Ambedkar Vihar, Sector- 37, Pargana & Tehsil- Dadri, Noida, District- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh - 201303.
564.	Bhartiya Chaitanya Party	B – 97, Panchsheel Vihar, Near Sheikh Sarai, Community Centre, New Delhi.
565.	Bhartiya Chatrapati Sena	Shagun Row House D3, Behind Udyog Bhawan, Ayodhya Nagar, Sinner, Nasik, Maharashtra – 422103
566.	Bhartiya Chetna Party	Surat Ganj, Ward No. 15, Thana Nagar, madhubani, Madhubani-District Bihar- 847211.
567.	Bhartiya Dalit Congress	Chopara Para, Behind of Kali Mandir, Ambikapur, Distt. – Sarguja, CHHATTIAGARH- 497001.
568.	Bhartiya Dalit Party	Khata No. 269, Mohalla- Vijaynagar, Post- Vijaynagar, Anchal- Banka, District- Banka, Bihar.

569.	Bhartiya Damitjan Party	Village – Govindpur, Post- Seohara, Tehsil-Dhampur, Disst.- Bijnor Uttar Pradesh-246746.
570.	Bhartiya Dharmanirpeksha Party	H.No. 146, Village- Kharagpur, Post-Chaubepur, Thana- Chaubepur, District-Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-209203
571.	Bhartiya Drishtigochar Party	H.No. 54, Gram - Mausandi, Post- Suratganj, District- Barabanki, Uttar Pradesh-225304
572.	Bhartiya Ekta Manch Party	Shabab Building , Tagore Marg, Nadava Road, Lucknow-226020 Uttar Pradesh.
573.	Bhartiya Gadar Party(S)	Village-Odera,Post-Rautmau,Distt.Azamgarh,Uttar Pradesh-276406
574.	Bhartiya Gandhiwadi Party	Village & Post – Garwar, District – Ballia, Uttar Pradesh.
575.	Bhartiya Ganrajya Party	H. No. 1094,Vikas Sharma B.T.I. Road,Near Bajaj Agency,Mohalla Beni Sagar,Panna,Madhya Pradesh-488001
576.	Bhartiya Garibmazdoor Party	Pachtaki Ram, P.O. Pachtaki Yadu, P.S. Bairgania, District- Sitamarhi, Bihar - 843313
577.	Bhartiya Gram Nagar Vikas Party	Ekta Vihar, Lane No. -1, Gramsabha – Aaamwala Talla, P.O. - Kandoli, Sahastradhara Road, Dehradun, Uttarakhand – 248 001.
578.	Bhartiya Gramin Samaj Party	Bhawan No. 15/357, Near Bharoshi ki Dharamshala, Pancham Wali Gali, Duttapura, Morena, Madhya Pradesh-476001
579.	Bhartiya Harit Party	Near Hans Prkratik Chikitsalaya, Meerapur Road, Jansath, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh – 251314.
580.	Bhartiya Himachal Jan Vikas Party	V.P.O. Badalthore , Tehsil - Dehra, Distt. - Kangra, Himachal Pradesh - 177105.
581.	Bhartiya Hind Fauj	UGF-07, Chitransh Dream Society, R.K.Puram, Govindpuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201013
582.	Bhartiya Hind Party	90,Eswari Dayal Building,Arya Samaj Road,Ganesh Ganj,Lucknow,Uttar Pradesh-226018
583.	Bhartiya Imaandar Party	Sindholi, Tehsil – Puwayan, Shahjahanpur, Uttar Pradesh
584.	Bhartiya Indian Secular Party	Hamdard Nagar- B,Jamalpur,Mafi, Tahsil-Coal,District Aligarh,Uttar Pradesh-202001.
585.	Bhartiya Insan Party	N-84, 4 th Floor, Batla House, Near Khalilullah Masjid, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi – 110025.
586.	Bhartiya Jagaran Party	Poorvi Nawada, Arrah,Bhojpur-802 301, Bihar.
587.	Bhartiya Jan Adhikar Party	Village-Bhim,Hospital Road,P.O.-Bhim,Distt.-Rajsamand Rajasthan-305921
588.	Bhartiya Jan Hit Vikas Party	220, Indrapuri, Jacobpura Road, Gurgaon, Haryana – 122001
589.	Bhartiya Jan Hitkari Party	Plot No. 31-32, Shivnagar, Tonk Road, Sanganer, Jaipur, Rajasthan
590.	Bhartiya Jan Jagrook Party	Survey N0. 171, Village- Chainpura, Post-Shivgarh, Tehsil- Megh Nagar, District-Jhabua, Madhya Pradesh - 457777
591.	Bhartiya Jan Jan Party	Shop No. 8 & 9, 2 nd Floor, Goyal Plaza, Faizabad Raod, Lucknow, Uttar Pradesh.
592.	Bhartiya Jan Manas Party	H. No. 262 Gha, Sarsawan, Arjunganj, P.S. – Arjunganj, Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh- 226002.
593.	Bhartiya Jan Manch	361, Street No. 13, BuddhVihar,(Behind Senior School),Mandoli Gaon, Nand Nagri,Delhi-110093.
594.	Bhartiya Jan Nayak Party	C-17-18, Sector-15, Vasundhra, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201012
595.	Bhartiya Jan Parishad	FF/108, Shantivila Complex, Opp. H.P. Petrol Pump, Dahegam Road, Naroda, Ahmedabad, Gujarat- 382330
596.	Bhartiya Jan Pragati Dal	H.No. 134, Village- Ramraipur (By Pass Road), Post- Ramraipur, Tehsil-Bhadohi,District- Bhadohi, Uttar Pradesh- 221314.
597.	Bhartiya Jan Sahyog Party	8/6, Juhi Safed Colony, Kanpur, Uttar Pradesh- 208014.
598.	Bhartiya Jan Samadhan Party	411,Spectrum,Near Yasharian,Swami Vivikanand Circle,Memnagar,Ahmedabad,Gujarat-380052

599.	Bhartiya Jan Samaj Party	Mohalla Gram,Ahamadpur Urf Kamlapur Pargana, Bijnaur Tehsil & Vidhansabha,Sarojini Nagar,Lucknow,Uttar Pradesh-226002
600.	Bhartiya Jan Samman Party	Flat No. 32, Krishina Apartment, Block- BH East, DDA Flats, Ground Floor, Shalimar Bagh, Delhi- 110088
601.	Bhartiya Jan Sampark Party	House No. 3616, Sharda Niwas Katra, Aadhartal, Jabalpur, Madhya Pradesh.
602.	Bhartiya Jan Samrasata Party	5081,Vishwkarma Nagar,Plot No.80,Ward No.14,Dwarkapuri,Rameshwari Road,Near Radha Mandir,Parvati Nagar,Nagpur,Maharashtra-440027
603.	Bhartiya Jan Samrat Party	Khasra No. 719, Property No. X-9/10, Old No. X-6/12, Village- Ghonda Gujran Khadar, Gali No. 9, X- Block, Brahampuri, Delhi- 110053
604.	Bhartiya Jan Satta Party	House No. 11, Mukhya Gram + P.O - Bhaadvaasi, Via Katrathal, District- Sikar, Rajasthan-332024
605.	Bhartiya Jan Swaraj Party	CC- 1/24, Ansal, Avantika , Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201001
606.	Bhartiya Jan Vikas Aaghadi	Krantisurya,Navjivan Nagar,Juna Pedgaon Road,Parbhani,Maharashtra- 431401
607.	Bhartiya Jan Yug Party	Heera Nagar, Purani Chhawani, Laskhar, Gwalior, Madhya Pradesh –474010.
608.	Bhartiya Janata Samajsevi Party	Old House No,116RPG/844 Present H. No.116/839 Rawatpur-2 Kalyanpur Kanpur,
609.	Bhartiya Janata Vikas Party	D-4/2, Sector- 20, Rohini, Delhi- 110086
610.	Bhartiya Janhit Congress Party	A-3, Room No. 602, 6th Floor, R.N.A Park, Vashi Naka, R.C. Marg, Chembur, Mumbai, Maharashtra – 400074
611.	Bhartiya Janhit Dal	D-1/535 J.J. Cluster, Bhalaswa Dairy, New Delhi - 110042.
612.	Bhartiya Janjagran Gandhiwadi Party	Khata No. 112,Khesra No. 1196,Village- Hesmi,P. S- Mandar,District- Ranchi,Jharkhand- 835214
613.	Bhartiya Janmukti Party	Village – Dundur, P.O. Latheya, P.S. - Chhatarpur, District – Palamau, Jharkhand – 822116.
614.	Bhartiya Janraj Party	H.No. 653, Ward No. 14, Shiv Nagar, Near Shiv Mandir, Hisar, Haryana- 125001
615.	Bhartiya Jansamanta Adhikar Party	Kothi No. – 2, Poornagiri Vihar, Patel Nagar, Post – Izzatnagar, Janpad – Bareilly Uttar Pradesh
616.	Bhartiya Jansamooh Dal	H. No. 55/35,C.Y. Chintamani Road,George Town,Prayagraj,Uttar Pradesh – 211002
617.	Bhartiya Janseva Congress	Kothi No. 768, Ward No. 17, Kila Colony, Kosli Road, Jhajjar, Haryana – 124103
618.	Bhartiya Janta Dal	C-16, Sanjay Vihar, Aavas Vikas Colony, Meerut Road, Hapur,Distt. Ghaziabad,Uttar Pradesh.
619.	Bhartiya Janta Dal (Integrated)	H.No. 62, Gali No.16, A-1 Block, Sant Nagar, (Bengali Colony), Burari Road, Delhi – 110084
620.	Bhartiya Janta Secular Party	Servamangala Nagar, Durpa, Ward No. 45, Post- Durpa, P.S- Kusmunda, Tehsil- Katghora, District- Korba, Chhattisgarh- 495677
621.	Bhartiya Jantantra Morcha	Khata No.80,Plot No.-528,Village-Sidraul,Yugantar Bharti,P.S.-Namkum,Distt.- Ranchi,Jharkhand-834002
622.	Bhartiya Jantantra Sanatan Dal	No. 752, Charitra Van, Teacher's Colony, District- Buxar, Bihar-802101
623.	Bhartiya Jantantrik Janata Dal	1, Daroga Rai Path,Patna – 800001, Bihar.
624.	Bhartiya Jantantrik Party	Village- Chirota, Post- Ajayrajpora, Via- Bagru, Tehsil- Sanganer, District- Jaipur, Rajasthan- 303007
625.	Bhartiya Kamgar Party	Village – Chandopara, Post - Chandopara, District – Allahabad, Uttar Pradesh - 212402.
626.	Bhartiya Kautilya Sena	R-14/6(Basement), Rajnagar, In Front of Square Mall Ghaziabad, Uttar Pradesh.
627.	Bhartiya Kisan Janshakti Party	House No. 600, Ward No. 5, Ghasiyari Pura Nauvagarhi, Bahraich, Uttar Pradesh
628.	Bhartiya Kisan Party	E- 58, Taranagar, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan- 302012
629.	Bhartiya Kisan Sena (Secular)	At-Vyara,Taluka- Vaghodiya,District-Vadodara,Gujarat- 391760.
630.	Bhartiya Kisan Union Samaj Party	H.No. 332F, Near Vrindavan Gate, Rajender Nagar, Pushchim Gorakhnath, Gorakhpur, Uttar Pradesh- 272115

631.	Bhartiya Kisan Vikas Party	Village Amrai, Post Lakkhampur, Vishweshwarganj, Distt. Bahraich, Uttar Pradesh.
632.	Bhartiya Kranti Vir Party	Village- Kajichak, Post and Police Station- Sandesh, District- Bhojpur Bihar- 802164
633.	Bhartiya Krantisangh Party	No. 19/G-1, Brijeshwari Anex, Kanadia Road, Indore, Madhya Pradesh-452016
634.	Bhartiya Krishak Dal	197, Kaushalpuri (Sarla Bajpai Ka Bagh), South of Subhash Nagar, Janpad – Hardoi, UTTAR PRADESH.
635.	Bhartiya Lok Chetna Party	Janki Niwas, Brahmpur, Post & Thana- Fulwari Sharif, Distt. Patna Bihar-801505
636.	Bhartiya Lok Nayak Party	Vill.-Nauwapali, P.O. – Chakra, Distt. Siwan, Bihar-841226
637.	Bhartiya Lok Satta Party	Gali No.6, Ward No. 47, Gadora ke Pura, District-Morena, Madhya Pradesh-476001
638.	Bhartiya Lokmat Rashtrawadi Party	Village and Post- Saday Vigaha-165, Barahia, District- Lakhisarai, Bihar- 811302
639.	Bhartiya Lokshahi Party	Khadka Road, Ramdev Baba Mandir, Tal – Bhusawal, District – Jalgaon, Maharashtra - 425201
640.	Bhartiya Lokswarajya Party	Subhash Nagar, Astha Vinayak Colony, Zila Panchayat Prathmik, Shale Samor, D.P. Bhosale Collage Jawel, Sultanwadi Road, Tal-Koregoan, District- Satara Maharashtra – 415501
641.	Bhartiya Mahasangh Party	No. K-2413, Nagar Palika Road, Rosera Samastipur, Bihar - 848210
642.	Bhartiya Mahashakti Morcha	Jai Narayan Varma Road, Fatehgarh, District-Farrukhabad, Uttar Pradesh, Pin-209 601.
643.	Bhartiya Mahila Party (Sheetal Verma)	H.No.- 12/2, B- Block, Phase-2, Goyla Vihar, Near Thomas School, Dwarka Goyla Dairy Road, New Delhi- 110071.
644.	Bhartiya Mallrashtra Party	At 333, O, Lachchhipur Bhati Vihar, Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273007
645.	Bhartiya Manav Kalyan Party	E- 49/1, Raj Harsh Colony, Kolaar Road, Bhopal, Madhya Pradesh- 462042
646.	Bhartiya Manav Samaj Party	Village & Post- Oina, Tehsil- Kerakat, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222146.
647.	Bhartiya Manavta Party	Srirampur Tola (Bihta), P.O.+P.S.- Bihta, District Patna, Bihar-801103
648.	Bhartiya Manvadhikaar Federal Party	154/17, Raj Chambers (Fakhruddin Manzil), Alibhai Premji Marg, Grant Road, Mumbai, Maharashtra- 400007.
649.	Bhartiya Mitra Party	Circle-10, Holding No.-79A/64, Mohalla- Gola Road, Bakarganj, District- Patna, Bihar - 800004.
650.	Bhartiya Muhabbat Party (All India)	H.No.18184, Chandsar Basti, Bhatinda-151001 (Punjab).
651.	Bhartiya Nagrik Suraksha Party	No.13, New Ketan Society, Near Uma Shikshan Tirth, Bh. Bhagyoday Society, Naroda, Ahmedabad, Gujarat-382325
652.	Bhartiya Nav Vikas Party	60, Seeda Mohalla, Chilla Village, Near Sai Mandir, Mayur Vihar Phase-I Delhi- 110091.
653.	Bhartiya Navjawan Sena (Paksha)	Shri Mourya Park, Shop No. 4, Somnathnagar, Near Somnath Temple, Vadgaonsheri, Pune – 411014 Maharashtra.
654.	Bhartiya Navodaya Party	Village- Aheria, Post- Chakarnagar, Chakarnagar Chauraha, District- Etawah, Uttar Pradesh.
655.	Bhartiya New Sanskar Krantikari Party	Village and Post- Sahasarawan, P.S- Bhagwanpur Hatt. District- Siwan, Bihar - 841408
656.	Bhartiya Niwas Party	Village- Sarbasi, P.O.- Barhni, Gopalpur (Unawal), District- Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273406.
657.	Bhartiya Panchayat Party	D-15/674, Street No.- 5, Ganesh Nagar – 2, Shakarpur, Delhi-110092 .
658.	Bhartiya Panchayati Raj Party (Loktantrik)	B-247, 3 rd Floor, Priyadashni Vihar, Delhi- 110092

659.	Bhartiya Panchsheel Party	B-71, Indira Nagar, Raebareli, Uttar Pradesh- 229001.
660.	Bhartiya Party	New Colony, Post – Neem Ka Thana, District – Seekar, Rajasthan - 332713.
661.	Bhartiya Party (Loktantrik)	A-12, Ansa Plaza, R.B.S.S. Sahay Road, Bhagalpur, Bihar-812001
662.	Bhartiya Prabuddha Samaj Party	554 C/118, Damodar Nagar, Near Raj Chandra Hospital, VIP Road, Lucknow, Uttar Pradesh -226005.
663.	Bhartiya Pragatisheel Congress	D-43, Rajdhani Park, Nangloi, Delhi – 110041.
664.	Bhartiya Praja Jan Party	Narayanpur Road, Kasba Bansoor, District – Alwar, Rajasthan.
665.	Bhartiya Public Labour Party	357/3, Shyam Nagar, Gali No.1, Kali Mandir Back Side, Foyasagar Road, Ajmer, Rajasthan – 305001
666.	Bhartiya Ranvir Party	S-498, Ground Floor, School Block, Shakarpur, Delhi-110092
667.	Bhartiya Rashtrawadi Party	J-74A, Gali No-14, Khasra No. 6/14, Swaroop Nagar, Delhi - 110042.
668.	Bhartiya Rashtriya Dal	C- 6/52, Yamuna Vihar, Delhi- 110053
669.	Bhartiya Rashtriya Ekta Dal	10/10, Mohalla Kaitwada, Near Ambedkar Chowk, Jwalapur, Distt- Haridwar, Uttarakhand-249407
670.	Bhartiya Rashtriya Jagruk Dal	E-2548, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh- 226017.
671.	Bhartiya Rashtriya Jagsewa Party	Unit No.208, 2nd Floor, Sunrise Tower, Shiv Market, Wazirpur, Ashok Vihar, Delhi- 110052
672.	Bhartiya Rashtriya Jansatta	127, 1 st Floor, Vardhman Tower, Preet Vihar, Delhi 110092
673.	Bhartiya Rashtriya Lok Manch Party	Plot No.2. Gali No.2, Chouhan Patti, Near Mangal Bazar, Karawal Nagar, Delhi- 110094.
674.	Bhartiya Rashtriya Tantra Party	N/502, Madhuvan Glory, Near St. Marya School, Naroda, Ahmedabad, Gujarat- 382330
675.	Bhartiya Reflection Party	LIG 11-G, Pocket A-2, Mayur Vihar, Phase-3, Delhi - 110096
676.	Bhartiya Republican Party (Insan)	Village - Mahuari, Post – Jangiganj, District - S.R.N. Bhadohi, Uttar Pradesh.
677.	Bhartiya Rozgar Party	E-77, Old Jasola Village, Near Metro Pillar No.141, Jasola, Near Jamia Co-operative Bank, New Delhi - 110025.
678.	Bhartiya Sabka Dal	Moh. Golwar Tola, P.O, P.S & Tehsil - Mohammadabad Gohna, District- Mau, Uttar Pradesh- 276403
679.	Bhartiya Sablog Party	Mauja Digha, Rajiv Nagar, Road No. 25 E, P.O.-Kesrinagar, Thana-Phulwari, Patna, Bihar-800024
680.	Bhartiya Samaj Sewa Party	H.No.01, Village - Vanupur Pukhta, P.O.- Malikpur (Soro), Distt.-Kasganj, Uttar Pradesh.
681.	Bhartiya Samajik Ekta Party	16, Village- Nandora, Tehsil- Goharganj, District- Raisen, Madhya Pradesh- 464990
682.	Bhartiya Samajik Kranti Dal	Village – Suwari, Post – Danganj, Distt. – Varansi, Uttar Pradesh.
683.	Bhartiya Samajik Nyay Party	Village & P.O. Sersa, Tehsil & District – Sonapat, Haryana.
684.	Bhartiya Samajik Party	6, Bus Stand, Alirajpur, District – Alirajpur, Madhya Pradesh – 457887
685.	Bhartiya Samajvadi Sena	Bhawan No. S- 2/525, Mohalla-Sikraul, Post- Cantonment, District - Varanasi, Uttar Pradesh -221002
686.	Bhartiya Samanta Party	Chitrakoot Dhaam, Third Floor, 60-B, Panki Road, Kalyanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208017
687.	Bhartiya Samta Party	173D, Radha Krishna Chauraha, Rampuram Shyam Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh- 208013
688.	Bhartiya Sangam Party	230/5, New Menhdauri, Post – Teliyarganj, District- Allahabad, Uttar Pradesh- 211004.
689.	Bhartiya Sangharsh Samiti	H.No.4684, Nisar Nagar, Infront of Krida Sankul, Jambhrun Road, Sangwan, Buldana, Maharashtra-443001

690.	Bhartiya Sanskrit Virasat Party	H.No. 338, Village and Post- Lakhaura Khurd, P.S- Kurawali, District- Mainpuri, Uttar Pradesh
691.	Bhartiya Sanyukt Kisan Party	Bhusahi Bazar, Yadav Market, Kamle Baliya, Bhusahi, Bochaha, Muzaffarpur, Bihar- 843103
692.	Bhartiya Sarthak Party	Shivshankar Path, Mithanpura, Post Ramna, P.S.- Mithanpura, Dist.- Muzaffarpur, Bihar-842002
693.	Bhartiya Sarvdharm Party	Vilal Market, Shop No. 5, Khadri Thana, Madiyaon, Sitapur Road, Lucknow, Uttar Pradesh-226013
694.	Bhartiya Sarvjan Hitay Samaj Party	Anant Vihar Colony, Daldal Shivni Marg, Mowa, Raipur, CHHATTISGARH.
695.	Bhartiya Sarvjan Party	Village -Rampur, Hata Marg, Post - Gauri Bazar, District – Dewaria - 274202, UTTAR PRADESH.
696.	Bhartiya Sarvodaya Party	152/126, Patel Nagar (West), Dehradun-248001 Uttarakhand.
697.	Bhartiya Satya Sangharsh Party	Village – Bijhinya, P.S. – Mandla, District – Mandla, Madhya Pradesh.
698.	Bhartiya Sewak Party	Hqrs/Office-Near Utarakhand Grameen Bank, Biuggawala (Main Market) Haridwar, Uttarakhand- 247662
699.	Bhartiya Shakti Chetna Party	Ward No.18, Village - Khamdar, Post - Mau, Tehsil - Vyouhari, Dist. - Shahdol, Madhya Pradesh
700.	Bhartiya Shramik Dal Socialist	Baman Nagar, Pateri, Sector – 20, District - Satna, Madhya Pradesh.
701.	Bhartiya Suvrnayug Party	A/33, Capital Commercial Centre, Near - Sanyas Ashram, Ahmedabad, Gujarat - 380009
702.	Bhartiya Swadeshi Congress	12/303, Max City park Sapphire, Ramprastha Greens, Sector-9, Vaishali Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201010
703.	Bhartiya Swaraj Jan Seva Sangathan	H. No. 647, Kalyanpur Majra, Kheliya Kalyanpur, P.S. - Ahamadgarh, Tehsil - Shikarpur, District - Bulandshahar, Uttar Pradesh - 203391.
704.	Bhartiya Swarajya Kranti Party	Tryamboli Nagar, Kasaba Bawada, District-Kolhapur, Maharashtra- 431124
705.	Bhartiya Swarnim Yug Party	40, Laxmi Nagar, Ratneshwar Road, Ratlam, Madhya Pradesh- 457001
706.	Bhartiya Swatantra Panch Party	Naurangia Chwraha Se 50 Meter Koni Marg, Post-Koni, Nehru Chowk Khalilabad, Janpad Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh- 272175
707.	Bhartiya Tarak Samaj Party	465A Binauli, Tehsil- Baraut, District- Baghpat, Uttar Pradesh- 250645
708.	Bhartiya Tribal Party	PO- Chanderia, Taluka- Valia, District- Bharuch, Gujarat
709.	Bhartiya Uday Nirman Party	H. No. 431/955N, Ward Ganj (132), Newati Tola, Near Elaf Palace, Momin Nagar, Campwell Road, Lucknow, Uttar Pradesh-226003
710.	Bhartiya Vanchitsamaj Party	Village- Bhudiya, (Faguha), Tehsil & Distt.- Kannauj, UTTAR PRADESH.
711.	Bhartiya Veer Dal	Khewat/Khasra No.- 39/56, Mustil No.- 14, Moja- Ghurason, Post- Tigaon, Ballabgarh, Faridabad, Haryana- 121101
712.	Bhartiya Veer Kisan Party	Village - Khaparkheda, Taluka- Jafrabad, District- Jalna, Maharashtra.
713.	Bhartiya Vikas Party	139-B, Tamur Nagar, New Friends Colony, New Delhi.
714.	Bhartiya Vikash Dal United	House No. SM.0011-0425, Village- Chhota Bariyarpur, Ward No. 38, Post- Motihari Court, P.S. Chhatauni, District- East Champaran, Bihar – 845401
715.	Bhartiya Vistarwadi Party	Village – Shyampur, Post – Dugarei, District – Fatehpur, Uttar Pradesh.
716.	Bhartiya Yojana Raithu Party	D.No.27-1-148/H, Attarattaiah Street, Near Challapalli Bungla Governor Pet, Vijayawada, Krishna District, Andhra Pradesh-520002.
717.	Bhartiya Yuva Ekta Shakti Party	H.No.63, Rampur Road, Manpur Uttar, Haldwani, Nainital, Uttarakhand-263139
718.	Bhartiya Yuva Janshakti Party	Rozy Anima XTTI, Near Akhand Jyoti Hospital, Digha, Patna, BIHAR- 800011
719.	Bhartiya Yuva Kranti Party	E-Block Surajdeep Complex, Near Dainik Jagran Chauraha, Jopling Road, Lucknow, Uttar Pradesh-2260001
720.	Bhartiya Yuva Party	Evershine App., Nr. Jalaram Society, Opp. Royal Park, Nr. Park Evenue, Janagadh, Gujarat- 362001
721.	Bhartiya Yuva Party (Rashtrawadi)	H.No. 139, Sonbarsa Bairia, District- Ballia, Uttar Pradesh- 277208

722.	Bhartiya Yuva Sena	House No. 1-407, Kasba Vibhag, Kille Dharur, Tq. – Dharur, District – Beed, Maharashtra - 431124.
723.	Bhartiya Yuva Swabhimani Party	19/769, Mohalla – Narayanpur, Shukla Aata Chakki Ke Pass, Govind Nagar, Auraiya, Uttar Pradesh - 206122
724.	Bhartiya Manavata Nirman Party	Lala Lajpat Nagar, Post -Pundag, P.S.- Jagannathpur, District-Ranchi, Jharkhand – 834004.
725.	Bhrashtachar Mukti Morcha	Chandra Nagar, Kurud Road, Kohka, Bhilai, Tehsil & District – Durg, Chhattisgarh.
726.	Bhrashtachar Virodhi Dal	R.Z.D- 120C, Nihal Vihar, (Nangloi), Delhi-110041.
727.	Bhrashtachar Ka Ant Party	64/189, Gadaria Mohal, Kanpur, Uttar Pradesh-208001.
728.	Bhumisantan Adhikar Party	Village-Taluk Ranaghata, P.O.-Purba Ranaghata, P.S.-Mathurapur, Distt.-South 24 Parganas West Bengal-743338
729.	Bihar Janta Party	Village: Jail Shahar, Old Remand Home, Dharmnath Mandir Road, Daulatganj, Saran, Bihar – 841301
730.	Bihar Justice Party	Plot No. 2251, Yaduvanshi Nagar, Digha Ashiana Road, Patna, Bihar-800011
731.	Bihar Lok Nirman Dal	Mohalla – Noongola, Thana Nagar & Post – Hazipur, District – Vaishali, Bihar-844101
732.	Biju Swabhimani Dal	Plot No-40, Umapada, Stadium VIP Road, PO – FC Project, Kalinga Nagar, Jajpur Road, Jajpur, Odisha – 755020.
733.	Bira Oriya Party	C/o Shri P.Samantaray, IAS(Retd.), At/P.O. Madhupatna, Cuttack-10(Orissa).
734.	Bolshevik Party of India	C/o- Dr. Shashikant Waikar, 9, Bhupeshnagar, Gorewada Road, Nagpur- 440013, Maharashtra.
735.	Brabar Samaj Saanjhi Party	House No. 698, Village – Arniawali, Tehsil – Nathusari Chopta, District – Sirsa, Haryana- 125055
736.	Braj Party	Beswan Morh, Aligarh Mathura Road, Post – Beswan, Gram Panchayat – Nayabaas, Tehsil – Iglas, District – Aligarh, Uttar Pradesh – 202145
737.	Braj Vikas Party	A-193, Trans Yamuna Colony, Phase-II, Agra-286002, Uttar Pradesh.
738.	Brihattar Bharat Prajatantra Sewa Party	Behind of the Palace, Kishorganj Panna, Distt. – Panna, Madhya Pradesh.
739.	Brij Kranti Dal	16, Haryana Bhawan, Dyal Bagh, Agra-5, Uttar Pradesh.
740.	Bruhat Bharatiya Kalyana Paksha	2484/F, AECS Layout, Koodlu, AECS Layout, A-Block, Bangalore, Karnataka-560068.
741.	Buland Bharat Party	Shop No.8, First Floor, SCO No. 84-85, Sector-16, Near Sagar Cinema, Faridabad, Haryana-121002
742.	Bundelkhand Congress	56. Jwala Heri Market, Sarbati Complex, Paschim Vihar, Delhi-63
743.	Bundelkhand Kranti Dal	House No.40, Mohalla- Khai, New Basti, Jhansi Uttar Pradesh -284001.
744.	Bundelkhand Vikas Dal	C/o Shiv Narayan Khare (Advocate), 116/3 Shivalaya Kishor Ganj, Town Area, Kulpahar, District - Mahoba, Uttar Pradesh-210426
745.	Lok Kalyan Party	No. 4 th F/403, Akashrath B/H Ratnam Op. C G Road, Ahmedabad, Gujrat – 380009
746.	Challengers Party	Durgesh Nivas, Opp. Vithoba Temple, 68/XX, Tailor Street, Cowl Bazaar, Bellary, Karnataka- 583102.
747.	Chandigarh Ki Aawaz Party	H.No. 2207, Ground Floor, Sector- 45C, Chandigarh- 160047
748.	Chennai Youth Party	H. No. 2595, TNHB, Ayappakkam, 1st Floor, Chennai, Tamil Nadu 600077
749.	Chhatrapati Shivaji Bhartiya Garib Party	Village Fateput (Khauda), Post-Katauna, District-Varanasi, Uttar Pradesh-221208
750.	Chhattisgarh Ekta Party	H.No. 182/2, Ward No. 08, Bade Padarmooda Road, Jamgahan, Tehsil- Malkharoda, District- Janjgir Champa, Chhattisgarh- 495691
751.	Chhattisgarh Mukti Morcha	P.O.Dalli Rajhara, Distt-Durg –491228 (Chhattisgarh).
752.	Chhattisgarh Samajwadi Party	Ramanujganj Road, In front of Sanjay Park, Ambikapur, Chhattisgarh - 497001.
753.	Chhattisgarh Sanyukt Jatiye Party	Bajrang Nagar (Tatyapara Ward), Raipur, Chhattisgarh.
754.	Chhattisgarh Swabhimani Manch	21, Battis Bangla, Bhilainagar, Distt. – Durg-490006, Chhattisgarh.

755.	Chhattisgarh Vikas Ganga Rashtriya Party	Khongapani, District – Korea, Chhattisgarh – 497447
756.	Chhattisgarh Vikas Party	A-12, Flash Vihar, New Purena, Post Office – Ravigram, Raipur, Chhattisgarh.
757.	Chhattisgarhi Samaj Party	Handipara, Azad Chowk, Raipur-492001 (Chhattisgarh).
758.	Chhattisgarhiya Party	House No. 93, Village – Dhanrash, Post – Chhuri, Tehsil – Katghora, District – Korba, Chhattisgarh.
759.	Chhava Dal	Survey No. 11/2, Plot No. 01 at sitaram Nagri, Malharwadi, Post-Hingoli, Taluka-Hingoli, District-Hingoli, Maharashtra- 431513.
760.	Christian Democratic Front	No.9, Rosary, Church Road, San Thome, Chennai (Tamil Nadu).
761.	Citizen Party	H.No.53, Survey No. 620, Bajanaikoil Street, Madhanankuppam Kolathur, Chennai Tamil Nadu- 600099.
762.	Civil Rights Party	Flat No. D-89, Ground Floor, Block-16, Shivjot Enclave, Kharar SAS Nagar, Mohali, Punjab – 140301
763.	Communist Marxist Party Kerala State Committee	Kunnukuzhy, Trivandrum-695037(Kerala).
764.	Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star	C-141, Sainik Nagar, New Delhi-110059.
765.	Communist Party of Telangana (Marxist-Ambekarist)CPT(MA)	H. No. 2-2-1106/B/SBK/1, Shanti Nagar, Amberpet, Distt.-Hyderabad, Telangana- 500013
766.	Congress (Secular)	Ram Raj Bhavan, Manikkath Road, Cochin-16. (Kerala).
767.	Corruption Abolition Party	House No. – 219, VPO – Sheriya, Tehsil – Beri, District – Jhajjar, Haryana.
768.	Country Citizen Party	5, 'Padmavathi' Behind Maramma Temple, Chikkalasandra, Bengaluru, Karnataka- 560061.
769.	Daksha Party	I/1102, Raheja Vistas, Raheja Vihar, Chandivali, Andheri East, Mumbai, Maharashtra- 400072
770.	Dalit Kranti Dal	Jati Meghwale, Gaon Post – Dholipal, Teh. & Zila – Hanumangarh (Rajasthan)
771.	Dalit Mazdoor Kishan Party	E-11/77, New Colony, Hauz Rani, Malviya Nagar, New Delhi-110017.
772.	Dalit Soshit Pichhara Varg Adhikar Dal	Village – Hasanpur Jagir, Post – Sikandrabad, District – Bulandshahr, Uttar Pradesh - 203205.
773.	Dalit Vikas Party (Bharat)	Behind of High School, Ward No.3, Village & Post – Ghunwara, Teshil – Maihar, Distt. – Satna, MADHYA PRADESH
774.	Dalita Bahujana Party	4-1-1215, Street No.3, Boggulakunta, King Kati Road, Hyderabad – 500001.
775.	Delhi Janta Party	Y-200, Camp No.-1, Nangloi, Delhi-110041
776.	Democratic Bharatiya Samaj Party	Gali No-7, Guru Nanak Pura(East), Near Chintpurni Mandir, Jalandhar, Punjab.
777.	Democratic Congress Party	291, Odeon Wali Gali, Near Gopal Mandir, Majitha Road, Amritsar (Punjab).
778.	Democratic Corruption Liberation Front	2F/1A Neduganvilai, Ponnappa Nadar Nagar, Nagercoil, Tamil Nadu – 629004.
779.	Democratic Human Rights Movement Party	Thunduvila Veedu, Panjiyoor, Venjaramood P.O., Thiruvananthapuram, Kerala – 695607.
780.	Democratic Labour Party	D. No. 3/78, P.O. Elamkunnappuzha, Dist - Ernakulam, Kochi, Kerala- 682511
781.	Democratic National Allegiance	No.6, Rajavelu Street, Erukkancherry, Chennai-600118, Tamil Nadu

782.	Democratic Organisation for Socio-economic Transformation of India Party	Plot No. 749,Basement,Sector-39,Gurgaon Haryana- 122003
783.	Democratic Organization of Nation Party	MannarayathuThekkethil Veetil,(PadeerayathuPuthenveedu),Pallisserickal,P.O. Sasthamcotta,Kollam,Kerala- 690521
784.	Democratic Party of India	162,Anandrao Umra Marg, Ashok Nagar, Nagpur-17 (Maharashtra).
785.	Democratic Party of India (Ambedkar)	MohallaTaj Pura, Rahon, Teshsil - Nawanshahr, S.B.S. Nagar, Punjab – 144517.
786.	Democratic Prajakranthi Party Secularist	Ummathur Post & Village, Hunsur Taluk, Mysore District Karnataka-571105.
787.	Democratic Progressive Azad Party	National High Sonwar, Opposite Amar Singh Club, Srinagar, Jammu and Kashmir-190001
788.	Democratic Secular Party	At. Kohinoor Bakery, Umred Road, Tajabad, Aulia Nagar, Nagpur –24, (Maharashtra).
789.	Democratic Social Justice Party	Thiruvonam,NLRA-140,NeerazhiLane (No.7/242),Trivandrum Corporation,Uloor,Medical College,PO-Trivandrum,Kerala-695011
790.	Democratic Socialist Party (Prabodh Chandra)	63- Ananda Plit Road, 1st Floor, Kolkata-700014, West Bengal.
791.	Democratic Socialist Party of India	359, West Kodalia, New Barrackpore, P.S. – Ghola, District – North 24 Parganas, Kolkata,West Bengal – 700131.
792.	Democratic Swaraj Party	Arya School Road,V.P.O. Sohana, SAS Nagar, Punjab- 140308.
793.	Desa Makkal Munnetrak Kazhagam	3/172, Veerachelliyapuram Colony, Valliyur (Post), P. Kumaralingapuram, Amathur (Via), Taluk & District – Virudhunagar, Tamilnadu-626005.
794.	Deseeya Praja Socialist Party	N.S. Bhavan, Vellayani, P.O. Nemom, Thiruvananthapuram-695020, Kerala.
795.	Desh Bachao Jan Morcha	D-6/171, Sector-31, Noida-201301 (Uttar Pradesh).
796.	Desh Bachao Party	223/A,Kewalpuri,Ahilyabai Road,Muzaffarbagar,Uttar Pradesh- 251001
797.	Desh Hit Party	Plot No. 467, Village- Jamuni, Post- Tarkulwa, District- Deoria, UTTAR PRADESH.
798.	Desh Janhit Party	Plot No. 78, Vinayak Co. Housing Society Bidipeth, Behind Power House, Narsala, House No.4430/78, Mouza Bidipeth, Nagpur-30, Maharashtra.
799.	Desh Prem Party	Ward No. 19, (Old Ward No. 17), Door No. 143(2), Opp. Old KSRTC Bus Stand, Kolachalam Compound, Janathakal Complex Ballari, Karnataka – 583101
800.	Desh Seva Party	No. A-2,Adhana Bhawan,Village- Morna,Sector- 35,Noida,Uttar Pradesh- 201303.
801.	Desh Shakti Party	14/39, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
802.	Desha Dal	Manas Ranjan Mishra Khatian No.466/90,Tehsil No.198,Anand Vihar,Sarbahal,Near Hanuman Mandir,PO & PS-Jharsuguda,District-Jharsuguda,Odisha-768201
803.	Deshbandhu Party	Village – Meharban Nagar, Near Primary School, Meharban Nagar, Bye-Pass Road Nanpara, Post – Balha, Tehsil – Nanpara, District – Bahraich, Uttar Pradesh
804.	Deshbhakt Jagat Party	638/111, Chetna Vihar, Sector-14, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh- 226016.
805.	Deshbhakt Nirman Party	Sultanpur Barahganva, Post & Tehsil – Madhuban, Janpad – Mau,Uttar Pradesh
806.	Deshi Kisan Party	House No. 1624, Ward No. 52, Lakhbag Manpur, District – Gaya, Bihar.
807.	Deshvadi Party	House No.2184, D-Block, Indira Nagar, Janpad- Lucknow, Uttar Pradesh- 226016
808.	Desiya Makkal Periyakkam	Plot No. 19,K.K. Nagar,Nannilam-610 10 Nannilam (Post) and Taluk,Thiruvavarur,District,Tamil Nadu- 610105.
809.	Desiya Makkal Sakthi Katchi	New No.21, Old No.11,Venkatraman Street, Mint,Chennai, Tamil Nadu - 600079.
810.	Desiya Sirupanmayinar Makkal Iyakkam	S. John, No. 7, Pavunjur, Main Road, Keeralvadi- Village, Puliyananan Kottai, Panjayat, Zamin, Endathur- Post, Madurantakam- Taluka, Kancheepuram- District, Chennai, Tamil Nadu- 603311

811.	Desiya Uzhavar Uzhaipalar Kazhagam	2/52, C.C.Road, E.B.office Opposite, Kilpallipattu Village, Vellore Taluk, Vellore District, Tamil Nadu- 632311
812.	Dhanwan Bharat Party	Flat No. 002, D Wing, Shree Ganesh CHS, Shanti Vidyanagari, Mira Road (East), Taluka & District- Thane, Maharashtra- 401107
813.	Dharam Nirpeksh Dal	24/42, Loknath Chowk, Allahabad (Uttar Pradesh).
814.	Dharamarajya Paksha	601/602, Bldg. No. 7, Shubharambh Phase-1, Konkanipada Marg, Off GB Road, Manpada, Thane-400610, Maharashtra.
815.	Dharma Samaj Party	D. No. 8-17-90/B42, Nandanavanam, Karmanghat Village, Saroornagar, Mandal, Ranga Reddy District, Telangana-500079.
816.	Dhesia Eliya Makkal Nala Katchi	No.8/166, Maruthampatti Colony, Kathalapatti (PO) Karur, Tamil Nadu- 639007
817.	Dhesiya Makkal Kazhagam	Door No. 1/239-3, Main Road, R.C. Chettipatty, Kottamettupatty Village, Dharmapuri Omalur Taluk, District - Salem, Tamil Nadu - 636455.
818.	Dhoom Sena	25/549, Shri Sheetla Mata Mandir Marg, Near Navbharat Chowk, Purani Basti, Raipur, Chhattisgarh- 492001
819.	Digital Organization of Nation Party	Ward No. 25, Property No. 35, Plot No. 3776, Motinagar Pusad, Taluka Pusad, District- Yavatmal, Maharashtra- 445204.
820.	Digvijaya Bharatha Party	#5 (40G), 21 st Main Road, Marenahalli, (Standard English School), Vijayanagar, Bengaluru, Karnataka-560040
821.	Do Jama Panch Mudde Jan Party	Village – Asan, Tehsil & District – Rohtak Haryana
822.	Dogra Swabhimani Sangathan Party	No. 9&10, Block- D, Sector- C, Gandhi Nagar, Jammu, Jammu & Kashmir - 180004
823.	Dr. Ambedkar People Revolution Movement	No.4, 11 th Street, Kumarappa Nagar, Dharapadavedu, Katpadi, Vellore District, Tamil Nadu – 632007.
824.	Dr. Ambedkar People's Party	106, 4th Cross, K.H. Ranganath Colony, Opposite BHEL Factory, Mysore Road, Bangalore-26, Karnataka
825.	Dr. Ambedkar Samajvadi Democratic Party	Venkataiahna Chatra, Haradanahalli Hobli, Chamarajanagara Taluk & District, Karnataka.
826.	Dr. Bhimrao Ambedkar Dal	Village – Kothideeh, Tehsil – Pargna Navabganj, Janpad – Barabanki – 225001, Uttar Pradesh.
827.	Dravida Jananayaga Makkal Katchi	No. 6, Immanuel 2 nd Cross Street, Pallikarani, Chennai, Tamil Nadu- 600100
828.	Dravida Janashakti Party	No. 4/87, Othaveedu, Allinagaram (P.O.), Thiruppuvanam, Sivagangai District, Tamil Nadu-630611
829.	Dravida Makkal Padhukappu Kazhagam	No.2, 1st Lane, P.V. Kovil Street, Royapuram, Chennai, Tamil Nadu - 600013
830.	Dravida Murpokku Makkal Katchi	No. 5/762, Sabari Road, Madipakkam Chennai Tamil Nadu- 600091
831.	Dravida Peravai	69, Rangapillai Street, Pondicherry-605001.
832.	Duggar Pradesh Party	Driving Institute Complex, Janipur, Jammu – 180007, Jammu and Kashmir
833.	Ekjut Adhikar Party	At-C-1037/2, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016
834.	Eklavya Samaj Party	53, B - Block, Old Darulshapha, Lucknow, Uttar Pradesh – 251 001.
835.	Ekta Samaj Party	6898, Neem Street, Ahata Kidara, Bara Hindu Rao, Delhi-110006.
836.	Ekta Shakti	Jhanjhadi, Post – Bhaini Khurd, Tehsil – Nilokheri, Distt. Karnal, Haryana.
837.	Ekta Vikas Mahasabha Party	Sinha Sadan, L.C.T. Ghat, East Mainpura, Thana- Pataliputra Colony, Post-G.P.O, Sadar- Patna, District- Patna, Bihar-800001
838.	Eluchi Desam Party	Old No.-1/46, New No. – 34, Vadivalpuram, Post – Vadukatchimathil, Taluk – Nanguneri, District – Thirunelveli, Tamil Nadu – 627102
839.	Engineers Party	Bhoothana Hosur, Post- Sunagahalli, District - Mandya, Karnataka- 571403
840.	Equality Party of India	Mithunam, 15/818, 81A, Bhadra Nagar, Uliyakovil (PO), Kollam, Kerala- 691019.
841.	Ezhuchi Tamilargal Munnetra Kazhagam	5/197, Chinna Managalakudi, Uthangudi Post, Madurai, Tamil Nadu -625107
842.	Fauji Janta Party	H.No- 104, Village - Manobas, Post Office- Baral, Tehsil – Secunderabad, Dist- Bulandshahar, Uttar Pradesh - 203001 .

843.	Fauji Kisan Party	Village- Serahwa, Post office- Murali, Via Harinagar, District- West Champaran, Bihar- 845103
844.	Federal Democratic Party	No. 244B, Kathmorwa, P.O. – Madainiya, Distt. – Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh – 224147
845.	Forum For Presidential Democracy	B-145-146, Mittal Towers, Nariman Point, Mumbai-400021MAHARASHTRA
846.	Forward Democratic Labour Party	Ward No.5, Opposite Rest House, Ganesh Nagar, Murmadi, Post and Tehsil- Lakhani , District- Bhandara Maharashtra – 441804.
847.	Freedom Party	F-2/260,Top Floor,Sunder Nagri,Nand Nagri,Shahadara,Delhi- 110093
848.	Freethought Party of India	121, Dharma Vihar, P.O. Khandagiri, Bhubaneswar, Odisha – 751030
849.	Front of Revolutionised Creative Efforts	Shree Goverdhan Palace, Dhar Road, Udhampur – 182101 Jammu & Kashmir.
850.	Gadar Party	House No.32, Near Ramlila Ground,Padav Ward, Post Makandruganj,Distt. Pratapgarh, Uttar Pradesh-230001.
851.	Gana Suraksha Party	Village-Disghlipur Tamulpur,P.S.-Tamulpur, Sub-Division-Baksa,District-Baksa Assam- 781367
852.	Ganasangam Party of India	D.No. 6/786, Sakya Manzil, Ponvila Nagar, Trichy Road, Namakkal, Tamil Nadu – 637001.
853.	Gandhi Ekta Party	K-63/01, Bhootbhairav Nakhas (Kashipura), Varanasi, Uttar Pradesh
854.	Gandhi Prakash Party	House No.-126, Khata No.-236, Plot No.-637, Village-Sikathi, Post- Akhalashpur, P.S. – Bhabhua, District- Kaimur, Bihar.
855.	Gandhiya Makkal Iyakkam	9-1, Thadagam Road, Kavundampalayam, Coimbatore,Tamil Nadu – 641030.
856.	Gandhiyan Peoples Party	C-1255, Indira Nagar, Lucknow-226016, Uttar Pradesh.
857.	Gantantrik Janhit Party	C/o Vedvati Devi,West Lohanipur,Kadamkuan,Patna,Bihar-800003
858.	Gareeb Aadmi Party	R-21, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi – 110059
859.	Gareeb Jankranti Party	Ward – 12, Holding No. – 747/642, Daudpur Kothi, In front of MIT Gate, Laxmi Chowk, Brahmapura, Muzaffarpur, Bihar - 842003
860.	Gareeb Kranti Party	House No. 7, Mukarpur Khema, Nawabka Ahata, Tehsil and District- Bijnor, Uttar Pradesh-246701.
861.	Gareeb Samaj Swaraj Party	Shahpur Tigri,Post & Thana-Majhola,Muradabad,Uttar Pradesh-244001
862.	Gareeb Samana Party	H.No. 399, Aawas Vikas Colony, District- Mirzapur-231001, Uttar Pradesh.
863.	Garib Berozgar Vikas Party	Village- Champatpur, P.O- Ballia, Tehsil- Aawla, Vikas Khand- Alampur Jafarabad, District- Bareilly, Uttar Pradesh - 243402
864.	Garib Democratic Party	132 Brind Lamar Maidan,Gurjar Basti,The Devsar,Kulgam,Jammu & Kashmir – 192 231
865.	Garib Ekta Party	A-71 Group, Vazirpur Industrial Area, Vazirpur, Delhi – 110052.
866.	Garib Janshakti Party	Kumar Market, Akhadaghat Road, Holding No.17/15, Ward No.17, Near to Balughat Dhalan, Muzaffarpur, Bihar-842001
867.	Garib Janta Dal (Secular)	Mitra Mandal Colony, Ward No.11, Located Holding No. 470, Saket Vihar, Anishabad, Patna-2 Bihar.
868.	Garib Kalyan Party	No.-C/268,Shop No.2, Prabhakar Tent,Nr.Sejal Nagar Soci.,Nr.G.D. High School,Saijpur Bogha,Ahmedabad,Gujarat-382345
869.	Garibi Mukta Bharat Party	H.No. 185, Baliya Dev Nagar, Vadodara, Gujarat- 390001
870.	Garo National Council	New Tura, West Garo Hills (Meghalaya).
871.	Garvi Gujarat Party	No. 112, Gheewali Chali, Chamanpura, Asarwa, Ahmadabad, Gujarat- 380016
872.	Global People Peace Party	1 No. Anandanagar, P.O. – Anandanagar, P.S.-Kalyani, District – Nadia,West Bengal - 741245.
873.	Goa Nationalist Party	House No. 442, Chinchmala, Wada Parye, Sattari, Goa- 403505.
874.	Goa Praja Party	Classic Apartments, House No. – 69, Ella, Old Goa, Tiswadi, North Goa, Goa – 403402.
875.	Goa Su-raj Party	383-A, Pirazona, Moira,Bardez-Goa (Pin-403514).

876.	Goa Suraksha Manch	Shop No. 644/1, Ward No. 4, Ground Floor, Ahilyaram Niwas, Opp. Panchayat, Savaiverem, Ponda-Goa.
877.	Goa Vikas Party	Laxmi Sadan, Ground Floor, Opp. Assembly Complex, Near Journalist Colony, Porvorim, Goa-403507.
878.	Goemcarancho Otrek Asro	H. No. 780/A, Mugally, Sao Jose de Areal, Salcete, Goa.
879.	Goencho Swabhimani Party	H.No. 12/678, Behind St. Joaquim Chapel, Borda, Margao, Goa – 403601
880.	Gokula Makkal Katchi	New No.7, Old No. 3, Venkatraman Street, Teynampet, Chennai, Tamil Nadu-600018
881.	Gondvana Gantantra Party	Village & P.O. Tiverth, Tehsil Kutghora, District-Bilaspur (Chhattisgarh).
882.	Gondwana Congress Party	Shahapura, A-121, B.D.A. Colony, Bhopal, Madhya Pradesh.
883.	Gondwana Mukti Sena	M-2, Poorvanchal Phase-I, Khazurikala Road, Bhopal-462 021, Madhya Pradesh.
884.	Gorakha National Liberation Front	Dr. Zakir Hussain Road (Jalpahar Road), P.O. and District-Darjeeling, Darjeeling Gorkha Hill Council (West Bengal).
885.	Gorkha Democratic Front	Shahi Niwas, Chandrabani, Post – Mohabbewala, Dehradun, Uttarakhand.
886.	Gorkha Rashtriya Congress	9, K.B. Road, P.O. Ghoom, P.S. Jorebunglow, District Darjeeling, West Bengal.
887.	Graduate India Party	No.443, Katha No. 1200, AGB Layout, BBMP Ward No.12, Chikkasandra, Bangalore, Karnataka-560090.
888.	Gramin Vikas Party	Shiv Gram, Plot No. 323, (Khata No. 1161/1314), Entkal No. 5678, Kila No. 10/02, (1-0), Choma, Palam Vihar Extension, Tehsil & District- Gurugram, Haryana-122017
889.	Great India Party	D.No.1-1334, Devasthanam Road, Mangalagiri-522503, Guntur District, Andhra Pradesh.
890.	Green Party of India	36-C, Govindpuri, Ramnagar, Sodala, Jaipur, Rajasthan-302006
891.	Gujarat Janta Panchayat Party	City Survey No. 966, Rameshwar Mandirkepaas, Dili Fali, Bokhira, Porbandar, Gujarat – 360577.
892.	Gujarat Kisan Majadur Lokshasan Party	710/32, Green City, Street No. 5, Lalpur Road, Jamnagar, Gujarat-361005.
893.	Gujarat Nav Nirman Sena	C-19, Jayraj Flat, Soni Ni Chali, Odhav, Ahmedabad, Gujarat-382415
894.	Gujarat Sarva Samaj Party	Plot No.20, Survey No.133/3, Nirmal Nagar, Kidana, Tehsil-Gandhidham, Distt. - Kachh, Gujarat-370205
895.	Gunj Satya Ni Janata Party	Office No. C/442, Sumel – 7, Soni Ni Chawal Cross Road, N.H.No. 8, Rakhiyal, Ahmedabad – 380023
896.	Gurgaon Residents Party	C-1927, Sushant Lok-I, Gurgaon – 122 002, Haryana.
897.	Guru Chand Mukti Morcha	G-52, Aruna Nagar, Majnu Ka Tilla, Civil Lines, Delhi-110054.
898.	Guruchand Sena Dal	106, Purba Panchanna Gram South, Post-VIP Nagar, PS-Anandapur, Kolkata, West Bengal – 700100
899.	Haakim Apna Party	Mohalla Mehmood Khan, Sarai Nakhasa Chauraha, Sambhal, Tehsil & District – Sambhal, Uttar Pradesh – 244302.
900.	Hamara Sahara Party	Sanand Bhawan, Village and Post – Masaurha, P.S. – Paliganj, District - Patna, Bihar – 801110
901.	Hamari Apni Party	Survey No. 75/1, Indrayani Vihar, Sant Nagar, Lohgaon, Pune, Maharashtra – 411047
902.	Hamari Janmanch Party	1/12, New Chukuwala, Dehradun, Uttarakhand.
903.	Hamdard Party	Mohalla - Sayyadvada, Post- Satti Masjid, City – Ghazipur, District- Ghazipur, Uttar Pradesh- 233001
904.	Hamdardi Janrakshak Samajvadi Vikas Party (Jansevak)	Village- Udhura, Post office- Dallupur, P.S- Brahampur, District- Buxar, BIHAR- 802130
905.	Hamro Sikkim Party	Om Shanti Niwas, Lower Marchak, Rani Pool, East Sikkim, Sikkim – 737135

906.	Haq Insaaf Party	No.3037,Talab Khatikan, Jammu,Jammu & Kashmir-180001
907.	Hardam Manavtawadi Rashtriya Dal	No. 3-10-18, Pattabhipuram, Guntur, Andhra Pradesh- 522006
908.	Harit Pradesh Vikas Party	House No. 34, Gram – Tabela Gadhi, Tehsil – Baraut, Distict – Bagpat, Uttar Pradesh – 250622
909.	Haryana Democratic Front	No. 549, Mathura Nagri, Ambala City Haryana- 134003
910.	Haryana Development Party	H.No.2079, Sector-4, (Near Community Centre), Rewari, Haryana-123401
911.	Haryana Hitkari Dal,	Village-Brahaman Majra, P.O.-Bhadaur, Tehsil-Panipat, District-Panipat, Haryana-132103
912.	Haryana Insaaf Congress	Farm House, Near Bhagwat Bhakti Ashram, Rampura, Rewari – 123401 Haryana.
913.	Haryana Jan Chetna Party (V)	Kothi No. 118A, Circular Road, Model Town, Ambala City, Haryana – 134003.
914.	Haryana Janhit Vikas Party	531A, Sector-4, Rohtak, Haryana- 124001
915.	Haryana Janrakshak Dal	249/3, Park Road, Adarsh Nagar, Gohana, Distt. Sonapat, Haryana.
916.	Haryana Kranti Dal	Babain Road, Ladwa, District – Kurukshetra Haryana
917.	Haryana Lokhit Party	Shop No.8, SCO-2, Old Judicial Complex, Jharsa Road, Sector – 15, Gurgaon, Haryana – 122001
918.	Haryana Navnirman Sena	101, Village – Silokhra, Gurgaon, Haryana.
919.	Haryana Sarvajan Party	H. No. 236, Ward No. 2, Gram Panchayat Radaur, District – Yamuna Nagar, Haryana.
920.	Haryana Swatantra Party	House No. 154, Village & P. O. – Jakhauda, Tehsil – Bahadurgarh, Distt. – Jhajjar, Haryana.
921.	Himachal Jan Kranti Party	H.No.435, Ward No.10, Sham Nagar, Dharamshala, District- Kangra, Himachal Pradesh- 176215
922.	Himachal Janta Party	Pawan Katoch C/o Urmila Devi, 88, Mahal Vihar, H. No. 248, Vill.-Band Vihar, P.O.- Deogran, Tehsil-Palampur, District-Kangra, Himachal Pradesh- 176061.
923.	Himachal Lokhit Party	Shastri Bhawan, Devnagar, Kasumpti, Shimla-171009, Himachal Pradesh.
924.	Hind Congress Party	C-6, South Side, GT Road, Industrial Area, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
925.	Hind Hitaishi Hind Maa Sena	I-Virat Nagar, Sawan Park, Parshura Chowk. Phase-II, Canal Byepass, Model town, (Near Hotel Virat Palace), Panipat, Haryana-132103
926.	Hind Jan Congress	72, Pyarelal Compound, Nagra, Jhansi, Uttar Pradesh.
927.	Hind Jan Swaraj Party	Village-Kishanpur, Post-Benipur, Police Station-Bahera, Darbhanga, Bihar-847208
928.	Hind Samarpit Party	156, Shahbiswa Jalalpur, Raghunathpur, Muradanagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201206
929.	Hind Samdarshi Party	F-64, Galaxy Apartment, Sector – 43, Gurgaon, Haryana – 122002.
930.	Hind Samrajya Party	512/695K/1, Walda Road, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226007.
931.	Hind United Morcha	No. J-1, Shivalik Towers, Shivalik City, Sector-127, Kharar, S.A.S. Nagar, Punjab-140301.
932.	Hind Vikas Party	P.O. Sri Harbhagwan Nagar, Tapakalan, Near Kali Mandir, Jalesar Road, Ferozabad (Uttar Pradesh).
933.	Hindu Ekta Andolan Party	Hindi Ekta Karyalay, Malhar, Khan Bhag, Police Chowki, H.No.927/1, Sangli-416416, District Sangli, Maharashtra.
934.	Hindu Samaj Party	Rashtrawadi Dharma Satta, 26-A, Khurshedbad, Lucknow - 4, Uttar Pradesh
935.	Hindustan Ekta Party	Shop No. 132/2, Kesho Ram Complex, Sector - 45 C, Chandigarh-160047.
936.	Hindustan Hamara Party	555A/1, Mumfordganj, Allahabad, UTTAR PRADESH-211002
937.	Hindustan Inquilab Party	Mahesh Prasad Mandal, Village-Jhitki, P.O.-Hisar, Thana No. 32, Block-Harlakhi, Bajrang Bazaar Jhitki Distt. Madhubani, Bihar-847230
938.	Hindustan Janmorcha	House No. 1, Village & Post – Tekua, District - Deoria, Uttar Pradesh – 244182.

939.	Hindustan Janta Party	M/s Sono Sales Corporation, Subji Mandi, Khokadpura, Aurangabad (Maharashtra).
940.	Hindustan Janta Party Secular	Village-Morena,Post-Sirsa Viran,Thana Lalganj,District Vaishali,Bihar-844123
941.	Hindustan Kranti Dal	Village – Tundlaka, Panchayat – Goudhola, P.O & Tehsil – Punahana, Distt. – Mewat (Nuh), Haryana.
942.	Hindustan Krantikari Dal	A-65, Sector – 34, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
943.	Hindustan People's Party (Democratic)	H. No. 57,(Sky Sadam),Plot No-34/392/B8/C,Vill-Palbagan,Ward-4,Mihijam Jamtara,Jharkhand – 815354.
944.	Hindustan Rashtreeya Party	Door No. 64-8/1/1,Rsghavanagar,Patamata Lanka,Vijayawada,Krishna District,Andhra Pradesh- 520010
945.	Hindustan Samaj Party	Village & Post- Jagdishpur,Deeh- Raebareli,Uttar Pradesh- 229310.
946.	Hindustan Sampoorna Azad Party	Gram-Senduari Purushottam Ward No.8, Post-Bakhri, Thana-Anchal-Motipur,Muzaffarpur,Bihar-843111.
947.	Hindustan Shakti Sena	H. No. 1113/11, Darshan Singh Nagar, Alipur Road, Patiala, Punjab
948.	Hindustan Swaraj Congress Party	Shewar Bangla A.B. Nair Road, Juhu, Mumbai-4000491, Maharashtra
949.	Hindustan Tehreek-E-Insaaf	H.No. 1-12-386, Rajahawdi, Patvadi Naka Bahar Bhuj, Tahsil- Bhuj, District-Kachchh, Gujarat – 370001
950.	Hindustan Utthan Party	House No. 438, Village- Ravanikateri, Post- Bugrasi, Tehsil- Syana, District-Bulandshahr, Uttar Pradesh-245403
951.	Hindustan Vikas Dal	Karman Tola, Arah,District – Bhojpur - 802301Bihar.
952.	Hindustan Zindabad Party	No.C-33, Hari Krishna Park, Cadila Road, Ghodesser Crossing Pass, Ahmedabad, Gujarat-380050.
953.	Hindustani Awaam Party	H. No. 202A/104, Jawahar Nagar, Near Hathi Park, Lucknow, Uttar Pradesh – 226001.
954.	Hindustani Awam Manch (United)	Village-Dakhner,Post-Paraiya,Thana-paraiya,Distt.Gaya,Bihar-824209
955.	Hindustani Awam Morcha (Secular)	Maa Shabari Kutir, Godawari, P.S. - Rampur, District – Gaya, Bihar-823001.
956.	Hindustanwadi Party (Jaihind)	H.No.102,Village-Ramdattpur,Post-Pandaypur,P.S.Cantt,Varanasi,Uttar Pradesh-221007
957.	Hindusthan Nirman Dal	House No. 100, Gali No. 5,Krishna Nagar, Safdarjang Enclave,New Delhi.
958.	Hindusthan Praja Paksha	7/702, 'C' Wing, Sheetal Dhara Complex, Plot No. 28, Sector-7, Kamothe, Navi Mumbai – 410209, Maharashtra.
959.	Hindvi Swarajyay Dal	No. 167,Ambikanagar, Bhchau-7,Bhachau-Ta Chachau,District- Kachchh,,Gujarat-370140.
960.	Hitech Party	B-85, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.
961.	Hmar Peoples Convention	C/o Lalauva, House No. A/56, Bawngkawn Chimveng, Aizawl – 796 014 (Mizoram).
962.	Hum Bhartiya Party	House No. 1-3-3227, Harshrush, Behind Mukta Lawns, Jijau Nagar, Barshi Road, Beed, MAHARASHTRA- 431122.
963.	Hum Ek Hai Party	House No. 212,Khasra No.15/21,Rashid Nagar, Nal Saheb Road,Nagpur,Maharashtra-440018
964.	Hum Kisan Party	House No. 1699/G-25/A1, Vidya Nagar, Road No. 1, Harmu, Ranchi, Jharkhand – 834002
965.	Hum Log Party	H.No. B-170, Priyadarshini Vihar, Delhi- 110092
966.	Hum Sabki Party	Village – Mahimapur (Jalalpur Chaumuhani), Post – Jalalpur, District - Jaunpur, Uttar Pradesh – 222136
967.	Human Democratic Party	D.No.2/42,Boosipalli Village,Thenepalli Post,Vepanapalli Panchayathi,Puthalapattu Mandal,Chittoor District,Andhra Pradesh-517124
968.	Humanity for Peace Party	1-A,A.R.Rahuman Nagar,JMS Compound,Ka Na Vilakku,Aundipatti Taluk,Theni District,Tamil Nadu-625512
969.	Humanity Universal Motion Party	C/o Shamik Banerjee,#Holding No.84/1,Inda Rabindrapally,Ward No.02,Near Prantik Club,Kharagpur,District-Paschim Medinipur,West Bengal-721305
970.	Ikk Jutt Jammu	20 B/B, Gandhi Nagar,Jammu & Kashmir-180004

971.	Ilantamar Munnani Kazhagam	1/159, Periyar Nagar, Thirisulam, Chennai, Tamil Nadu- 600043
972.	Independent Indian Congress	At/Post Pimpalgaon By Mahalunge, Tal. – Ambegaon, Dist. – Pune, Maharashtra – 410503
973.	Independent People's Party	House No.63, Kargil Colony, Narwal Bala, Jammu, Jammu & Kashmir.
974.	Indhia Kudiarasu Katchi	11, Karpagambal Nagar, III Street, Kottivakkam, Chennai – 600 041. Tamil Nadu.
975.	Indhu Dravida Makkal Katchi	No.14, Balaji Nagar, Chikkarayapuram, Mangadu, Chennai, Tamil Nadu - 600069
976.	India Dravida Makkal Munnetra Katchi	Door No. 15/1, Ward No. 21, Sarojini Nagar, Towerline Colony, Erode Corporation Zone II, Erode-638011, Tamil Nadu.
977.	India Greens Party	104, Vardhman Complex, 1 st Floor, LSC, Savita Vihar, Delhi-110092
978.	India Janshakti Party	Plot No. 20, 21 & 22, Nai Basti, Nahar Road, Saidpur Jagir, Near Bhuiyan Devi Mandir, Lucknow, Uttar Pradesh- 226062
979.	India Makkal Munnetra Katchi	95, Cauveri Street, Bhavani – 638301, Erode District, TAMIL NADU.
980.	India Praja Bandhu Party	H. No. 18-1-317/A/68/1, Shivaji Nagar, Uppuguda, Hyderabad, Telangana- 500053
981.	India Rising Party	H.N. 39, Fatehpur, Kapoorapur-1, Tehsil- Tirwa, Dist- Kannauj, Uttar Pradesh- 209723
982.	India Samadhan Party	H.No. 129, Village & Post- Chauradev, P.S.-Gagalhedi, District- Saharanpur, Uttar Pradesh- 247669
983.	India Suyarajya Party	No. 48, Cholan Street, Praksah Nagar, Ambattur, Chennai, Tamil Nadu-600053
984.	Indian People Association Party	H.No. 2-74, Village- Venkatapur, Laxmi Narasimha Swamai Temple, Town/Mandal- Velpur, District- Nizamabad, Telangana State-503311
985.	Indian Aarthik Sudhar Party	H. No.- 1, Manjit Nagar, Basti Sheikh, Jalandhar, Punjab.
986.	Indian Alliance Party	Shop No. 6, L/1/21/6/83, Alnoor Society, Ahmedabad Road, Balasinor, District- Mahisagar, Gujarat- 388225
987.	Indian Bahujan Samajwadi Party	2/3, Ambedkar Nagar, Post-Nagina, Distt. Bijnaur-246762 (Uttar Pradesh).
988.	Indian Believers Party (IBP)	Old H. No. Central Office:8-3-168, Flat No. 201, 2 nd Floor, Bhanu Towers, ESI Hospital, Metro Station, S.R.Nagar, Hyderabad, Telangana State- 500038.
989.	Indian Business Party	1207, Pragati Tower, 26-Rajendra Place, New Delhi-110008.
990.	Indian Christian Front	LIG-289, Anna Nagar, Opp Velankanni Church, Madurai- 625020, Tamil Nadu.
991.	Indian Christian Secular Party	Plot No. 8, Wahab Nagar, Sikh Village, Secunderabad – 500 009.
992.	Indian Citizens' Party	At: Markata Nagar, Sector-10, Plot No. C-43, P.O. – Abhinaba Bidanasi, Cuttack- 753014 Orissa.
993.	Indian Democratic Congress	Vill.-Babu Sankar Nagar, Mouja- Bhalucksundi, J.L.No: 22, Post- Aligarh, P.S.- Rajnagar, Dist- Birbhum, West Bengal- 731130.
994.	Indian Democratic Party	D – 978, Jan Kalyan School Road, Bhajan Pura, Delhi – 110054
995.	Indian Democratic People's Party	Babugachh, P.O. Gendagachh, P.S. Chopra, Islampur, District- Uttar Dinajpur, West Bengal- 733207
996.	Indian Gandhiyan Party	Kuriyakott Building, Thekkumpadam Road, Pattikkad P.O., Thrissur District, Kerala- 680509.
997.	Indian Indira Congress (R)	1-Roop Rajat Nagar, Behind New Bus Stand, Pali, Rajasthan –306401
998.	Indian Justice Democratic Party	TC/25/25(3), GBNRA-63, Kalpalayam Lane, Gandharamman Covil Road, Thiruvananthapuram, Kerala- 695001
999.	Indian Krantikari Lehar	Mohalla Dhudi Wala, Bazigar Basti, Faridkot, Distt. – Faridkot, Punjab.
1000.	Indian Labour Party (Ambedkar Phule)	D.No.26-28-118, 1 st Line, Netaji Nagar, A.T. Agharam, Guntur, Andhra Pradesh – 522004.
1001.	Indian Lovers Party	No.-23, B-Block, 2 nd Street, Bhoopathy Nagar, Kodambakkam, Chennai, Tamil Nadu - 600024.

1002.	Indian Makkal Kalvi Munnetra Kazhagam	No.3, Deenadayalau Street, T. Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
1003.	Indian Milan Party of India	Golbazar, Post- Akot, District- Akola, Maharashtra- 444101
1004.	Indian Minorities Political Party	D. No. 9-4-51/35/48,Hakeempet (I.A.S.) Colony,Towli Chowki,Post – Golkonda Fort,Hyderabad – 500008,Andhra Pradesh.
1005.	Indian Movement Party	No.-65,Mantappa Village,Bannergatta Road,Jigani Hobli,Anekal Taluk,Bangalore Karnataka- 560083
1006.	Indian National League	No.7, Balwant Rai Mehta Lane, Kasturba Gandhi Marg Cross, New Delhi-110001.
1007.	Indian National Manavadhikar Party	Plot No. 429/(R),Rani Durgavati Chowk,N.I.T. Complex Binki Layout,Nagpur,Maharashtra- 440017
1008.	Indian National Parivartan Party	C-316A, Vashi Plaza, Plot No. 80/81, Sector- 17, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra-400703
1009.	Indian National Samaj Party	D-64/52,E-1 Kh,Madhampur,Sigra,Varanasi,Uttar Pradesh – 221010
1010.	Indian National Secular Democratic Party (of India)	Virk Farm,Near Main Canal Bridge,Verowal Road,Jandiala Guru,District-Amritsar,Punjab-143115
1011.	Indian National Socialistic Action Forces	Amua, Post Office & Police Station-Sainthia, District-Birbhum, West Bengal – 731234.
1012.	Indian National Youth Party	No.68-B,Devasandra,K.R.Pura,Bengaluru,Karnataka-560036
1013.	Indian National Yuva Jana Party	H.No.9-14,Prashant Nagar,Boduppall, Ghatkesar Mandal,Ranga Reddy District,Telangana-500092
1014.	Indian Nationalist Alliance Party (India)	C/ 1061/5,Indranagar,Lucknow,Uttar Pradesh- 226016
1015.	Indian New Congress Party	Office No. 107, 2 nd Floor, 1 st Cross, ‘A’ Block, A.K. Colony Road, Ghousia Nagar, Mysore City, Karnataka- 570 019.
1016.	Indian People’s Conference Party	H/o Makhdoom Sahib, House No. 51, Rainawari, Srinagar, Kashmir, Jammu & Kashmir.
1017.	Indian People's Forward Bloc	Tangra Housing Estate, Block-L/1, Flat -5, 40/1,Trangra Road, Kolkata-15, West Bengal.
1018.	Indian Peoples Green Party	19, Shubham Enclave,C-Scheme, Jaipur,Rajasthan.
1019.	Indian Praja Congress	Mathrudevobhava, Shop No. 1, Ground floor, Liberty Plaza, Door No. 3-6-365/UG/3-4, Himayath Nagar, Hyderabad, Telangana- 500029
1020.	Indian Public Federation Party	220, Vardhman Fortune Mall, (Opp. Mahendru Enclave), G.T. Karnal Road, Delhi-110033
1021.	Indian Public Party	B-1, Raj Complex, Sanskar Mandal, Bhavnagar – 364002, Gujarat
1022.	Indian Rakshaka Nayakudu Party	House No. 4-279, Basaveshwara Colony, Makthal, District- Mahabub Nagar, Telangana State-509208
1023.	Indian Sarvahit Party	6-B/138, Gopesh Kunj, Vrindavan Yojna, Raebareli Road, Lucknow, Uttar Pradesh-226025.
1024.	Indian Savarn Samaj Party	H. No. 0053, Daudpur, Gorakhpur, Uttar Pradesh
1025.	Indian United Peoples Party	Ward No.18,Indira Chowk,Sohagpur,Shahdol,Madhya Pradesh-484001
1026.	Indian Unity Centre	Vill & P.O- Somruk, P.S- Uluberia, Dist-Howrah,Pin-711316, West Bengal.
1027.	Indian Vikas Party	Khasra No. 327, Khoda Hajari Buteshwar Bagichi Road, Tehsil & District- Hathras, Uttar Pradesh- 204101
1028.	Indians Victory Party	3/261-2, Anandan Nagar, Asaripallam-629201, Kanyakumari District, Tamil Nadu
1029.	Indigenous Nationalist Party of Twipra	Abhoyanagar, Agartala-799005 (Tripura).
1030.	Indiya Jananayaka Katchi	No.9, 3rd Avenue, 34th Street,Ashok Nagar, Chennai-600083, Tamil Nadu.
1031.	Inqlabi Party	Behind B.T.I. School, Mahavir Nagar, Bhind, Madhya Pradesh, Pin – 477001.

1032.	Insaaf Di Awaz Party	MC No. 9/128/D, 9/128E, Gali No. 10, Ward No.9, Near Kansal Gas Agency, Raman Mandi, Tehsil- Talwandi Sabo, District- Bathinda, Punjab- 151301
1033.	Insaafwadi Party	Village & post – Piyari, P.S. – Chaubeypur, District – Varanasi, Uttar Pradesh - 221104.
1034.	Insaniyat Lok Vikas Party	Plot No. 1938/447/2, C/o Hind Scrap Store, Street No.-2, Janta Nagar, Near PNB, Ludhiana, Punjab-141003
1035.	Insaniyat Party	H. No. 262/1, Gannayak Bhavan, At & P.O. Sanali, Taluka Mahudha, Distt. Kheda , Gujarat - 387330.
1036.	International Party	Block-B-5, Flat No.-111, Yamuna Vihar, Delhi-110053
1037.	Islam Party Hind	Mohalla: Rajde Pur, Post-City Janpad, Gazipur, Uttar Pradesh.
1038.	Ittehad-E-Millait Council	93, Sodagaran, Dargah Aala Hajrat, Bareilly, Uttar Pradesh.
1039.	J & K Peoples' Movement	Sheikhpura, Humhama, Tehsil & District- Budgam, Jammu & Kashmir- 191111
1040.	Jaago Bharat Front	D – 185 B, Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi - 110059.
1041.	Jagat Kalyan Morcha	Village-Nanni, P.O.-Matiana, Tehsil-Theog, District-Shimla, Himachal Pradesh-171212
1042.	Jago Bharat Jago Party	14A/ 84, WEA, Karol Bagh, New Delhi-110005.
1043.	Jago Hindustan Party	H. No. 368, Mohalla- Kalyani Devi Civil Lines, District- Unnao, Uttar Pradesh-209801
1044.	Jago Party	9-1-108/1, 2nd Floor, Tata Chary Compound, S.D. Road, Secundrabad – 500 026, Andhra Pradesh.
1045.	Jagrook Janta Party	Village- Dilawarpur, P.O. & P.S.-Bihta, District- Patna, Bihar- 801103
1046.	Jagte Raho Party	C/o Ms. Kshama R Desai, 2, Vatika Bunglows, Near Sabari School, Vasna Road, Baroda, Gujarat.
1047.	Jai Andhra Party	D. No. – 14-71, Chagalnadu Steels, Morampudi Junction, Rajahmundry, East Godavari District, Andhra Pradesh - 533105.
1048.	Jai Bharat National Party	H.No. 22/630, DDA Flat, Madangiri, New Delhi- 110062
1049.	Jai Bharat Party	RZH-710E (E/54), Raj Nagar II (Near Dev Hospital), Palam Colony, New Delhi-45.
1050.	Jai Bharat Samanta Party	A-36/54-V-1, Samanata Shakti Bhawan, Kajjakpura, Koniya Road, Varanasi, Uttar Pradesh.
1051.	Jai Bharath Jena Sena Party	D. No: 42-64-1/1, Luna Centre, Opp. M.K. Baig Municipal Corporation High School, Singhnagar, Vijayawada, Krishna District, Andhra Pradesh – 520015
1052.	Jai Chhattisgarh Party	10, 2nd Floor, Shaheed Veernarayan Singh Compound, Nagar Ghari Chowk, G.E. Road, Raipur, Chhattisgarh – 492 001.
1053.	Jai Hind Congress Party	Shop No. 34, Ridhi Sidhi Colony, Rawla- Mandi, Tehsil- Gharsana, Sriganganagar, Rajasthan- 335771
1054.	Jai Hind Jai Bharat Rashtriya Party	BK No.1366, Room No.10, Maratha Section-32, Station Road, Near Ulhas Vidyalayaa, Next to Pradeep Vadapav Centre, Ulhasnagar, District- Thane, Maharashtra-421004
1055.	Jai Hind National Party	A2/135, Darshanam Antica, Danteshwar, Vadodara, Gujarat-390004
1056.	Jai Hind Party	Kharail Punarvas, Ward No.16, Nagar Parishad, Supaul, Bihar.
1057.	Jai Hind Samaj Party	Village - Kharhara (Bind Valia) Post – Dubiha, Janpad – Ghazipur, Uttar Pradesh.
1058.	Jai Hindustan Party	H.No.22-13-47, Block No. 13, Ambedkar Colony, Tirupati, Chittoor District, Andhra Pradesh- 517507
1059.	Jai Janseva Party	14/43, Sambhaji Chowk, Ichalkaranji, Tehsil –Hatakanangale, Distt:- Kolhapur, Maharashtra-416115.
1060.	Jai Janta Party	Ward No. 18, Holding No. 27, Bhabhua (Kaimur), Near of Agarwal Petrol Pump, Bihar – 821101.
1061.	Jai Jawan Jai Kisan Party	First Floor, H. No. – 60, Street No.7, Virk Colony, Near DCW, Patiala, Punjab - 147001.
1062.	Jai Jawan Kisan Naujawan Samvidhan Party	Khasara no.101/3, Mauja Vahanpur, Post-kailora, Hatharas Junction, Dist.- Hatharas, Uttar Pradesh-204102
1063.	Jai Kisan Jai Majdoor Party	House No. 77, Kharsa No. 374, Vill. & Post – Balakot, Near Mandir Darwaja, Pani Tanki ke Pass, Tehsil-Damoh, District - Damoh, M.P. – 470672
1064.	Jai Lok Party	F-2/5, Mayur Vihar, Ashoka Garden, Bhopal, Bhopal, Madhya Pradesh-462023.
1065.	Jai Maha Bharath Party	Jai Mahabharath Bhawan, Shri Mahaavykuntha Puram, Vill.- Bukkapuram, Tehsil – Alampuram, Distt. – Mahabub Nagar, Andhra Pradesh, Pin – 509 652.

1066.	Jai Manavta Party	H. No. 1, Samriddhi Parisar, Near of Sahu Aata Chakki, Lalita Nagar, Kolar Road, Bhopal, Madhya Pradesh.
1067.	Jai Prakash Janata Dal	190, Pratap Nagar, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi – 110091
1068.	Jai Samaikya Andhra Party	D. No. 4-86, Kammavari Veedhi, Machavaram Gram Panchayat Limits, Rayavaram Mandal, District – East Godavari, Andhra Pradesh – 533 214.
1069.	Jai Samta Party	Rakba Sher Nagar BiBipur, Kallarpur, Jansath Road, Tehsil-Sadar, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh- 251001
1070.	Jai Sewalal Bahujan Vikas Party	Flat No. 2, Plot No. 31, Himalaypushpa Building, Swapnanagri Garkheda Area, Aurangabad, Maharashtra- 431005.
1071.	Jai Swaraj Party	10-105/1/B/2, First Floor, Road No.- 2, New Gaddiannaram Colony, Dilsukh Nagar, Hyderabad, Telangana - 500060
1072.	Jai Vijaya Bharathi Party	Chinnagottigallu P.O., Chittoor District, Andhra Pradesh.
1073.	Jamat -E- Seratul Mustakim	P.O. Chhotto Sujapur, P.S. Kaliachak, Distt. Malda, West Bengal – 732206
1074.	Jammu & Kashmir Awami National Conference	3-R.C. Quarters, Press Enclave, Pratap Park, Srinagar-190001 (J & K).
1075.	Jammu & Kashmir People Conference	General Office, Old Secretariat Road, Sri Nagar-190001 (Jammu & Kashmir).
1076.	Jammu & Kashmir Pir Panjal Awami Party	Near Police Station Poonch, C/o District Court Poonch, Jammu & Kashmir
1077.	Jammu and Kashmir Apni Party	Kohinoor House, 7 Sheikh Bagh, Srinagar, Jammu and Kashmir-190001
1078.	Jammu And Kashmir National Democratic Front	168, Rawalpura Housing Colony, Srinagar (Jammu & Kashmir).
1079.	Jammu and Kashmir Nationalist People's Front	Badshah Flats 7-B, Jahangir Chowk, Srinagar, Jammu and Kashmir-190001
1080.	Jammu Kashmir People's Party (Secular)	96/9, Nanak Nagar, Jammu, Jammu & Kashmir – 180004
1081.	Jammu Kashmir Save Party	Rawalpura Village, Srinagar, Jammu & Kashmir
1082.	Jammu State Morcha (Progressive)	8, Old Dry Fruit Market, Jewel Chowk, Jammu – 180 001, Jammu & Kashmir.
1083.	Jan Aawaj Party	Jhinhak, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh- 209302.
1084.	Jan Abhiyan Party	27/3, Birhana Road, Kanpur, Uttar Pradesh-208001
1085.	Jan Adesh Akshuni Sena	House No.117, Patharia Mohalla, Padua Chauraha, G.T. Road Bhongaon, Mainpuri, Uttar Pradesh
1086.	Jan Adhikar Party	House No. 331, Sarvodaya Nagar, Chandi Road, Pilkhuwa, Uttar Pradesh.
1087.	Jan Adhikar Party (Loktantrik)	Ward No. 05/14, Vardhman Hata, Arjun Bhawan, Arjun Nagar, Post office- Purnea, P.S- Sahayak k. Haat, District- Purnea, Bihar-854301.
1088.	Jan Andolan Morcha	A-8/18, 1 st Floor, Block-A, Pocket-8, Sector-17, Rohini, Delhi - 110085.
1089.	Jan Asra Party	C/o Rawel Singh Bhinder, Khasra No. 12/1, Ground Floor, Near Kalwanu Road, Attalan, Tehsil-Patran, Distt. Patiala, Punjab-147102
1090.	Jan Awaz Vikas Party	H.No. 631, Second Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi.
1091.	Jan Chetna Kranti Manch	Suvir Kumar Pardeshi, Khemneechak, Behind Jakariyapur Krishna Niketan School, Police Station Aalamganj, Distt.- Patna, Bihar-800007
1092.	Jan Chetna Party	Chamber No.475, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.
1093.	Jan Congress Party	Ward No. 1. House No. 395, Bokakhat Town, District- Golaghat, Assam- 785612.
1094.	Jan Hit Party Pragatisheel	Village-Bhadurpur, Post-Morta, Tehsil & Distt. Ghaziabad, Near Police Chowki, Uttar Pradesh-201003
1095.	Jan Jagaran Yuva Manch	No. 2528/2649, at Ratnadeep Hospital, Nagar Road, Jamkhed, Taluka Jamkhed, Dist. Ahmednagar, Maharashtra-413201
1096.	Jan Jan (United) Party	Shantipuram, Phaphamau, Opposite B.B.S Engineering College, Near Navjeevan Hospital, District- Prayagraj, Uttar Pradesh- 211013

1097.	Jan Jan Party	Gali No. – 7, Village – Mamura, Sector – 66, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
1098.	Jan Janwadi Party	Gata No. 88, Village Badahara, Post-Turna, Tehsil-Saidpur, Thana-Nandganj, Distt.-Gazipur, Uttar Pradesh- 233306
1099.	Jan Kalyan Party	Fatehpur-Sahabpur, P.O- Kasenda, Tehsil- Chail, District- Kaushambi, Uttar Pradesh.
1100.	Jan Kranti Party, Andaman & Nicobar	C/o Harsh Mehra Traders, Opposite: CBI Office, Ranchi Basti, Port Blair - 744103.
1101.	Jan Man Party	D.409, Pratik Mall, Raysan, Gandhinagar Gujarat- 382007
1102.	Jan Mithila Vikas Party	Village Samdhiniya, Post Garri, P.S.-Jale, Darbhanga, Bihar-847303
1103.	Jan Pragati Party	544/2395, Mari Mata Mandir, Near Vikas Public School, Balaganj, Lucknow Uttar Pradesh- 226003
1104.	Jan Raajya Party	110/F/10A/1A, Kanahipur Village, Dhoomangunj, Allahabad-211001, Uttar Pradesh'.
1105.	Jan Raksha Party	Bhithauli, Sitapur Road, Lucknow-226020 Uttar Pradesh.
1106.	Jan Rashtrawadi Sangathan	356/340/1331, Ashok Vihar, Alam Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226017.
1107.	Jan Sadharan Party	House No – 04, Dr. Fatehullah Lane, Main Road, Ranchi, Jharkhand – 834001
1108.	Jan Sahara Party	Flat No.2, UG Floor, A-1/B, Advocate Compound, Old Jasola Village, Delhi-110025
1109.	Jan Samaj Ekta Party	530A, K-Block, Yashoda Nagar, Near Maa Durga Inter College, Kanpur, Uttar Pradesh-208011
1110.	Jan Samanta Party	B-125, Navjiwan Camp, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019.
1111.	Jan Samman Party	G-238, Main Road, Gali No.- 6/28, Bal Gyan School, West Karawal Nagar, Delhi-110094.
1112.	Jan Samuh Party	C-336/A, Ground Floor, Gali No.12, Khasra No.18/14, Matavali Gali, Johari Pur, Delhi-110094
1113.	Jan Samwad Party	319, Amkhera Road, Gohalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh-482004
1114.	Jan Sandesh Party	72/76/3, Stenely road, (Myorabad Crossing), Mamford Ganj, Prayagraj (Allahabad), Uttar Pradesh-211002.
1115.	Jan Sangh Party	A-90, Sector-21, Jalvayu Vihar, Noida, Gautambudh Nagar-201301, Uttar Pradesh.
1116.	Jan Sangharsh Dal	Near Choti Masjid, Main Road, Lauriya, West Champaran, Bihar-845453
1117.	Jan Sangharsh Virat Party	Street No. 2, Near of Bhuteshwar Mandir, Sant Ravidas Ward, Sagar, Tehsil & District – Sagar Uttar Pradesh.
1118.	Jan Santosh Party	Village & Post-Lalpur, Police, Chowki-Kamar, thana-Kosikalan, Block-Nandgaon, Tehsil-Chhata, District-Mathura, Uttar Pradesh- 281403
1119.	Jan Satya Path Party	1 st Floor, Madhav Complex, Opp. City Pulse Theatre, Raipur, Ahmedabad, Gujarat-380022.
1120.	Jan Seva Sahayak Party	Village – Tal Mahawar, Tehsil – Bilaspur, District - Rampur, Uttar Pradesh
1121.	Jan Seva Sangharsh Party	Village & Post - Pilimandori, Tehsil- Bhattu Kalan, District- Fatehabad, Haryana - 125053.
1122.	Jan Sevak Party	L.I.G. 63, Shekhpura, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh,
1123.	Jan Sewa Driver Party	Flat F-201, Krish Exotica, Opp. Rajipa Greet Land, B/h, Shyamved, Residency, Nicol, Ahmedabad, Gujarat- 382350
1124.	Jan Sewak Kranti Party	AT-772, Bhim Nagar New Railway Road, Gurugram-122001
1125.	Jan Shakti Dal	Shivaji Nagar, Street No. 1, Near Kailtan School, Line Paar, Muradabad-244001, Uttar Pradesh.
1126.	Jan Shakti Ekta Party	Village – Mandanpur, Post- Meerganj, District – Bareilly, Uttar Pradesh – 243504.
1127.	Jan Shakti Party of India	7107, Street No.3, New Vishwakarma Nagar, Focal Point, Ludhiana, Punjab-141010.
1128.	Jan Srijan Party	15-D, Kaushalpuri, Khargapur, Vikas Khand – Chinhat, Gomtinagar, Pargana, Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh .
1129.	Jan Surajya Shakti	Janasampark Karyalaya, Warananagar, Tal. Panhala, Distt. Kolhapur, Maharashtra-416113.
1130.	Jan Swabhavik Party	636/09 Budh Vihar Colony, Phase I, Takrohi, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016
1131.	Jan Vikas Party Secular	1/97, Vishesh Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.
1132.	Jana Dwani Party	D. No. 3-PC/18, Lakshmi Narayana Estates, Miyapur, Hyderabad, Telangana – 500049

1133.	Jana Rajyam Party	H.No.8-217/16,Dharmareddy Arcade,Flat-T1,Gayatri Nagar,Laxminagar Colony,Road No.3,Jillela Guda Municipality,Balapur Mandal,Rangareddy District, Telangana State-500097
1134.	Jana Sahayaka Sakthi	Door No. 27-85/1,Cobaldpet,4 th Lane,Guntur,Andhra Pradesh- 522006
1135.	Jana Samanyara Party (Karnataka)	Sri. Veerabhadra Swamy Nilaya, 1 st Main, 5 th Cross, Vijaya Nagar, Tumkur, Karnataka – 572102.
1136.	Jana Samrudhi Party	Kashipur-Balarampur, Unit-18, P.O.- Keonjhar, P.S- Town, District- Keonjhar, Odisha- 758001.
1137.	Jana Shankhaaraavam Party	H.No.4-1-216/54/502,Karthikeya Nagar,Nacharam,Uppal,Medchal Malkajgiri District,Telangana State-500076
1138.	Jana Spandana Party	No. 60,1 st Floor,Veerapillai Street,Shivajinagar,Bangalore,Karnataka- 560001
1139.	Jana Swarajya Party	H.O. 83/A, 3 rd Ward, Kamma Bazar, Sandur-583119, Karnataka.
1140.	Jana Vaahini Party	Door No. 28-5-37A, 12th Road, Santhi Nagar, Eluru, West Godavari District, Andhra Pradesh-534001
1141.	Janadhar National Party	63, R.R.Avenue,Tulsi Nagar,Mahalaxmi Nagar Road,Indore,Madhya Pradesh- 452010
1142.	Janadhar Shakti Party	Gram 162512,Devrahi Road,Arel,Naini,Tehsil Karchana Prayagraj,Uttar Pradesh – 211008
1143.	Janadhipathiya Kerala Congress	Near Jawahar Balbhavan, Building No. 641, Ward No. 21, Kottayam Municipality, District – Kottayam, KERALA.
1144.	Janadhipathiya Samrakshana Samithi	Kerala State Committee Office, Iron Bridge P.O., Alleppey-688011, Kerala.
1145.	Janahitha Paksha	D. No. 109, 2nd Ward, Kamma Street, Bellary, Karnataka – 583101.
1146.	Janam Manam Party	13-24/A, Pandurangavaripalli Village, Ithepalli Post, Chandragiri Mandal, Chittoor District, Andhra Pradesh- 517102
1147.	Janam Rashtriya Party	Bldg.No.582,Iverkala Ward 5,Kunnathoor Panchayath,Iverkala East P.O.,Kollam- 691507,Kerala
1148.	Jananayaka Makkal Rajjiyam	20/86A, Krishna Nagar West, Ammapet (PO), District - Salem, Tamil Nadu - 636003.
1149.	Janapaalana Party (Democratic)	8-2-703/2/B, Plot No.2, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500034.
1150.	Janasena Party	House No. 8-2-293/82/HH/91/A/201, Huda Heights, MLA Colony, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500033 .
1151.	Janata Cabinet Party	16/A (16/1),Lytton Road,Subhash Road,Dehradun New Nagar Nigam,No.184/4,PIN – 248001,Uttarakhand
1152.	Janata Congress	278A, 1 st Floor, G.K.Complex, Main Road Okhla, Jamia Nagar, New Delhi-110025 .
1153.	Janata Congress National Movement Party	No. 8-2-293/82/J/III,Road No. 79,Jubilee Hills,Hyderabad,Telangana -500033
1154.	Janata Dal (Ahinsawadi)	201,BHEL Extension,9 th Cross,Stage-II,Rajarajeshwari Nagar,Bangalore,Karnataka- 560098.
1155.	Janata Party	G/42, Purvi Vinod Nagar, Delhi - 110091
1156.	Janata Uday Party	860, Gali No.4, Sanjay Enclave, Chacha Chowk, Parvatiya Colony, N.I.T. Faridabad, Haryana.
1157.	Janata Unnati Party	Village-Palhipar,Post Office-Pakdi Doobe,Dist.-Gorakhpur,Uttar Pradesh-273413
1158.	Janata Vikas Party	Abashek Bhavan, Udainagar Colony, Sagar Road, Vidisha(Madhya Pradesh).
1159.	Janhit Bharat Party	730, Arra Nai Basti, Naubasta, Yogendra Vihar, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208021
1160.	Janhit Dal	R.M.S. Colony, Road No. 2, Kankar Bagh, Patna-20, Bihar.
1161.	Janhit Kisan Party	Ward No. 24, Saxena Nagar, Nagar Palika Parishad – Maharajganj, Janpad – Maharajganj – 273303 Uttar Pradesh.
1162.	Janhit Krantikari Party	Shivaji S/o Panna Lal, H.No.47/1, Vill. & Post - Nayabans, Paragana - Marhara, Thana - Mirhachi, Tehsil - Etah, District - Etah, Uttar Pradesh - 207125
1163.	Janhit Lokshahi Party	Room No. – 41/3, Gaondevi Road, Pavanegaon, Navi Mumbai, Maharashtra – 400705.
1164.	Janhit Vikas Party	Village-Kapasi , Post- Hasanpur, Block- Baliakhedi, District- Saharanpur, Uttar Pradesh-247111
1165.	Jankranti Samaj Party	House No. 16, Sadarpur Colony, B.D.S. Market, Som Bazar, Sector-45, Noida, Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh.

1166.	Janlok Vikas Party	House No.124,Ward No.22,Kasai Tola,Gorya Asthan,P.O.-Rasra,Distt.-Ballia,Uttar Pradesh-221712
1167.	Janmangal Paksh	Ram Pratap, Geeta Nagar, Main Road, Near Gurukul, Rajkot – 360 002 (Gujarat).
1168.	Janmat Party	Office No.-101,First Floor,B-37, B-Block, Gali no.-14,Madhu Vihar Delhi – 110092
1169.	Janmat Vikas Paksha	Post – Saswad, Purandhar, Maharashtra - 412301.
1170.	Jannayak Yuva Shakti Party	H.No.587/20,Near Khasa Chowk ,Rameshwar Puram Colony,Kabirpur,Sonipat,Haryana-131001
1171.	Jan-Nyay Dal	301, Sri Devraha – Complex,Mata Madia Choraha, Vijay Takeej Road,Motinagar Ward, Teh. & Zila – Sagar, Madhya Pradesh.
1172.	Janral Samaj Party	Surat Printing Press,Dana Mandi Road, Bathinda, PUNJAB.
1173.	Jansamuday Party	57, 1 st Floor, Stadium House, Stadium Cross Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat - 380009.
1174.	Jansatta Dal Loktantrik	Village & Post- Majhilgaon (Babuganj), Tehsil- Kunda, District- Pratapgarh, Uttar Pradesh- 230204
1175.	Jansatta Rashtrawadi Ekta Party	C/o Raghavendra Singh, S/o Shri Harivansh Singh, Village-Garhi, Majre-Khaspariya, Post-Basti, Tehsil-Nawabganj, Block-Banki, District-Barabanki, Uttar Pradesh- 225003.
1176.	Janseva Gondwana Party	Plot No.36,Jayaswal Lay Out,Near Bhoyar College Girls Hostel,Nalwadi,Wardha,Teh. And Distt. – Wardha,Maharashtra- 442001
1177.	Janshakti Janta Dal	Rajni Complex,Khagaul Road,Near Dayanand Girl's High School,Mithapur,Patna 800001
1178.	Janshakti Party (Rashtriya)	Plot No. 38, Ground Floor, Opp. KDK Public School, Main Road, Mandawali, Fazalpur, Delhi- 110092.
1179.	Janshakti Samta Party	Tehsil Campus,Post-Salon,Janpad- Raebareli,Uttar Pradesh-229127
1180.	Janshakti Vikas Party (Democratic)	At-PO-Numar,PS-Barhat,District-Jamui,Bihar-811313
1181.	Janta Brigade Party	R-142,Jawalapuri,Camp No. 5,New Delhi- 110087
1182.	Janta Dal Hindustani	Khata No. 64 (Old), Plot No. 370 (Old), New Plot No. 838, 839, 744, 745, Thana No. 314, Village- Aabgila, Thana- Mufsil, Anchal- Manpur, District- Gaya, Bihar-823003
1183.	Janta Dal Rashtravadi	House No. 55/1, Haroon Nagar Colony, Sector – 1, P.S. & P.O. Phulwari Sharif, Patna, Bihar - 801505.
1184.	Janta Kalyan Morcha	Khevat No. 184, Khata No. 188, Keela No. 51/16/3, Khedi Damkan, Tehsil Gohana, Sonipat, Haryana-131301.
1185.	Janta Kranti Party	Bharat Vihar Colony, Opposite of Big Shiv Mandir, Mandavar Road, Bijnaur, District – Bijnaur, Uttar Pradesh- 246701.
1186.	Janta Kranti Party (Rashtravadi)	No. 29, Kantipuram Part-2, Behind Shivpuri Power House, Ganeshpur, Rahmanpur, Deva Road, Chinhat, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
1187.	Janta Raj Party	House No. 43, Village – Tejpura, Post – Indore, District – Ghazipur, Uttar Pradesh – 233226
1188.	Janta Raj Vikas Party	Village- Chakfaij, Post- Sukki, P.S- Patepur, Distirct- Vaishali, Bihar-843114.
1189.	Janta Rakshak Party	Ward No. 1,Mohalla Kamlapur,Near Dr. Bhim Rao Ambedkar Inter College,Post-Udaypur Mahewa,District-Lakhimpur Khiri,Uttar Pradesh-262701
1190.	Janta Samajwadi Party (Vivek Raj)	72,Ratan Nagar,Pradharshni Pandal Marg,City & District-Etawah,Uttar Pradesh- 206001
1191.	Janta Samta Party	Village-Dumri Ekhalas,P.O.-Hetimpur,Thana-Rampur Karkhana,Tehsil & District-Deoria,Uttar Pradesh- 274206
1192.	Janta Sarkar Party	I-4/39, Ground Floor, Sector – 16, Rohini, Delhi-110089
1193.	Janta Sena Rajasthan	Mukam Post: Vallabhnagar, District – Udaipur, Rajasthan – 313601.
1194.	Janta Shashan Party	4A,Keshav Park,Saraswatipuram Raibareli Road,Lucknow Uttar Pradesh-226014.
1195.	Janta Swabhimani Party	Katghara Dehati,Haveli, Sadar,Jaunpur,Uttar Pradesh-222002
1196.	Jantantra Party	3rd Floor, Taksal Theatres Building, Nadesar, Varanasi – 221002, Uttar Pradesh.
1197.	Jantantrik Lokhit Party	Sushma Nawal Kunj,NTPC Colony,R.K.Nagar,Ward No.32,Circle No.8,P.O.Now Jaganpura,P.S.Rak Nagar,District-Patna,Bihar-800027
1198.	Jantantrik Samta Party	H.No. 100, Ward No. 4, Ludhupara, Jaswant Nagar, Etawah, Uttar Pradesh- 206245
1199.	Jantantrik Vikas Party	201, P.Mall, Second Floor, Exhibition Road, District- Patna, Bihar-800001

1200.	Jantawadi Congress Party	161/B, Opp. Shivaji Garden, Swadeshi Mill Road, Chunabhatti (E), Mumbai, Maharashtra – 400037.
1201.	Janvadi Party (Socialist)	B-32/2, Behind Jain Mandir, Nariya, Varanasi, Uttar Pradesh.
1202.	Jateeya Sama Samajam Party	1-24, Dinnadevarapadu Village, Kurnool Mandal, Kurnool – District, Andhra Pradesh-518002
1203.	Jatiya Jana Sena Party	Door No. 1-9-290/B/A, Adikmet, Ramnagar Gundu, Lalita Nagar, New Nallakunta, Hyderabad, Telangana-500044.
1204.	Jatiya Mahila Party	6-3-B-922, N.G.O's Colony, Vanasthalipuram, Hyderabad, Telangana- 500070
1205.	Jawan Kisan Awam Party	Nai Basti, Bahadurpur, Manjhelpur, Thana-Jahangirabad, Post-Somaiya Nagar, Barabanki, Uttar Pradesh-225002
1206.	Jawan Kisan Morcha	Qr. No. L.I.G.H.-1/7, Housing Colony, Dalpatpur (Chandva), Aara, Bihar-802312.
1207.	Jay Hind Jay Bharat Party	N – 106, HIG Flat, Sanjay Nagar, Sector – 23, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1208.	Jay Vidarbha Party	302, Kolbaswami Residency, Vithal Nagar, Opposite New Era English School, Uday Nagar Square, Manewada Ring Road, Nagpur, Maharashtra- 440034
1209.	Jebamani Janata	No.33, Second Street, East Abirampuram, Mylapore, Chennai-600004, (Tamil Nadu).
1210.	Jharkhand Anushilan Party	Vill + Post – Jhilimili, P.S.– Barikul, Distt – Bankura, West Bengal – 722135.
1211.	Jharkhand Azad Party	C/o Jaleshwar Karmali H. No. 153A, Khata No. 40, Plot No. 293, Mauj Hombai, Village – Hombai, Post – Nevri Vikas, Thana – Sadar Ranchi, District – Ranchi, Jharkhand – 835217
1212.	Jharkhand Disom Party	12, Road No.21, Kadma Farm Area, Jamshedpur-831005, Jharkhand.
1213.	Jharkhand Jan Kranti Morcha	House No. 36, Dinkar Nagar, P.O. – Hatia Railway Colony, PS – Jagannathpur, Ranchi, Jharkhand.
1214.	Jharkhand Janadhikar Party	Opposite Holi Cross School, Lalpur Peace Road, Ranchi – 834 001, Jharkhand.
1215.	Jharkhand Ki Krantikari Party	23, Purvi Jail Road, Ranchi-1, (Jharkhand).
1216.	Jharkhand Mukti Morcha (Ulgulan)	C/o - Shri Om Prakash Singh, Village & Post - Madhukam, Road No.4, Thana - Sukhdev Nagar, District - Ranchi, Jharkhand - 834001
1217.	Jharkhand Party	Anand Suwani Niwas, Airport Road, Hinoo, Ranchi Jharkhand-834002.
1218.	Jharkhand Party (Naren)	At-Raghunathpur, P.O.Jhargram, District- Midnapur-721507 (West Bengal).
1219.	Jharkhand Party (Secular)	Village – Unideeh, Post – Raja Ulatu, Thana - Namkum, District- Ranchi, Jharkhand.
1220.	Jharkhand People's Party	P.O.Laubasa, Jamshedpur, P.S. Gobind Pur, Distt. Singhbhum (East) (Jharkhand).
1221.	Jharkhand Vikas Dal	273, Lake Avenue, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand.
1222.	Jindabad Kranti Party	31/83A, 3 rd Floor, Gali No.5, Bhikam Singh Colony, Vishwas Nagar, Shahdara, Delhi-110032
1223.	Johaar Party	Village- Dadha Tand, P.O & P.S. Itki, District- Ranchi, Jharkhand- 835301
1224.	Justice and Development Party	Vill. & P.O.-Ahiran, P.S.- Suti, Distt.-Murshidabad, West Bengal- 742223.
1225.	Justice Party	Village- Diktan Khera, P.O- Harchandpur, District- Raebareli, Uttar Pradesh-229303
1226.	Jwala Dal	H. No. 247B, Mo. Jangal Tulsiram, Post – Bichhia P.A.C. Camp, P.S. – Shahpur, Distt. – Gorakhpur-273014, Uttar Pradesh.
1227.	Kalinga National Front	At-Parabil, P.O.-Kandarpur, Dist-Cuttack-754100, Odisha.
1228.	Kalinga Sena	19A, Madhusudan Nagar, Unit-4, Bhubaneswar-751 001, Khurda, Orissa.
1229.	Kalyan Karnataka Party	CTS No.4589/A, 1st Floor, Shetty Galli, Belagavi, Karnataka- 590002
1230.	Kalyana Kranthi Party	#57, 2 nd Floor, 3 rd Main Adithyanagar, 8 th Phase, JP Nagar, Bengaluru, Karnataka-560062
1231.	Kalyana Rajya Pragathi Paksha	49/48, Kyalasanahalli, Kothanur Post, Bengaluru, Karnataka-560077.
1232.	Kalyankari Jantantrik Party	B 4/260A, Keshavpuram, New Delhi - 110035.
1233.	Kalyanwadi Party	16, Pandey Tola, Paintepur, Mahmudabad, Sitapur, Uttar Pradesh- 261203

1234.	Kamarajar Deseeya Congress	7-Velayudha, Raja Street,Raja Annamalaipuram, Mandaveli, Chennai-600028 (Tamil Nadu).
1235.	Kamatapur People's Party (United)	Village & Post- Bhandani, P.S- Dhupguri, District- Jalpaiguri, West Bengal-735210
1236.	Kamera Samaj Party	Ward No. 3,Lala Ka Purva,Shankargarh (Near Patti Devi School),Shankargarh,Post-Shankargarh,District-Prayagraj,Uttar Pradesh- 212108.
1237.	Kamgaar Kisan Party	Rahul Bhawan H.No.51 Manas Nagar,Ziyamau,Hazratganj,Distt.-Lucknow,Uttar Pradesh-226001
1238.	Kamtapur Progressive Party	'Chilla Roy Bhawan' Village - Bidhanpally, P.O. Kadamtala, Distt. Darjeeling – 734433, West Bengal.
1239.	Kannada Chalavali Vatal Paksha	154, Rangswamy Temple Street, Bangalore-560053 (Karnataka).
1240.	Kannada Deshada Paksha	No. 20, Bandarlhalli Village, Kamasamudram Hobli, Bangarpet Taluk, Distt.-Kolar, Karnataka- 563129.
1241.	Kannada Paksha	No. 259/1, 1st Floor, Ranghswamy Temple Street (Opp. to Jain Temple) Bangalore-560053 (Karnataka).
1242.	Kanoon Raj Party	D-1/1045,Gali No.27,Harsh Vihar,Shahdara,Delhi-110093
1243.	Kanshiram Bahujan Dal	Khata No. 208, Ka Araj No. 159M/0.0810, Village- Ali Khanpur, P.S.- Line Bazar, Tehsil- Sadar, Pargana- Haveli, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222132
1244.	Kanshiram Bahujan Moolniwasi Party	H. No.A-62/1-153,A Block Omaex City,Aurangabad Khalsa Janpad,Lucknow,Uttar Pradesh – 226025
1245.	Karma Party	Shop No. – 1, HUDA Market, Leisure Valley Park, Opposite Kingdom of Dreams, Sector – 29, Gurgaon, Haryana - 122002
1246.	Karnataka Janaseve Party	Old PID No.36,Khata No.151,Survey No.42,Kaveripura Main Road,No.587,Near Mahadeshwara, Temple Road,Ranganathapura,Kamkshipalya,Bangaluru,Karnataka-560079
1247.	Karnataka Jantha Paksha	# 11, 12 th Main 17 th Cross, Malleshwaram, Bengaluru – 560055, Karnataka
1248.	Karnataka Karmikara Paksha	No. 120, 1 st Floor, St. Johns Church Road, Near Coles Park, Bangalore, Karnataka-560005
1249.	Karnataka Makkala Paksha	H.O. No. 09, Block-4 JSS Employee's Layout, Sathagalli, Nazarabad Mohalla, Mysore, Karnataka-570011
1250.	Karnataka Pragnyavantha Janatha Party	No.23, 2 nd "A" Main Road, 7 th Cross, Muneshwara Layout, Srigandhanagar, Bengaluru, Karnataka – 560091
1251.	Karnataka Praja Party (Raitha Parva)	Flat No. 104, Adith Apartment, SJCE Collage Road, Telecom Layout, Vagdevinagar, Mysuru, Karnataka-570009.
1252.	Karnataka Praja Vikas Party	No. 15 Sampangiramaiah Layout, Sidedahalli, Yashwantpur Hobli, Nagasandra Post, Bengaluru North Taluk, Bengaluru District, Karnataka- 560073
1253.	Karnataka Rajya Ryota Sangha	636, Ideal Homes Layout, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-560098 (Karnataka).
1254.	Karnataka Rashtra Samithi	No.31/2,8 th E Main,4 th Block,Jayanagar,Bengaluru,Karnataka-560011
1255.	Karnataka Samata Paksha	No. 718, S.Kalledar Plot, Tiriapur, Navalgund, District- Dharwad, Karnataka-582208
1256.	Karnataka Swabhimani Raithara Karmikara Party	Khatha Assessment No. 565/7782/6536, C.K.Pura, Main Road, Chitradurga, Karnataka-577501
1257.	Karnataka Swarajya Party	No. 2082, Chidambar Krupa, Sai Nagar, Raibag, Dist-Belgaum, Karnataka – 591317.
1258.	Kartavya Rashtriya Party	H. No. - 46, Lala Mohamadpur, Kankar Khara, Meerut, UTTAR PRADESH.
1259.	Karunaadu Party	Sa-13/2,No:7 th Mallathahalli, Nanjappa Garden, Bangalore-560056 Karnataka.
1260.	Karunadaga Thamizhar Katchi	No.15,Nidharsanam,JV.Shetty Road,Ramasamy Palya,MS Nagar Post,Bengaluru,Karnataka-560033
1261.	Kashmir Development Front (J&K)	House No. 254 – Main Road,Near Post Office, Jawahar Nagar, Srinagar, Jammu & Kashmir.
1262.	Kathor Shasan Party	75, B-3, Jatan, Bhagwati Bhawan, P.O. & District - Bijnor, Uttar Pradesh - 246701.
1263.	Kendriya Janvikas Party	Plot No. - 179, Ayurvedic Layout, Bhande Plot, Umrer Road,Sakkardara, Dist-Nagpur, Maharashtra- 440024.

1264.	Kerala Congress	67, Kumaranasn Nagar, Kadavanthara, P.O. Ernakulam, Kerala.
1265.	Kerala Congress (B)	P.T. Chacko Smarka, Mandiram, S.S. Kovil Road, Thampanoor, Thiruvananthapuram-695001 (Kerala).
1266.	Kerala Congress (Jacob)	Ward XIII, Building 346, T.B. Road, Kottayam (Kerala) - 686001
1267.	Kerala Congress (Skariah Thomas)	Chingavanam in Building No. 711, Ward No.6, Kottayam Municipality, Kottayam, District- Kottayam, Kerala
1268.	Kerala Congress Secular	Kerala Congress Secular State Committee Office, Bharath Building, Pulimood Jn., Kottayam - 1, (Kerala).
1269.	Kerala Democratic Party	6/341, Pinakattu, Bharananganam, Choondacherry, P.O. Pala, Kottayam District, Kottayam-686579, Kerala
1270.	Kerala Janapaksham (Secular)	T.C. 16/882(13), Sreekrishna Nagar, Jagathy – Post, Thiruvananthapuram, Kerala-695014
1271.	Kerala Janatha Party	Mulakulam Panchayath, Ward No. 12, Building No.2, Poozhikol P.O, Kaduthuruthy, Kerala- 686604
1272.	Kerala Kamaraj Congress	Building No.- NMC XII/342D, Neyyattinkara, Thiruvananthapuram, Kerala- 695121.
1273.	Kerala Pravasi Association	Kanjiramattathil (House), No.11/585P, Maloth, Darkhas, Kasargod, Kerala-671533
1274.	Kerala Revolutionary Socialist Party (Leninist- Marxist)	No. 19/1347, Sasthamcotta Gramapanchayath , Kollam, Kerala- 690521
1275.	Kerala Vikas Congress	EP. III/468, Eruvessi Village, P.O- Chemperi, Taliparamba Taluk, Kannur District, Kerala.- 670632
1276.	Khandesh Vikas Congress Party	Building No.2, 15/16, First Floor, Khandesh Mill Shopping Complex, Jalgaon – 425 001.
1277.	Khun Hynnieutrip National Awakening Movement	Jaiaw Lower Lansonallane, House No.32 & Ward No.14 and holding No.65, Shillong, East Khasi Hills District, Meghalaya - 793002
1278.	Khushhal Kisan Party	House No.- 125, Anaj Mandi ke Paas, Nagar Road Deeg, Tehsil- Deeg, District- Bharatpur, Rajasthan- 321203
1279.	Khusro Sena Party	I-4/95, Sashtri Nagar, District- Bareilly, Uttar Pradesh.
1280.	Kisan Adhikar Party	A/1-104, First Floor, Suryanjali Residency, Opp. Sanskar Residency, Cross Road, Amroli, Surat, Gujarat- 394107
1281.	Kisan Kranti Dal	Nangla Sukhdev, Neemkhera – Jalesar, Distt: Etah (Uttar Pradesh).
1282.	Kisan Majdoor Berojgar Sangh	Village-Jaitpur, Post-Phaphund, Oraia, Uttar Pradesh
1283.	Kisan Majdoor Praja Party	A X - 223/224, Rajharsh Colony, Nayapura, Kolar Raod, Bhopal, Madhya Pradesh.
1284.	Kisan Majdoor Suraksha Party	House No. 45, Village- Kheria Hairat Khan, PO- Kulwath, Tehsil- Gabhana, District- Aligarh Uttar Pradesh-202001
1285.	Kisan Mazdoor Sangharsh Party	Bharosa City, Village-SarosaBharosa, Post- Maunda, Block-Kakori, District- Lucknow, UTTAR PRADESH – 226008
1286.	Kisan Party (Loktantrik)	Srikrishna Chikistalaya, Sida, Sata Hariya, Post-Pawara, District- Jaunpur Uttar Pradesh- 222202
1287.	Kisan Party of India	Ward No. 01, Janakpur Road, Nageshwar Sthan, P.S- Pupri, District- Sitamarhi Bihar -843320.
1288.	Kisan Raj Party	Junior L.I.G. 358, Vindhya Vihar Colony (Padra), District- Rewa, Madhya Pradesh-486001
1289.	Kisan Raksha Party	529/A & New House No.807, Pathoriyan Outside Datiya Gate, Tehsil & District- Jhansi, Uttar Pradesh- 284001
1290.	Kisan Samaj Morcha	Bichola Bhoad, Post – Patriya, Tahsil – Gunnaur, Badayun, Uttar Pradesh.
1291.	Kisan Samaj Party (S)	Jhinnaपुरva, Post – Dhakherva Nankar, Tehsil – Nighasan, Distt. – Lakhimpur (Khiri), Uttar Pradesh.
1292.	Kisan Sangharsh Samiti	Chhariari, Makhdumpur, Jahanabad, district-Jahanabad, Bihar-804422
1293.	Kisan Sena	101, Koliyan Vishungarh Road, Chhibramau, Kannauj, UTTAR PRADESH.
1294.	Kisan Shakti Jantantrik Party	H.No. 12/445, Majhola Awas Vikas, Tehsil-Sadar, Distt.- Muradabad, Uttar Pradesh.
1295.	Kisan Vishwa Party	Village & Post-Safipur, Thana-Devan, District-Barabanki, Uttar Pradesh-225301
1296.	Kishore Raj Party	L-2/601, Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.

1297.	Kongu Desa Marumalarchi Makkal Katchi	301/14, Alagarasan Nagar, Pachampalayam, Anthiyur, Erode, Tamil Nadu – 638501.
1298.	Kongunadu Ilaiginar Padai Katchi	D.No.2/38,Janani Garden,Allikulam,Nagamma Puthur (PO),Sathi Road,Annur,Coimbatore District,Tamil Nadu-641653
1299.	Kongunadu Makkal Desia Katchi	No. 5/54, East Street, Post - Kokkarayan Pettai, Taluk - Tiruchengode, District - Namakkal, Tamil Nadu-638007
1300.	Kosal Janata Dal	Plot No-JC-02, Phase-01, Chhend Colony, Rourkela, District- Sundargarh, Odisha-769015
1301.	Kosal Kranti Dal	Telephone Exchange Road, Rugudi Para, Balengir – 767 001, Orissa.
1302.	Koshal Mukti Morcha	Railway Station Road, Titilagarh, District-Bolangir, Odisha.
1303.	Kranti Janshakti Party	1058, Yadav Pura, In front of Purani Vidhan Sabha, Ward No. 34, Zone No.8, Tehsil – Hujur, Bhopal, MADHYA PRADESH
1304.	Krantikari Jai Hind Sena	C/o Advocate R.N. Kachave, Near Devi Prasad Hotel, M.I.D.C., Central Road, Andheri (E), Mumbai-400093, Maharashtra.
1305.	Krantikari Kisan Sena	C-221, Old Meenal Residency,Raj Homes, J.K. Road,Bhopal-462023,Madhya Pradesh.
1306.	Krantikari Parivartan Party	Devyani Marg,Near Sixway Bypass,Ashok Nagar (East),Etawah,Uttar Pradesh-206001
1307.	Krantikari Samyavadi Party	MLA Flat No.26, Veerchand Patel Path, Patna. (Bihar).
1308.	Krantikari Shetkari Party	Shop No. 20, Tirupati Complex, Sonai- Rahuri Road, Sonai, Taluka- Newasa, District- Ahmednagar, Maharashtra- 414105
1309.	Krantikari Vikas Dal	78/09C, Mohalla- Birsia Adivasi Colony, Post- Guljarbagh, P.S.-Alamganj, Distt.- Patna-800007,Bihar.
1310.	Krantikari Yuva Party	H.No. 318, Old Rohtak Road, Gujjar Gujjar Gali, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi-110035.
1311.	Krishak Bharti Party	Shop No. 841,Gali No. 11,Haripur,Sectore-4,Panchkula,Haryana- 134112
1312.	Krupaa Party	Plot No. 452, Khata No. 69, Santi Vaban, Village- Pahana, P.O- Tikanpur, G.P- Ramchandrapur, P.S- Patakura, District- Kendrapara, Odisha- 754153
1313.	Kuki National Assembly	Grace Cottage, Paiteveng, Kwakelthel, P.O. Imphal, Pin-795001, (Manipur).
1314.	Kuki People's Alliance	Little Woods,Rengkai Road,Zenhang Lamka,Churachandpur,Manipur,India -795128
1315.	Kunbi Bahujan Sawrajya Party	H. No. 114,A-2,Village & Post Khadi Lolvan,Taluka-Sangameshwar,District-Ratngiri,Maharashtra- 415801
1316.	Kushal Janta Party	Pupri,Ward No. 2,P.O.-Janakpur Road,District- Sitamarhi,Bihar-843320
1317.	Labour Party (Secular)	382/4, Gali Hardev, Sant Nirankari Colony, Delhi-110009.
1318.	Labour Party of India	H.No.A-63,New Gopal Nagar Extension,Nanak Piau,Rama Public School Road,Gali No.4,Nazafgarh,New Delhi-110043.
1319.	Lakshya Ghar Ganatantrik Party	Puruni Basti, Chowkidarpada, P.O.- K.M.Road, Jharsuguda-2, Dist. – Jharsuguda, Odisha
1320.	Latchiya Jananayaka Katchi (LJK)	No. 18, Aravind Bliss, Amman Kovil, First Cross Street, Srinivas Nagar, Perungalathur, Chennai, Tamil Nadu – 600063
1321.	Laukik Samaj Party	C/o Chitra Convent School,Village – Deopar (Veersinghpur),P.O. Madanpur,Tehsil – Barhaj,District – Deoria,Uttar Pradesh- 274205
1322.	Liberal Democratic Party	Village –Shantipur (Mirza), Post Office – Mirza, Police Station – Palashbari, Distict – Kamrup, Assam - 781125.
1323.	Liberal Party of India	6/12, Sarvapriya Vihar, New Delhi- 110016.
1324.	Liberal Socialist Party	Opp. Gurudwara Sahib, H. No. 82, MITC Colony, By Pass Road, Sirsa, Haryana - 125055
1325.	Log Jan Party - Secular	Shivpuri,Navchetna Path Anisabad,Patna,Bihar-800002
1326.	Log Party	33/2,Stanley Road,Allahabad,Uttar Pradesh- 211001.
1327.	Lohia Sanyukta Samajwadi Party	H-Block, H.No. – 359, Sector – 9, Old Vijay Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1328.	Lok Adhikar Lehar Punjab Party	Opposite Civil Hospital,Talwandi Sabo,District Bathinda,Punjab-151302

1329.	Lok Awaz Da	Holding No. 20/11, Circle No. 264, Ambedkar Chowk, Vishnu Puri, Patna-800002, Bihar.
1330.	Lok Bandhu Party	1/4908,Khasra,No.192/163/179,Gali No.6,Balbir Nagar Extn.,Shahadara,Delhi-110032.
1331.	Lok Bhalai Party	5-FF, Raj Guru Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana, Punjab.
1332.	Lok Bharati	A/702, Vedant Unnat Nagar No. 2, Goregaon (W) Mumbai- 400062.
1333.	Lok Chetna Dal	Village - Pakari Jalal, P.O. – Shubhankarpur, District – Muzaffarpur, Bihar – 843113.
1334.	Lok Dal	Central Office, 8, Mall Avenue,Lucknow (Uttar Pradesh).
1335.	Lok Ekta Party	S-8/188, Sudhakar Road, Khazuri Cant.,Varanasi – 221 002, Uttar Pradesh.
1336.	Lok Gathbandhan Party	No. B – 16-A, Basement of Alisha Apartment (Utraula House, 27/6, Ram Mohan Rai Marg) Madan Mohan Marg, Near Krishi Bhawan, 3 Way Road, Lucknow, Uttar Pradesh - 226001
1337.	Lok Hit Rashtriya Vikas Party	Grain Market, Longowal, District – Sangrur, Punjab.
1338.	Lok Insaaf Party	B-XXVII/208/403-D/5 Guru Ramdaas Complex, Dugri Road, Ludhiana Punjab - 141001.
1339.	Lok Jan Samaj Party (Bharat)	Village Rehara,Post - Nipaniya,Thana Parsa Malik,Tehsil - Nautanwa,Distt. - Maharajganj,Uttar Pradesh-273164
1340.	Lok Jan Sangharsh Party	Village- Jamunaha, Post- Sounkhia, Vikas Khand Bankeganj, District- Lakhimpur Khiri, Uttar Pradesh- 262802
1341.	Lok Jan Vikas Morcha	Kachahri Road, Thana-Kotwali, PO. Ranchi, Zila-Ranchi-834001, Jharkhand.
1342.	Lok Manavadhikar Party	C. 32/27-16A, Vidyavihar Colony,Chhittupur,Varanasi-221002,Uttar Pradesh.
1343.	Lok Nirman Dal	2, Aradhana Enclave, Surakhpur Marg, Phase-II, Delhi.
1344.	Lok Parivartan Party (DC)	Bhapra Road, opposite Police Chowki,G.T. Road, SamalkhaDistrict-Panipat, Haryana.
1345.	Lok Raksha Party	Village & Post Office Sirsa, District – Etawah, Uttar Pradesh.
1346.	Lok Rashtriya Party Secular(S)	Avantibai Nagar Bhogaon,Distt.-Mainpuri Uttar Pradesh- 205262
1347.	Lok Samaj Party	B-1756, Gali No. 25, First Pushtha, Sonia Vihar, Delhi- 110090
1348.	Lok Samya Party	Plot No. 179,Ramchandrapur R.C. Thakurani,P.O. Haridevpur,Kolkata - 700104
1349.	Lok Sangharshsheel Party	Premises No.1004Z0864894,Shastrinagar Chotila,Tal. Chotila,District-Surendranagar,Gujarat- 363520
1350.	Lok Satta Party	Flat No.801, Srinivasa Towers, Beside ITC Kakatiya Hotel, Begumpet, Hyderabad-500016, Telangana.
1351.	Lok Sena Party	Ahmed Nagar Road,House No.1-4-2956,Gulshan Nagar,Balepir,Beed,Maharashtra-431122
1352.	Lok Sewa Dal	Post: Badhiya, Tehsil: Lakhi Sarai,Bihar-811 302.
1353.	Lok Shahi Party (Secular)	187-H, 6/2, Jivan Nagar, Near Ashram Chowk, Opposite Maharani Bagh Bus Stand, New Delhi-110014.
1354.	Lok Shakti Party (Loktantrik)	House No.2,3 rd Floor,Shakarpur Khass,Delhi-110092
1355.	Lok Swarajya Party	Premlata Govindrao Bramhankar,Ward No. -5,Village-Sangadi,P.O.-Sangadi,Tehsil-Sakoli,Distt.-Bhandara,Maharashtra- 441802.
1356.	Lok Vikas Manch	Shop No. - 159, 2 nd Floor, Shopping Centre, Near R-World Cinema, Sector – 21, Gandhinagar, Gujarat .
1357.	Lokjagar Party	Plot No.17, Mehfil, Sanmarg Nagar, Hudkeshwar Road, District- Nagpur, Maharashtra- 440034
1358.	Lokjan Socialist Party	C/o Varsha Netralaya, Village and Post-Phoolpur Bazar, Tehsil- Pindra, P.S.- Phoolpur, Varanasi, Uttar Pradesh-221205.
1359.	Lokpriya Rashtrawadi Party	Village – Madhayana, Post- Sikrara,Peepal Chowki,Agra Road,Tehsil – Fatehabad, Agra,Uttar Pradesh -283111
1360.	Lokpriya Samaj Party	Prajapati Dharmshala Mandir Shri Kalkaji, Nehru Place, New Delhi-110019.
1361.	Lokrajya Janata Party	No. 1001A/1B,Plot No. 58,A Ward,Laxmitek Colony,Sane Guruji Vasahat,Kolhapur,Distt.-Kolhapur,Maharashtra-416012
1362.	Loksangram	H.No. 1321, Lane No.4,Dhule – 424001, Maharashtra.
1363.	Lokshahi Nirman Party	No. 6, Prime Rose,Queens Park,Behind Deepak Hospital,Mira Bhayandar Road,Mira Road,District- Thane,Maharashtra- 401107
1364.	Lokshahi Party	No.B-705, Omkar Veda CHS, Near Ambedkar Colony, Eknath Ghadi Marg, Parel East, Mumbai, Maharashtra- 400012.

1365.	Lokshahi Satta Party	'Panchvati' Boradipa, Near Ramaji Mandir, Bavla, Taluk – Bavla, District – Ahmedabad, Gujarat - 382220.
1366.	Lokshakti Vikas Party	Udantpuri (Killapar),Biharsharif,Nalanda,Bihar-803101
1367.	Lokshasan Andolan Party	259, Village Guha, Tal. Rahuri, District – Ahmednagar, Maharashtra – 413705.
1368.	Lokshasan Party of India	S.No. 67, Plot No. 25,Pratik Building, Flat No. 3, Vidyanagar,Pune - 411032,MAHARASHTRA.
1369.	Loktanter Suraksha Party	Khasra No. 21/9/1 and 10/2, Mangolpuri Industrial Area, Phase-I, Opp. TVS Agency, Near IBP Petrol Pump, Mangolpuri, New Delhi- 110083
1370.	Loktantra Congress Party	E-1, 21/7, New Rajendra Nagar, P.O. Ravigram, Raipur, Chhattisgarh.
1371.	Loktantra Jagrut Party	C-410,Sumel Business Park 7,Near Soni Ni Chali Rakhial,Ahmedabad,Gujarat - 380023
1372.	Loktantra Kalyan Party	Vill.- Khirikone,Post-Tar,P.S.- Agiawan Market,Block-Piro,District-Bhojpur,Bihar-802207
1373.	Loktantra Vikas Party	Village & Post Shahpur Bamhaita,Thana Kavinagar,Distt. Ghaziabad,Uttar Pradesh-201009
1374.	Loktantrik Jan Swaraj Party	Savita Sadan, Dhumnagar, (Kachari Tola), Post- Belbag (Bettiah), Thana- Nautan, District- West Champaran, Bihar-845438
1375.	Loktantrik Janata Party (Secular)	Main Road, Firozpur, Post Office-Aander, Distt.- Siwan, Bihar-841231.
1376.	Lokataantrik Janaadhaar Party	T-43,Ground Floor,Punjabi Basti,Baljeet Nagar,New Delhi-110008
1377.	Loktantrik Janshakti Party	H. No. 107,Keshar Colony, Haldauni, Greater Noida, District – Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh- 201306
1378.	Loktantrik Janta Dal	H.No. 861 P, Sector- 15, Part –II, Gurugram, Haryana- 122001
1379.	Loktantrik Janwadi Party	S- 25/51A-9B-1, Gautam Bihar Colony, Sarsauli, District- Varanasi, Uttar Pradesh-221002
1380.	Loktantrik Lok Rajyam Party	Banker's Colony,Laxmisagar,Ward No. 01,Near Vision School,Darbhang,Bihar – 846009
1381.	Loktantrik Manavatawadi Party	Shop No. 5, SD 366, Shastri Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1382.	Loktantrik Party of India (Democratic)	No.103 (Circle No.189,Holding No.101/1,94/86),Bhitri Begampur,Patna City,Patna,Bihar-800009
1383.	Loktantrik Rashtravadi Party	E-2, Old Society, Near Saijpur Railway Station, Saijpur Bogha, Ahmedabad, Gujrat-382245.
1384.	Loktantrik Samajik Nyay Party	C-32,Anand Niketan,New Delhi-110021
1385.	Loktantrik Samajwadi Party	27-A, D.D.A.Flats, Mata Sundri Road, New Delhi-110002.
1386.	Loktantrik Samata Dal	D-104, Daroga Prasad Rai Path,Patna-800 001. (Bihar).
1387.	Loktantrik Sarkar Party	C/o P.K. Kharia, Advocate,Shatabdi Chember No. 1, District Court, Mandla – 481 661, Madhya Pradesh.
1388.	Loktantrik Sarvjan Samaj Party	B-103, Sapna Apartment,Ramnagari, Ashiyana Nagar,Patna-800025Bihar.
1389.	Loktantrik Yuva Shakti Party	No.5, HIG-160, 100 Feet Road, Nehru Enclave, Agra, Uttar Pradesh -282001.
1390.	Maa Telangana Party	8-2-540/4, Road No.4, Banjara Hills,Hyderabad, (Andhra Pradesh).
1391.	Maa Tharam Party	At -302, 2 nd Floor, Innovative Saanvi Elite, Doddathogur, Opp. Krishna Mist, Apt. Pragathi Nagar, Chikka Thoguru, Doddathogur, Bengaluru, Karnataka-560100.
1392.	Maanavvaadi Janta Party	Village- Dogi, Post Office- Gorour, P.S. – Chhabilapur, Via – Rajgir, District- Nalanda, Bihar-803116.
1393.	Madhya Pradesh Jan Vikas Party	New Ward No. 72, H. No. 4872, Plot No.123, Phase – 2, Star City, Katangi Road, Jabalpur, MADHYA PRADESH.
1394.	Madhya Pradesh Nav Nirman Sena	2983, Prince Colony,New Kanchanpur, Adhartal,Jabalpur-482004.Madhya Pradesh.
1395.	Mahabharat Rashtra Party	330,Tradesquare,Safal Parishkar,Khokhara Circle,Maninagar East-Ahmedabad,Gujarat-380026

1396.	Mahabharath Mahajan Sabha	Plot No, 10, Vivekananda Nagar, Inner Ring Road, Kolathur, Chennai-600099 (Tamil Nadu).
1397.	Mahajana Mandali Party	H. No. 1-8-27/20, GHMC-1483, Street No. 12, Chikkadpally, Hyderabad, Andhra Pradesh – 500020.
1398.	Mahajana Rajyam Party	7/347-2P-A3, Simhapuri Colony, 4th Road, Near RTC Bus Stand, Kadapa – 516002, Kadapa District, Andhra Pradesh.
1399.	Mahajana Socialist Party	Door No. 1-14-297/1, Balamrai, Rasoolpura, Secunderabad, Hyderabad, Andhra Pradesh
1400.	Mahakaushal Rashtriya Party	Jaiswal Colony, Chhapra, Jila Seoni, Madhya Pradesh-480884
1401.	Mahakranti Dal	Village-83 Awahadpur, Post- Koilari, Tehsil and Paragna- Kerakat, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222148.
1402.	Mahamukti Dal	Village Usarav, Post Office – Itayen, Tehsil – Mariahu, District - Jaunpur, Uttar Pradesh.
1403.	Mahan Bhartiya Sangathan Party	Village & Post- Jangral, Police Station- Vagdod, Tehsil- Saraswati, District- Patan, Gujarat.
1404.	Mahan Dal	A-218 D, Dhiraj Nagar Extn., Atmadpur, Near Fauji Dhaba, Sector-30, Faridabad, Haryana.
1405.	Mahan Samtawadi Party	H. No. 571, Gali No. 10, Adarsh Colony, Biharipura, Near Khilluram Academy, Vijaynagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201009
1406.	Mahanwadi Party	Village & Post – Kutubpur Chanora, District – Firozabad, Uttar Pradesh.
1407.	Maharana Kranti Party	H. No. 698, Ward No. 14, Opposite Baba Ramdev Mandir, Purani Abadi, Sriganganagar, Rajasthan.
1408.	Maharashtra Bahujan Vanchit Agadi	10 B, Karanje Turf, Plot No. 7, Satara, Maharashtra – 415002.
1409.	Maharashtra Bahujan Sanman Party	At Keskarwadi, Post Bhalawani, Tal. Pandharpur, District-Solapur, Maharashtra- 413310.
1410.	Maharashtra Jankalyan Party	Shop No. 9, Punjani complex, Main Road, Kannaoji, Karanja(LAD). District- Washim, Maharashtra-444105
1411.	Maharashtra Kranti Sena	W.No. 20, Ho. No. 920, Plot No. 58, Mahavir Housing Society, Near Gujrati Bhavan, Ichalkaranji, Tehsil- Hatkanangale, District- Kolhapur, Maharashtra- 416115
1412.	Maharashtra Lokhitwadi Party	Moja Lendave Chainchale, Tal. Mangalwedha, Dist.-Solapur, Maharashtra-413305
1413.	Maharashtra Parivartan Sena (T)	Village –Mangvadgaon, Taluk – Kej, District – Beed, Maharashtra
1414.	Maharashtra Swabhimaan Paksh	Sukhsagar Real Estate Pvt. Ltd., 101, Sai Pooja, 1 st floor, 16 th Road, Near Hotel Mini Punjab, Bandra (West), Mumbai, Maharashtra- 400050
1415.	Maharashtra Vikas Aghadi	Govindagraj Sadan, Shyam Nagar, Latur, Maharashtra.
1416.	Mahasankalp Janta Party	Shop No. 22, Sun Shine Complex, Refinery Road, Panchvati Gorwa, Vadodara, Gujarat – 390016
1417.	Mahathma Makkal Munnetra Kazhakam	Old No. 56/11-N, New No. 24, Dr. Ambedkar Nagar, Railway Road, Kanchipuram District, Tamil Nadu- 631502
1418.	Mahatma Gandhi National Labour Party	3/366 G, Kuthukal Street, Paramakudi, Ramanathapuram District, Tamilnadu - 623707
1419.	Mahatma Makkal Sevai Periyakkam	Office No. 45, Suba Agila Nagar, Airport – PO, Tiruchirappalli, Tamil Nadu – 620007
1420.	Mahila & Yuva Shakti Party	H. No. 45, New Abadi, Sector- 23, Tehsil- Sonipat, District- Sonipat, Haryana- 131001
1421.	Mahila Mazdoor Kisan Party	Vill.-Ruknapur, P.O.-Madhoganj, Distt.- Hardoi, Tehsil-Bilgram, Uttar Pradesh-241302
1422.	Mahila Pradhana Paksha	1261, 16 th Main, 20 th Cross, A Block, Sahakara Nagara, Bangalore - 560092, Karnataka.
1423.	Mahila Sashaktikaran Party	UGF- 63, Udyan Plaza, Utrathiya, Raibareili Road, Lucknow, Uttar Pradesh - 226025
1424.	Mahila Swabhimani Party	Village–Gumati No. 5, Sarai Karora, Gosainganj, District – Lucknow, Uttar Pradesh - 227125.
1425.	Mai Hee Bharat	2A, “Royal” Hastings Park Road, Kolkata, West Bengal.
1426.	Maidani Kranti Dal	Headquarters Masjid Wali Gali, Mazra, Dehradun (Uttaranchal).

1427.	Majdoor Kisan Akali Dal	Village – 75 GB, Post Office – 72 GB, Via Ramsinghpur, Tehsil – Anoopgarh, Distt. – Ganganagar, Rajasthan.
1428.	Majdoor Kisan Union Party	459/1, Moh. Sarvat (Basant Vihar), Post Office-Khas, Distt. & City-Muzaffarnagar, Uttar Pradesh – 251 001.
1429.	Majlis Markaz-e-Siyasee Party	10-5-391/54/182/A, Ground Floor, Kashan-e-Ghousia Aleem, Sayed Nagar, Opp: 95A, MLA's Colony, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad – 500028, Andhra Pradesh .
1430.	Majlis Bachao Tahreek	16-4-593/A, Chenehalguda, Hyderabad-500024 (Andhra Pradesh).
1431.	Majloom Samaj Party	Village – Maudkhurd, Tehsil – Mawana, District – Meerut, Uttar Pradesh, Pin Code – 250404
1432.	Makkal Aalum Arasiyal	No.2,N.S.K. 1 st Street, Nelvayal Nagar, Perambur, Chennai, Tamil Nadu- 600011
1433.	Makkal Arasial Katchi	3/463 Paalkara Duraisamy Vattam, G P. Polytechic Near ,G.P. Nagar, Palnangkuppam Village, Elagiri Post, Tirupattur Taluk, Vellore Distict, Tamil Nadu – 635601
1434.	Makkal Desiya Katchi	137, Kakkan Colony, Nungambakkam, Chennai, Tamil Nadu – 600034
1435.	Makkal Kootamaipu Katchi	No. 348A, Cape Road, Ettukadai Bazar, Near T.M.B. Bank, Edalakudy, Kottar Post, Vaiveeswaram Village, Agasteeswaram Taluk, Nagercoil, Kanyakumari District, Tamil Nadu - 629002.
1436.	Makkal Masotha Katchi	No. 480, R.K.V. Compound, Thethakudi, Kathiruppu Post, Sirkali TK, Nagapattinam District, Tamil Nadu- 609109
1437.	Makkal Munnetra Congress	No. 12, 1 st Cross Street, Balaji Nagar, Puducherry- 605013
1438.	Makkal Munnetra Katchi	No. 62/77, Perumal Puram, Kamaraj Nagar, 2 nd Street, Bhavani, Erode-District, Tamil Nadu- 638301
1439.	Makkal Munnetra Peravai	Door No. 61E, Pondy Road, Koliyanur Village, District – Villupuram, Tamilnadu – 605103
1440.	Makkal Nala Kazhagam	No. 30, Ward-2, Nethaji Nagar, Thathanavalasai, Kodumapalli Post, Tirupattur Taluk, Tirupattur Distt., Tamil Nadu- 635653.
1441.	Makkal Nalvaazhvuk Katchi	Flat No. G3, Vetri Flats, No. 7 (Old No. 3A), Kaveri Street, Gandhi Nagar, Saligramam, Chennai, Tamil Nadu- 600093
1442.	Makkal Needhi Maiaam	New # 4 Old# 172, Eldams Road, Alwarpet, Chennai, Tamil Nadu- 600018
1443.	Makkal Neethi Katchi- India	No. 112 A3, Vaddakku Theru, (Parveen Complex), Ground Floor, Trichy Main Road, Thuraimangalam Post, Taluk & District- Perambalur, Tamilnadu- 621220.
1444.	Makkal Rajjiyam Katchi	No. 1/427, Kadur Main Road, Puthuvettaikudi Post, Kunnathal, Perambalur District, Tamil Nadu- 621716.
1445.	Makkal Sakthi Katchi	New No. 41, Old No. 15, Bazaar Lane, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai – 600015, Tamil Nadu.
1446.	Makkal Sananayaga Kudiyaarasu Katchi	No.3/123, Gengai Amman Kovil Street, South Malayambakkam Village, Kunrathur, Chennai, Tamil Nadu – 600069.
1447.	Makkal Sevai Katchi	No. 10, Balaji Nagar, Ernavoor, Chennai, Tamil Nadu- 600057
1448.	Makkal Thilagam Munnetra Kazhagam	D. No. 6/431-Punnaiyapuram, Chokkampatti, Kadayanallur Taluk, Tenkasi, Distt. - Tirunelveli, Tamil Nadu- 627855.
1449.	Makkalatchi Katchi	No. 57, Jagajeevanram Street, Parumbu Alwarkurichi, Ambasamuthiram Taluk, Thirunelveli District, Tamil Nadu- 627412.
1450.	Makkalatchi Munnetra Kazhagam	5/187, Dr. J.J. Street, Kasapuram, Agaramthem, Chennai, Tamil Nadu- 600126
1451.	Malwa Congress	133 Sneh Nagar, Sapna-Sangeeta Road, Indore, Madhya Pradesh- 452001
1452.	Mana Desam Party	A1, 1 st Floor, Ananta Sai Apartments, Vivekanand Nagar Colony, Kukatpally, Hyderabad, Andhra Pradesh- 72
1453.	Mana Telangana Rashtra Samaikya Party	MIG OG Block Ist Floor No.6, Bhaglingampally, Above Apollo Pharmacy, Opp. TSSPDCL, Office and Electric Substation, Near Sundaraiah Vignana Bhavan and Park, Hyderabad, Telangana-500044
1454.	Manav Adhikar Raksha Party	36 Daryasthan Street, Ground Floor, Office No.3, Katawala Bldg. (Gopmani Chambers), Mumbai, Maharashtra – 400003.
1455.	Manav Awaz Party	Mohalla – Nalapur, Ward No. 6, Narnaul, District – Mahendergarh, Haryana- 123001
1456.	Manav Ekta Party	Dadusingh Colony, Plot No. 53, Sirpur, District – Dhule, MAHARASTRA.
1457.	Manav Hit Party	575/1, Sector-24, Tubewell Colony, Agra Road, Etah, Uttar Pradesh- 207001

1458.	Manav Jagriti Manch	552, Bank Colony, Devli Village, New Delhi – 110062.
1459.	Manav Kalyan Manch	Sa. 6/186, M.X. – 1. Aktha, Varanasi, Uttar Pradesh.
1460.	Manav Kranti Party	New Sarrafa Bazar, Nagar Panchayat Khaga, Ward No. 11, District- Fatehpur, Uttar Pradesh- 212655
1461.	Manav Mukti Morcha	Hameedganj Ward No. – 13, Ahead the Patthar Mill, PO. Medini Nagar – 822 101, Distt. Palamu (Jharkhand).
1462.	Manav Sangharsh Party	H. No.-54, Village & Post-Mania, Block-Bhadora, Distt.-Gazipur, Raebareli, Uttar Pradesh- 233001
1463.	Manava Party	G-23, Eureka Towers, Kittur, Chennamma Circle, Hubli-580029 (Karnataka).
1464.	Manavadhikar Congress Party	H. No. 26, Joshi Tola Kheri Town-1, P.S.-Kheri, Tehsil-Lakhimpur, District-Kheri, Uttar Pradesh-262702
1465.	Manavadhikar Janshakti Party	J-6/7-B-D, Near Police Station, Jaitpura, Varanasi, Uttar Pradesh-221001
1466.	Manavtawadi Kranti Dal	Manav Bhawan, Kullikhera, Ahmamau, Post – Arjunganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
1467.	Manavtawadi Samaj Party	638/307, Village – Jarahra, Indira Nagar, Lucknow - 05, Uttar Pradesh.
1468.	Mang Samaj Party	Village-Pahdullam (Pahdevajeet), Post-Ratanpur, Thana-Haldharpur, Sadar Mau, District-Mau, Uttar Pradesh-221706
1469.	Manipur Democratic People's Front	Lairik Yengbam Leikai (South), Opposite-33KV Electric Sub-Station, Near K.M. Tower, Tirupati Lane, Imphal East - 795010 Manipur.
1470.	Manipur National Democratic Front	Koijam Apartment, VIP Colony-107/109, Babupara, Imphal West, Manipur- 795001
1471.	Manipur People's Party	People's Road, Imphal 795001 (Manipur)
1472.	Manitha Urimaigal Kalaagam	14/41, Goods Shed Street, Madurai-625001 Tamil Nadu.
1473.	Manithaneyya Jananayaga Katchi	124, Kamarajar Road, Moula Complex, First Floor, Ilayangudi, District - Sivagangai, Tamil Nadu- 630702.
1474.	Manithaneyya Makkal Katchi	3rd Floor, No. 6, Vada Maraicoir Street, Chennai- 600001, Tamil Nadu.
1475.	Mannin Maithargal Kazhagam	No.-62, Ward-4, Santhanampattu, Kamaraj Street, Manampathy (PO), Thiruporur Taluk, Chengalpattu District, Tamil Nadu-603103
1476.	Manuvadi Party	201, Birhana Pandeyganj, Subhash Marg, Lucknow-226004, Uttar Pradesh.
1477.	Manvadhikar National Party	12, 2nd Floor, Swagat Complex, Rambaug Road. Maninagar, Ahmedabad, Gujarat-382443
1478.	Manviya Bharat Party	Village & Post – Rampur Naddi, Tehsil – Madhiyahu, District – Jaunpur, Uttar Pradesh - 222105.
1479.	Maraland Democratic Front	Saiha-796901, Chhimtuipui District (Mizoram).
1480.	Marathwada Janta Paksha	Mauje Pakhar Sangvi, Gut No. 39, Near of Sant Tukaram Vidyalaya, Tq. & District - Latur, Maharashtra – 413512.
1481.	Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam	'THAYAGAM' No. 141, Rukmani Lakshmi Pathi Salai, Egmore, Chennai-600008 (Tamil Nadu).
1482.	Marumalarchi Janatha Katchi	62/5, Pillayar Kovil Street, Pappireddipatti- PO & TK, Dharmapuri- District, Tamil Nadu- 636905
1483.	Marxist Communist Party of India (United)	# 1-8-742/2/3, Bagh Lingampally, Achaiah Nagar, Hyderabad-500044, Telangana
1484.	Marxist Leninist Party of India (Red Flag)	Door No. 828, 2 nd Floor, Aroma Building, Pudukad PO, Thirur District, KERALA-680301.
1485.	Marxwadi Janata Party	33, Kundan Pura, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh - 251002.
1486.	Matra Bhoomi Vikas Party	C/o Shri Kashi Nath Tripathi, Aspathal Road Mau Chibee, Bandha-210209 (Uttar Pradesh).
1487.	Matrubhoomi Sewa Party	A-118, Durga Vihar, Near Devli, New Delhi-110062.

1488.	Maulik Adhikar Kranti Party	H. No. 402, Teesri Manzil, Plot No. 2-3, Gali No.-3, Friends Enclave, Shahberry, Greater Noida Extension, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201009
1489.	Mazdoor Dalit Kisaan Mahila Gareeb Party (Hindustani)	Garhi Ashraf Khan, Jasmai Road, Farrukhabad, Uttar Pradesh
1490.	Mazdoor Ekta Party	No. B-2/208, Nand Nagri, Shahadara, Delhi- 110093
1491.	Mazdoor Kirayedar Vikas Party	Plot No. 116, Municipal No. 500/3E/4, Block No.30, Gali No. 6, Vishwas Nagar, Shahdra, Delhi- 110032
1492.	Mazdoor Vikash Dal	At-Qtr. No. Plot-E/124, Phase- I, Chhend, Rourkela, Dist- Sundargarh, Odisha-769015
1493.	Meenavar Makkal Munnani	No. 51, Old No. 24, Thambu Lane, Royapuram, Chennai, Tamilnadu -600013.
1494.	Megh Desham Party	Meghvansh Bhawan, E-70B, Bajrang Vihar Tirtiya, Harmada Ghati, Jaipur, Rajasthan.
1495.	Meghalaya Democratic Party	Mission Compound, Mawkhar, Shillong-793001, Meghalaya.
1496.	Mera Adhikaar Rashtriya Dal	House No. 531/62, Bhindia Tola, Bada Chandganj, Pratap Singh Marg, P.S. Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226024
1497.	Mera Gaon Mera Desh Party	H. No. 142, Village – Islampur, P.O. – South City – II, Gurgaon, Haryana - 122018
1498.	Mera Watan Party	D.No. 23-4-227/5, Near Ashok Pillar, Sultan Shahi, Hyderabad, Telangana - 500065
1499.	Merku Tamilagam Katchi	D.No.4/387, Sanjay Garden, Thayampalayam, Muthiyaneerichal (PO), Kangayam Via Tiruppur (TK), Tiruppur District, Tamil Nadu – 638701.
1500.	Meydhaa Party	13E/10A, Rajeev Nagar (Suturkhana), P.O. Teliarganj, District-Allahabad, Uttar Pradesh.
1501.	MGR Makkal Katchi	No. 6, 4 th Cross Street, 1 st Main Road, Gopalapuram East, Pattabiram, Chennai, Tamil Nadu- 600072
1502.	Mihir Sena	Nagar's Choice, S-47, South Side, G.T. Road, Lal Kuan, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1503.	Minorities Democratic Party	13, Hydry Road Complex, Mominpura, Nagpur-440018, (Maharashtra).
1504.	Minority People's Party	PP No. 55,56, DAG No.22,23, Vill-Dhingarati, Mouza-Laharighat, P.O.- Laharighat, P.S.-Laharighat, District-Morigaon, Assam - 782127
1505.	Mission Ekta Party	House No 790/12, Salara Mohalla, Rohtak, Haryana- 124001
1506.	Mithilanchal Mukti Morcha	Supoul Bazaar, College Road, Vandevi Nagar, Biroul, Darbhanga, Bihar – 847203.
1507.	Mithilanchal Vikas Morcha	Mahuar, Gaura Bauram, Post – Aasi, District - Darbhanga, Bihar – 847203.
1508.	Mithilawadi party	Village-Paliwar, Post-Ranti, P.S.- Rajnagar, Ward-8, Near Hanuman Temple, Madhubani, Bihar-847211
1509.	Mizoram People's Conference	General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).
1510.	Mo Dala	At-Mukura Press Premises, Bhasakose Lane, Nimchouri, PO-Chandini Chowk, P.S.- Lalbag, Distt.-Cuttack, Odisha-753002.
1511.	Moderate Party	Village – Khakhari (Maghara Chauraha) P.O. Balepur Kalan, District – Devariya, Uttar Pradesh.
1512.	Mool Bharati (S) Party	House No. 25, Near Khooni Masit Moga Mehla Singh Moga- 142001 Distt. Faridkot (Punjab).
1513.	Mooljan Shakti Party	H.No.394, Gali No.18, Near Vishwakarma Mandir, Karan Vihar, Karnal, Haryana- 132001
1514.	Moolniwasi Samaj Party	Village – Maghaipur, Post – Maharajganj, Janpad – Ajamgarh - 276137 Uttar Pradesh.
1515.	Most Backward Classes of India	Paraspur-Kudwar, Sultanpur-228155, Uttar Pradesh.
1516.	Mother India Party	Khasra No. 143, Kurre ke bad bana No. 143/3, Gram - Jaunsamana, Pargana & Tehsil - Dadri, District - Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh.
1517.	Mother Land National Party	Survey No. 20+21, Duplex No. 05, Noman Duplex, Near Iqbal Avenue, Near Canal, Fatehwadi, Ahmedabad, Gujarat-380055
1518.	Moulik Adhikar Party	Biroli-Motinagar, Faizabad, Uttar Pradesh-224201.
1519.	Mulnibasi Party of India	Village and Post- Basantpur, District- Murshidabad, SD and PS- Dumkal, West Bengal-742406

1520.	Mulnivasi Adhikar Party	R/o. S-96, UPSIDC, Sector-5, Jagdishpur, Amethi,, Uttar Pradesh- 227817
1521.	Mundadugu Praja Party	D.No. 32-13-1/1, Lavanya Apartments, Flat No. B3, Mogalrajpuram, Vijayawada, Andhra Pradesh- 520010
1522.	My India Party	No. 447/265, 2 nd floor, Poonamallee High Road, Amnjikarai, Chennai, Tamil Nadu- 600029
1523.	Naadaalum Makkal Katchi	4/330, Ground Floor, Duwaraga Nagar, Phase-I, Manali New Town, Chennai Tamil Nadu- 600103.
1524.	Naam Indiar Party	73F/1A, Polepettai, Thoothukudi, Tamil Nadu- 628002
1525.	Naam Tamilar Katchi	Door No. 7, Plot No. 8, Hospital Road, Senthil Nagar, Cinna Porur, Chennai – 600 116 Tamil Nadu .
1526.	Naari Nar Rakshak Party	Raj Laxmi Nivas, Kakrali Road, Village-Aneg, Behta, Abdul Pur, Primary Pathshala Ke Peechhe, Tehsil-Hardoi, District-Hardoi, Uttar Pradesh-241001
1527.	Naba Bharata Nirmana Seva Party	Plot No.145/245/1141/1356, Khata No.50/4873, Hati Pathar Lane, Near Trinath Temple, Raniguda Farm, District-Rayagada, Odisha-765001
1528.	Nagaland Congress	H. No. 202, Fellowship Colony, Near IMC Hall, Dimapur, Nagaland - 797112.
1529.	Nagrik Adhikar Party	Nandlalpur, Post- Nandlalpur, Via- Mathurapur, District- Bhagalpur, Bihar- 813222
1530.	Nagrik Adhikar Shakti Sewa Party	A-63, JantaJeevan Camp, Tigri, Khanpur, New Delhi- 110062
1531.	Nagrik Chetna Party	Sarvodaya Nagar, Teachers Colony, Pilakhua, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1532.	Nagrik Ekta Party	3/305, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh
1533.	Nagrik Sewa Party(R)	4, Tayal Vihar Colony, Gate No. – 2, Aishbagh Road, Haidarganj, Lucknow, UTTAR PRADESH - 226004.
1534.	Nagrik Vikas Party	728, ABC, Ekta Nagar, Opp. Professional Courier, Near Modi Hundai Show Room, Sativali, Vasai Road, Vasai (E), District- Palghar, Maharashtra – 401208
1535.	Nai Kranti Party	Baba Mritunjaynath Mandir, Kumharan Tola First, Gola Gokarannath, District- Likhampur- Kheri, Uttar Pradesh-262802
1536.	Naitik Party	314, City Center, Near Press Club, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
1537.	Naki Bharatiya Ekta Party	Ward No. 1, Mohalla- Harijan Wala, Kithore, Meerut, UTTAR PRADESH
1538.	Nalvazhikkazhagam	Kathiravan Illam, 94/2, Kalavai Chetty Street, Chintadripet, Chennai, Tamil Nadu – 600002.
1539.	Nam India Naam Indiyar Katchi	H. No. 9/8, Flat No. 3 Swagath Apartment, Chellappa Street, Otteri, Chennai, Tamil Nadu- 600012
1540.	Namadhu Makkal Katchi	No.3, Pillayar Kail Street, Kasba, Vellore-632001, Tamil Nadu.
1541.	Namathu Kongu Munnetra Kalagam	5F Sanjith Plaza, Thiru.V.Ka. Street, Tirupur Road, Kangayam, Tirupur District, Tamil Nadu - 638701
1542.	Namma Congress	No.98, Varthur Main Road, Bangalore East, Bangalore – 560087 Karnataka.
1543.	Narayani Sena	Niwas-Gram, Post-Malipur, Zila-Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh.
1544.	Nari Panchayat Party	Plot No 79, Pocket - 4, Sector - 23B, Dwarka, New Delhi – 110077
1545.	Nasha Mukta Bharat Party	Tejaswi House, Vivek Vihar Colony, Farrukhabad Road, New Mandi, Etawah, Uttar Pradesh- 206001
1546.	Nation First Democratic Party	House No. 99, Ward No. 39, Gangotri, Ganga Vihar, R.P.S. Road, Danapur, District- Patna, Bihar- 801503
1547.	National Adhikar Insaf Party	House No. – 230, Street No. – 7, S.A.S. Nagar, Abohar Road, Sri Muksar Sahib, Punjab
1548.	National Aman Party	Moh. Punjabiyan, Nagina, District – Bijnor, Uttar Pradesh – 246762
1549.	National Apni Party	D-1, 242/9, Main Circular Road, Sonia Vihar, Delhi-110094.
1550.	National Awami United Party	H.No. 62, Priyadarshani Lane, Patta Bohri, Jammu & Kashmir- 180002
1551.	National Backward (Mool), Dalit, Minorities Kranti Dal	1st E-17, Jai Narayan Vyas Colony, Bikaner, Rajasthan – 334003.
1552.	National Bhrashtachar Mukta Party	576/2, Punjabiyan-5, Khurja, Bulandshahr, Uttar Pradesh-203131
1553.	National Black Panther Party	Shop No. 1, Hill Park, Tirupati Apt., Kokanipada, Kurar Village, Mumbai, Maharashtra - 400097.

1554.	National Confederacy of India	63, Southern Avenue, Flat No. – 9, Kolkata, West Bengal – 700029.
1555.	National Dalitha Dhal Party	7/398-8, Balijapalli (HC), Revenue ward No. 7, Mannur (SO), Rajampet Mandal, Kadapa- District, Andhra Pradesh- 516126
1556.	National Democratic Front	House of Jangbahadur Yadav, Village – Maulanipur Bazar, Post – Tarwan, Tehsil – Lalganj, District – Azamgarh, Uttar Pradesh.
1557.	National Democratic Mission	C-63,Pratap Nagar,Hari Nagar,New Delhi-110064
1558.	National Democratic Party	Central Office-Changanacherry-2, Kottayam District (Kerala).
1559.	National Democratic Party (Indian)	H.No. 83, Mohalla- Ustad, Jammu, Near Jambulochan Community Hall, Jammu & Kashmir- 180001
1560.	National Democratic Party (Secular)	TC. 28/1628, Pullamadom Compound, Sreekandeswaram, Thiruvananthapuram, Kerala- 695023
1561.	National Democratic Party of South India	21/7,Naveen Flats,Meenakshi Street,Perambur,Chennai,Tamil Nadu- 600011.
1562.	National Democratic Peoples Front	C-4D, 42 B, Janakpuri, New Delhi.
1563.	National Development Party	House No. A-8-2, Multani Colony,Bidar – 585 401, Karnataka.
1564.	National Equal Party	SH-15/83, 3D, Vivekpuram Bharlai, Shivpur, Varanasi, Uttar Pradesh- 221003.
1565.	National Federal Party	House No. 80/3A, Ground Floor, Basant Village (Basant Gaon), Vasant Vihar, New Delhi – 110057.
1566.	National Fifty Fifty Front	H.No. 77, Garden City Colony, Post- Shahamat Ganj, District- Bareilly, Uttar Pradesh-243005
1567.	National Future Party	Deoria House, Behind GPO, Purani Mandi, Ajmer, Rajasthan.
1568.	National Inquilab Party	E1/576,Street No.-12,(Near Mazar),33 Futa Road,Nehru Vihar, Mustafabad,Delhi- 110094
1569.	National Jagaran Party	H.O.-14, Montessory School lane, Near Maruti Auto Mobiles, Boring Road,Patna, Bihar - 800001.
1570.	National Janhit Congress (AB)	043A/5 Piarey Lal Building, Near Government College, Mehrauli Road, Gurgaon, Haryana.
1571.	National Jansatta Party	Tejaji Chenchya Wali Dhani, Post – Khori, Tehsil – Shahpura, District – Jaipur- 303103 Rajasthan.
1572.	National Janta Party (Indian)	Plot No. 385, Khata No. 105, Village – Mohammadpur Hari, P.O. & P.S. – Bhagwanpur, District – Vaishali, Bihar – 844114.
1573.	National Labour Party	D-22, Office No. 11, D-Block, Pandav Nagar, Delhi-110092.
1574.	National Lokmat Party	Village - Jisauri, Post - Mundali, District - Meerut, Uttar Pradesh
1575.	National Loktantrik Party	46, Gulista Colony, Lucknow-226001(Uttar Pradesh).
1576.	National Maha Sabha Party	Maa Krupa, Amardeep Society, Ambika Chowk, Deesa, Banaskantha- 385535, Gujarat.
1577.	National Nationalist Party of India	596-E-D/S,Azad Kutia,Barra-2,Kanpur Nagar,Uttar Pradesh-208027
1578.	National Nava Kranthi Party	D.No.- 1-236, Vill.- Gangavaram, Mandal- Gurazala, Dist- Guntur, Andhra Pradesh- 522 415.
1579.	National Organisation Congress	No.1, Jeevananandam, Salia, K.K.Nagar, Chennai-600078(Tamil Nadu).
1580.	National Party	Rudain Badayun-202 524 (Uttar Pradesh).
1581.	National Peace Party Secular	Village – Rasoolpur Biur, Post-Awadhan, Tehsil – Chaayal, District – Kaushambi,Uttar Pradesh - 212218.
1582.	National People's Congress	H.No. 3-6-200, Flat No. 105, Arunodaya Apartment, Street No.15, Himayatanagar, Hyderabad- 500029, Andhra Pradesh
1583.	National Republic Party of India	N-51/1, Flat No. 2, Upper Ground Floor, Rajpur Khurd, Hargovind Enclave, Tehsil- Hauz Khas Mehrouli, New Delhi- 110068
1584.	National Republican Congress	Holding No. 223, House No. 6, Ward No. 26, Located at Pragati Path, Near Rajdhani Maszid, Dispur Guwahati, Assam -781006.

1585.	National Samajwadi Congress	No.42,Naidu Layout,Kuvempu Nagar,Bangalore,Karnataka-560014
1586.	National Secular Conference	MISFA, Koduvally (P.O.), Kozhikode DT.,Kerala - 673572.
1587.	National Socialist Party (United)	Flat No. 6, Ist Floor, Sai Kripa Housing Society, 45/6, Hospital Colony, Talegaon, Dabhade, Taluka- Maval, District- Pune, Maharashtra- 410507
1588.	National Target Party	No. 158/A, Tehkhand, Okhla Phase-I, New Delhi- 110020.
1589.	National Tiger Party	Central Head Office- Sarojnagar, Post office- Kalgiganj, Vai/Thana- Kahalgaon, District- Bhagalpur- Bihar- 813203.
1590.	National Unionist Zamindara Party	129, New Dhaan Mandi, Sriganganagar, Rajasthan-335001.
1591.	National Women's Party	H.No.2-247, Sri Sai Nagar, (Near Venkateshwara Swamy Temple), Jilleguda Saroor Nagar, Hyderabad - 500097, Andhra Pradesh
1592.	National World Leader Party	2 nd Floor, In front of ATM, Navi Bhag, Berasia Road, Bhopal, Madhya Pradesh- 462038.
1593.	National World Life Panchatatva Party	Patidar Colony, Bhelkheri Road, Shujalpur Mandi, District – Shajapur, Madhya Pradesh
1594.	National Youth Party	Flat No. A-202, Yuro Apartment, Sector – 5, Rajendra Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh
1595.	Nationalist Charity Congress	Bishop House, Gabriel Compound, Panavilai Thuckaley-629175, Kanniyakumari District, Tamil Nadu.
1596.	Nationalist Citizens Party of India	Jago Biswa, Holding no. -4719, village- Hatgacha, P.O.- Banipur, P.S. Sankarail, District-Howrah, Pin- 711304
1597.	Nationalist Janshakti Party	Abhinav Niwas, Rapatpur, Belghat, Gorakhpur, Uttar Pradesh - 273404.
1598.	Nationalist Justice Party	No. 1525/1, Street No. 33, Preet Nagar, New Shimlapuri, Ludhiana, Punjab- 141003
1599.	Nationalist People's Front	S-8, Divya Mall, Tonk Road, Lal Kothi, Jaipur (Rajasthan)
1600.	Nationalist Power Party	L-1 st 1100/2,Gali No. 25,Sangam Vihar,New Delhi- 110062
1601.	Nationalist Trinamul Congress Party	A9/124, Kalyani, PS & PO-Kalyani, District-Nadia, West Bengal-741235.
1602.	Nature Mankind Friendly Global Party	Ward No.1, Kathua (Jammu & Kashmir).
1603.	Nav Bharat Democratic Party	Chherawal and Associates, F6/35, United Apartments, East Street, Pune- 411001, (Maharashtra).
1604.	Nav Bharat Jagran Party	At Golechha Building,Opposite Railway Station,Phalodi,District- Jodhpur,Rajasthan- 342301
1605.	Nav Bharat Rashtriya Congress Party	B- 100, New Ashok Nagar, New Delhi- 110096
1606.	Nav Chetna Party	Mohalla – Jagat Nagar, Kasba & Post – Bhongaon, District – Mainpuri, Uttar Pradesh - 205262 .
1607.	Nav Jankranti Party	B – 11/42, Ahata Rohila, Gauriganj, Varanasi, Uttar Pradesh – 221001
1608.	Nava Bharat National Party	Survey No.627, Bhairava Gutta, Ravalkole Village, Medchal Mandal, Ranga Reddy District. Andhra Pradesh.
1609.	Nava Praja Rajyam Party	Old H.No.10-30, New H.No.11-54, Harijanawada(P&M) Utnoor, District - Adilabad, Andhra Pradesh -504311
1610.	Nava Samaj Party	House No. 5-7, Buddharam Village, Gopalpet Mondal, Wanaprhty District, Telangana- State.
1611.	Navabharath Sena	No.14/15,Chamundeswari Building,3 rd Cross,4 th Main Road,Chamrajpet,Bengaluru,Karnataka-560018
1612.	Navam Disha Dal	4/684, Vihav Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh- 226010
1613.	Navarang Congress Party	D.No. 866/1, Pedavadlapudi Village, Mangalagiri Mandal, Guntur District, Andhra Pradesh- 522302
1614.	Navataram Party	D.No. 26-37, Subbaiah Thota, Chilakaluripet, District – Guntur, Andhra Pradesh - 522616

1615.	Navbahujan Samajparivartan Party	185, Sahyadrinagar, G – Ward, AT/Post – Lonavla, Tehsil – Maval, District – Pune, Maharashtra – 410401.
1616.	Navbharat Ekta Dal	Dhiman Bhawan, Nagrota Surian, Tehsil- Jawali, District- Kangra, Himachal Pradesh- 176027
1617.	Navbharat Party	538Ka/409,Adarshpuram,Triveni Nagar-3,Lucknow,Uttar Pradesh-226020
1618.	Naveen Samajwadi Dal	133/4C/1C, Teliarganj, Allahabad, Uttar Pradesh.
1619.	Navin Bharat Nirman Manch	Pipalawali Khadki, At. & Po. Kasor- 388205, Ta. & District Anand, Gujarat.
1620.	Navjawan Sangharsh Morcha	D/711, Township, Bhavnathpur, Garhwa, Jharkhand-822112.
1621.	Navlok Samaj Party	Located 24B,Renuka Bagh,New Avadheshpuri Karmayogi,Agra,Uttar Pradesh-282010.
1622.	Navnirman Party	Plot No. 1588-P, Sector- 5, Urban Estate, Tehsil- Thanasar, K.D.B Road, District- Kurukshetra, Haryana- 136118
1623.	Navodaya Jantantrik Party	Khasra No.31/23,& 49/3/81,Gupta Nivas,Gali No.45,B-Block,Kaushik Enclave,Burari,Delhi-110084
1624.	Navodayam Party	D.No. 4-96/2, Near Rama Mandir, Nallakavari Street, Etukuru Village, Guntur Rural Mandal, Guntur District,Andhra Pradesh.
1625.	Navsarjan Bharat Party	House No.- 492, Fal Faliya, Opp. Krishna Petrol Pump, Vaghadhra Road, Dadra, Dadra & Nagar Haveli- 396193
1626.	Navyug Nirman Party	C-2, Room No. 401, Shaghun Residency, Mahyavanshi faliya, Dadra, Dadra and Nagar Haveli-396193.
1627.	Navyug Party	1-Ground Floor, Begumpur, Malviya Nagar, New Delhi – 110017.
1628.	Navyuvak Atmanirbhar Party	At –C/o Babita Kanwar,213,Railway Officers Colony,Opp. Kanakpura Jaipur,Rajasthan-302012
1629.	Nawan Punjab Party	52-E, Hira Nagar, Patiala, Punjab-147001
1630.	Naya Bharat Party	8- Babu Sabji Mandi, Nagar Palika Road, Sumerpur, Rajasthan –306902
1631.	Naya Daur Party	A-406, Defence Colony,New Delhi-110024.
1632.	Naya Savera Party	Plot No. J-2-530.8,J-2 Block,Gupta Colony,Sangam Vihar,New Delhi- 110062
1633.	Neethi Nijayithi Party	Door No. 36-178A,Padhmavathi Nagar Kalyanapuram,Narayanavanam Mandal,District-Chittor,Andhra Pradesh- 517581
1634.	Nehru Janhit Congress	Sainipura Mohalla, Badshahpur,Tehsil & Distt. – Gurgaon,Haryana.
1635.	Netaji Adarsh Party	298, Kuttiyani, 28 – Thodupuzha, Idukki District, Kerala – 685584.
1636.	Netaji Congress Sena	Ranga Place, Ground Floor, S.No.48/2/10, Waghjal Nagar, Ambegaon Khurd, Katraj P.O., Pune-411046, Maharashtra.
1637.	Netaji Subhash Chander Bose Rashtriya Azad Party	Mohalla – Gayatri Nagar,City & Post – Banda,Distt. - Shahjahanpur, Uttar Pradesh – 242402
1638.	New Bhartiya Kranti Party	Vill.-Sungulpur,Post & Thana- Khedtasray,Tahsil- Sahganj,District- Jaunpur,Uttar Pradesh- 222139
1639.	New Generation People's Party	30-C1, Ambu Nagar, Edayarpalayam Post, Coimbatore, Tamil Nadu- 641025
1640.	New India Party	H. No. 20-3-314, Vidyanagar Godavarikhani,-505209, Distt. Karimnagar(Andhra Pradesh).
1641.	New India United Party	No. 4, Second Floor, Second Cross, D.R.Bendre Layout, Gubbi Cross, 350/1/4, Kothanur, Bangalore, Karnataka-560077
1642.	New Labour Party	Room No. 8/249, Perumbillissery, P.O.-Cherpu, Thrissur District, Kerala- 680561
1643.	New Life People's Party	No.15/16, 'Judie Flats', No. 13, Rosary Church Road, Santhome, Chennai-600004, Tamil Nadu.
1644.	New Mother Land Party	F-111, South City, Rai Bareilly Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226025
1645.	New Rashtriya Samaj Party	H.No. 167/2/5/F/4, 1st Floor, Bramhanand Nagar, Tadali Road, Kamatghar, Bhiwandi, District- Thane, Maharashtra – 421305
1646.	New Socialist Movement	104, Maharana Pratap ComplexOpp. Ellisbridge, P.O. – Ellisbridge, Ahmedabad – 380 006. Gujarat.
1647.	Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dal	House No. 105T, Mohalla- Jungle Salik Ram, Bypass Road, SangramChowk, Padri Bazar,Gorakhpur, Uttar Pradesh -273014

1648.	Nirbhay Bharteey Party	27, Sahajanand Bungalows, Motera, Ahmedabad, Gujarat-380005
1649.	Nirdhan Samaj Party of India	11A, Rajiv Vihar, Near Bandi Baba Mandir, Machhariya, Naubasta, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh – 208011
1650.	Nirjatita Samaj Biplabi Party	Village –Durgapur P.O. Haritala (Bagula), Distt. Nadia, West Bengal, Pin 741502
1651.	Nirmal India Party	SA 6/8 H-15, Satsang Nagar, Benipur, Pahadia, Varanasi-221007, Uttar Pradesh.
1652.	Niswarth Seva Rashtra Seva Party	House No. 56, Indalpur, Post- Dandi, Naini, Allahabad, Uttar Pradesh- 211008
1653.	Niz Goenkar Revolution Front	H.No. 9/222, Patrong, Baina, Vasco-Da-Gama, Goa.
1654.	Noorie Party	102, Kadodra – Bardoli Road, Surat, Gujarat.
1655.	North Bengal People's Party	Village-Rabindrapally, P.O.-Mohanbati, P.S.-Raiganj, District-Uttar Dinajpur, West Bengal-733134
1656.	North East India Development Party	Sagolband Tera Loukrakpam Leikai, Imphal West, Manipur-795001
1657.	North East Social Democratic Party	Mawlai Mawdatbaki, Dong Nongpathaw, Shillong-793008, East Khasi Hills District, Meghalaya.
1658.	Nyay Party	No. 319, Swamipada, Budhana Gate, Meerut City, Uttar Pradesh-250002
1659.	Nyay Satta Party	Ground Floor, House No.303, Gali No.12, Chandan Vihar, West Sant Nagar, Burari Road, Delhi-110084
1660.	Nyaydharmsabha	Pragativihar, Jagjitpur, Kankhal, Hardwar, Uttarakhand- 249408
1661.	Odisha Jan Morcha	Plot No.17, Village Nakhaur, PO Gopinathpur, District – Khurda, Bhubaneswar – 751002, Odisha.
1662.	Odisha Janata Party	At-Chhagharia, P.O-Bagada, PS./Distt. Kendrapara, Bhubaneswar, Odisha- 754212
1663.	Odisha kalyan Party	Plot No.44 (1 st Floor), P.O.-Satyanagar, P.S.-Kharabela Nagar, City-Bhubaneswar, District-Khordha, Odisha-751007
1664.	Odisha Pragati Dal	Khatian No. 99/180, Plot No. 420/1360, Brundamal, P.O.- Badmal, P.S.- Katarbaga, Tehsil- Jharsguda, District- Jharsuguda, Odisha- 768202.
1665.	Ojaswi Party	Flat No. 38, Plot No. 36, Ajanta Apartment, Patparganj, Delhi-110092.
1666.	One India One People Party	14/916, Vadakkancheri Angadi, City Light Shopping Complex, Second Floor, Vadakkanchery, Kerala-678683
1667.	One India One Policy Party	Arakkal Tower, Christopher Nagar, Ollur Village, Thrissur Taluk, Thrissur District, Kerala-680306
1668.	One India Party	D-46A, Krishan Vihar, Delhi- 110086
1669.	Open people's Party	Pawar House, Near Saibaba Temple, Mangal ragho Nagar, Tisgaon road, Kalyan (E), District-Thane, Maharashtra- 421306.
1670.	Orissa Communist Party	MLA Colony, Unit-4, Bhubaneswar (Orissa).
1671.	Orissa Socialist Party	Municipal Compound, Choudhury Bazar, Cuttack-753009 (Orissa).
1672.	Our Mahathma National Party	No. 62(II Floor), Pillaiyar Koil Street, Kamaraj Street, Gandhi Nagar, K. K. Nagar Post, Tiruchirapalli, Tamil Nadu – 620 021
1673.	Pachai Tamizhagam Katchi	12/143 Idinthakarai, Harijancolony, Vijayapathy, Radhapuram(TK), Tirunelveli(DT), Tamil Nadu - 627104.
1674.	Pachchasi Parivartan Samaj Party	H.No. 98, Kalyani Vihar, Near Prashant Public School, Kamta, Chinhat, Lucknow, Uttar Pradesh- 226028
1675.	Pahadi Party	Village-Talli Bagi, Patti-Sarjula, Post-Bhagirathpuram, Vikas Khand-Chamba, District-Tehri Garhwal, Uttarakhand-249145
1676.	Panch Party	Kailash Chandra Meena House at Khodki Dhani, Village & Post- Raisana, Tehsil-Nadoti, District- Karuli, Rajasthan-322215
1677.	Panchpauniya Samaj Party	Village & Post – Aunta Mujeeb Nagar, Ward No.8, P.S.-Hathida, Distt- Patna, Bihar- 803303
1678.	Panthers Republican Party	'Anandvan', Mahatma Phule Nagar, Peer Bazar, Osmanpura, Aurangabad, Maharashtra - 431005
1679.	Paradise Party	Kabita Apartment, Sriniketan Road, P.O.-Bolpur, District-Birbhaum, West Bengal - 731204
1680.	Param Digvijay Dal	H. No. 7/297/7, Vikas Nagar, Sector – 7, Lucknow, Uttar Pradesh
1681.	Parbatiya Prajatantrik Party	39/A, Lebong Cart Road, Near Maheswari Petrol Pump, Darjeeling West Bengal- 734301
1682.	Parcham Party of India	1-Rahmat Bano Market, Medical College Road, Civil Lines, Aligarh-202002, Uttar Pradesh.

1683.	Parisara Bandhu Party	#281,Janani,Opp.of BCC Layout,2nd Stage Bus Stand,Vijayanagara Bengaluru,Karnataka-560040
1684.	Parivartan Party of India	Monu Rawat, Pohri Bye Pass, Intercity Bus Walon Ke Peeche Wali Gali, Rajpura, Circular Road Circuit Housing Tiraha, Tehsil and District- Shivpuri, Madhya Pradesh- 473551
1685.	Parivartan Samaj Party	Gande Wali Sarak, Laskar, Gwalior-474001, Madhya Pradesh.
1686.	Party for Democratic Socialism	183, Jodhpur Park, Kolkata-700068, West Bengal.
1687.	Paschim Banga Rajya Muslim League	129, Collin Street, Kolkata-700016 (West Bengal).
1688.	Paschimanchal Vikas Party	Qr. No. 10 E, In front of St. Joseph School, At. Sakhipara, Distt. – Sambalpur,Orissa-768001.
1689.	Pashchimanchal Nirman Party	Shree Trimbakeshwar Mahadev Mandir,Behind of Dwarkadham City,Village-Sivaya Janpad Meerut,District-Meerut,Uttar Pradesh-250110
1690.	Pashchimi Uttar Pradesh Vikas Party	H. No. 1, Kasana Niwas, Village – Morna, Sector – 35, Noida, District – Gautambuddh Nagar, Uttar Pradesh – 201308.
1691.	Pasumpon Makkal Kazhagam	Door No.102, L.B. Road, Adyar, Chennai, Tamil Nadu – 600 020.
1692.	Pathik Janshakti Party	C/o Rajkumar,P.O.-Sidhani,Tehsil-Tohana,Distt.-Fatehabad,Haryana-125133
1693.	Pathik Swaraj Party	C/o Ravinder Singh Deodhar, S/o Sh. Balbir Singh Deodhar Vill. & Post -Bihta, Tehsil -Ambala Cantt., Distt. Ambala, Haryana- 133101.
1694.	Patri Vyapari Party	Geeda - Gorakhpur, Sector-22, Plot No.C-5/23, Geeda, Gorakhpur, Uttar Pradesh-273209.
1695.	Patriotic Party of India	4/28, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh.
1696.	Pattali Makkal Katchi	63, Nattu Muthu Naiken Street,Vanniya Teynampet, Chennai-600018, (Tamil Nadu).
1697.	Peace & Freedom party	CTS No. 5214,Plot No. 180,Nagar Parishad Colony,Kothlaj Road,Near Parival Mall,Distt.-Hingoli,Maharashtra- 431513
1698.	Peace Party	Johra Complex, Barhalganj,PO- Barhalganj, Zila – Gorakhpur,Uttar Pradesh.
1699.	Peasants And Workers Party of India	Hari Kharude Niwas,Mahatma Phule Road, Naigaon, Dadar, Mumbai (Maharashtra).
1700.	Pedala Party	D.No. 18-131(A), Village - Katurivaripalem, Mandal – Podili, District – Prakasam, Andhra Pradesh – 523240.
1701.	Pedarikam Nirumulana Party	D No. 66-1-3/A.S. Atchuthapuram, Kakinada-533004, East Godavari District Andhra Pradesh.
1702.	Pehchan People's Party	HanifManzil,ChandanChowk,Rani KhedaDarwaja,Nimbahera,Distt.-Chittorgarh,Rajasthan-312601
1703.	People Liberation Party	4/611, Pughazhendhi Road, 4 th Block, Mogappair East, Chennai, Tamil Nadu-600037
1704.	People Protection Party	D.No. 7-97/2,Srinagar Colony,Sun Rays School,Pasumamula Road,Kuntloor,Hayatnagar,Rangareddy District Telangana – 501505
1705.	People's Action Party	363, Nainagarh, Prem Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh-284003
1706.	People's Justice Party	H. No. 120/209(120/096B),Ward-Hazratganj,Ram Teerath,Beldari Lane,Behind Lok Bhawan,Lalbagh,Lucknow Uttar Pradesh- 205262
1707.	People's Liberal Party	104/01, Gram Gangana, Gram Panchayat Boranada, Tehsil- Luni, District- Jodhpur, Rajasthan-342012
1708.	People's Party	A-23, Subhash Nagar, Roorkee, District- Haridwar, Uttarakhand
1709.	People's Party for Liberty	AP 12/129, M.M.Bhavan, Madathilchira, Anad- P.O, Nedumangadu, Thiruvananthapuram, Kerala- 695544
1710.	People's Party of India (Secular)	Duplex-38, Saileshree Vihar,Chandershekharapur, Bhubaneshwar-751021, Orissa.
1711.	People's Party of Punjab	7112, Ward No.2, Malout Road,Gidderbaha (Mukatsar),Punjab-152101.
1712.	People's Union Party	Dharmavat House, House No.1015, Shukrawar Peth, Tilak Road, Swargate, Pune-411002, Maharashtra.

1713.	People's Democratic Alliance	Ragailong, Imphal-795 001, Manipur.
1714.	Peoples Democratic Party	MASS Building Ernakulam North, P.O. Cochin-18 (Kerala).
1715.	Peoples Green Party	19C/1, Jeevan Jyoti Appartments, Ward No. 1, Mehrauli, New Delhi-110030.
1716.	Peoples Guardian	D-302, Blue Hills, Nagar Road, Pune (Maharashtra) – 411 006.
1717.	Peoples Party of India (Democratic)	111, Astha Complex, Dahej Bypass Road, Nandelav, Taluka & District- Bharuch, Gujarat- 392001
1718.	Peoples Representation for Identity and Status of Mizoram (PRISM) Party	A-16, Upper Republic, Aizawal, Mizoram- 796001
1719.	Peoples Republican Party	Saptahik Jaibheem, Opp. Anand Talkies, Sitabadi, Nagpur-440012 (Maharashtra).
1720.	Peoples Resurgence and Justice Alliance	House No. 156, Khomdram Selungbam Leikai, Thangmeiband, PO/PS: Lamphel, Imphal West, Manipur- 795004
1721.	Peoples Ruling Party	Flat No.74, Gandhi Nagar, Chakali Gunta, Etukuru Road, Kamma Seshaiiah Ground, Revenue Ward-32, Guntur, Andhra Pradesh-522003
1722.	Periyar Ambedkar Munnetra Kazhagam (PAMK)	,MIG No.-8, Dr.B.R.Ambedkar House, TNHB, Bargur, P.O.-& Taluk, Krishnagiri Distt., Tamil Nadu-635104
1723.	Perunthalaivar Makkal Katchi	'NRD Towers', First Avenue, Ashok Nagar, Chennai-600 083 Tamil Nadu.
1724.	Phoolan Janta Party	Village - Mohammadpur Kandh, Post-Imlo, Vikas Khand Dharmapur, Tehsil - Sadar, District - Jaunpur, Uttar Pradesh - 222180
1725.	Phule Bharti Lok Party	Main Gurudwara Road, Baba Bakala, Distt.-Amritsar, Punjab-143201.
1726.	Pichhada Samanya Alpsankhyak Vyapari Kisan Party	H.No.402 Kh, Nagla Khandari, Alipur Patti, P.S- Bhongaon, Tehsil- Bhongaon, District-Mainpuri, Uttar Pradesh.
1727.	Pichhara Samaj Party United	Madhariya Complex, Mukht Nagar, Pulgaon Raod, Padmanabhpur, Durg, Chhattisgarh- 491001
1728.	Pichhra Samaj Party	Mohalla Jati, Nagina, District-Bijnor, Uttar Pradesh.
1729.	Pichhravarg Mahapanchayat Party	Mo.-Jamalpur, (Karhan Road), Post- Mohammadabad Gohana, District- Mau, Uttar Pradesh-276403.
1730.	Political Essential & Accurate Council of Experts Party	Door No. 24-21, Vyshya Street, 5 Roads Junction, American Hospital Road, Narsipatnam, Vizag District, Andhra Pradesh – 531116.
1731.	Political Justice Party	H.No. 796, G-3, Shalimar Garden Extension-I, Sahibabad, P.S.- Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201005
1732.	Political Team India	House No. 182, Ansal Courtyard, Dehtora, Shastripuram, Agra, Uttar Pradesh- 282007
1733.	Pondicherry People Rights Party	#1, Subramaniyar Koil Street, Kuvayarpalayam, Pondicherry-605013
1734.	Poorabiha Log Party	Village Pipra Tiwari, Post Sakhvaniya, Distt. Kushinagar, Uttar Pradesh-274402
1735.	Poorna Swaraj Manch	House No. 1/328, GwalToli, Fathegharh, District- Farrukhabad Uttar Pradesh- 209601
1736.	Poorva Sainik All India Dalit Evam Nirbal Varg Vikas Party	Plot No.-96, Gram Hansa Pur Nikat, Jhun Jhunwala Degree College, Dwarikapuri, Dabhasemar Janpad, Ayodya, Uttar Pradesh-224001
1737.	Poorvanchal People's Party	12/391, Gali No.12, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
1738.	Poorvanchal Rashtriya Congress	Plot No. 157-158, Pocket E-20, Sector-3, 1 st Floor, Rohini, Delhi-110085.
1739.	Prabal Bharat Party	Village-Andahara, P.O. +P.S. Parsauni, District-Sitamarhi, Bihar-843325
1740.	Prabuddha Bharat Prajasattak Party	A/101, Panchsheel Nagar, Seva Sangh No. 3, Near Anik Depot. Sion (E), Mumbai, Maharashtra - 400022.
1741.	Prabuddha Republican Party	MD-26-17/6, SRTRMCH Chanai Road, Ambajogai, District Beed-431517, Maharashtra.

1742.	Prabuddhwadi Bahujan Morcha	H. No. 130A/3A, Teliyarganj, Bhoosawali Gali, Post - Teliyarganj, District - Prayagraj, U.P.-211004
1743.	Pragatisheel Janta Adhikar Party	4 - Ka, Village & Post - Bhuval Chak, P.S. - Jamaniya, District - Ghazipur, Uttar Pradesh - 232336
1744.	Pragatisheel Janta Party	Bajrang Vihar Colony, Digha Ashiyana Road, Thana-Rajiv Nagar, Post-Ashiyana Nagar, Patna-800025, Bihar
1745.	Pragatisheel Lok Manch	Ishwar Sadan, Sonkar Farm, Dhaulakhera, Post - Arjunpur (Haldwani), District - Nainital Uttarakhand.
1746.	Pragatisheel Magahi Samaj	H.No.605/334, Ward No. 44, Mohalla - Madaanpur(Akshayvat), Thana - Civil Lines, Distt. - Gaya, Bihar.
1747.	Pragatisheel Manav Samaj Party	Village Wari (Naipurva) Post Dashrathpur-221304, Distt. Bhadohi (Uttar Pradesh).
1748.	Pragatisheel Samaj Party	58/12/1D, Newada, Circular Road, Rajapur, Allahabad, Uttar Pradesh.
1749.	Pragatishil Samajwadi Party (Lohia)	CP-1, Vikrant Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.
1750.	Prahar Janshakti Party	H.No. 1634, Grampanchayat- Belora, Tehsil- Chandur Bazar, District- Amravati, Maharashtra- 444704
1751.	Praja Adhikara Party	D.No.4/107-1,S.C.Colony,Kurnool Mondal,Panchaliagala Village,Kurnool District,Andhra Pradesh-518004
1752.	Praja Congress Party	D - 6/6154/6, Vasant Kunj, New Delhi - 110070.
1753.	Praja Ektha Party	Door No. 15-9-86 to 88, Srinivasa Nilayam, Maharajganj, Locality-Gowliguda Chaman, District-Hyderabad, Telangana State- 500012
1754.	Praja Kripa Party	Shop No. -2, Hari Om Apartment, BLK C-33/124-125, Opp. Chopda Court, Ulhasnagar, Maharashtra-421003
1755.	Praja Palana Party	H.No. 64-1D-8A/1, Treasury Colony, Kakinada, East Godavari District, Andhra Pradesh-533004.
1756.	Praja Parivartan Party	No. 9/228, 1 st Main 3 rd Cross, (behind Jaibheem Petrol Bunk) Nanjappa layout, Anekal Town, Bangalore urban District, Karnataka-562106
1757.	Praja Prasthanam Party	Sri Balaji Residency, Door No.1-116-3, Plot No.MIG-48/12, GF-1, MVP Colony, Visakhapatnam-530017.
1758.	Praja Raj Party	287/264/1, Meerut Bulandshahar Road, Hapur -245101, Uttar Pradesh.
1759.	Praja Satta Party	1-91/24, Raghavendra Nagar, Parvathapur(V), GP - Ghatkesar Mandal, R.R. District, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500098.
1760.	Praja Sena Party	H. No. 4-3-167 Gajulapet, Metpally Town and Mandal, District- Jagityal, Telangana- 505325
1761.	Praja Seva Party	D.No 3-1C, Ramchandra Puram Village, Tada (P), Sathyavedu (M), Chittoor- District, Andhra Pradesh- 524401
1762.	Praja Shakti Democratic Party	Survey No. 1073, C/o Vasant Vadgo, Near K-7 Circle, Gandhinagar, Randheja Road, Gandhinagar Gujarat- 382026
1763.	Praja Shanthi Party	382, Aparijitha Colony, Ameerpet, Hyderabad, Andhra Pradesh.
1764.	Praja Vijay Paksh	First Floor, HHI-08, Abhinav Avenue Zadeshwar Chowkdi, Zadeshwar, Taluka-Bharuch, Dist.-Bharuch, Gujarat-392011
1765.	Praja Raita Raajya Paksha	H. No. 937, Manjunatha Nagar, Kengeri Road, Tavarakere, Bangaluru South, Karnataka- 562130
1766.	Praja Swaraaj Party	House No. 7-2-104/11, Plot No. 11, Srikrishna Nagar, Chinthalakunta Check Post, L.B. Nagar, Hyderabad, Telangana state-500003
1767.	Prajamaharashtra Paksh	New Parijat Building, 3 rd Floor, Mathur Nagar, Tuling Road Nalasopara(East), Tal - Vasai, District - Palghar, Maharashtra- 401209.
1768.	Prajamandal Party	Barthwal Niwas, Sheetla Mata Mandir Marg, Lower Bhaktiyana, Srinagar, Garhwal, Uttarakhand- 246174.
1769.	Prajasattak Bharat Paksha	At. Shileshwar, Post - Bhadas, Tal. Mulshi, District - Pune-412108 Maharashtra
1770.	Prajasattak Lokrajya Party	Village & Post - Parasi, Tehsil - Mangawan, District - Rewa, Madhya Pradesh - 486111.
1771.	Prajasattak Samajwaadi Bharat Party	H. No. - 1-7-281, Yadav Niwas, Rajnagar, Post - Yashwant Nagar, Pavdewadi Naka, District - Nanded, Maharashtra- 431602.

1772.	Prajashakti Party Samdarshi	Shri Ram Sadan – 40, Saraipitthu Aanshik, Nayagaon (Kesharua), Sitapur Raod, Hargaon, Janpad – Sitapur, Uttar Pradesh.
1773.	Prajatantra Aadhar Party	46, Purani Fauzdar Ki Chali, Memco Char Raste Ke Pass, Naroda Road, Ahmedbad-382345, Gujarat.
1774.	Prajatantra Congress Party	Station Chowk, Opposite Main Post Office, Raigarh, Chhattisgarh
1775.	Prajatantra Party of India	H.No.33, Mohalla- Bambaghera, Town & P.S- Ramnagar, District- Nainital, Uttarakhand
1776.	Prajatantrik Jansevak Dal	Muzaffara Bagadpur, Tehsil & District - Hapur, Uttar Pradesh-245101.
1777.	Prajatantrik Jansevak Party	H.No.88, Nivhara Ikhar, Post office- Barnahal, Tehsil- Karhal, District- Mainpuri, Uttar Pradesh- 205264
1778.	Prajatantrik Samadhan Party	Village- Hakimabad, Tehsil- Aasta, Distt.- Sihore, Madhya Pradesh.
1779.	Prajatantrik Samajvadi Party	C-17, Yadav Nagar, Village – Samaypur, Delhi-110042.
1780.	Prajavani Party	H. No. 11-83, Lingidivari Bhavanamu, Vinyakanagar Colony, Kuda Kuda Road, Suryapet, Telangana -508214.
1781.	Prapancha Telugu Bhasha Parirakshana Party	H.No.- 5-19, Chimanaguntapally Village, Wanaparthy Mandal, Wanaparthy District, Telangana - 500089
1782.	Pravasi Nivasi Party	Maha Mahal Building, T.C.-1/1502/7, Pazhaya Road, Medical College P.O, District - Thiruvananthapuram, Kerala-695011
1783.	Pravritti Party	980, Near Prakash Public School, Palam Village, New Delhi-110045
1784.	Prem Janata Dal	H. No. 1-4-524/A/7/1, Bholakpur, Near Badi Masjid, Musheerabad, Hyderabad, Andhra Pradesh.
1785.	Prema Vahini Dal	Village & Post- Antarpada, Via- Balipadar, District- Ganjam, Odisha.
1786.	PRISM	Top Floor, 4-CHHA-30, Vigyan Nagar, Kota-324005 (Rajasthan).
1787.	Prithak Bastar Rajya Party	8, Senior H.I.G., Sector-3, Shankar Nagar, Raipur, Chhattisgarh.
1788.	Prithviraj Janshakti Party	H.No. 45-A, Village- Kiratpur, Post- Pindra, Tehsil- Pindra, Police Station - Phoolpur, District- Varanasi, Uttar Pradesh.
1789.	Professional Party of India	H.No. 91, Block- D-1, Shyam Vihar, Najafgarh, New Delhi- 110043
1790.	Proutist Bloc, India	C/o Shri Ramesh Kumar, H.N.A-37 (Khasra No.2167/845), Harshroop Colony, Fatehpur Beri, New Delhi – 110074
1791.	Proutist Sarva Samaj	Sewa Niketan Compound, Agra Road, Etah, Uttar Pradesh.
1792.	Public Adhikar Socialist Indian Party	5/200, Sector-H, Jankipuram, Lucknow, Uttar Pradesh-226021
1793.	Public Mission Party	Sita Kunj, Opposite Godawari Appartment, Ashiyana Digha Road, Patna, Bihar-800014
1794.	Public Party	Iqbal Mahal, 234-A, Atala, Allahabad-211003, Uttar Pradesh.
1795.	Public Political Party	14A/57, First Floor, WEA, Karol Bagh, New Delhi- 110005.
1796.	Public Utthan Party	H.No. 236, Fatehagadh, Fatehagadh, P.S.-Khargoopur, Tehsil – Gonda, Near Power House, Distt. – Gonda, Uttar Pradesh – 271204
1797.	Puducherry Development Party	No. 51, Second Cross, Selva Nagar, Uruvaiyar, Puducherry- 605110
1798.	Punjab Democratic Party	958, Mataur, Sector – 70, SAS Nagar, Adjoining Syndicate Bank, Punjab - 160070.
1799.	Punjab Ekta Party	B-XII/46, Khewat No. 125/119, Khatauni No. 235, Village Faridkot, Ward No. 10, Part-2, Tehsil – Faridkot, Harindra Nagar, District – Faridkot, Punjab – 151203
1800.	Punjab Kisan Dal	H.No.47, Village – Sarai Mugal, Tehsil-Rajpura, District-Patiala, Punjab-140417
1801.	Punjab Labour Party	Village and Post Office Adhniyan, Tehsil – Malot, Distt. – Muktsar, Punjab
1802.	Punjab Lok Congress Party	Mohinder Bagh, situated at Village Siswan, Near Gurudwara Sheesh Mahal Sahib, Post Office Mullanlpur Garibdass, Tehsil Kharar, District Mohali, Punjab-140901
1803.	Punjab National Party	157, University Encloave phase-I, Near Guru Nanak Dev University Regional Campus, Ladhewali, Jalandhar, Punjab- 144009.
1804.	Punnagai Desam Party	3/58B, Main Bazaar, Peikulam, Asirvathapuram – Post, Sathankulam – Taluk, Thoothukudi District, Tamil Nadu – 628 613
1805.	Puratchi Bharatham	No. 54, National Highways, Poonamalla, Chennai-56, Tamil Nadu.

1806.	Puratchikara Thozhilalar Katchi	No. 3, Karikalan East, First Street, (Opp.S.P.Hospital, Anjappar Hotel), Adambakkam, Chennai, Tamil Nadu – 600088
1807.	Purvanchal Navnirman Party	Village- Sirihira, P.O- Sewapuri, P.S- Kapsethi, District- Varanasi, Uttar Pradesh- 221403
1808.	Purvanchal Janata Dal	Village and Post Office – Janadi, District – Ballia, Uttar Pradesh.
1809.	Purvanchal Janta Party (Secular)	Flat No. 2, DDA Flats, Pocket-I, Phase-I, Sector-12, Dwarka, New Delhi- 110078.
1810.	Purvanchal Kranti Party	Yadavganj, Post – Sikrara, District – Jaunpur, Uttar Pradesh.
1811.	Purvanchal Mahapanchayat	No. 601 D, Shipra Sun City, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1812.	Purvanchal Rajya Janandolan	S.P. Tower, Buddha Puram, Badeban, Gram Sabha-Madwa Nagar, Near Byepas Crossing, District - Basti, Uttar Pradesh-272001.
1813.	Puthiya Makkal Tamil Desam Katchi	D.No.6/58,SouthStreet,Muthulakshmi Puram, Megnanapuram,Thiruchendur Taluk,Thoothukudi District, Tamil Nadu-628210
1814.	Puthiya Tamilagam	132, New MLAs Hostel, Govt. Estate, Chennai-600002 (Tamil Nadu).
1815.	Pyramid Party of India	2-1-83, Kola Street, Tirupati-517 501,(Andhra Pradesh).
1816.	Qaumi Ekta Dal	H. No. - 228, Moh. Astupura, Teh. - Sadar,District - Mau,Uttar Pradesh.
1817.	Qaumi Itthehad Republican Party	No. 47/1,Chemmumiahpetta,Revenue War No. 47,(Besude Hari Tower),Nagarajaupeta Kadapa,Andhra Pradesh- 516001
1818.	Rachnatmak Jan Morcha	House No.-752,Khasra No.-146,Ground Floor,Near Kanya Vidyalaya,Buradi Village,New Delhi- 110084
1819.	Radical Democrats	D. No. 4-9-771/P70, Pavangiri Colony, Hayatnagar, Hyderabad, Telangana -501505.
1820.	Rahbar Party	Ward No. 2, Mohalla - Kachchi Masjid, Raysen,Tehsil & Distt. Raysen- 464551,MADHYA PRADESH.
1821.	Raijor Dal	House No.1,Zoo-Narengi Road,Near Modern School,Mathghoria,P.S. Noonmati,District-Kamrup (Metro),Guwahati-781020,Assam
1822.	Raita Bharat Party	Sector No. 31, Plot No. 31/A, Navanagar, Bagalkot, Karnataka-587101
1823.	Rajasthan Democratic Front	No. 761, Mahatma Gandhi Dastkar, Nagar, Nayla, Jaipur, Rajasthan-303012
1824.	Rajasthan Jan Satta	Gramin Kanya Chhatrawas, Near Water Works, Sadulpur, Churu-331023, Rajasthan.
1825.	Rajasthan Janta Party	Village- Naithla, Post-Neethari, Tehsil- Malakhera, District- Alwar, Rajasthan- 301001
1826.	Rajasthan Navnirman Party	H.No. 4F, 1 st Floor, Ramlal Sadan, Civil Airport Road, Pabupura, Jodhpur, Rajasthan-342001
1827.	Rajasthan Vikas Party	43, Chand Bihari Nagar, Khatipura Road,Jaipur-302012. (Rajasthan).
1828.	Rajlok Party	B-123, Street No.8, Kamal Vihar, Burari, Delhi – 110084.
1829.	Rajnaitik Chetna Dal	Plot No. 78, Khata No. 93, Village- Sikariya, P.O. Sughari, P.S. Govindpur, District- Nawada, Bihar- 805126
1830.	Rajnaitik Kranti Dal	House No. 55, Baduzai-2, Near Old Over Bridge, District- Shahjahanpur, Uttar Pradesh- 242001
1831.	Rajnaitik Vikalp Party	204 – Shahi Bhawan, Dak Banglow, Patna – 800001 Bihar.
1832.	Rajya Swaraj Party	931,Indira Nagar,Dehradun,Uttarakhand-248006
1833.	Rajyadhikara Party	H.No.10-4-A/390, Addagutta, East Marredpally, Secundarabad-17, Andhra Pradesh.
1834.	Rakshak Jan Morcha Party	Araji no. – 813/H.No. – 180A,Girja Nagar,New P.A.C. Line,Dehli Sujanpur,Kanpur Nagar,Uttar Pradesh - 208015
1835.	Rakshaka Sena	No. 604, Vayunanda Layout, Hebbal, Kempapura, Banglore-560024.
1836.	Rani Chennamma Party	Vakkalageri Dyamavvankatti, Gadag – 582 101, Karnataka.
1837.	Rani Laxmibai Krantikari Party	Shop No. 6, Rahul Bazar, Commercial Complex, 1 st floor, Sitaburdi, Nagpur, Maharashtra- 440012
1838.	Rashtra Bhakt Dal	Baba Bajrang Das Ji Ki Bagichi,Khatipura Road, Jhotwada,Jaipur – 302 012, Rajasthan.
1839.	Rashtra Hith Party	706/707, M.K. Heights CHS, 'B' Wing, C.T.S. No. 621, Opp. 'L' Ward Office,S.G. Barve Marg, Kurla (W),Mumbai-400 070Maharashtra.
1840.	Rashtra Mangal Mission Party	Kamdheni Krupa, Kacho Madh, Pilaji Ganj, Sriram Chowk, Mehsana, Gujarat – 384001.

1841.	Rashtra Nirman Party	D-25, Defence Colony, New Delhi-110024.
1842.	Rashtra Samanya Praja Party	Door No.-3-44,Athvelly,Medchal,Telangana-501401
1843.	Rashtra Samarpan Party	Ward No.-4,Property No.040000225,Old Property No. W 4-448(Old 225),Saoner,Taluka,Saoner,District-Nagpur Maharashtra- 441107
1844.	Rashtra Sewa Dal	85/40, Officer Flat, Beli Road, Patna – 800001, Bihar.
1845.	Rashtra Shakti	1112, S/5 Tegore Garden, Near Bus Stand, Yamuna Nagar-135001, District – Yamuna Nagar, Haryana.
1846.	Rashtra Uday Party	Khasra No. 10, Atif Vihar Colony, Near City I.T.I., Uttardhauna, Chinhat, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
1847.	Rashtra Vahini Party	412, S.K. Shyam Heights, Sampat Hills, Bhicholi Mardana, Indore, MADHYA PRADESH- 452016
1848.	Rashtra Vikas Zumbes Party	2nd Floor, Apollo Enclave, Opp. Jain Derasar,Modhera Cross Road, Mehesana, Gujarat – 384002
1849.	Rashtrahit Chintak Vipaksh Party	Plot No. 177E/2, Ward No. – 2, Mehrauli, New Delhi – 110030.
1850.	Rashtravadi Bharat Party	At-511/5, Anantpur,Ward No.-10, Gayatri Nagar, Huzur Rewa, Rewa, Madhya Pradesh-486001.
1851.	Rashtravadi Communist Party	Begaria Ka Khera,P.O. Brawan Kalan, Kakori,Lucknow, Uttar Pradesh.
1852.	Rashtravadi Janata Party	Anil Bharti Bhawan, 43-A, Sukhbir Nagar, Karala, New Delhi-110081.
1853.	Rashtravadi Kranti Dal	Indu Niwas, Gaon Devi Road, Poisar, Kandivali (East), Mumbai, Maharashtra-400101
1854.	Rashtravadi Loktantrik Party (India)	35B, Sainik Enclave, Sector-1, Mohan Garden, New Delhi- 110059
1855.	Rashtravadi Party (Bharat)	Village- Kakrana, Post- Dhaulana, District- Hapur, Uttar Pradesh-245301
1856.	Rashtravadi Pratap Sena	Village – Narayanpur Banska, P.O. – Dhaulana, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1857.	Rashtravadi Vikas Party	217,2 nd Floor,Devaki Tower,Chandra Nagar,Ghaziabad,Uttar Pradesh-201011
1858.	Rashtravyapi Janta Party	M.M.S. 1/84, Sector – A, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
1859.	Rashtrawadi Chetna Party	House No. 16F/F, K.H.No. 28/10, Risal Garden, Nangloi, New Delhi-110041
1860.	Rashtrawadi Insaan Party	18/84/6C, Pura Dalel, Tilak Nagar, Allahpur, Allahabad, Uttar Pradesh.
1861.	Rashtrawadi Jan Chetna Party	A-69, Trikam Nagar Section-1, Near Chowpaty Garden, L.H. Road, Surat, Gujarat-395010.
1862.	Rashtrawadi Jan Congress	Santosh Bhawan, Road No.1 Extension, Rajvanshi Nagar, Patna, Bihar - 800023
1863.	Rashtrawadi Jan Samaj Party	158/33A-1,Ganga Prasad Road,Aansar Complex,Molviganj,Lucknow Uttar Pradesh – 226018
1864.	Rashtrawadi Janataraj Party	A-404,Abajibapa Lake View,Opp. RAF Gate,Nirant Chokdi,Vastral,Ahmedabad,Gujarat - 382418
1865.	Rashtrawadi Janlok Dal	934/1, Near- Vadi, Mota Madh, At&Po- Valam, TA- Visnagar, District- Mahesana, Gujarat – 384310
1866.	Rashtrawadi Janlok Party (Satya)	Harsaru,Near Shiv Mandir,Tehsil- Harsaru,District- Gurgaon Haryana- 122505
1867.	Rashtrawadi Jansangh	Pakri Gandhi Nagar More,(Katira Road),Near Jain Collage East Gate,Katira,Aara,Nawada,District-Bhojpur,Bihar-802301
1868.	Rashtrawadi Janvikas Party	H.No. 7-G-27, Jawahar Nagar, Sri Ganganagar, Rajasthan- 335001
1869.	Rashtrawadi Janwadi Manch	H.No.-160, Jodhi ka Pura, Azamgarh City, Azamgarh, Uttar Pradesh
1870.	Rashtrawadi Kisan Kranti Dal	H.No. 73, Mohalla – Raysahab,Tehsil – Sirauli, Gauspur, District - Barabanki,Uttar Pradesh – 225415
1871.	Rashtrawadi Minority Party	Village-Kadampura,Ward -9, P.O.-Kadampura,District-Supaul,Bihar-852134

1872.	Rashtrawadi Parivartan Party (L.B.)	M.C. Unit No. 4 – 467, Noonsar Johad, Patram Gate, Bhiwani, District – Bhiwani, Haryana – 127021
1873.	Rashtrawadi Party of India	Village- Kalyanpur, Post- Barhalganj, Tappa Kasbe, Pargana – Chillupar, District- Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273402
1874.	Rashtrawadi Praja Dal	C-2/60, Ram Park – I, Loni, District – Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201102
1875.	Rashtrawadi Samaj Party	16/17, Civil Lines, Near PadamApartment, Kanpur, Uttar Pradesh.
1876.	Rashtrawadi Shramjeevi Dal	512/695N, First Street, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh-226007
1877.	Rashtrawadi Yuva Party	ARSI House, Pragati Nagar, Chakmohabbat, P.O- Bhikhanpur, P.S- Ahiyapur, District- Muzaffarpur, Bihar-842004.
1878.	Rashtriya Bahujan Party	729/4, Ambedkar Chauk, Village – Nalegaon, Taluq – Chakur District – Latur, Maharashtra- 413524
1879.	Rashtriya Aadarsh Member Party	Village and Post- Udaypura Beech ke Mohalla, Tehsil- Rajnagar, Thana- Khajuraho, District- Chattarpur, Madhya Pradesh- 472339
1880.	Rashtriya Aadiwasi Bahujan Party	Plot No.4, Pushpak Nagar, Junwani Road, Bhilai, Disst. Durg, Chhattisgarh-490020
1881.	Rashtriya Aam Party	Office no. 19A, 2nd Floor, Om Heera Panna Mall, New Link Road Oshiwara, Andheri (West), Mumbai, Maharashtra – 400053
1882.	Rashtriya Aamjan Party	B-225, Old Minal, J.K.Road, Bhopal, Madhya Pradesh- 462023.
1883.	Rashtriya Adarsh Party	Pitthuwalla Khurd, Chanderbani, Dehradun, Uttarakhand.
1884.	Rashtriya Ahinsa Manch	132/1, Mahatama Gandhi Road, Kolkata – 700 007.
1885.	Rashtriya Aikta Manch Party	D-197, Kunwar Singh Nagar, Nangloi, Delhi-110041
1886.	Rashtriya Ambedkar Dal	Ambedkar Bhawan, Budh Vihar, Bhim Nagar, Central Jail Road, Varanasi, Uttar Pradesh.
1887.	Rashtriya Antyodaya Congress	SS-III / 800, Sector – 1, Koparkhairane, Navi Mumbai, Maharashtra - 400709.
1888.	Rashtriya Anyay Nivaran Sena	138, Jahagirdarwadi, P.O- Shingoli, Tehsil & District- Usmanabad, Maharashtra – 413501
1889.	Rashtriya Apna Dal	House No. 232/81/4D, Tilak Nagar, Allapur, Allahabad, UTTAR PRADESH
1890.	Rashtriya Arakshak Manch	4586, Vijayanagar, 2 nd Stage, Devaraja Mohalla, Mysore, Karnataka -570017.
1891.	Rashtriya Arya Raj Sabha	769/2, Vijay Park, Jhang Colony, Rohtak-124001. Haryana.
1892.	Rashtriya Atulya Yuva Party	Plot No. 291, Flat No. 301, Shiv Nagar-1, Murlipura, Jaipur, Rajasthan-303328
1893.	Rashtriya Azad Manch	Village&Post- Shahzadpur, Teshil- Naraingarh, Dist.- Ambala, Haryana.
1894.	Rashtriya Backward Party	1/44, Shanti Nagar, Etah-207001, UTTAR PRADESH
1895.	Rashtriya Bahujan Congress Party	TA-137/3, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019.
1896.	Rashtriya Bahujan Hitay Party	C-158, Captain Satish Marg, Rishi Nagar, Rani Bagh, New Delhi-110034.
1897.	Rashtriya Bahujan Kranti Dal	Village – Datavli Gesupur, Jai Bheem Nagar, Garh Road, Near Medical College, Tehsil - Meerut, District – Meerut, UTTAR PRADESH.
1898.	Rashtriya Balmiki Sena Paksha	Jagadguru Maharishi Balmiki Swami Mandir Marg, C.M.E. Ram Nagar Bopkhal, Pune-411 031 (Maharashtra).
1899.	Rashtriya Bandhutwa Party	554, Mamfordganj, Allahabad Uttar Pradesh.
1900.	Rashtriya Bhagidari Party	Sreesheepama Building, Opposite Amity University Gate No.1, Nizampur, Malhour, P.S-Chinhat, Tehsil-Sadar Lucknow, Uttar Pradesh-226028
1901.	Rashtriya Bhagidari Samaj Party	Village – Garhi (Mehanda More), Tehsil-Hansi, District – Hisar, Haryana -125033
1902.	Rashtriya Bhaichara Vikas Party	CP-15, RICCO Jhunjhunu, Rajasthan - 333001

1903.	Rashtriya Bharatiya Akhand Party	H. No. – 14, Village & Post – Behta, Vikas Khand – Masauli, P.S. – Safdarganj, District – Barabanki, UTTAR PRADESH.
1904.	Rashtriya Bharatiya Jan Jan Party	Near APS, Bishara, Dadri (Gautam Buddha Nagar), Uttar Pradesh - 203207
1905.	Rashtriya Bujurg Shakti Party	House No. – 144, Village – Mangawas, Post Office – Palra, Tehsil – Beri, District – Jhajjar, Haryana.
1906.	Rashtriya Bundelkhand Vikas Party	1/965, Mansarovar Park, Ramji Lal Ki Bagichi, Near Railway Line Phatak, G.T.Road, Shahadara, Delhi- 110032
1907.	Rashtriya Chanakya Party	Flat No. 726FF, Block-A, Sector- MU-II, Greater Noida, Gutam Budh Nagar, Uttar Pradesh- 201310
1908.	Rashtriya Congress (Babu Jagjivanram)	Ward No. 45, Mohalla – Baldevpuri, Janpad – Muradabad, Uttar Pradesh.
1909.	Rashtriya Congress (J.) Party	Saindhri, Post-Harthala, Via Pakvarh, Muradabad, Uttar Pradesh.
1910.	Rashtriya Dal United	G- 3/792, Ward No.- 69, Durga Apartment, Shalimar Garden, Extension- 1, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201005
1911.	Rashtriya Democratic Front	H. No. 397, Village – Sonari, Post Sonari (Ramganj), P.S. – Piparpur, Tehsil – Amethi, District – Amethi, UTTAR PRADESH - 228159.
1912.	Rashtriya Deshaj Party	Tungari Toli, Argora, St. Francis School, Post - Harmu, Distt. Ranchi Jharkhand - 834012.
1913.	Rashtriya Devbhumi Party	H. No. 330/6, Naya Bazaar, Nahan, Distt.- Sirmour, Himachal Pradesh- 173001
1914.	Rashtriya Dharmanirpeksha Nava Bharat Party	108, Shankar Shah Nagar, Jabalpur (Madhya Pradesh).
1915.	Rashtriya Ekta Party	H.No. 83, Ground Floor, Gali No. 4, Near Chand Masjid, Jafarabad, Delhi – 110053.
1916.	Rashtriya Ekta Party (Secular)	Bhawan No. 543, Mohalla- Upadiyan, Ward No.14, Kithore, District- Meerut, Uttar Pradesh.
1917.	Rashtriya Gana Sangha	At-68/1, Khudiram Sarani, Namabongi, Balurghat, Post-Balurghat, P.S.-Balurghat, District-Dakshin Dinajpur, West Bengal – 733101
1918.	Rashtriya Garib Dal	110, Ram Nagar, Panipat, Haryana.
1919.	Rashtriya Garib Utthan Party	Village – Nasopur, Post -Nagpur, Tehsil – Jalalpur, P.S. – Jalalpur, District – Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh - 224149.
1920.	Rashtriya Garima Party	B-14, Kasturba Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462001, (Madhya Pradesh).
1921.	Rashtriya General Party	Ward No. 11, Aadarsh Nagar, Collectriate Road, Buxar, Bihar- 802101.
1922.	Rashtriya Gondvana Party	Sarkhel House, Tiffra, Bilaspur – 495223, Chhattisgarh.
1923.	Rashtriya Gram Vikas Party	62, Civil Lines, Roorkie, Janpad-Haridwar Uttarakhand
1924.	Rashtriya Hind Ekta Dal	Village Nagla Bhaja, Post – Mighauli, P.S.- Vishnugarh, Tehsil-Chhibramau, District-Kannauj, Uttar Pradesh- 209721
1925.	Rashtriya Hindustan Shakti Dal	I- 26/1, Gali No. 10, Brahmapuri, Delhi- 110053
1926.	Rashtriya Hissedari Party	Village Mumtaj Jagar, Post-Mumtaj Nagar, Tehsil-Sohawal, near Samrat Medical Store, P.S.- Cantt., Distt.-Auodhya, Uttar Pradesh- 224001
1927.	Rashtriya Independent Morcha	At: Mining Road, Keonjhar (In front of O.S.M.E. Ladies Hostal), P.O./Via.: Keonjhargarh District – Keonjhar-758001, Odisha.
1928.	Rashtriya Jagriti Party	Rishabh Institute, Chiraitaad Pul, Chaudhry Petrol Pump, Kankarbagh, Patna, Bihar – 800020.
1929.	Rashtriya Jagrook Party	House No.- B-7/209, Satta Bazar, Kot Kapura, District- Faridkot, Punjab-151204.
1930.	Rashtriya Jaihind Party	Adarsh Nagar, Kokar, P.S.Sadar, District-Ranchi, Jharkhand-834001
1931.	Rashtriya Jan Adhikar Party (United)	H.No. 710, Naya Purva, Degree College Chauraha, Kachari Road, Opp. Liberty Showroom, District- Rae Bareli, Uttar Pradesh.
1932.	Rashtriya Jan Awaz Party	MIG-23, Triveni Complex, TT Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh- 462003

1933.	Rashtriya Jan Gaurav Party	470, Parmanatpur, (Behind-Sapna Ice Factory), P.O- Kachahari , Tehsil- Sadar, District- Jaunpur Uttar Pradesh-222002.
1934.	Rashtriya Jan Jan Party	C/o Parshuram Singh, Neily Niwas, Shiv Nagar, Road Number-1, Behind Ford Hospital, Thana-Ram Krishna Nagar, PO-Ram Krishna Nagar, Khemnichak, District- Patna, Bihar-800027.
1935.	Rashtriya Jan Kalyan Party	G-290, Old Seema Puri, Delhi 110095.
1936.	Rashtriya Jan Kalyan Party Secular	Khata-187,Khasra-869,PS-150 Tozi No 525,Village-Chodhli,PS-Deldour,Distt.- Khagaria,Bihar-852161
1937.	Rashtriya Jan Manch	Village & Post- Gurha,District- Jalaun,Uttar Pradesh- 285122.
1938.	Rashtriya Jan Sagar Party	Behind Water Box, Nareda Road, Tehsil & District- Baran, Rajasthan- 325205.
1939.	Rashtriya Jan Sahay Dal	112, New Connaught Place,Dehradun, Uttaranchal.
1940.	Rashtriya Jan Sahyog Party	Plot No. A-40, Gaytri Puram, Near Shobhit University, Pallavpuram, Phase-2, Modi Puram, City- Meerut, Uttar Pradesh-250110
1941.	Rashtriya Jan Samarthan Party	A-122B, Ground Floor, Hari Nagar, New Delhi- 110064
1942.	Rashtriya Jan Vikas Party	Mohalla-Sundarpur Chhathi Pokhar,P.O. Lal Bagh,P.S. – L.N.M.U.,District Darbhanga,Bihar-846004
1943.	Rashtriya Janadhar Party	596 S.K. – 04/01/01, Sumiran Khera, Adarsh Vihar, Lucknow, Uttar Pradesh.
1944.	Rashtriya Janadhikar Party	61, Mangla Puri Phase-I, Palam, New Delhi-110045.
1945.	Rashtriya Janadhikar Suraksha Party	Village: Krishnapur,Post: Dhopathat Krishnapur,Distt: 24 Parganas (South),West Bengal.
1946.	Rashtriya Janahita Party	No. 140,Vidyaranyapura,Narasipura,Main road,Bengaluru,Karnataka- 560097
1947.	Rashtriya Jananayak Janata Party	RZ-3284/37,Tughlakabad Extension,New Delhi – 110019
1948.	Rashtriya Janasachetan Party (R.J.P.)	Sonarpur, Sukanta Nagar (Milanpally),(Near Shib Mandir)P.O. & P.S. Sonarpur, Kolkata-700150. West Bengal.
1949.	Rashtriya Janhit Sangharsh Party	109-F, Najimpura, Bhoor, Bulandshahar Uttar Pradesh - 203001.
1950.	Rashtriya Janhit Vikas Party	V.P.O. Khanak , H. No. 627B, Near Panchayat Ghar, Adarsh Colony, Teh. – Tosham, District- Bhiwani, Haryana- 127040
1951.	Rashtriya Jan-Jagran Morcha	Raj Manzil, Ward No.12, Gopalganj, Post and District Gopalganj, Bihar.
1952.	Rashtriya Jankranti Morcha	Village- Babhne Alam Nagar, P.O-Pratappur, District: Chatra, Jharkhand -825404
1953.	Rashtriya Jankranti Party	5/24 H-10 (R) ITI Road, Aligarh, Uttar Pradesh – 202001
1954.	Rashtriya Janmanch (Secular)	Village,Taluka -Shrirampur,Distric- Ahmednagar,Maharashtra- 413715
1955.	Rashtriya Janmat Party	Village – Fatuha, Post – Hanumanganj, Distt. – Allahabad, Uttar Pradesh.
1956.	Rashtriya Janmorcha	C-69/10, Gali No. 10, C- Block,Mustafabad,Delhi-110094.
1957.	Rashtriya Janpriya Party	H-II-76/D, LDA Colony,Kanpur Road.Lucknow-226012,UTTAR PRADESH.
1958.	Rashtriya Janraj Party	28-A, Vishal Kunj, Dehtora Road, Bodla, Agra, Uttar Pradesh - 282007.
1959.	Rashtriya Jansabha Party	Kondagaon, Forest Colony Ward, District- Kondagaon, Chhattisgarh-494226
1960.	Rashtriya Jansambhavna Party	U.K Sahni Commercial Complex, Room No.101, First Floor,Village- Rajopatti, District- Sitamarhi, Bihar-843302.
1961.	Rashtriya Jansanchar Dal	600/279/031N, Sumit Nagar, Faridipur Ring Road, Dubagga, Lucknow, Uttar Pradesh- 226101
1962.	Rashtriya Jansangharsh Swaraj Party	Upper Chutia, Ranchi, Jharkhand – 834001.

1963.	Rashtriya Jansena Party	Shop No. 101, Madina Complex, Kumbhartek, Shirpur, District- Dhule, Maharashtra
1964.	Rashtriya Janseva-Secular Party	428, Brahman Wara, Old Ward No. 23, Ballabhgarh-121004, Distt. - Faridabad, Haryana.
1965.	Rashtriya Janshakti Party (Eklavya)	Post and Village :- Binjhol, Tehsil and District :- Panipat, Haryana-132103.
1966.	Rashtriya Janshakti Party (Secular)	417-A, Jaina Tower-III, A-1 Block, Janakpuri, New Delhi- 110058
1967.	Rashtriya Janshakti Samaj Party	Mohalla- Thok, Ward No. 4, Puranaganj, Near Railway Station, Mishrikh, District- Sitapur, Uttar Pradesh- 261001
1968.	Rashtriya Janshanti Party	52/2, School Ward Chawk, Behind G.G.I.C., Pratapgarh-230001, Uttar Pradesh.
1969.	Rashtriya Jansurajya Party	House No. 953/C, Garoba Maidan, Bhandara Road, Bagadganj, Nagpur(E), Maharashtra-440008.
1970.	Rashtriya Jan-Swabhiman Party	No.1-B, 223, M.I.G, Awas Vikas Colony, Rukunpur, Shikohabad, District- Firozabad, Uttar Pradesh-283135
1971.	Rashtriya Janta Party	Near of Shiv Mandir Colony, Saorkha Jahidabad, Sector – 115, Noida, Distt. - Gautambudhnagar, UTTAR PRADESH.
1972.	Rashtriya Jantantrik Bharat Vikas Party	Govind Chikitsalya, Parsiya Morh, Rasulpur, Rasraha, Balia, Uttar Pradesh.
1973.	Rashtriya Janutthan Party	A-655-56, Awas Vikas, Hanspuram (Kainal Road), Naubesta, Kanpur Nagar – 208021, Uttar Pradesh.
1974.	Rashtriya Janvikas Party (Democratic)	Manorma Sadan, Indrapuri Sipara, Post Office- Dhelwan, Thana- Beur District- Patna Bihar 800020.
1975.	Rashtriya Janwadi Party (Krantikari)	9/168, Indira Nagar, Near Pani Tanki, Luknow-226016.
1976.	Rashtriya Janwadi Party (Socialist)	1/73, Shiv Katra, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208007
1977.	Rashtriya Jatigat Aarakshan Virodhi Party	788-E/24, In Front of Union Bank, Near of old Court, Rohtak Road, Sonapat-131001 Haryana.
1978.	Rashtriya Kalyan Paksha	904, Atlanta Towers, Inqalab Society Gulbai Tekra, Ahmedabad-380006, Gujarat.
1979.	Rashtriya Karmyog Party	Village & P.O. – Sultanpur, Tehsil – Nilokheri, Distt. – Karnal, Haryana-132116.
1980.	Rashtriya Karyarat Party	House No.54K, Ward No.4(New), Ward No.8(Old), Malviya Nagar, Chitbaragaon, Near Middle School, Tehsil & District-Ballia, Uttar Pradesh-221713
1981.	Rashtriya Kisan Bahujan Party	Ajinkya, Rajwada Bhawan, In front of Govt. ITI College, Tuljapur Road, Niture Nagar, Osmanabad, Tal. & Distt. – Osmanabad, Maharashtra - 413501
1982.	Rashtriya Kisan Congress Party	H. No. 1-11-602, Ramamata Ambedkar Nagar, Near of Guru Govind Singh Ji Stadium, Tq. & Distt. Nanded, Maharashtra.
1983.	Rashtriya Kisan Majdoor Party	W-127, 1 st Floor, Greater Kailash –II, New Delhi- 110048.
1984.	Rashtriya Kisan Party	Village & P.O. Dhanaundha, Teh. & Distt. Mahendragarh (Haryana).
1985.	Rashtriya Kisan Samaj Party (United)	Mohalla- Pateganj, Post- Kanth, Tehsil- Kanth, District- Moradabad, Uttar Pradesh- 244501
1986.	Rashtriya Kisan Shramik Party	Village- Takhat Khera, Post- Akampur Bihar, Bagwant Nagar, District- Unnao, Uttar Pradesh- 209864
1987.	Rashtriya Komi Ekta Party	Limda Lane, Makrani Pada, Jamnagar-361001, Gujarat.
1988.	Rashtriya Kranti Party	Lodhi Pragyaapeeth, Lauh Purush Dr. Sakshi Nagar, Shikohabad Road, Etah, District: Etah – 207 001, Uttar Pradesh.
1989.	Rashtriya Krantikari Dal	Gopal Nagar, Main Surakhpur Road, Najafgarh, New Delhi –110043.
1990.	Rashtriya Krantikari Samajwadi Party	House No. 65/25 K, Chhitwapur Road, Lalkaun, Lucknow, Uttar Pradesh.
1991.	Rashtriya Krishak Dal	Plot No.177, House No.SA-4/4A-5B, Daulatpur, Post Khajoori (Pandeypur), District- Varanasi, Uttar Pradesh-221002
1992.	Rashtriya Lok Dal	406, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi-110001.
1993.	Rashtriya Lok Janta Party	H. No. 31, Village- Kamsari, Post office- Asawar, Tehsil- Muhammadabad, District- Ghazipur, Uttar Pradesh- 233225

1994.	Rashtriya Lok Praja Rajay Party	Barkati Appartment,Normal Chowk,In front of Bijali office,Khurampur,District-Gorakhpur,Uttar Pradesh-273001
1995.	Rashtriya Lok Sarvadhikar Party	H. No. -630, Village-Pasonda, Bodh ViharMandir, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1996.	Rashtriya Lok Sevak Party	Sampatti No.39/34A,Near Saheb Bus Adda,District – Hanumangarh Rajasthan-335501
1997.	Rashtriya Lok Tantra Dal	Gram Mohalla – Nagla Kashi,Tehsil – Dhaulana, District – Hapur. Uttar Pradesh - 245301.
1998.	Rashtriya Lokneeti Party	J-1201,Aditya Mega City,Vaibhav Khand,Indirapuram,Ghaziabad,Uttar Pradesh-201014
1999.	Rashtriya Lokraj Party	H. No. 73/382, Mohalla – Vankhandi Teela, (Behind of Sahkari Bank), Mathura, Uttar Pradesh- 281001.
2000.	Rashtriya Loksatta Party	No.287/3,Mangel Pandey Nagar,Meerut,Uttar Pradesh-250001
2001.	Rashtriya Lokshakti Party	Arjun Nagar Colony, Gola Gokarnnath, Lakhimpur Kheeri, Uttar Pradesh - 262802
2002.	Rashtriya Lokswaraj Party	Padma Farm, Village – Chhapra Khera, Near Balaji Mandir, Phusgarh, Karnal, Haryana.
2003.	Rashtriya Lokwadi Party	A/6A, Ground Floor, Mansarovar Garden, New Delhi – 110015.
2004.	Rashtriya Maha Janshakti Dal	Room No.17, M. Naresh Munna Chawl,Jaihind Nagar, Pipe Line, Khar East, Mumbai-400 051, Maharashtra.
2005.	Rashtriya Mahajan Shakti Party	H.No. 843/39, Shiv Utsav Vatika, New Railway Station Marg, Ater Road, Bhind, Madhya Pradesh- 477001
2006.	Rashtriya Mahan Dal	108/60, Avas Vikas Colony, Village – Taimurpur, Post – Bijnaur, Distt. – Bijnaur, Uttar Pradesh.
2007.	Rashtriya Mahan Gantantra Party	Village – Adda Chhinparai, Post – Chhinparai, Naujhil, Mathura, Uttar Pradesh - 281203
2008.	Rashtriya Mahashakti Party	5, Rupayatan, S V Road, Vile Parle West,Mumbai-400056Maharashtra.
2009.	Rashtriya Mahaswaraj Bhumi Party	At-3A,1st Floor,Dharavi,Vivekananda Co-op. Housing Soc. Ltd.,Prabhakar Kunte Nagar,90 Feet Road,Kumbharwada,Dharavi,Maharashtra,Mumbai-400017
2010.	Rashtriya Mahila Janshakti Party	Gram Sabha – Santa Jiginiya,Post – Kanta Guljarpur,Block – Fatehpur, Distt. – Unnao,Pin-209801 UTTAR PRADESH.
2011.	Rashtriya Mahila Party	340, Swale Nagar, Rampur Road, Post- C.V.Ganj, District- Bareilly, Uttar Pradesh-243502
2012.	Rashtriya Majdoor Krishak Party	At-NH-28,Tenua,Harraiya,Basti,Uttar Pradesh- 272155
2013.	Rashtriya Majdoor Vikas Party	H.No. 502, Yamuna Road, Ist floor, Village- Mehandipur, Tehsil & District- Sonipat, Haryana- 131001
2014.	Rashtriya Manav Ekta Congress Party	Opp. Gurudwara,Station Road, Raipur, Chhattisgarh.
2015.	Rashtriya Manav Samman Party	H. No-1485, Kidwai Nagar, Bhardwaj Puram, Allahabad-211006.
2016.	Rashtriya Manav Sewa Party	Khata No.60,Khasra No.03,Mauja No.82,Shree Nagar House,Samukhiya More,Near New Police line Banka,District-Banka,Bihar- 813102
2017.	Rashtriya Manav Vikas Party	House No. 249, Village- Sathalpur, P.O- Dhawarsi, Tehsil- Hasanpur, Block- Gangeswari, District- Amroha, Uttar Pradesh-244242
2018.	Rashtriya Mangalam Party	19/23, West Moti Bagh, Street No. 3, Sarai Rohilla, Delhi – 110035.
2019.	Rashtriya Maratha Party	Shivneri Sinhadgad Building, Shrinagar (Shivnagar) Colony, Bidar Road, Udgir, District – Latur, Maharashtra - 413517
2020.	Rashtriya Marxwadi Dalit Lehar Party	Village- Chhonkarwara, Tehsil- Weir, District- Bharatpur, Rajasthan.
2021.	Rashtriya Mataadhikar Party	Village & Post-Areraj,Ward No. 11,Shiv Mandir Se purav,Gayatri Traders,Distt.- Purvi Champaran,Bihar-845411
2022.	Rashtriya Matdata Party	Mohalla – Sayedvada, Kasba – Maliabad, District – Lucknow, UTTAR PRADESH
2023.	Rashtriya Mazdoor Ekta Party	Block-B, Sant Nagar, Gali No.57, Burari Road, Delhi –110009.

2024.	Rashtriya Mazdoor Kisan Party	Aakash Bhawan, Opp. IDBI Bank, Main Road Dadri, Surajpur, Greater Noida, Vikas Khand- Visrakh, Tehsil- Sadar, District- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
2025.	Rashtriya Mazdoor Kisan Prajatantrik Party	Ashoka Avenue, Village-Lalganj, P.S- Sadar, District - Ranchi, Jharkhand.
2026.	Rashtriya Morcha Party	H.No.57, Village – Manesar,Mohalla – Mohan Patti, Distt. – Gurgaon,Haryana-122050.
2027.	Rashtriya Nagrik Party	H.No. 725, Khasra No. 40, Village- Maidangarhi, New Delhi- 110068
2028.	Rashtriya Naujawan Dal	20/575, D.D.A. Flat, Dakshinpuri,New Delhi – 110062
2029.	Rashtriya Nav Nirman Bharat Party	No.- K-33, F/F,AB, Lajpat Nagar-II, New Delhi- 110024
2030.	Rashtriya Nav Prabhat Party	110/2,Lakshmipuram,Near RBM School,Gandhinagar,Mujaffarnagar,Uttar Pradesh-25 1001
2031.	Rashtriya Poorvanchal Ekta Party	Plot No.145,Paigamberpur,Post-Rasulgarh,P.S-Sarnath,Varanasi,Uttar Pradesh-221007
2032.	Rashtriya Power Party	101, Ashram Avenue, B/H, Kochrab Ashram, Paldi Cross Road, Ellisbridge', Ahmedabad, Gujarat – 380006
2033.	Rashtriya Pragati Party	Garh Par, Nardiganj Road, Nawada, Post & Distt. Nawada – 805 110, Bihar.
2034.	Rashtriya Praja Congress (Secular)	12-11-113, AB-Nageswara Rao Street, Arya Puram, Rajamundry, Andhra Pradesh.
2035.	Rashtriya Raksha Dal	C/o Hotel Pankaj, Sector-22A, Chandigarh.
2036.	Rashtriya Rakshak Morcha	31, Alkapuri, Behind New High Court, City Center, Gwalior, MADHYA PRADESH- 474011
2037.	Rashtriya Rashtrawadi Party	2/36, Ruchi Khand-1, Sharda Nagar Yojna, Lucknow, Uttar Pradesh -226012.
2038.	Rashtriya Republican Party	D-26, Meerdard Road, New Delhi- 110002
2039.	Rashtriya Sab Janshakti Party	Ratanchak New Tola,P.O.-Hathua,Dist-Gopalganj,Bihar-841436
2040.	Rashtriya Sadbhavna Party	Village- Raghobpur Narsanda, Post- Bajitpur, Thana- Patepur, District- Vaishali, Bihar- 843110
2041.	Rashtriya Saf Niti Party	Village & Post- Manoharpura, Tehsil- Bassi, District- Jaipur, Rajasthan- 303301
2042.	Rashtriya Sahara Party	Jangra Market Dundahara, Gurgaon-122016, Haryana.
2043.	Rashtriya Sahyog Party	F-130/4, Ground floor, Gautam Nagar, New Delhi- 110049
2044.	Rashtriya Samadhan Janmorcha	11 Prakash Nagar, MPEB Officer Colony, Govindpura, Bhopal, Madhya Pradesh - 462023.
2045.	Rashtriya Samaj Dal (R)	H.No.193,Ward No.7,Shastri Nagar,Koraon,Allahabad,Uttar Pradesh-212306
2046.	Rashtriya Samaj Paksha	C/o L.W. Kale, 17-Raghunath Dadoji Street, 4th Floor, Near Handloom House, Fort, Mumbai-400 001 (Maharashtra).
2047.	Rashtriya Samajhit Dal	Moh.Devi Mandir Colony (D.M.Colony),Near Petrol Pump,Digha,Patna,Bihar-800011
2048.	Rashtriya Samajwadi Apna Dal	Vill. – Basupar (Bankut),Near Shiva Nursing Home, P.O. – Jiyanpur, District – Ajamgarh,Uttar Pradesh.
2049.	Rashtriya Samajwadi Jankranti Party	B-37/162, K.P.Giri Colony,Birdopur, Varanasi,Uttar Pradesh.
2050.	Rashtriya Samajwadi Lok Adhikar Party	At-Village Silat,Post Pokhraia,Via Birauli (R.I),Distt.-Samastipur,Bihar-848113
2051.	Rashtriya Samajwadi Party (Secular)	A/104, Rajshree Avenue,B/h, Income Tax, Nr. Dinesh Hall, Ashram Road, Ahmedbad-380009, Gujarat.

2052.	Rashtriya Samajwadi Swabhimani Manch	Plot No. 33/34, Laxmi Nagar, Risali, Bhilai, District- Durg, Chhattisgarh- 490006
2053.	Rashtriya Samanta Dal	8/440, Trilok Puri, Delhi-110091.
2054.	Rashtriya Samrasta Party	No. C-133, DDA Flats, New Ranjeet Nagar, Patel Nagar, New Delhi- 110008
2055.	Rashtriya Samrat Sena Party	3115, S.G. Nagar, Digha, Airoli, Navi Mumbai, Maharashtra- 400708.
2056.	Rashtriya Samta Party (Secular)	H.No.- 27, Village- Veerapur Singhara, Post- Singhara, Dist.- Vaishali, Bihar- 844126.
2057.	Rashtriya Samta Vikas Party	House No. 227/111, Vishnupuri Bhuteshwar, Post- Krishnanagar, District- Mathura, Uttar Pradesh- 281004
2058.	Rashtriya Samvidhanwadi Party	Village-Rampur,Post-Haidarpur,District-Auraiya,Uttar Pradesh- 206129
2059.	Rashtriya Sanatan Party	Swabhimani Bhawan,Shivdham Colony,Near C Block,SainikVihar,Divider Road,NanglaTasi,PS- Kankadkhera,Meerut Cantt,Meerut,Uttar Pradesh- 250001
2060.	Rashtriya Sangail Party	Simdega Bhawan, Near Dangratoli Chowk, Opposite Tanveer Petrol Pump, Purulia Road, Ranchi, Jharkhand- 834001
2061.	Rashtriya Sangam Dal	7B, Khyora, Nawabganj, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208002
2062.	Rashtriya Sant Sandesh Party	263, Vanarse Niwas, Mitra Nagar, Latur, Tq. Latur, Distt. - Latur- 413512,Maharashtra.
2063.	Rashtriya Sanyukt Party	5/36, Railway Road, Near State Bank of India, District – Furrukhabad, Uttar Pradesh - 209625.
2064.	Rashtriya Sanyukt Samaj Party	N8/236-R-53-1, (Ganeshdham Colony), Newada, Sunderpur, Varanasi, Uttar Pradesh - 221004.
2065.	Rashtriya Sarvajan Party	124/3, Madak Khana (Khushipura), Jhansi-284001,Uttar Pradesh.
2066.	Rashtriya Sarvangeen Vikas Party	Khasra No. 608, Village – Pasonda, Main Wazirabad Road, Near Garimanjali Public School, Opp. Rajender Nagar, Garima Garden, Sahibabad, Gaziabad, Uttar Pradesh – 201005
2067.	Rashtriya Sarvjan Vikas Party	Khasra No. 496/1, Main Wazirabad Road, Village- Pasonda, Tehsil- Loni, District - Ghaziabad, Uttar Pradesh.
2068.	Rashtriya Sarvodaya Party	A-412, AG Colony, P.S. – Shastri Nagar, District - Patna, Bihar – 800025.
2069.	Rashtriya Sawarg Samaj Party	Village- Sakhella, Post-Gaurabadshahpur, District- Jaunpur, Uttar Pradesh - 222133.
2070.	Rashtriya Sawarn Dal	Dubey Ka Parav, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).
2071.	Rashtriya Secular Congress	Ashirvad Apartment,Mathura Dawaraka Road,P.O. Dispur, Sakuntala Path, 5th Bye Lane, Guwahati-6,ASSAM.
2072.	Rashtriya Secular Majlis Party	Ward No.36,Village-Bihar Sharif,Badi Dargah,Nalanda,Bihar-803101
2073.	Rashtriya Shahri Vikas Party	H. No. 8/69(40,40A) PuranaQuila, Babu Banarsi Das Nagar, Cantt. Road, Lucknow, Uttar Pradesh – 226001.
2074.	Rashtriya Shakti Party (India)	80-A, Munirka Village,New Delhi-110067.
2075.	Rashtriya Shoshit Samaj Party	Village – Lohvan, Post – Lohvan, Laxmi Nagar-Baldeo Road, District – Mathura, Uttar Pradesh.
2076.	Rashtriya Suraksha Party	Third, H. -2,Nehru Nagar,Rakesh Marg,Ghaziabad Uttar Pradesh- 201001
2077.	Rashtriya Surya Prakash Party	C/o Sh. Panna Lal, S/o. Sh. Bhole Shankar, Thana-Avagarh, Jalesar Road, Kasba & Post Office-Avagarh, Zila-Eta, Uttar Pradesh.
2078.	Rashtriya Swabhimani Sangh Party	A-104, Sanghvi Tower, Opposite Hatkesh, Mira- Bhayander Road, Mira Road East, Maharashtra - 401107.
2079.	Rashtriya Swarajya Sena	03,Dahisar Sanket Building,Shiv Vallabh Cross Road,Ravalpada,Dahisar (E),Mumbai,Maharashtra – 400068
2080.	Rashtriya Swatantra Party	Vill& P.O. Pipriya,Word No. 3,Thana Mohania,Distt.Kaimur,Bihar-821105

2081.	Rashtriya Teesara Vikalp Party	1372/12, New Gadaura, Behsa, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh - 226002
2082.	Rashtriya Ulama Council	3, Rashad Nagar, Gorakhpur Road, Azamgarh-276001 Uttar Pradesh.
2083.	Rashtriya Unnati Party	Prop. No. 12-A, Block-K4, Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi- 110059
2084.	Rashtriya Uttar Bhartiya Samaj Party	Opp. Kailash Industrial Estate, S.R.A. Building No. 1, Room No. 207, 90 Ft. Road, Vikroli Mumbai- 400079
2085.	Rashtriya Uttarakhand Party	124/98, Haridwar Road, Dehradun, Uttarakhand.
2086.	Rashtriya Vanchit Party	H.No.525 (New), 204 (Old), Paltan Bazar Sadar, Makandru Ganj District- Pratapgarh, Uttar Pradesh- 230001.
2087.	Rashtriya Vikalp Party	Village – Piprauli, Post – Jahangirabad, Janpad – Barabanki, Uttar Pradesh
2088.	Rashtriya Vikas Manch Party	Plot No. 58, New Colony, Tilmapur, Aashapur, Sarnath, Varanasi, Uttar Pradesh.
2089.	Rashtriya Vikas Morcha	557, Pana Udyan, Narela, Delhi - 110040.
2090.	Rashtriya Vikas Party	195, Main Ashoka Enclave, Faridabad, Haryana.
2091.	Rashtriya Vikaswadi Janta Party	Village and Post-Hariharpur Raikwari, District- Bahraich, Uttar Pradesh-271870
2092.	Rashtriya Vyapari Party	F-25, Professor Colony, Kamla Nagar, Agra-282005 Uttar Pradesh.
2093.	Rashtriya Yuva Janadhikar Party	Shop No. -1, Bhimnath Shopping Centre, Beside Big Swaminarayan Temple, Borisana, TA-Kalol, Distt. -Gandhinagar-382721
2094.	Rashtriya Yuva Adhikar Dal	At-G-67, Rajeev Nagar, Begampur, Near Pal Hospital, New Delhi-110086
2095.	Rashtriya Yuva Morcha Dal	Village-Baleji, Post-Phehpana, District-Ballia, Uttar Pradesh-277503
2096.	Rashtriya Yuva Samaj Party	18- Muskan Manjil, Rasulabad, Opposite Rehmat Duplax, Shah-E-Alam, Ahmedabad, Gujarat- 380028
2097.	Rashtriya Yuva Swabhimani Party	Katre Township, Opp. Sawta Maidan, Junivasti Main Road, Badnera Maharashtra-444701.
2098.	Rastriya Aam Jan Seva Party	C-90, Khasra No. 770, Madanpur Khaddar Extension, Tehsil, Mehrauli, New Delhi-110076
2099.	Rastriya Atal Janta Party	At Near Ring Road Crossing, Khuram Nagar Sai Guest House, First Floor, Lucknow, Uttar Pradesh-226022
2100.	Rastriya Hind Samaj Party	H. No. Naya, Juggaur Anshik, Teh.-Lucknow, District-Lucknow, Uttar Pradesh-226028
2101.	Rastriya Insaaf Party	604, Anubhav Eledco, Udyan -2, Raibareli Road, Lucknow -226025, Uttar Pradesh
2102.	Rastriya Naba Nirman Party	Jemadevi Pentho Street, Old Berhamapur, PO- Berhamapur, PS – Bada Bazar, Dist. Ganjam, Odisha – 760009
2103.	Rastriya Sadabahar Party	72, Tulsi Mandi, Hotel Maharani, Maharani Chowk, Post- Gulzarbagh, Thana-Aalamganj, Patna City, District- Patna, Bihar 800007.
2104.	Rayalaseema Congress Party	5/62, Pedduru Road, Galiveedu Kaspas, Galiveedu Post and Mandal, Y.S.R Kadapa District, Andhra Pradesh – 516267.
2105.	Rayalaseema Parirakshana Samithi	Door No. 70-125-B-71, Near Highway, Kallur, Kurnool Town, Andhra Pradesh – 518003
2106.	Rayalaseema Praja Samithi	H.No.5-54, Chowdeswari Bazar, Post & Mandal-Kodumur, Kurnool District, Andhra Pradesh-518464
2107.	Rayalaseema Rashtra Samithi	Door No.22/160, Vasanthapeta, Kadapa District, Proddatur-516360, Andhra Pradesh
2108.	Real Democracy Party	37, Akshar Diamond Market, Sardar Chowk, Mini Bazar, Varachha Road, Surat, Gujarat – 395006.
2109.	Reforms Party of India	1-10-50, Baptist Peta, Eluru-534001, Andhra Pradesh.
2110.	Regional Democratic Secular Congress	Lower Lumparing, P.O. Laban, Distt. East Khasi Hills, Shillong – 793004 Meghalaya.

2111.	Republican Backward Congress	Plot No. 4, Gali No. 1, Ward No.1,M.C. Colony, Charkhi-Dadari, Disstt. Bhiwani, Haryana-127306
2112.	Republican Bahujan Sena	305, Shahu Smruti Building, 3rd Floor, Mahatma Phule Nagar, Behind Meenatai Thakrey Udyan, Thane (West), Maharashtra – 400606
2113.	Republican Paksha (Khoripa)	Ensa Hutments, 8-9, Azad Maidan, Infront of Mumbai Maha Nagar Palika, Fort, Mumbai-400 001, (Maharashtra).
2114.	Republican Party of India	Satnam Mansion, 3 rd Floor, Building No.245, P Dmello Road, Roll No.1393, Above Muncipal Co-operative Bank, Opposite GPO, Mumbai – 400001
2115.	Republican Party of India (Athawale)	No.3/4,Insa Hutment,Azad Maidan,Fort,Mumbai,Maharashtra-400001
2116.	Republican Party of India (Democratic)	Mukund Niwas, India Nagar, Latur-413512 (Maharashtra).
2117.	Republican Party of India (Karnataka)	Office No. 49/1, B.Nagasandra, Yamaluru Post, Bengalore, Karnataka- 560037.
2118.	Republican Party of India (Khobragade)	Gita Villa, East Marredpally, Secunderbad, (Andhra Pradesh).
2119.	Republican Party of India (Rashtriya)	House No. - 67, 68, Street No. – 15, Block – 28, Vishwas Nagar, Shahdara, New Delhi- 110032
2120.	Republican Party of India (Reformist)	B-12/704, Vijay Park,Kasarvadavli, G.B.Road, Thane (W), Maharashtra - 400615.
2121.	Republican Party of India (Sivaraj)	10, Solai Street, Ayanavaram, Chennai-600023 (Tamil Nadu).
2122.	Republican Party of India (Social)	Property No.-2618, Ward No. Tukum-2, (Old Ward 1C), Samta Colony, Opp. St Workshop, Tadobe Road, Chandrapur, Maharashtra- 442401
2123.	Republican Party of India Bharatha	No. 2001, 1 st A Main Road 8 th Cross, Jaimuni Rao Circle, (Otagere), M.C. Layut, Vijayanagar, Bangalore, Karnataka- 560040.
2124.	Republican Party of India Ektavadi	B-9/667, Dev Nagar, Karol Bagh, New Delhi – 110005.
2125.	Republican Party of India(A)	1/16, Sanjay Complex, T.T. Nagar, Bhopal-462003,(Madhya Pradesh).
2126.	Republican Sena	Shop No. 6, New Nirmal Society, 189, Dhole Patil Road, Opp. Akshay Complex, Pune, Maharashtra-411001
2127.	Revolutionary Communist Party of India (Rasik Bhatt)	84-Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700025 (West Bengal).
2128.	Revolutionary Goans Party	H.No.2385/A,Nagzerwada,Bicholim,North Goa,Goa- 403504
2129.	Revolutionary Marxist Party of India	Shaheed Sarwan Singh Cheema Memorial Trust Building, 352/1, PhagwariMohalla, Garha, Jalandhar Punjab-144022.
2130.	Revolutionary Party	SH-3/40, R.S.Vishwanathpuri Colony,Nawalpur,Varanasi,Uttar Pradesh-221003
2131.	Revolutionary Socialist Party of India (Marxist)	TC 24/113, Panvila, Thycadu,P.O. Thiruvananthapuram, Pin Code-695014.
2132.	Revolutionary Socialist Party of Kerala (Bolshevik) RSP.B	Kerala State Committee Office, Future Centre, Sahodara, Samajam Road, Chettikulangara, Thiruvananthapuram, (Kerala).
2133.	Right India Movement Party	Central Mail Box,Sree DMK Heights,Flat No. 402,D. No. 32-10-32,Venkateswara Colony,Ward No. 65,Sheela Nagar, Visakhapatnam,Andhra Pradesh- 530012
2134.	Right Party of India	Village & P.O. – Uttar Bahir Gachi, P.S. – Nakashipara, District – Nadia, West Bengal - 741126.
2135.	Right to Recall Party	F-001-A, Supath-2 Complex, Opp Juna Wadaj Bus Stand, Ashram Road, Ahmedabad, Gujarat- 380013
2136.	Rising People's Party	H.No.202,Ground Floor,Fellowship Colony,Dimapur,Nagaland-797112
2137.	Roti Kapda Aur Makkan Party	Block D,Baba Complex,Harsh Nagar Etawah,Uttar Pradesh- 206001
2138.	Royal India People's Party	Room no. 35/549 (10/37/153), Adam Bazar Building, Thrissur, Kerala - 680001.
2139.	Rythu Bidda Party	8-16-93/1, Sowbagya Colony, Sriram Nagar, Chintalkunta, Hyderabad, Telangana-500074

2140.	Saaf Party	547/229, Jalalpur, Rajaji Puram, Lucknow, Uttar Pradesh - 226017
2141.	Sab Jan Vikas Rashtriya Party	Shop/House of Nabi Rasul Ansari S/o Mohammad Husen, Village & Post Baragaon, Via Kharasara, District-Balia, Uttar Pradesh - 277302
2142.	Sabbath Party	Shop No.3, Laxmi Niwas Building, M.N. Road, Kurla (W), Mumbai-400070, MAHARASTRA.
2143.	Sabhi Jan Party	E-1/32, Deen Dayal Puram, Taudhakpur Road, Naubasta, Kanpur, Uttar Pradesh - 208021.
2144.	Sabka Dal United	Village and Post- Sairpur, Raitha Road, Block- Chinhat, District- Lucknow, Uttar Pradesh- 226201
2145.	Sabki Party	B-1/1, Sector-G, Jankipuram, Lucknow, Uttar Pradesh.
2146.	Sabse Achchhi Party	House No.- 222, Amipur Nangola, Majra- Haidernagar, Tehsil & District- Hapur, Uttar Pradesh.
2147.	Sabse Badi Party	41/48, Pocket-2, Mayur Vihar, Phase- I, Delhi- 110091
2148.	Sacho Sach Party	D-2/2406, Ekta Nagar, P.O.-Jawala Flour Mills, Amritsar, Punjab 143003
2149.	Sada Haq Party	House No. 29/9/3, 29/8/2/3, VPO Mahilpur, Tehsil- Garshankar, District- Hoshiarpur, Punjab- 144527
2150.	Sada Punjab Party	Shanti Nagar, Dhandari Kalan, Ludhiana, Punjab - 141001.
2151.	Sadan Vikas Party	North Office Para, Gauri Shankar Nagar, House No.276, Doranda, Ranchi, Jharkhand.
2152.	Sainik Samaj Party	317, Shiva Disposal Complex, Sanyukat Yatra Bus Adda Road, Chandrabhaga, Adarsh Gram, Rishikesh, Distt. Dehradun-249201. Uttarakhand
2153.	Sajag Samaj Party	Mohalla- Nasahi, Post- Zafarabad, Tehsil/ Sada/ District- Jounpur, Uttar Pradesh- 222180
2154.	Sakala Janula Party	No.7-23/1, M.Venkatayapalem, Khammam Rural, Khammam District, Telangana- 507003
2155.	Samaanya Praja Party	D. No. 48-11-10/4, Ashok Nagar, Opp. M.V.S Jewellers, Assilametta, Visakhapatnam, Andhra Pradesh - 530016.
2156.	Samagra Utthan Party	House No. B/9, Vivekanand Park Marg, Patliputra Colony, Patna, Bihar-800013
2157.	Samagra Vikas Party	1147/8 (157), P.L. Sharma Road, Meerut, Uttar Pradesh - 250001.
2158.	Samaikya Telugu Rajyam	D. No.1-39-B (Serial No. 1026A), Chayapuram Village, Vajrakarur Mandal, Anantapur District, Andhra Pradesh-515842.
2159.	Samaikyandhra Parirakshana Samithi	H.No. 8-3-580/1, Yellareddyguda, Ameerpet - 500073, Hyderabad, Andhra Pradesh.
2160.	Samaj Adhikar Kalyan Party	Office No.822-823, 8th Floor, M/s Bajwa Development Ltd. Sunny Business Centre, New Sunny Enclave, Sector 125, Mohali, Punjab
2161.	Samaj Bhalai Morcha	134/17-C, Milap Nagar, Hoshiarpur, Punjab- 146001
2162.	Samaj Parivartan Party	Village - Salarpur, Post - Karaura, Tahsil - Machhlishahar, Janpad - Jaunpur, Uttar Pradesh.
2163.	Samaj Rakshak Party (Bhartiya Kranti)	Niwasi-Ken, Post-Kanwar, Tehsil-Sirathu District-Kaushambi, Uttar Pradesh- 212217
2164.	Samaj Seva Party	House No. 27, Bahramgarh, Tehsil- Budana, District- Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.
2165.	Samaj Sevak Party	568Kh/223, Sector - 7, Near Old Bharat gas Godam, Geetapalli, Alambagh, Lucknow, Uttar Pradesh.
2166.	Samaj Shakti Party	House No.C-5/382, New Resettlement Colony, Bhalaswa, Delhi-110042
2167.	Samaj Sudharak Party	House No.723/2, Mangal Pandey Nagar, Sector-2, University Road, Meerut, Uttar Pradesh-250004
2168.	Samajhdar Party	Vill.- Mahri (Barauli), Post - Mahri, District - Ballia, Uttar Pradesh - 221716
2169.	Samajik Navnirman Party	6, Faridinagar, Picnic Spot Road, Ghanshyamkunj, Indiranagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016
2170.	Samajik Nyay Navlok Party	B-172, TDI City, Fatehabad Road, Agra, Uttar Pradesh - 282006.
2171.	Samajik Sangharsh Party	H. No. 59, Gali No. 2, Guru Arjun Dev Nagar, Tarn Taran Road, Amritsar, Punjab- 143002
2172.	Samajtantric Party of India	40/1, B - Road, Bamanghachi, Howrah - 711 006, (West Bengal).
2173.	Samajwadi Aam Janata Dal	Belatal Road, Laiya Place Ke Pichhe, Ward No.2, Naugaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh- 471201

2174.	Samajwadi Andolan Party	Village & Post Office-Daulat Pur Billoch Gohawar,Tahsil-Chandpur,Distt.Bijnor,Uttar Pradesh-246734
2175.	Samajwadi Forward Bloc	7-5-14/B, Venkateshwara Colony, Mahboob Nagar, Telangana – 509001
2176.	Samajwadi Jan Parishad	Jai Malha Prasad, Reti Bunder Road, Mahagiri, Thane (W)-400601 (Maharashtra).
2177.	Samajwadi Janata Party (Chandra Shekhar)	L Extension 358,Mohan Garden,Rama Park Road,Uttam Nagar,New Delhi-110059
2178.	Samajwadi Janata Party (Karnataka)	Room No.21, 2nd Floor,Hameed Shah Complex No.2,Cubbonpet, Main Road,Behind Ulsoor Gate Police Station,Bangalore-560002,Karnataka.
2179.	Samajwadi Jankranti Party	A-454,Shastri Nagar,Delhi-110052
2180.	Samajwadi Lok Parishad	Kusumpuram Colony,Natthupur Road,Post-Kurthaul,Thana-Parsa Bazar,Patna,Bihar-804453
2181.	Samajwadi Samaj Party	Ward No.13, Lohia Nagar, Nagar Panchayat – Salempur, Janpad - Deoria, Uttar Pradesh – 274001
2182.	Saman Aadmi Saman Party	Village- Amilwan, Post- Khutar, P.S.-Mada, District- Singrauli, Madhya Pradesh-486886.
2183.	Saman Adhikar Party	62/271, Nagla kachhiyan, (Mustafa Quarter Colony), Agra Cantt, Agra, Uttar Pradesh.
2184.	Saman Bhagidari Party	538Kh/404, Dindayal Nagar, Khadra, Sitapur Road, Lucknow, UTTAR PRADESH-226020
2185.	Samaniya Makkal Nala Katchi	S.F.No.1172/12A,Karur Byepass Road,Indira Nagar,Erode,Tamil Nadu-638002
2186.	Samanya Janatha Party (Loktantrik)	No.- 17, House No.- 29, Basavana Durga (Koramma Camp), Gangavathi, District-Koppal, Karnataka- 583227
2187.	Samarth Bharatvarsh Party	39A, DDA Flats (Old), Chilla, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi- 110091
2188.	Samarth Kisan Party	Prabandhak – Mother Teresa Convent School, Village & Post – Manauri, Tehsil – Chayal, Janpad – Kaushambi, Uttar Pradesh.
2189.	Samata Kranti Dal	Plot No.3547/3875, Mouza Gautam Nagar, Garage Chhaka, Temple Road, old Town Bhubaneswar – 751002, Odisha.
2190.	Samata Party	220, Vitthalbhai Patel House, Rafi Marg, New Delhi – 110001.
2191.	Samata Samadhan Party	E-1/150, Arera Colony, Bhopal, Madhya Pradesh.
2192.	Samata Sangharsh Party	55 B, Radheypuri Extension-1, Delhi-110051
2193.	Samatamoolak Samaj Party	194,Kanshi Sadan,A.B. Road,Vill. & Post- Renhat, Land Survey,No.299/01/1[S],Patvari Renhat,Tehsil-Ghatigaon,District - Gwalior,Madhya Pradesh - 475330
2194.	Samathuva Makkal Kazhagam	139- T.H. Road, Kaladipet, Thiruvottiyur, Chennai, Tamil Nadu-600019.
2195.	Sambhaji Brigade Party	Sai Complex, Gala No.7,New Mondha, Hingoli,Tehsil & District-Hingoli,Maharashtra-431513
2196.	Sambidhan Bachao Party	24/A,2,S.D.Mukherjee Lane,Post & P.S.-Rishra,District-Hoogly,West Bengal-712248
2197.	Samdarshi Samaj Party	Village- Manikapur Majre Saray Pandey, Post- Jauras, Pargana & Tehsil-Haidargarh, District- Barabanki, Uttar Pradesh.
2198.	Samnak Janta Party	Survey No. 120, Plot No. 9, Near Bhavsar Chowk, Aniketnagar, Taroda, (Kd.), Malengaon Road, Nanded, Tq. & District - Nanded, Maharastra -431605.
2199.	Samooohik Ekta Party	13/51, Parmat, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208001
2200.	Sampark Vikas Party	Shop No. 3,Nandkishor Appt.,Near Chandranagar Bus Stop,Naryan Nagar,Paldi,Ahmedabad,Gujarat-380007
2201.	Sampoorn Samarpan Party	Acharya Ramchandra Shukla Nagar, Bhujauli Colony, Plot No. E.W.S. – 209-210, Deoria UTTAR PRADESH - 274001
2202.	Sampoorna Bharat Kranti Party	WZ- 150, Village- Bodhela, VikasPuri, New Delhi- 110018
2203.	Sampoorna Samaj Party	H. No. 464, Village & Post – Gairwah, P.S. – Sarpatahan, Tehsil – Shahganj, District – Jaunpur, Uttar Pradesh-223103.
2204.	Samras Samaj Party	Raji Jarai, Mouja – Ghamroj, Tehsil – Sohna, District – Gurgaon, Haryana.

2205.	Samrat Ashok Sena Party	House No. 1546, Village and Post- Belsar, Tehsil- Tarabganj, District- Gonda, UTTAR PRADESH-271401
2206.	Samrat Mihir Bhoj Samaj Party	F-64/C9/197, Sector-40, Noida, (Near Sainath Mandir), District Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201303
2207.	Samruddha Odisha	201, Sitalkunj Apartment, Plot No. M63, Madhusudan Nagar, Bhubaneswar – 751001, Orissa.
2208.	Samta Dal (Pragatisheel)	H. No. 480, Village – Lisari, Tehsil & District – Meerut, Uttar Pradesh - 250002.
2209.	Samta Samjwadi Congress Party	K - 56/114-7 (Raniphatak), Ausanganj, Varanasi - 221001, Uttar Pradesh
2210.	Samta Vikas Party	House Harbhajan Jangde, Ward No. 17, Mandideep, Tehsil – Goharganj, District - Raisen, Madhya Pradesh
2211.	Samtawadi Republican Party	108, Rampuram, PAC Road, Kanpur, Uttar Pradesh.
2212.	Samuga Makkal Katchi	No.3 Mudalair Street, Vallam Village, Kanchepuram Dt. Tamil Nadu – 602105.
2213.	Samyak Parivartan Party	Village – Janki Nagar, Behind of Ranipurwa School, Vikas Khand – Jhanjhri, Near of Mande Nala Bridge, Post – Bus Stop, Janpad – Gonda, Uttar Pradesh.
2214.	Samyak Party	Village and Post- Manda, District- Allahabad, Uttar Pradesh-212104
2215.	Sanatan Sanskriti Raksha Dal	Village – Taraon, Post, Thana & Tehsil – Koraon, Distt. – Allahabad, Uttar Pradesh.
2216.	Sangathit Janta Party	No.177, Shiva Khand, Vishwakarma Nagar, Delhi-110095
2217.	Sangharsh Party of India	House No. 314, Shanti Niketan, D.M. Road, Bulandshahr, Uttar Pradesh - 203001
2218.	Sangharsh Samaj Party	H. No. 44, Village – Dhaka, P.O. – Akha, Tehsil – Aonla, District – Bareilly, Uttar Pradesh - 243001.
2219.	Sangharsh Sena	11, Sairaj Complex, Pandit Naka, Shahapur, Tq. Shahapur, District – Thane, Maharashtra – 421601
2220.	Sanjhi Virasat Party	506, Chanderlok colony, Street No.- 3, Mandoli Road, Shahdra, Delhi- 110093
2221.	Sankhyanupati Bhagidari Party	New Vighrapur, Mithapur, (Bus Stand) Patna-800001
2222.	Sanman Rajkiya Paksha	56, Tirupati Nagar, Lohara, Taluk & District - Yavatmal, Maharashtra – 445002
2223.	Sanyogwadi Party	Shop No.3, First Floor, Commercial 1, Paras Tiera, Sector-137, NOIDA, Uttar Pradesh-201304.
2224.	Sanyukt Bharat Paksh	Ratnam Bungalow, Near Meenatai Thakre Garden, M.I.D.C Road, Badlapur (East), Taluka- Ambernath, Thane, Maharashtra-421503.
2225.	Sanyukt Janadesh Party	356/225/257, Ashok Nagar, Kale Pahar, Alamnagar Road, Lucknow, Uttar Pradesh-226017.
2226.	Sanyukt Kisan Vikas Party	Village- Suraundha, Post- Barki Basholi, P.S.- Dumraon, District- Buxar, Bihar-802119
2227.	Sanyukt Kranti Party	Ward No.3, Lanji, Balaghazt, Madhya Pradesh - 481222
2228.	Sanyukt Samaj Morcha	H.No.92-C, Ward No.13, Bhagwanpura Road, Samrala, Ludhiana, Punjab-141114
2229.	Sanyukt Samajwadi Dal	11, Zones Lines, Agra – 282004, Uttar Pradesh.
2230.	Sanyukt Sangharsh Party	Showroom No.10, Lower Ground Floor, High Ground Road, Nabha, Sub-Tehsil– Zirakpur, Mohali, Distt.–S.A.S.Nagar–140603, (Punjab)
2231.	Sanyukt Vikas Party	Village – Sarsaul, Post Office – Muni, P.S. – Araniya, Tehsil – Khurja, District – Bulandshahr, Uttar Pradesh.
2232.	Sapaks Party	144, Vidya Nagar, Hoshangabad Road Bhopal, Madhya Pradesh-462004
2233.	Sarav Sanjhi Party	Saggar Hospital, Near Peer Baba Maddi Shah Ji, Bassi Khuwaju, Hoshiarpur, Punjab- 146001
2234.	Sardar Patel Siddhant Party	Village – Newada, Post – Bahuta, Tehsil – Patti, District – Pratapgarh, Uttar Pradesh - 230135.
2235.	Sardar Vallabhbhai Patel Party	1, Olekar House, Dattapada Road, Borivali (East), Mumbai – 400 066.
2236.	Sarv Jan Party (Bharat)	E-734, Behind Krishna Mandir, Shakarpur, Delhi- 110092
2237.	Sarv Jan Sarv Samaj Party	2/248, TF, Subhash Nagar, New Delhi – 110027.

2238.	Sarv Rajya Party	548GH/71, Teji Khera, Talkatora Road, Manak Naar, Near J.R.P.F., Lucknow Uttar Pradesh- 226011.
2239.	Sarv Samaj Party	46, Rajeev Nagar, Mandi Chowk, Gadhmukteshwar, Hapur, Uttar Pradesh- 245101
2240.	Sarv Sambhaav Party	Yadav Bhawan, Puwayan Road, Village & Block- Banda, Tehsil- Puwayan, District- Shahjahanpur, Uttar Pradesh.
2241.	Sarv Vikas Party	Village – Prateet Nagar, N.H. – 58, Near of Post Office, Raiwala, Dehradun, Uttarakhand - 249205.
2242.	Sarva Hit Party	602-B, Khasra No. 298/199, 298/207, 298/209, Mohalla Bans, Sunar Wali Gali, Village – Ghitorni, New Delhi-110030 .
2243.	Sarva Jan Samaj Party (Nand Kishore Chawla)	Chawla Properties, Laxmi Vihar, Camry Road, Hisar, Haryana.
2244.	Sarva Janata Party	Central Party Office # 17, Javalli (Village), Pillangere (Post), Shimoga (Taluk), District – Shimoga – 577227 Karnataka.
2245.	Sarva Samaj Janata Party	Village and Post- Oril (Khapadiya Chak), Tehsil- Phoolpur, P.S.- Pawari, District- Azamgarh Uttar Pradesh- 223222
2246.	Sarva Samaj Janhit Party	Ghuripur (Jakhaon) in Gyanpur Road Gopiganj, Tehsil-Gyanpur, Distt. Bhadohi Uttar Pradesh- 221304
2247.	Sarva Samaj Kalyan Party	Bijraj Bhawan, Village - Singharpur, Post – Ahamadpur, Mathura Road, Aligarh, Uttar Pradesh.
2248.	Sarva Suraksha Party	Village and Post- Tilakhwar, District - Karchhana, Allahabad, Uttar Pradesh
2249.	Sarvadharam Party (Madhya Pradesh)	120/1, Ashoka Garden, Tahasil – Nazul, Distt.- Bhopal - 462023, Madhya Pradesh
2250.	Sarvajan Hitay Party	70/59, Leader Road, Allahabad, Uttar Pradesh -211003.
2251.	Sarvajan Kalyan Loktantrik Party	COFFED, Meen Bhawan, 3rd Floor, New Punaichak, West Boring Canal Road, Patna, Bihar – 800023.
2252.	Sarvajan Samaj Party (D)	Village & P.O. : Wadala Bangar, Tehsil: Gurdaspur, District: Gurdaspur- 143511 Punjab.
2253.	Sarvajanika Adarsha Sena	At-20/1, 2 nd Main, 8 th Cross, Chamundi Layout, Vidyananyapura, Bengaluru-560097
2254.	Sarvar Party	Village & Post-Vasantpur, Campierganj, Janpad-Gorakhpur, Uttar Pradesh – 273158
2255.	Sarve Bhavanti Sukhinah Party	Village & Post - Mamdar, Tehsil & P.S. – Rampur Naikin, District – Sidhi, Madhya Pradesh.
2256.	Sarvhara Dal	Kewala Fariyatta, Via. Gidhour, Distt- Jamui (Bihar).
2257.	Sarvhara Vikas Party	H.No.102, Jangal Matadeen, Aryapuram Colony, Post - Padari Bajar, Gorakhpur, Uttar Pradesh-273014
2258.	Sarvhit Samaj Sewa Party	H. No. 177, Village & Post – Shahjahanpur Baijna, P.S. – Dadon, District – Aligarh, Uttar Pradesh-202133.
2259.	Sarvjan Awaz Party	No.528, Block-B, Platinum Heights, Sector-18B, Dwarka, New Delhi-110078
2260.	Sarvjan Lok Shakti Party	T.A. 184/2, Tughlakabad Extension, New Delhi- 110019
2261.	Sarvjan Navyug Vikas Party	Vill.+P.O.- Bishunpur Bedaulia, P.S.- Jandaha, Distt. – Vaishali, Bihar-844505
2262.	Sarvjan Samta Party	774, Geetanjali Vihar, Ward No. 28, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201102
2263.	Sarvjan Sanatan Party	H. No.B1/148, A-1A, Assi Varanasi, Uttar Pradesh- 221005.
2264.	Sarvjan Sewa Party	163/200/1, Salari-Ka-Hata, Chikmandi, Maulviganj, Lucknow, Uttar Pradesh-18.
2265.	Sarvlokhit Samaj Party	16/94, A-Block, Baba Colony, Burari, Delhi-110084
2266.	Sarvodaya Bharat Party	B- 19, Sector- O, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
2267.	Sarvodaya Karnataka Paksha	"Aniketana" First Floor, SJM Samudaya Bhavana, Kalidasa Road, Gandhinagar, Bangalore-560 009, (Karnataka).
2268.	Sarvodaya Prabhat Party	B-3/231, Nand Nagri, Delhi- 110093
2269.	Sarvpriye Samaj Party	Mohalla- Ashok Nagar Shahariya, Vishnu Puram Colony, Distt. Etawah, Uttar Pradesh- 206001.
2270.	Sarvsamaj Nyaya Party	No. 101 at 'Ocean Tower', Commercial Complex, Plot No. 1152/53, Jhotwara Road, Jaipur, Rajasthan-302012.
2271.	Sarvshakti Dal	D-60, Dev Nagar, Murlipura, Sikar Road, Jaipur, Rajasthan- 302039.

2272.	Sarvshreshth Dal	Village - Shahdaudpur or Kakorgahna, P.O. & Tehsil – Sader, District – Jaunpur, Uttar Pradesh
2273.	Sashakt Bharat Party	H. No. 345, Parashar Bhavan, Jatun Ka Mohalla, p.O. Kannauj, Tehsil-Bhadesar, Distt. Chittorgarh, Rajasthan-312613.
2274.	Sathi Aur Aapka Faisala Party	Plot No. 2005, Village – Chamrahara, Mahnar Road, District – Vaishali, Bihar - 844507.
2275.	Satta Kalyan Party	No.D-144, Paras Prabhu Society, Near Sonal Park, Insanpur, District- Ahmedabad, Gujarat-382443
2276.	Sattari Yuva Morcha	House No. 48, Kankire, Guleli, Sattari, Goa.
2277.	Sattathagam Makkal Katchi	1-3/1020B, Green Garden, Vinayagam Patty, Distt. -Salem, Tamil Nadu- 636008
2278.	Satya Bahumat Party	A-112, Pratap Nagar, Street No. 15, Mayur Vihar Phase-I, Delhi- 110091.
2279.	Satya Kranti Party	H. No. – 176 E, Shivpur, Sahbazganj, Gorakhpur, Uttar Pradesh.
2280.	Satya Shikhar Party	H. No. - 70-A, Village – Narharpur (Shankarpur), P.O. Miyaganj, District – Faizabad, Uttar Pradesh - 224208.
2281.	Satya Vikas Party	No. B-7, Shailja Apartment, Near Sugma Flat, Vasna Ahmedabad, District- Ahmedabad, Gujarat-380007
2282.	Satyanishth Jan Sewak Party	House No.128, Ward No.5, Lalit Nagar, Opposite SDM's Residence, Tehsil and P.O- Sunder Nagar, District-Mandi, Himachal Pradesh-175019
2283.	Satyawadi Rakshak Party	B/501, Yogi Pujan Appartment, Akshar Farm Road, Vidhya Nagar, Gujarat-388120.
2284.	Saurashtra Janta Paksha	H.No. 6/3/116, Himmat Lal Parmar Road, Wadipara, Surendra Nagar, Gujarat- 363001
2285.	Savarn Samaj Party	East of Stadium, Nand Hardware, Sirmor Road, Rewa-486001, (Madhya Pradesh).
2286.	Secular Alliance of India	Keswani Complex, 1 st Floor, Above Navjeevan Cooperative Bank Ltd., Chopda Court Branch, Ulhasnagar – 421003. Maharashtra.
2287.	Secular Democratic Congress	No. 958/D, ward No. 13, (Old No. 722/D in ward No. 10), Kelakam (Near Kelakam Police Station), P.O- Kelakam Grama Panchayat, District- Kannur, Kerala- 670674
2288.	Secular Inqlab Party	Ho.No.-202, Rajeev Garden, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201102
2289.	Secular National Dravida Party	Kadakkavoor Buildings, Thumpara Nagar, Mundakkal, Kollam City, Kollam- 691001, Kerala.
2290.	Secular Party of India	House No.122-A, Ramvihar, Old Janipur, Jammu-180007 (J& K).
2291.	Secular Republican Democratic Party	Adam star Complex, Room No. 132, 1 st Floor, 2 nd Block, Thodupuzha, Idukki District, Kerala.
2292.	Sehajdhari Sikh Party	622/9, Near Telephone Exchange, Raikot, District Ludhiana, Punjab.
2293.	Serv Bhalai Party	H.No. 625, New Azad Nagar, Sultanwind Road, Amritsar, Punjab - 143001.
2294.	Service Adhered with Integrity Desam Party	Plot No. 29, Phase-I, Main Road, Near Police Station, Vanasthalipuram, Hyderabad, Telangana State- 500070
2295.	Seva Dal	532 (Opp.126-R), C.R. College Road, Model Town, Rohtak – 124001, Haryana
2296.	Seva Samrajya Party	Dhabunaik Tanda, Aanandiwadi, Tq. – Palam, District – Parbhani, Maharashtra- 431536.
2297.	Shakti Sena (Bharat Desh)	Simi Bhawan, National Highway 43, Cross Lane Tiraha, Devpuri, Raipur, Chhattisgarh-492015.
2298.	Shaktimaan Samaj Party	Plot No. 133, Kaushalpur, Phase-II, Near By Grammer School Road, Post-Khojpur, Distt.-Ayodhya(Faizabad), Uttar Pradesh- 224001
2299.	Shane Hind Fourm	B-111/1, B-Block, Ashok Vihar Phase-I, New Delhi- 110052
2300.	Shanti Morcha	X-919, Chand Mohalla, Gandhi Nagar, Delhi-110031.
2301.	Shining India Party	Ward No.6, Post – Deshnok, District - Bikaner, Rajasthan – 334801
2302.	Shiromani Akali Dal (Amritsar) (Simranjit Singh Mann)	Village Quilla S. Harnam Singh, P.O. Tellania, District-Fatehgarh Sahib, Punjab- 140406.
2303.	Shiromani Akali Dal (Sanyukt)	Plot No.92, Sector-82, Airport Road, Sahibzada Ajit Singh Nagar (Mohali), Punjab- 140308
2304.	Shiromani Akali Dal (Taksali)	No. 30, Guru Har Rai Avenue, Opposite Khalsa College, Amritsar, Punjab- 143001
2305.	Shiromani Lok Dal Party	Building No. 108, Near Krishna Mandir, Opposite Dana Mandi, G.T. Road, Amritsar, Punjab.

2306.	Shivrajya Party	Flat No. B/102, Deccan Apartment, Union Park, Pali Hill, Khar (West) Mumbai-400052
2307.	Shoshit Inquilab Party	Murlichak, Jagdev Path, Near Jagdev Smriti Apartments, Post Office-B.V. College, Patna, Bihar-800014
2308.	Shoshit Samaj Dal	Center Office : Dakshnini Mandiree, Patna-800001 (Bihar).
2309.	Shoshit Sandesh Party	Gird Badgaon, Sant Ravidas Nagar, Bhadohi, Uttar Pradesh.
2310.	Shram Shakti Party	J-1749, J- Block, Jahangirpuri, Delhi- 110033
2311.	Shramajeevi Party	1-6-48, Old Alwal, Post – Bollaram, Secunderabad – 500010, Andhra Pradesh.
2312.	Shri Janta Party	Manda Sadan, Dwarika Nagar, Rewa, Madhya Pradesh - 486001.
2313.	Shubha Karnataka	House No.1262, Kustagi Road, 1st Cross, Gajendragad, Distt. Gadag - 512114, Karnataka
2314.	Sikkim National People's Party	The Dzong, MG Marg, Gangtok, East Sikkim-737101
2315.	Sikkim Rajya Manch Party	Yangang Bazaar, P.T.C Road, P.O.-Yangang, P.S- Ravangla, South Sikkim, Sikkim-737134
2316.	Sikkim Republican Party	Central Pendam, Sajong Ward No.- 3, P.O.- Upper Pendem, P.S.- Rongpo, East Sikkim- 737132
2317.	Sikkim United Front	Sapkota Building , Assam Lingzey Souraney, P/O- Assam Lingzey, P.S- Ranipool, East Sikkim- 737135
2318.	Sirupaanmai Makkal Nala Katchi	No. 16A, 9 th Cross Street, Anna Nagar, Pammal, Kachipuram District, Chennai, Tamil Nadu-600075
2319.	Smart Indians Party	Grampanchayat- Ghana Khamariya, Opp. Jain Building, Jabalpur, Madhya Pradesh-482005
2320.	Smast Bhartiya Party	W-6/5, DLF City Phase-III, Gurgaon – 122002, Haryana.
2321.	Social Action Party	Mylackal House, Ranny, Pathanamtitta Distt. Pin-689072 (Kerala).
2322.	Social Democratic Party of India	C-4, Hazarat Nizamuddin West, New Delhi – 110013
2323.	Social Justice Party of India	H. No. 2-97, Chinaravirala- Village, Hayathnagar Mondal, Ranga Reddy- District, Telangana State- 501505
2324.	Social Movement Party	H.O. – 539, Lane No. – 29, Rajpura Mangotrian, Jammu, Jammu & Kashmir-180001.
2325.	Socialist Janata Party	XB-1, Sah Vikas Apartment, Patparganj, Delhi – 110 092
2326.	Socialist Party (India)	Lohiya Mazdoor Bhawan, H. No. 41/557, Dr. Tufel Ahmed Marg, Narhi, Lucknow, Uttar Pradesh.
2327.	Socialist Republican Party	State Committee Office, Tutor's Lane, Statue, Trivandrum – 695001 (Kerala).
2328.	Socialist Unity Centre of India (Communist)	48-Lenin Sarani (First Floor), Kolkata – 700 013, West Bengal.
2329.	Socialist Workers Party	Plot No – 218, Backside of Binayak Enclave, At- Kolathia, P.O. – Aiginia, District – Khordha, Bhubaneswar, Odisha – 751019
2330.	Socialistic Democratic Party	Post Box No.1089, General Post Office, Srinagar-190001, Jammu and Kashmir.
2331.	Sonanchal Sangharsh Vahini	Plot No. 597, Vikas Nagar Robertsganj, Sonbhadra, Uttar Pradesh- 231216
2332.	South India Forward Bloc	63, Municipalayam Road, (42/4 – 68 C), Arapalayam, Kanmaikarai Main Road, Madurai, Tamil Nadu – 625016.
2333.	Star Altruistic Humanitarian Unity Party	Tehsil Road, Gauriganj, Distt. Amethi, Uttar Pradesh-227409
2334.	State Samvibhajana Party	H. No. 56, Village – Sonkhas, Tq. – Ner, District – Yavatmal, Maharashtra - 445102.
2335.	Studentz United For Nation Party	D. No. 12-464/4, B- Block, Tadepalli, District- Guntur, Andhra Pradesh - 522501
2336.	Subhashwadi Bhartiya Samajwadi Party (Subhas Party)	F-10, Patel Nagar 111, District- Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201003
2337.	Sudesi Makkal Needhi Katchi	No. 24/38, FF2, Kutti Gramini Street, Raja Annamalai Puram, Chennai, Tamil Nadu-600028

2338.	Sudharwadi Party	Mohalla-Piuni Bag, Ward No.-32, Bettiah, Post-Bettiah, Thana-Bettiah Town, Distt.- Pashchim Champaran, Bihar-845438.
2339.	Suheldev Bharatiya Samaj Party	Village - Mirangaj, Post Office - Rampur Rasda, District - Balia, Uttar Pradesh - 221712
2340.	Suheldev Party	Village & Post - Phulesh, District-- Azamgarh, Uttar Pradesh – 223224
2341.	Sumetee Mukti Morcha	Plot No. 347(LR) 391(RS), Khatian No. 2194(LR), Mouza- Pancnai, Area 5 Decimal, P.S.- Matigara, District- Darjeling, West Bengal- 734010
2342.	Sunahara Bharat Party	Building No. #B-17, 2173/2A/1A, Jammu Colony, Abdullahpur Road, Ludhiana Punjab-141003.
2343.	Sunder Samaj Party	Village + Post – Nangoi, Tahsil - Kharasia, Distt. – Raigarh, Chhattisgarh – 496665.
2344.	Sunehra Punjab Party	319, Sector-9, Chandigarh-160009
2345.	Super Nation Party	57/1, Thathavalli Village, Kurumbhageri Post, Tirupattur Taluk, Vellore District, Tamil Nadu – 635653
2346.	Super Stars Makkal Kalagam	D. No. 26, AVP Layout, 2 nd Street, Gandhi Nagar, Tiruppur, Tamil Nadu- 641603
2347.	Supreme Zero Party of Bharat	Ward No.6, Holding No.222, Upara Shahi, Khordha Municipality, At/PO/PS/District- Khordha, Odisha-752056
2348.	Suraaj Seva Dal	Village – Ramdi Jasuva, P.O. – Fatehpur, Tehsil- Haldwani, District – Nainital, Uttarakhand
2349.	Suraksha Samaj Party	Mohalla – Tarkapur (SonkarBasti), Bhawan No. 1102/1, Ward No.7, Post & Tehsil – Sadar, Janpad – Mirzapur, Uttar Pradesh - 231001.
2350.	Surya Janaseva Party	,#2, Second Floor, 5 th Cross, Anjana Nagara, Bangalore, Karnataka- 560091
2351.	Sushasan Party	House No. 558, Vill. + Post – Badsa, Tehsil – Bawanikhed, Distt. Bhiwani-127032, Haryana.
2352.	Svatantra Bharat Satyagrah Party	Shop No. – 7 & 8, Upper Ground Floor, Bhagwati Arcade, Jawahar Road No.-5, Udhna Udhayog Nagar, Udhna, Surat, Gujarat - 394210.
2353.	Swabhimani Janta Dal	Nirbhay Cold Store, Khalwaenar, Dumrow, Buxar, Bihar-802119
2354.	Swabhimani Party	31/666, New Shanti Nagar, Raipur, Chhattisgarh – 492001
2355.	Swabhimani Paksha	Jaisingpur, District Kolhapur, Maharashtra – 416 101.
2356.	Swachh Bharat Party	Sai Baba Mandir Bhojyavas, Bhankrota, Ajmer Road, Jaipur Rajasthan.
2357.	Swachh Swasth Swawlambijan Party	H.No. 108, Payagipur, Opposite of near ITI, Sultanpur, Uttar Pradesh- 228001
2358.	Swadesh Jan Sewak Party	J.P.Nagar, NaiBasti, Premchak Urf Umarganj, Ballia, Uttar Pradesh- 277001
2359.	Swadeshi Ekta Manch	B-3/253, Vinay Khand-3, Gomti Nagar, In Front of Gomti Nagar Railway Station, Lucknow, Uttar Pradesh- 226010.
2360.	Swadeshi Hind Party	Village & Post-Hatisa, Mathura Road Crossing ke Pass, Tehsil & District- Hathras, Uttar Pradesh-204101
2361.	Swadhin Swaraj Party	213/63, Mahatma Gandhi Marg, Civil Lines, Prayagraj, Uttar Pradesh-200001
2362.	Swaraj (J)	Jungle Suhas Kunwari (Mahavir Chhapra), Post Office – Mahavir Chhapra, Police Station – Belipar, Tehsil – Sadar, District – Gorakhpur, Uttar Pradesh.
2363.	Swaraj Bhartiya Nyay Party	H.No.C-50, Main 20 Futa Road, Meet Nagar, Shahdara, Delhi-110094
2364.	Swaraj India	Unit 109, 1 st Floor, M.M. House, 59 Rani Jhansi Road, New Delhi – 110055.
2365.	Swaraj Janata Party	B-79-B, Street No. 7, Shiv Vihar, Karawal Nagar, Delhi-110094
2366.	Swaraj Kranti Party	B-31, Second Floor, Tejendra Complex, Opp.C.M.C., Odhav Road, Odhav, Ahmedabad, Gujarat- 382415
2367.	Swaraj Party (Loktantrik)	H.No. -17, Village – Mogalpur, Gram Panchayat – Mogalpur, P.O. – Bakhtiyarpur, District – Patna, Bihar – 803212
2368.	Swarajya Nirman Sena	House No. 396/1, Indira Vasahat, Uttam Nagar, Pune, Maharashtra - 411023.
2369.	Swarajya Party of India	B-33, Sector-C, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh., PIN Code-226024.
2370.	Swarajya Rashtra Nirman Sena	H. No. 797, Ward No. 01, Post-Koregaon, Bhima, Taluk-Shirur, Distt. Pune, Maharashtra- 412216
2371.	Swarajya Sena (Maharashtra)	No. 586, Moh. Masurdi, Post- Taka, Tehsil- Ausa, District- Latur, Maharashtra- 413520
2372.	Swarna Bharat Party	G-249 Palam Vihar, Gurgaon, Haryana – 122017.

2373.	Swarnim Bharat Inquilab	L.G. - 22, Sunrise Tower 579, M.G. Road, Indore, Madhya Pradesh.
2374.	Swatantra Bharat Paksha	'Rahi', Khokadpura, Aurangabad-431001, Maharashtra.
2375.	Swatantra Indian Labour Party	Khasra No.916,At Village Dhilawal,Garhiya,Post – Bhopat Patti,P.S. Mau Darwaja,District – Farrukhabad,Uttar Pradesh - 209625
2376.	Swatantra Jantaraj Party	811/1, Civil Line Anshik, Ward No. 52, Jhansi, Uttar Pradesh- 284001.
2377.	Swatantra Party (Jan)	195, ST Mary's Road, Alwarpet, Chennai, Tamil Nadu- 600018
2378.	Swatantra Rashtravadi Party	12-H, In front of Traffic Kotwali,Dariyaganj, New Delhi-110 002.
2379.	Swatantra Samaj Party	Village & Post – Lebhri,P.S. – Darauli, Block/Circle – Mairva, Pin Code – 841 239,District – Siwan, Bihar.
2380.	Swatantrata Abhivyakti Party	No.2,Mahavirnagar,Opp.Kalyan Mill,Near Chetna Hotel,Naroda Road,Shaijpur-Bogha,Ahmedabad,Gujarat-382345
2381.	Swayam Krushi Party	No. 17/B,Nanjappa Complex,Ground Floor,Kanakpurmain Road,Banashankari,Shakambari Nagar,Bengaluru,Karnataka-560070
2382.	Tamil Maanila Congress (Moopnar)	No.4, Ashoka Road, Alwarpet, Chennai – 600018.
2383.	Tamil Maanila Katchi	No. 74, Jermiah Road, Vepery, Chennai, Tamil Nadu – 600007
2384.	Tamil Manila Murpokku Dravida Kazhagam	No. 27, 1 st Floor, Gudiyattam Road, Opp. Railway Kalayana Mandapam, Katpadi, Vellore- District, Tamil Nadu- 632007
2385.	Tamil Nadu Ilangyar Katchi	No. 23, Ganesh Avenue, Sakthi Nagar, Porur, Chennai, Tamil Nadu- 600116
2386.	Tamil Nadu Peasants & Workers Party	No. 1, Jayammal Road, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
2387.	Tamil Telugu National Party	Old No. 4/51, New No. 197, Perumal Koil Street, T.Edaiyar Post, Thirukoilur Taluk, Villupuram District, Tamil Nadu- 607203
2388.	Tamil Thayaga Makkal Munnetra Katchi	No. 61/2,Second Floor,5th Main Road,CIT Nagar,Nandanam,Chennai,Tamil Nadu- 600035
2389.	Tamilaga Makkal Dravida Munnetra Kazagam	3-196, Vembarpatty(PO), Vembarpatty, Taluk & District - Dindigul, Tamil Nadu – 624008.
2390.	Tamilaga Makkal Munnetra Kazhagam	563, Shanti Colony, N.K.B. Nagar, Palayamkottai, Tirunelveli, Tamil Nadu.
2391.	Tamilaga Makkal Nala Katchi	2/272,A Rajapalayam Main Road,Kuvalaikanni (PO),Tenkasi District,Tamil Nadu - 627753
2392.	Tamilaga Makkal Thannurimai Katchi	D.No. 4A, Mahalakshmi Nagar, Near the Court, Kattanachampatty Village, Rasipuram Taluka, Namakkal District, Tamil Nadu- 637408
2393.	Tamilaga Sthabana Congress	26/1, 33E, Henry Road, Nesamony Nagar, Nagercoil, Tamil Nadu- 629001.
2394.	Tamilar Desiya Munnani	119/A, Dippoline C.Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu-600043
2395.	Tamilar Makkal Katchi	Village – Thumbalahallidam, P.O. – Gendiganahalli, Taluk – Palacode, District – Dharmapuri, Tamil Nadu - 635205.
2396.	Tamilnadu Mahatma Gandhi Makkal Katchi	Door No. 9-2/1C, Thettivilai Veedu, Near Sree Devi Kumari Women's College, Kuzhithurai, Kanyakumari District, Tamil Nadu - 629163.
2397.	Tamilnadu Makkal Nalvazhvu Periyakkam	No.6A, 10th Cross Street, Thiruvengada Nagar, Thiruninrvur, Thiruvallur District, Avadi Legislative Assembly Constituency, Thiruvallur Parliament Assembly Constituency, Tamil Nadu- 602024.
2398.	Tamilnadu Makkal Urimai Katchi	43, V.O.C. Nagar, Kichipalayam, Salem, Tamil Nadu – 636015.
2399.	Tamilnadu Telungu Makkal Katchi	Door No.-1/803, Opposite Karpagam University, Pollachi Main Road, Coimbatore, Tamil Nadu – 641021

2400.	Tamizhaga Murpokku Makkal Katchi	82/1, 5th Street, Padmanabha Nagar, Adyar, Chennai – 600020, Tamil Nadu.
2401.	Tamizhaga Vaazhvirimai Katchi	13-6-54, Pillaiyar Koil Street, Samrajapettai Post, Mecheri Mettur Tk., Salem District, Tamil Nadu – 636451.
2402.	Tamizhar Desam Katchi	27/44, Kudi Street Periya, Kothamangalam Ramji Nagar, Tiruchi West Taluk, Piratiyur west village, Tiruchirapalli District-Tamil Nadu – 620009
2403.	Tarang Party	KHP/55/26, Yogendra Vihar Naubasta, Kanpur, Uttar Pradesh-208021
2404.	Tararani Paksha	W. No. 6, H. No. 2067, Dhangar, Mal, (Shivnagar), Korochi, Tal. Hatkangale, District – Kolhapur, Maharashtra – 416109
2405.	Teen Ek Party	At-Podalguda, P.O. Majhiguda, Distt. - Nabarangpur, Odisha- 764059.
2406.	Tehreeke Inquilaab Party	Ansar Nagar, Abdul Rasheed Manzil, Tajoddin Baba Nagar, Near Ilahi Masjid, Latur, Maharashtra-413520
2407.	Tejas Jankalyan Party	26A, Central Road (Golf Green), Jadavpur, Kolkata, (KMC ward No. 095), West Bengal – 700032.
2408.	Telangana Communist Party of India	H. No. 3-4-760/19, Beside Narayanaguda, Flyover Bridge, Barkatpura, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500027.
2409.	Telangana Inti Party	14-70, V.T. Colony, Post & Mdl.- Nekirekal, District- Nalgonda, Telangana, - 508211
2410.	Telangana Jaghir Party	H.No. 4-32/1, Munuganoor Village, Abdullapurmet Mandal, Ranga Reddy District, Telangana State- 501511
2411.	Telangana Jana Samithi	Door No. 7-1-215/E, Balkampet, Near Nature Cure Hospital, Hyderabad, Telangana-500016
2412.	Telangana Karmika Raithu Rajyam Party	Village – Bairanpally, Post – Siddapur, Mandal – Hasanparthy, District – Warangal, Telangana.
2413.	Telangana Labour Party	H.No.8-2-293/82/BJR/A/1, BJR Nagar, Film Nagar, Jublee Hills, Mandal: Shaikpet, Hyderabad, Andhra Pradesh-500096.
2414.	Telangana Loksatta Party	Plot No. 46, Flat No. 201, Gunrock Teachers Colony, Trimulgherry, Secunderabad-500015 Andhra Pradesh
2415.	Telangana Minorities OBC Rajyam	17-3-4, Rein Bazar, Yakutpura, Hyderabad, Andhra Pradesh -500023.
2416.	Telangana Pragati Samithi	ADR Estate House No. 2-22-295, 2 nd Floor, Bhagyanagar Colony, Above Bank of India, K P H B Main Road, Kukatpally, Hyderabad, Andhra Pradesh – 500072.
2417.	Telangana Praja Samithi (Kishore, Rao and Kishan)	H.No.10-4-108, Girmajipet, Warangal-506002 Andhra Pradesh.
2418.	Telangana Praja Shakthi Party	H.No.- 3-5-233, 1 st Floor, Kota Gally, Shivaji Nagar, Opposite to Andhra Bank, R.R.Chowrasta, Nizamabad, Telangana - 503001
2419.	Telangana Prajala Party	H.No.12-13-830/15, Gokulnagar, Street No. 1, Tarnaka, Secunderabad, Telangana-500017
2420.	Telangana Rashtra Punahnirmana Samithi	H. No.1-3-186/a, Vidya Nagar, Bhongir, District – Nalgonda, Andhra Pradesh - 508116.
2421.	Telangana Republican Party	H.No. 2-134, Tanedarpally Village, Marriguda Mandal, Nalgonda District, Telangana State- 508245
2422.	Telangana Sakalajanula Party	H. No. 4-2-99, NFC (Nuclear Fuel Corporation Colony), Bandlaguda Jagir (Village) & (Post), Rajendra Nagar Mandal, Ranga Reddy Dist. – 500 086 Andhra Pradesh
2423.	Telangana Studentz United for Nation Party	H.No. 3-85, Bowrampet Village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, Telangana-500043.
2424.	Telangana Yuva Shakti	Flat No. 404, H.No. 2-2-25A/1, Jeelani Meadows Apartment, D.D. Colony, Amberpet, Hyderabad, Telangana- 500013
2425.	Telengana Independent Party	House No.5-2-13, Tirumala Nagar, Moulali, R.R. District, Kapra Circle, Hyderabad, Andhra Pradesh- 500040
2426.	Telugu Bahujana Party	8/160-A, Mittapalem Street, Gudur, SPSR Nellore District, Andhra Pradesh – 524101.
2427.	Telugu Congress Party	8-2-38, Opp. G.P. office, Bhavaninagar, Vemulawada, Karim Nagar District, Andhra Pradesh – 505302.

2428.	Telugu Janata Party	No.70-7-16/2A,Ramnayyapeta,TSR Nagar, Road No.2,Kakinada Urban Mandal,E.G.District,Andhra Pradesh-533003
2429.	Telugu Prajaa Patham Party	4-96/25/3, GF-103, Chinamusidiwada, Revenue Ward 70, Vishakahpatnam, Andhra Pradesh- 530051
2430.	Telugu Rashtra Shakti Party	302, GVR, Residency, Beside GVR Towers, Gannavaram, District- Krishina, Andhra Pradesh- 521101
2431.	Telugu Vijayam Party	Flat No.306,Sinivasa Towers,Near Kerala Hotel,Ibrahimpattam,Vijayawada-Krishna District,Andhra Pradesh- 521456
2432.	Thakkam Katchi	1/2755,Nehru Street(Old Annai Theresa Street),V.P.Singh Nagar,Pammathukulam Post,Chennai,Tamil Nadu-600052
2433.	Thamilaga Makkal Suthanthira Kalagam	No. 19/1,Sellapa Kounder Street,Velyayuthampalayam,P. Pugalur Taluk,Karur District,Tamilnadu – 639117
2434.	Thamizh Desiya Munnetra Kazhagam	No.143-A,Mela Veethi,Main Road,Thiruppanandal-Post,Thiruv daimaruthur-Taluk,Thanjavur-District,Tamil Nadu,Pin-612504
2435.	Thamizh Perarasu Katchi	3/6,Paari Street (Extn.),Choolaimedu,Chennai,Tamil Nadu- 600094.
2436.	Thamizhaga Dravidar Katchi	No.32/217,Gandhi Road,West Tambaram,Tambaram (TK),Chengalpattu District,Chennai,Tamil Nadu-600045
2437.	Thamizhaga Munnetra Congress	No. 91, Ponnusamy Nagar, 3 rd Street Perambur, Division 68, Chennai-600011, Tamil Nadu.
2438.	Thamizhaka Padaippalar Makkal Katchi	No. 72, Neyveli Main Road, Kurinjipadi Taluk, Cuddalore Distt.-Tamil Nadu, Tamil Nadu - 607303
2439.	Thamizhar Munnetrak Kazhagam	2/5, Thiruvalluvar Salai, Perumal Nagar, Mogappair, Chennai, Tamil Nadu- 600037.
2440.	The Agrani Party	Located at Anmol House,Lichi Bagan,Pankhatoli,P.O.-Ramana,Dist. - Muzaffarpur,Bihar-842002
2441.	The Future India Party	No: 2/191 B, Nethaji Street, Opp. to Elite School, M.A. Nagar, Redhills, Chennai, Tamil Nadu - 600052.
2442.	The Imperial Party of India	190, Shrinagar Main, Indore – 452001, Madhya Pradesh.
2443.	The Indian Aspirations party	Office Unit No.- 205, Peninsula Plaza, A/16, Veer Industrial Estate,Veera Desai Road, Andheri West, Mumbai, Maharashtra- 400053.
2444.	The Lok Party of India	Room No. 7, Building No. 61, 1 st Floor, 2 nd Lane, M.R. Road, Kamathipura, Mumbai – 400 008. Maharashtra .
2445.	The National Road Map Party of India	B-145, New Ashok Nagar, Delhi- 110096.
2446.	The Plurals Party	Sukhbaso Complex,3 rd Floor,Opposite Western Hotel,Plot No. 130,Danapur Khagul Road,P.O.-Danapur,Distt.- Patna,Bihar-801503
2447.	The Public Welfare Party	Sonapur Complex, Alhadnagar, Ward No.14, East of Zilla Complex High School, Gadchiroli, Maharashtra - 442605.
2448.	The Religion of Man Revolving Political Party of India	Kabitirtha, Kabitanagar, P.O.Bongaon, Distt. 24-Parganas (North)-743235 (West Bengal).
2449.	Third View Party	203, Hill View, Plot No. 85,Lullanagar, Near Mount Carmel Convent School, Pune-411 040, (Maharashtra).
2450.	Thozhilalar Party	No. 28A, Metu Street,Nemilichery, Chrompet,Chennai-600044Tamil Nadu.
2451.	Thrinamool Tamil Nadu Congress	189/1, Amaravathi Street (Near Five Roads), Reddiyur Village, District – Salem - 636004,Tamil Nadu.
2452.	Tipraland State Party	Old Kalibari Road, Krisnanagar, Agartala, West Tripura, Tripura- 799001.
2453.	Tipu Sultan Party	56/2,Attar House Near Karbala Bes,Revivar Peth,Ambajogai,District-Beed,Maharashtra-431517
2454.	Tola Party	H. No. – 56, Ward No. – 14,Andhua Patti, Hodel, (Palwal),Haryana.
2455.	Total Vikas Party	C-95 A-1, 2 nd Floor, Ardee City, Sector – 52, Gurgaon, Haryana – 122011.
2456.	Tripura Peoples Party	8/9, Jail Ashram Road, Dhaleswar, Agartala, TRIPURA- 799007
2457.	Truth, Equality, Justice Applying Service Dal	B-35, Anandlok, Near Shriji Baba School, Post – Krishna Nagar, Govardhan Marg Mathura, Teh. & Dist. – Mathura, Uttar Pradesh- 281004.
2458.	Tuluvere Paksha	Door. No – 2-139(5), Koyyuru Cross Laila Village,Belthangady, Dakshina Kannada, Karnataka- 574214.

2459.	Twenty 20 Party	Building No.IV/172, Ikkarnadu Panchayath, Kadayiruppu PO, Kunnathunadu Taluk, Ernakulam Dist., Kerala - 682311
2460.	Udarwadi Samrasta Party	133/1, Harijan Basti, Gaon Samaypur, Delhi- 110042
2461.	Udaya Chandra Desam Party	No.27, KamarajNeduchalai, Old Perungulathur, Chennai, Tamil Nadu-600063
2462.	Udiyoman Democratic Party of India	4/3C, Orient Row, Ground Floor, Kolkata-700017
2463.	Ujala Party	E-26, Gali No.9, Near Water Tank, Subhash Vihar, Bhajanpura, Delhi-53.
2464.	Uлага Makkal Katchi	No. 15/24A, Methukummil Junction, Methukummil Post, Kanyakumari District, Tamil Nadu – 629172.
2465.	Ulzaipali Makkal Katchy	74, Santhi Nagar, Ist Street, S.M. Nagar Post, Chennai – 600 062 Tamil Nadu.
2466.	Ummeed Party of India	Gram - Shishu, Vill. /PO - Shishu, Ward - 12, Tehsil - Dantaramgarh, P.S.- Ranoli, District - Sikar, Rajasthan -332405.
2467.	United Democratic Front Secular	539/13, Shastri Nagar, Meerut, Uttar Pradesh.
2468.	United Goans Democratic Party	1st Floor, Casa Dos Aliados, Behind Gomat Vidya Niketan, Absde Faria Road, Margao, Goa-403601.
2469.	United Goans Party	Shop No.7, H.No. 18/5/6, Gramilo Apartment, Dondrem, Taleigao, Tiswadi, Goa.
2470.	United India Party	No. 4-2-256/K/1, Bheemunipatnam N.T.P.C, Ramagundam (Mandal), Karimnagar, Telangana – 505215
2471.	United Naga Democratic Party, Nagaland	Ward No. 7, Near Agape School, Chumukedima – 797 103, Dimapur – 797 112 (Nagaland).
2472.	United National Party	Village Shantinagar, Mauja - Sannpura, Post – Gonsili, Tehsil – Baah, District - Agra, Uttar Pradesh – 283104
2473.	United People's Front	City Regency Building, R.K.B. Road, Dibrugarh, ASSAM-786001
2474.	United Republic of Bharath Party	D. No. 6-9-1373A, Defence Colony, Near A.P.H.B. post Office, Besides, Kanchimatam Hospital, Chottoor, District, Tipupati, Andhra Pradesh- 517501
2475.	United Republican Party of India	80/81, C.A.H. College-By-Pass Road, Melvisharam, Walaja Taluk, Distt.- Vellore Tamil Nadu- 632509
2476.	United Secular Congress Party of India	2/104 B, Kurla Jai Hind Budhvikas, SRA Grihnirman Sanstha, Maryadit Nehru Nagar, Kurla (East), Mumbai-400024, Maharashtra.
2477.	United Socialist Party	B 41-H/6, Bright Street, 2 nd floor, P.O. Circus Avenue, P.S. Karaya, Kolkata, West Bengal- 700017
2478.	United States of India Party	No. 10/116, Mathaganeri, South Street, Sembikulam(PO), (PO), Vadakankulam (Via), Taluk - Radhapuram, District - Tirunelveli, Tamil Nadu- 627116.
2479.	Universal Brotherhood Movement	57-D, Sattur Main Road, Kovilpatti, District - Thoothukkudi, Tamil Nadu- 628501.
2480.	Universe Citizen Party	15-5-122, Vinay Nilaya, Opp. Karnataka Law & Pharmacy College, Dhyanmandir Road, Rapure Colony, Bidar, Karnataka- 585401
2481.	Urban & Rural Party	H.No.660/7/P.003, Gaura Bangh, Kursi Road, (Phool Bagh), Lucknow, Uttar Pradesh- 226026
2482.	Urimai Meetppu Kazhagam	New No. 10A, Krishna Street, Irumbuliyur, West Tambaram, Chennai-600045, Kanchi Street, Tamil Nadu.
2483.	Utkal Bharat	Plot No. 296/2624, At – Govinda Prasad, East Canal Road, In front of Twin Bridge, P.O. – G.G.P. Colony, Bhubaneswar-751010 Odisha.
2484.	Utkal Samaj	Anandayan, Plot No.-567/2, Kanan Vihar, Phase – II, Bhubaneswar – 751 031 Orissa.
2485.	Utkrisht Party	1 st Floor, Rakesh Cloth House, Main Bazar, Village- Narot Mehra, Tehsil & District- Pathankot, Punjab.
2486.	Uttama Prajaakeeya Party	7/A, 1 st Cross, 3 rd Stage, 3 rd Phase, 6 th Block BSK, BSK 3 rd Stage, Kathiriguppe, Bengaluru, Karnataka - 560085.
2487.	Uttar Bhartiya Vikas Sena	201/202, 2 nd Floor, Sukumar Corner, 127- J.P.Road, DawoodBaug Lane, Andheri (West), Mumbai, Maharashtra- 400058.
2488.	Uttar Pradesh Navnirman Sena	House No. 3, Sector- 15A, District- Gotambuddh Nagar, Noida, Uttar Pradesh- 201301

2489.	Uttar Pradesh Republican Party	552/2, Rajendra Nagar, 2nd Street, Lucknow-226004 (U.P.).
2490.	Uttara Janashakti Sena	H. No. 66,67,Shivapura Colony (Anchatageri Layout),Near Rajadhani Colony,Gokul Road,Hubli,Karnataka-580028.
2491.	Uttara Karnataka Party	No.25,4 th cross,MSR Nagar,Bengaluru,Karnataka-560054
2492.	Uttara Raashtra Telangana Party	H. No. 4-32/B, Gandhi Nagar, Brahmanpally, Arnoor, Jakranpally, District- Nizamabad, Telangana-503224.
2493.	Uttarakhand Janata Party	Plot No.6,Prakash Enclave,Shimla Road,Sewla Kalan,District – Dehradun Uttarakhand– 248001
2494.	Uttarakhand Janekta Party	18F-/Sector-3B Near C-Block,Type-II,New Tehri,Uttarakhand- 249001
2495.	Uttarakhand Janshakti Party	Sushila Berthwal Niwas, Near Doordarshan Prasar Bharti Office, Haridwar Bye-Pass Road, Dehradun, Uttarakhand- 248001.
2496.	Uttarakhand Kranti Dal	Rochipura, P.O. Majra, Dehradun, Uttarakhand.
2497.	Uttarakhand Kranti Dal (Democratic)	85/12 – B, Nash Villa Road, Dehradun-248001, (Uttaranchal).
2498.	Uttarakhand Parivartan Party	Sah Bhavan, Veer Chandra Singh Garhwali Marg, Gairsain,Distt. – Chamoli,Uttarakhand.
2499.	Uttarakhand Pragatisheel Party	13, Subhash Road,Opposite back gate of St. Joseph School,Dehradun-248001, Uttarakhand.
2500.	Uttarakhand Raksha Morcha	H. No. 1, Village – Nouka (Dour Wala),Post - Mothronwala, Vikaskhand Raipur,District – Dehradun,Uttarakhand.
2501.	Uttarakhand Samanta Party	33,Gangotri Vihar,Lane No.1,Nehrugram Road,Dehradun,Uttarakhand – 248005
2502.	Vada Tamil Nadu Munnetra Katchi	No.209/42,Sri Iyappa Nagar,Kaliamman Koil Street,Virugampakkam,Chennai,Tamil Nadu-600092
2503.	Vaicharik Kranti Party	F- 11, 12, 13, Ishwari Dayal Complex-92, Gautam Buddha Marg, Lucknow, Uttar Pradesh.
2504.	Valamaana Tamizhagam Katchi	H-982, 23 rd Street, 13 th Main Road, Annanagar, Chennai,Tamil Nadu- 600040.
2505.	Valimai Valartchi Indians Party	411 D, Goundachi Palayam, Vadamugam Vellode, Erode District, Tamil Nadu - 638112.
2506.	Vallarasu Party	H. No.-6(23),Mosque Steet,Mylapore,Mylapore,Chennai Tamil Nadu- 600004
2507.	Vanchit Bahujan Aaghadi	Survey No. 858B/2, 'Akash' Bhigvan Road, Behind Ranade Petrol pump, Ashok Nagar, Baramati, District – Pune, Maharashtra - 413102
2508.	Vanchit Samaj Party	Circle- Bankipur, R.Circle No.- 13, Ward- 36, Mohalla- Pump House Gali Talab Parr, Lalji Tola, Police Station- Gandhi Maidan- Patna, District- Patna, Bihar- 800003
2509.	Vanchitsamaj Insaaf Party	39, Adarsh Nagar, c/o Dr. Sheikh Maholi Road, Mathura, Uttar Pradesh.
2510.	Vande Bharat Party	Gaddopur Mathiya,Nearby ITI School,Post -Gaddopur Majhawa,Distt. - Ayodhya,Uttar Pradesh-224001
2511.	Vande Republic Party	555,NitiKhand-3,Near Pipal Chowk,Indirapuram,Ghaziabad,Uttar Pradesh-201014
2512.	Vastavik Bharat Party	726/2/K1, Gram Umaria Khas,Tehsil - Bhandhavgadh, District - Umaria, Madhya Pradesh – 484661
2513.	Vasudhaiv Kutumbakam Party	Ward No. 07, Holding No.1050 New, Mohalla- Sahebdad Ganj, District- Darbhanga, Bihar.
2514.	Vasundhara Jan Vikas Dal	Khata No. 39, 59, Plot No. 32, 35 and 36, Mauja and Thana No. 371, New Thana No. 27, NH-2, Shiv Sagar, District – Rohtas, Bihar – 821111
2515.	Veerath Thiyaagi Viswanathadoss Thozhilalarkal Katchi	Manickavasagar Arangam,No. 1/9,Chengam to Tiruvannamalai Main Road,Kariamangalam Village & Post,Chengam Taluk,Tiruvannamalai District,Tamil Nadu- 606709
2516.	Venukabadinavargal a Mahila Raithu Party	Door No.- 3-110A, Chakrayapalem Village, Kollipara Mandalam, Guntur District, Andhra Pradesh.
2517.	Vichara Jagruthi Congress Paksha	Door No. 275 of Hebbalu Village and Post, Davangere Taluk and District, Karnataka.
2518.	Vidarbh Maza Party	237, Post- Ubali, Tahsil- Kalmeshwar, District- Nagpur, Maharashtra.

2519.	Vidarbha Rajya Aghadi	Block No. 4, Daftari Complex, Opposite Dadaji Dhuniwale Math, Nagpur Road, Grampanchayat Nalwadi, District- Wardha, Maharashtra
2520.	Vidhyardhula Mahilala Raithula Mahasena Party	Dr.No. 74-6/1-1A, VSR Road, Ayyappanagar, Patamata, Vijayawada, Andhra Pradesh.
2521.	Vidhyarthula Rajakiya Party	H.No. 11-13-624/4, Flat No. 402, I.B. Nagar, Haripuri Colony, Road No. 3, Saroornagar (M), Rangareddy, Andhra Pradesh- 501505
2522.	Vidial Valarchi Perani	37-B, Keela theru, Ichikamalai Patti, K.Sathanur (Post), Thiruchirapalli, Tamil Nadu - 620021
2523.	Vidiyalai Thedum Indhiyargal Party	#10/2032, South Thiruppachethi, Post - Thiruppachethi, Taluk - Thiruppuvanam, District – Sivagangai, Tamil Nadu 630610.
2524.	Viduthalai Chiruthaigal Katchi	No. 16, Chinnaiah Street, T-Nagar, Chennai – 17, Tamil Nadu.
2525.	Viduthalai Kalam Katchi	D. No. 2-48, Bodinaickenpatty, Oorpuram, Ward-2, Bodinaickenpatti(P), Singalandapuram Via, Rasipuram (TK), Namakkal District, Tamil Nadu - 637412
2526.	Viduthalai Makkal Munnetra Kazhagam	No. 11, Kabilar Street, Devanampattinam, Cuddalore District, Tamil Nadu.
2527.	Vijay Bharat Party	H.No. 402, 3 rd Floor, Plot No. 2-3, Gali No. 3, Friends Encalve, Shahberi, Greater Noida Extension, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh- 201009
2528.	Vijaya Bharatha Makkal (People) Party	70, 2 nd Floor, Braod Bazaar Street, Ambur-635802, Vellore District, TAMIL NADU
2529.	Vijaya Janata Party	No. 9, Om Sai Shankthi Nilaya, Bharathinagara, Hundasamaranahalli Post, Jala Hobali, Bangalore North Taluk, Bangalore Karnataka- 560058
2530.	Vikas India Party	T-192, Street No.2, Gautam Puri, Delhi-110053
2531.	Vikas Insaf Party	House No. 23, Ward No.10, Mahmoodpur Pargana, Near P. C. F. Godown, Tehsil-Sadar, District – Fatehpur, Uttar Pradesh -212601
2532.	Vikas Manch	Bhura Chowk, Post office & Tehsil- Nokha, District- Bikaner, Rajasthan- 334803
2533.	Vikas Party	Satyagarh Marg, Darul Safa Compound, Lucknow (Uttar Pradesh).
2534.	Vikassheel Insaan Party	Ghar Apna Apartment, Ward No. 38, Flat No. 604, Phase-03, Abhiyanta Nagar, Ranjan Path, P.O.-Danapur Cantt, P.S- Rupaspur, District Patna, Bihar-801503
2535.	Vikassheel Janta Party	First Floor, (Ground Floor Ayurvedic Chikitsalaya), Chauhan Market, Behta Chowraha, Lalganj, (Near Hanuman Mandir), Vaishwara, Rai Bareli, District-Rai Bareli, Uttar Pradesh- 229206
2536.	Villagers India Party	Talpali Pada (Near Durgamandap Chowk), district- Bolangir, Odisha- 767001.
2537.	Viro Ke Vir Indian Party	First Floor, B-2, Sarthi Complex-2, Manekpura, Liliya Road, Amreli, Gujarat- 365601.
2538.	Vishal Janta Party	No. 1/4649/183, Budh Bazar Gali, Sub Gali No.08, Mandoli Road, New Modern Shahadra, Delhi-110032
2539.	Vishal Party of India	Village – Chaurha, P.O.-Degham, Tehsil – Garhshankar, District – Hoshiarpur, Punjab – 144527.
2540.	Vishva Shakti Party	B-10/144, Pradeep Vihar, Nathupura More Delhi -110084.
2541.	Vishwa Adarsh Bharat Party	House No. 251, Mega Pathology, Behind of Court, Sookh Vilas Colony, Badwani, Tehsil- Badwani, District- Badwani, Madhya Pradesh- 451551
2542.	Vishwa Bandhutva Party	Village-Ghooripur, Post-Badaunadih, Thana-Kadipur, District- Sultanpur, Uttar Pradesh- 228175.
2543.	Vishwa Bharath Party	H.No.5-6-160B, Krishna Nagar NTPC, Jyothinagar, Ramagundam, Peddapalli District, Telangana-505215
2544.	Vishwa Hindustani Sangathan	3/105, Anandnagar, 100 ft. Ring Road, Satelite Vejalpur, Ahmedabad, Gujarat.
2545.	Vishwa Jagriti Party	74/16A, Paramhans Marg, Shipra Path, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan-302020
2546.	Vishwa Jana Party	Door No. 4-122, Padmavati Nagar, Thogatavari Street, Podalakur, District- SPSR Nellore, Andhra Pradesh
2547.	Vishwa Jana Samrajyam Party	MIG-74, H.No. 15-13-vii-m-74, Phase VII, KPHB Colony, Kukatpally, Hyderabad, Telangana State- 500085
2548.	Vishwa Manav Samaj Kalyan Parishad	Village & Post – Chandapur, Wazirganj, District – Gonda, Uttar Pradesh.
2549.	Vishwa Shanti Party	Plot No.III-F/621, Sector-III-F, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201010
2550.	Vishwa Tamil Kazhagam	Door No. 70/2, Block No. 1, Raajiv Nagar, Kandhampatty, Salem West (TK), Distt. Salem, Tamil Nadu – 636005.

2551.	Vishwanath Pratap Janta Dal	Ward-2,Malviya Nagar Infront of State Bank of India,Main Raod Madhugarh,District Jalaun Uttar Pradesh- 285126
2552.	Vision India Party	16-216,Siva Giri Colony,Mulapet Nellore,Andhra Pradesh-524003
2553.	Viswa Bharath People's Party	18/9, Poonga Nagar, Irugur, Coimbatore, Tamil Nadu – 641103
2554.	Vivasayigal Makkal Munnetra Katchi	403, SRPK Complex, Udaiyarpalayam, Thalavaipatty- Post, Attur -Taluk, Salem-District, Tamil Nadu- 636102
2555.	Voice of Labour Party (Jammu & Kashmir)	Khasra No. 539, Village- Atti, Post- Fathepur, Tehsil & District- Rajouri, Jammu & Kashmir- 185131
2556.	Voters Independent Party	No. 903, 1 st Floor, 6 th Block, 80 Feet Road, Koramangala, Ejipura, Ward No. 148, Bangalore, Karnataka - 560095
2557.	Voters Party International	H. No. 385, Street No. 12/3, Wazirabad Village, Delhi- 110084.
2558.	Vyabasayi Kisan Alpasankhyak Morcha	H. No.12, Maharajganj, Jamui, District – Jamui, Bihar – 811307.
2559.	Vyavastha Parivartan Party	At Baudh Diamond, Taluka Panchayat Road, Opp. of Court, Post & Taluka-Ghogha, District- Bhavnagar, Gujarat.
2560.	Watan Janta Party	3/4/7 A, Mugalpura, Ayodhya, Faizabad, Uttar Pradesh
2561.	Wazib Adhikar Party	Village & Post – Pohaddi Bela, Block – Ghanshyampur, District – Darbhanga, Bihar – 847427.
2562.	Welfare Party of India	E - 57/1, Abul Fazal Enclave-1, Jamia Nagar, New Delhi - 110025
2563.	West Bengal Socialist Party	42-Ananda Palit Road, Kolkata-700014,(West Bengal).
2564.	Y.S.R. Telangana Party	Flat No. 401-A,Third Floor,Siddhardha Sravanti Apartment,No. 8-3-169/35,Plot No.35,Siddhardha Nagar,Yousufguda,Telangana,Hyderabad - 500038
2565.	Yekikrutha Sankshema Rashtriya Praja Party	D No7-1-500, NGO Colony,YSR Street, Siddavatam Road,Badvel-516227, YSR District,Andhra Pradesh.
2566.	Young India Party	Circle No. 28, Holding No. 128/113, Arya Kumar Road, Machhuatoli, P.S- Kadamkuan, District - Patna, Bihar -800004
2567.	Young India Tangress Party	Yelam Galli, Tugav(H), Taluk – Bhalki, Distt. – Bidar, Karnataka.
2568.	Young India United Party	House of Madan Mohan Mishra, Village- Mangalpurva, Post- Parsa, Gondari, Block- Haldharmau, Tehsil- Colonel Ganj, District- Gonda, Uttar Pradesh- 271126
2569.	Young Star Empowerment Party	34, Ground Floor, 2 nd Main Road, 11 th Cross Road, Singasandra, Subhash Nagar, B-Block, Begur Village, Hobli, Bangalore-560068, Karnataka.
2570.	Youth and Students Party	R.P. Estates, 4/1, Poonamallee High Road, Koyambedu, Chennai-600107.
2571.	Youth India Peace Party	Assessment No.- 18, Village- Katha No.- 215, Yeshwanthpur Hobli, BangaloreNorth Taluk, Bangalore, Karnataka- 560022
2572.	Youth Socialist Party	H. No. 248, Sihora Govind (Govind Nagar), Post & Thana – Katghar, Tehsil & District – Moradabad, Uttar Pradesh - 244001.
2573.	YSR Bahujana Party	28/434, Rameshwaram, Proddatur-516360, Kadapa District, Andhra Pradesh.
2574.	Yug Kranti Dal	H. No.122,Gali No.1,Punjabi Colony (Dharmpur),Samastipur Town,Bihar-848101
2575.	Yug Nirman Party	B-84, Second Floor, Gharoli Diary Farm, Mayur Vihar Phase-III, Delhi-110096.
2576.	Yug Parivartan Party	H. NO. 2179,Motiram Colony,Near Mohit Public School,Noorwala, Panipat Haryana- 132103
2577.	Yuga Thulasi Party	H. No. 5-9-296, Flat No. 310, Prasad Apartment, Gunfoundry, Abids, Hyderabad, Telangana-500001.
2578.	Yuva Aam Dal Aadami Vikas	Apra City,Phase-2,Sector-C,Village Mishrauliya State,Post-Mishrauliya,Near-Jail Road,Dist.- Basti Uttar Pradesh- 272001
2579.	Yuva Anubhav Party	House No. – 393 – I, Haritima, Rajiv Nagar, West Basharatpur, Gorakhpur, Uttar Pradesh.
2580.	Yuva Bharat Atmanirbhal Dal	F/49/1A,Ayodhya Nagar,Near Shiv Mandir,N-7,CIDCO,Aurangabad,Maharashtra- 431003
2581.	Yuva Bharat Rashtraseva Party	At-LGF-138,Gautam Nagar,New Delhi - 110049
2582.	Yuva Bihar Sena	H. No. 17,Batukeshwar Dutta Lane,New Jakkanpur,Patna Bihar-800001

2583.	Yuva Jankalyan Party	Shop No. 06, Laxmi Ashirwad CHS Ltd., Plot No. 23, Sector- 25, Kamothe, District-Raigad, Maharashtra- 410209
2584.	Yuva Jankranti Party	Kasba – Kerakat, Mohalla – Shekhzada 2 nd , Post – Kerakat, Janpad – Jaunpur, Uttar Pradesh.
2585.	Yuva Janta Party	Building No. 91/1, Grant Ganj, Main Market Mahoba, District – Mahoba, Uttar Pradesh - 210427.
2586.	Yuva Karnataka Paksha	#66, Anepura Village, Nidharamangala Post, Malur Taluk, Kolar District, Karnataka-563137
2587.	Yuva Krantikari Party	Adarsh Nagar, Road No. 1E, Samastipur, Bihar-848101
2588.	Yuva Party	1-8-1-83, Garage No.83, Ground Floor, Baghlingampally, Hyderabad, Andhra Pradesh.
2589.	Yuva Party (Democratic)	Plot No. 63, Gurukrupa Society, Panch Faliya, Dabholigam, Katargam, Surat, Gujarat- 395004.
2590.	Yuva Sarkar	161, Vanmali Park Society, Harikrishna Chowk, Dharmakul Ashrit Road, Puna-Simada, Surat-394211 GUJARAT.
2591.	Yuva Shakti Sanghathana	Bhangdia Wada, Tilak Ward, Tah. Chimur, District – Chandrapur, Maharashtra
2592.	Yuva Star Party	Vill.-Akha, P.O.-Jayantigram Isapur Sherpur, P.S.-Bhagvanpur, Distt.-Begusarai, Bihar-851112
2593.	Yuva Taram Party	H.No.- 8-1-32/4, Near Hanuman Temple Back Side, Ward No. 8, Block-1, Gattaigudem Village, Palvancho-Mandal, Badradri Kothagudem-District, Telangana- 507115
2594.	Yuva Telangana Party	Plot No. 143&144, Rock Town Colony, Alkapuri, Mansoorabad, LB Nagar, Hyderabad- 500068, Telangana
2595.	Yuva Vahini Party	D-95, LDA Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh – 226012
2596.	Yuva Vikas Party	Serawan, Atrampur, Allahabad, Uttar Pradesh.
2597.	Zoram People's Movement	Treasury Square, Aizawl, Mizoram-796001

TABLE – I(B)
DELISTED REGISTERED UNRECOGNIZED POLITICAL PARTIES [RUPPs]*

Sr.No.	Name of RUPP	Headquarter of RUPP
1.	Aarthik Samanta Party	189, B-Block, Gali No. 4/6, Karawal Nagar, DELHI-110094.
2.	A-Chik National Congress (Democratic)	Dakopgre (Opp. office of Inspector & School), Tura, West Garo Hills, Meghalaya – 794 101.
3.	Ajeya Bharat Party	A-14, Mohan Estates, Mathura Road, New Delhi.
4.	Akahand Bharat Maha Sangh Sarvahara Krantikari Party	Sunfool, Kota-1, (Rajasthan).
5.	Akhil Bharatiya Azad Lokhit Congress Party	Khari Mohalla, Khatikon Ka Chowk, Bhiwani, Haryana.
6.	Akhil Bharatiya Dalit Utthan Party	A-201/2, Gali No. 1, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092.
7.	Akhil Bharatiya Kranti Dal	7, Prem Colony, Pragati Path, Ist Floor, Kalyan Nagar, Behind Hanuman Mandir, Tonk Road, Jaipur – 302011, Rajasthan.
8.	Akhil Bharatiya Revolutionary Shoshit Samaj Dal	Vaishali Nagar, Sidheshwar Ves, At. & Post : Latur, Distt. Latur, 413512 (Maharashtra).
9.	Akhil Bhartiya Nagrik Sewa Sangh	Plot No. 98, Ratan Lal Nagar, Kanpur – 208022, Uttar Pradesh.
10.	Akhil Jan Vikas Dal	50A/1A, Nahar Pur, Rao S.K. Shopping Complex, Sector-7, Rohini, Delhi-85.
11.	All India Ambedkar Makkal Munnetra Kazhagam	104, Walja Road, 3rd Floor, Arivu Mani Arangam, Triplicane, Chennai, Tamil Nadu 600002
12.	All India Babu Jagjivan Ram Baba Saheb National Congress	C-22, Basement, Chirag Enclave, New Delhi-110048
13.	All India Christian Democratic and Backward People's Party	Block A-1, Flat 2, Kolkata-700054 (West Bengal)
14.	All India Dalit Welfare Congress	Flat No. 44, Sector B-4, Narela, Delhi
15.	All India Lok Raj Party	Village-Meharban, Tehsil & District-Ludhiana (Punjab)
16.	All India Mahila Democratic Front (AIMDF)	House No.6-1-57/62, Secretariat Road, Saifabad, Hyderabad-500004, Andhra Pradesh
17.	All India Muttahida Qaumi Mahaz	# H. No. 19-2-23/M/J/5/E, 1 st Floor, Bahadurpura, Mecca Colony, Hyderabad-500053, Andhra Pradesh.
18.	All India Raksha Party	Post Box No. 136, Main Post Office, Karnal-132001, Haryana.

19.	All India Tribes And Minorities Front	Windrush Hill Annexe, Shimla-2 (Himachal Pradesh).
20.	All J & K Peoples Patriotic Front	Jawaharnagar, House No.97, Police Station, Ragh Bagh, Srinagar (Jammu & Kashmir).
21.	Alpjan Samaj Party	Dak Bangala Market Parishar, 1st Floor, Shop No. 28, Dak Bangla Market, P.O. – Sasaram, P.S. – Sasaram, Distt. Rohtas, Bihar – 821115.
22.	Ambedkar Kranti Dal	Shanti Homeopathic Store, Arya Samaj Chowk, Badayun, Uttar Pradesh.
23.	Ambedkar Pragatisheel Republican Dal	Dr. Lohia Colony, Shahjhapur, Pin-242001 (Uttar Pradesh).
24.	Anti Reservation Party of India	H.No. 1184, Sector-21-B, Chandigarh.
25.	Arya Sabha	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001.
26.	Asom Gana Parishad Pragatisheel	H.O.-G.S. Road, Ulubari, Guwahati-781 007, Assam.
27.	Ati Pichhra Jan Dal	Village: Rampur Bakli, Post & Distt. Bijnor, Uttar Pradesh.
28.	Awami Socialist Party of India	Bukhara, Bakshiwalla Road, Bijnaur – 246 701 (Uttar Pradesh).
29.	Baaratha Samuthaya Munnetra Munnani	400/12, 1st Floor, Township Commercial Complex, Kamarajar Nagar Main Road, Avadi, Chennai – 600 071, Tamil Nadu.
30.	Bahujan Ekta Party (R)	Suraj Bhawan, R.D.-136A, Dhram Pura Ex, Najafgarh, New Delhi-110043.
31.	Bahujan Kisan Dal	Kisan Bhawan, Rishabh Vihar, Circular Road, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.
32.	Bahujan Loktantrik Party	G-161, J.J.Colony, Wazirpur, Delhi-110052.
33.	Bahujan Shakti	Mines Resque Station Camps, Post – Dhansar, Distt. – Dhanbad, Jharkhand.
34.	Bam Party	538 K/780, Triveni Nagar-II, Lucknow, Uttar Pradesh.
35.	Barak Valley Territory Demand Committee	Swaraj Bhawan, Silehar Road, P.O. P.S. and District – Karimganj, Pin-788711, Assam.
36.	Begumpura Sanjha Front	193, New Rasila Nagar, Basti Danishmandan, Jalandhar, Punjab.
37.	Bhaarat Mahashakti Party	11A, DDA Flats, Priyadarshni Vihar, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
38.	Bharat Bachao Party of India	S – 528, Greater Kailash Part-1, New Delhi –110048.
39.	Bharat Desam Party	Door No. 8-3-270/1, Nehru Nagar, 9th Line, Main Road, Guntur – 522 001, Andhra Pradesh.
40.	Bharat Jan Party	324, Kailash Nagar, Ghaziabad (Uttar Pradesh).
41.	Bharat Vikas Party (Secular)	Kh. No.21/25, Near HP Petrol Pump, Upkar Properties, A-Block, Himgiri Enclave, Burari, Delhi-110084.
42.	Bharathiya Dravida Makkal Katchi	2036, 15th Main Road, Anna Nagar West, Chennai – 600 040, Tamil Nadu.
43.	Bharathiya Jana Shabdth	331(311), Ward No. 1, Kallara House, Mundella (P.O.), Vellandadu, Thiruvananthapuram – 695 543, Kerala.
44.	Bharathiya Yuvatha, Samatha, Rashtriyatha Congress Party	Flat No. G1, Ground Floor, ARK Residency Plot No. 304, Survey No. 153, 154, 163 and 143, Boduppal, Village & Gram Panchayat – Ghatkesar (Mandal), Rangareddy (District), Hyderabad-500038, Andhra Pradesh.
45.	Bharatiya Asht Jan Party	151, C Sector, Second Floor, Room No. 203, Inder Puri, Bhopal – 462022 (M.P.).
46.	Bharatiya Awaj Party	Milan Committee Sewa Sangh, Santosh Nagar, Behram Bagh, Jogeshwari West, Mumbai-440102, Maharashtra.
47.	Bharatiya Berozgar Mazdoor Kisan Dal	Bansal Gaon, P.O. Dheghat, Patti Malla, Chackaut, Distt- Almora (Uttaranchal).
48.	Bharatiya Bouddhik Vichar Party	Village – Ballanagla Patti, Post – Shahpur Kheri, Tehsil – Dhampur, Distt. – Bijnaur, (Uttar Pradesh).
49.	Bharatiya Congress (M)	16, Batra Colony, M.T.X. (Sonapat), Harayana.
50.	Bharatiya Jan Kisan Party	1080C, Babaji Bag, Tilak Road, Balua Ghat, Allahabad, Uttar Pradesh
51.	Bharatiya Jan Samajwadi Party	A-62, J. J. Colongy, Khanpur, New Delhi-110062.
52.	Bharatiya Lok Kalyan Dal	Area/Post/Tahsil Bikabur, Distt. Faizabad, (Uttar Pradesh).
53.	Bharatiya Loktantrik Party (Gandhi-Lohiawadi)	Satyawati Niwas, Ram Das Path, Meethapur B- Area, Patna - 800001, Bihar.
54.	Bharatiya Manavata Vikas Party	133/4, Qutub Enclave, Phase-II, New Delhi-110016.

55.	Bharatiya Parivartan Party	70-A, DDA Flat, Pandav Nagar, Near Metro Station Shadipur, New Delhi – 110008.
56.	Bharatiya Purvanchal Party	E-68, Premchand Colony, Pandeypur (1), Varanasi, UTTAR PRADESH.
57.	Bharatiya Rashtriya Janhit Party	C-2968, Sapna Colony, Lucknow-226017 (Uttar Pradesh).
58.	Bharatiya Rashtriya Swadeshi Congress Paksh	308, Ramnagari, 2/C, 3rd Floor, Alandi Road, Bhosry, Pune-411039, Maharashtra.
59.	Bharatiya Samaj Kalyan Party Bharat	Ravender Electronics, Purani Chungi, Agra Road, Hathras, Distt. Aligarh (U.P.).
60.	Bharatiya Sarvkalayan Kranti Dal	2/643/C, Rambagh Colony, Ramghat Road, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).
61.	Bharatiya Shakti Sena	Shakti Sena Bhawan, Bariar No. 6, Audyugik Kshetra Bahadarabad, Haridwar – 249402, Uttarakhand.
62.	Bharatiya Shramik Dal	L-238, Vikash Pradhikaran Colony, Indira Nagar, Rai Bareilly (U.P.).
63.	Bharteey Samajvadi Morcha	3/1108, Dehradun Chowk Saharanpur-247 001 (Uttar Pradesh).
64.	Bharti Lok Lehar Party	136, Ajit Nagar, Amritsar (Punjab).
65.	Bhartiya Deshbhakt Sangh (Brajesh)	Shop No. 1, Khasra No. 1494, Nehru Enclave, Bank Wali Gali, Alipur, Delhi – 110036.
66.	Bhartiya Gantantra Party	H. No.5, Ganga Dham, Kundan Nagar, Bagh Mughaliya, Hoshangabad Road, Bhopal, MADHYA PRADESH.
67.	Bhartiya Gorkha Janashakti	26/2, H.D. Lama Road, Darjeeling-734 101, (West Bengal).
68.	Bhartiya Harit Kranti Dal	Village & P.O. – Sonta, Via – Alipur, Kheri, Distt. Mujaffar Nagar, Uttar Pradesh.
69.	Bhartiya Hind Ekta Dal	Defence Colony, Anil Shaheed Nagar, Izatnagar, Nainital Road, Bareilly - 243122, Uttar Pradesh.
70.	Bhartiya Jan Sanmati Party	Village – Harola, Sector – 5, Noida, Uttar Pradesh.
71.	Bhartiya Jana Congress (Rashtriya)	113/70B, Lal Bahadur Shastri Nagar, Patna-800023 (Bihar).
72.	Bhartiya Janta Ki Ekta Party	Plot No. 29-A and 30-A, Khasra No. 20/1/1, Village Rajapura Khurd Delhi, Colony Mohan Garden, R-III, A-2, New Delhi - 110059
73.	Bhartiya Swarn Samta Party	201- C Block, Goyal Enclave, Faizabad Road, Chinhut Lucknow, UP.
74.	Buddhiviveki Vikas Party	R(U)-9, 2nd Floor, Pitampura, Delhi – 110088.
75.	Chandigarh Vikas Party	House No.230, Sector 9-C, Chandigarh-160009.
76.	Chhattisgarh Navnirman Sena	C. R. – 12, R.D.A. Building, Gurunanak Market, Sharda Chowk, Raipur, Chhattisgarh.
77.	Children First Party of India	703-704, Devatha Plaza, 132, Residency Road, Bangluru-560025. Karnataka.
78.	Democratic Insaf Party	D-62, G.T.B. Nagar (Kareli), Allahabad (Uttar Pradesh).
79.	Democratic Janta Dal (J & K)	344 EP, Cristen Colony (Shaheedi Chowk), Jogi Gate, Jammu (Jammu & Kashmir).
80.	Desiya Forward Bloc	No.5, M. P. Avenue, Majestic Colony, Saligramam, Chennai-600093, Tamil Nadu.
81.	Ekta Kranti Dal U.P.	C/o Satyapal Sagar, Amanjai Jalal Nagar, Opp. Chhotti Line, Shahjahanpur (Uttar Pradesh).
82.	Federal Congress of India	Holumbi Khurd, Village & P.O. – Holumbi Kalan, Delhi – 110 082.
83.	Forward Bloc (Socialist)	Temple Street, P.O. & Distt. Jalpaiguri-735101 (West Bengal).
84.	Garib Janata Party	Rajinder Nagar, Main Bazar, P.O. Vijay Nagar, Batala Road, Amritsar (Punjab).
85.	Gramanchal Party	3/A, Satya Nagar, In Front of Central School, Bhubaneswar-7, Orissa.
86.	Gujarat Yuva Vikas Party	C/o Darbar Kruba Transport, Near Bus Station, Vadnagar-384 355, District-Mehsana (Gujarat).
87.	Harit Pradesh Party	H. No. 349, Village & Post – Bilsuri, Distt. – Bulandshahar, Uttar Pradesh - 203205.
88.	Haryana Janta Party	Village & Post Office – Risalu, Tehsil & District – Panipat, Haryana – 132103
89.	Haryana Samajik Nyay Party	Kothi No. 239, Sector-7, Urban Estate, Kurukshetra-136118, Haryana.

90.	Hind Ekta Mission	Village – Leduwawar, Post – Kauragahani, Tehsil – Phulpur, Distt. – Azamgarh, Uttar Pradesh.
91.	Hind Morcha	Samaj Sudhar Ashram, Siraspur, Delhi.
92.	Hind Raksha Sena	WZ-13 B, First Floor, Mukhram Park Extn. Tilak Nagar, New Delhi-110018
93.	Hind Rashtriya Ekta Party	Plot No.104, Anguri Palace, Wazirabad Road, Pasunda, Garima Garden, Sahibabad, Ghaziabad, U.P.-201 005.
94.	Hind Swarajya Ganatantra Party	S-41, Panchsheel Park, New Delhi-110017.
95.	Hindustan Action Party	156, Khanna Nagar, Loni, Ghaziabad-201102, Uttar Pradesh.
96.	Hindustan Peoples Party (Rajpal)	85A-Mohiley Nagar, Allapur, Allahabad, Uttar Pradesh.
97.	Hindustani Gareebwadi Party	61, Aggarwal Chambers, Vikas Marg, Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi-110092.
98.	Hindusthan Suraksha Party	North East Zone, Berpeta Road, Near Tourists Lodge, Ward No.6, District Berpeta (Assam).
99.	Indian Federal Democratic Party	1, Balwant Rai Mehta Lane, K.G. Marg, New Delhi – 110 001.
100.	Indian Secular Congress	202, Pocket-B, SFS (DDA Flats), Sukhdev Vihar, New Delhi – 110025.
101.	Indian Voters Welfare Party	No. 608, 14th Main, Gokula 1st Stage, Bangalore – 560 054, Karnataka.
102.	Indians Front	37-12-62, NGGO's Colony, P.R. Gardens, Visakhapatnam – 530 007 Andhra Pradesh.
103.	Istatantra Parisad	At Village/Mouza – Dibyasinghapur, Khata No. 638, Plot No. 1343, P.O. Rayagurupur, P.S. – Gadisagoda, District – Puri, Odisha
104.	J & K Citizen's Party	Heera Building, Abi Guzar, Lal Chowk, Srinagar, Jammu and Kashmir.
105.	Jaghat Telugu Munnetra Kazhggam	No.33, Halls Road, P.A. Tower, F-9 & 10, Egmore, Chennai-600008, Tamil Nadu.
106.	Jai Janata Janardan Party	Mohalla-Manohari Ganj, Mardan Naka Shahar Banda, Paragna & Distt. – Banda, Uttar Pradesh.
107.	Jai Samaj Bharatiya Samaj Party	Town Area Sadat, Post – Sadat, District – Gazipur, Uttar Pradesh.
108.	Jammu & Kashmir National United Front	Post Office Building, Amphalla Chowk, Karan Nagar, Jammu Tawi – 180 005, Jammu & Kashmir.
109.	Jammu & Kashmir Save Srinagar Front	Naib Mufti Azam Manzil, Tailbal Road, Habak Crossing, Srinagar – 190 006. Jammu and Kashmir.
110.	Jammu and Kashmir Awami League	B-24, Indra Nagar, Srinagar-190001, (Jammu & Kashmir).
111.	Jammu and Kashmir Democratic Party Nationalist	Kursoo Rajbagh, Srinagar-190 008, Kashmir.
112.	Jammu and Kashmir People Democratic Front (Secular)	Rajbagh, Near Little Angels School, Srinagar, Kashmir.
113.	Jan Ekta Party	147/5, Behind ITI, Shamsherpur, Paonta Sahib, Himachal Pradesh.
114.	Jan Lokmat Party	2, Hasrat Building, Adhyatmik Nagar, Beneath Rly. Fly Over, Dasna, Ghaziabad-201302 Uttar Pradesh.
115.	Jan Shanti Sangathan	AA-14, Chandan Van, Phase –1, Mathura, Uttar Pradesh-281001
116.	Jana Hitkari Party	A/13-14, Industrial Estate, Rasulgarh, Bhubaneswar-751 010, Orissa.
117.	Jana Unnayan Mancha	C/o Dolphin Engineering Co., 39, Shakespeare Sarani, Kolkatta-700017 (West Bengal).
118.	Janadesh Party	Radhey Niwas, Jarimari, Jagtap Wadi, Kurla Andheri Road, Mumbai – 400072.
119.	Jananayaha Munnetra Kazhagam	No.32, New Tank Street, Nungambakkam, Chennai-600034, (Tamil Nadu).
120.	Jathiya Telugu Abhivrudhi Seva Samuham	# 171, Kesavaigunta, Near S.G.S. Arts College, Tirupati -517501, Chittor District, Andhra Pradesh.
121.	Jharkhand Jan Morcha	IInd Floor, Ajmeri Tower, Mallah Toli, Ranchi – 834001, Jharkhand.
122.	Jharkhand Janadhikar Manch	Bhubaneshwari Lok, Kali Mandir Road, Vardman Compound, Ranchi – 834 001 (Jharkhand)
123.	Jharkhand Vananchal Congress	5, Ratu Road, Ranchi-834005, Jharkhand.
124.	Kaivinayger Munnetra Kazhagam	Sri Visweswara Bhavanam, 76, Millers Road, Kilpauk, Chennai-600010. (Tamil Nadu).

125.	Kamgar Samaj Dal	H. No.9/237, Mohalla : Raidipur, Post & Distt. Azamgarh, Uttar Pradesh.
126.	Karnataka Kranthi Dal	No.240, 16th Main, 6th Cross, Ist Phase, 2nd Stage, BTM (EWS) Layout, Bangalore-560076(Karnataka).
127.	Karnataka Thamizhar Munnetra Kazhagam	No.6, IInd Floor, Chick Bazar Road Cross, Shivaji Nagar, Bangalore-560051 (Karnataka).
128.	Kerala Janapaksham	PURA-36, Shyamala Nivas, Poojappura P.O., Thiruvananthapuram - 695012.
129.	Kisan Garib Nagrik Party	203, Markaz View, 2nd Floor, 24, Opposite Carrit Cinema, Jogeshwari (West), Mumbai-400103, MAHARASHTRA.
130.	Kisan Mazdoor Bahujan Party	J-1/2, Dali Bagh Colony, Lucknow(Uttar Pradesh).
131.	Kisan Vyawasayee Mazdoor Party	Prakash Bhavan, Narhi Bazar, Lucknow (Uttar Pradesh).
132.	Kongunadu Jananayaga Katchi	"Irai Arul" No. 24, Metha Layout, Laxmipuram, Peelamedu (PO), Coimbatore, Tamil Nadu – 641004.
133.	Kosal Party	G.M. College Road, Sambalpur-768004 (Orissa).
134.	Kranti Dal	132, Babujanj, Lucknow (U.P.).
135.	Kranti Parishad	House No.2019, Mistrikhan Road, Nahargarh Road, Jaipur (Rajasthan).
136.	Krantisena Maharashtra	5-A, Jyotisadan Shitladevi, Temple Road, Mahim, Mumbai, Maharashtra.
137.	Labour And Job Seeker's Party of India	66, Royapettah High Road, Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu).
138.	Lal Morcha	RZC-113, Vishnu Garden, Khayala, New Delhi – 110018
139.	Lattin Congress	Bavali, Post-Khash, Distt. Meerut-250621 (Uttar Pradesh).
140.	Lok Paritran	"Saubhagya" 12-13 Tilak Nagar -II, Mahamandir, Jodhpur-342010 (Rajasthan).
141.	Loko Sanmilon	P.O.-Jaleswar, Distt.-Goalpara, Assam.
142.	Loksena	63/H/S, Madan Mohan, Burman Street, Kolkatta-700007, West Bengal.
143.	Loktantrik Chetna Party	Mumtaj Manjil, Azad Nagar, Baanda. (Uttar Pradesh).
144.	Loktrantrik Janata Front	E-13/307, Press Complex, Jawahar Park, Vikash Marg, Laxmi Nagar, Delhi – 110092
145.	Mahagujarat Janta Party	A-203, Satyamev-1, S.G. Road, Opp. High Court, Ahmedabad, Gujarat.
146.	Mahakaushal Vikas Party	'Shanti Kutir' 281, Sanjivani Nagar, Jabalpur (M.P.).
147.	Mahanayak Sardar Patel Sangh	52/98, IInd Floor, Chittaranjan Park, New Delhi-110019.
148.	Makkal Congress Vazhapadiyar	18, Telugu Brahmin Street, Velacheri, Chennai-600 042, Tamil Nadu.
149.	Makkal Desiya Jananayaka Katchi	245/6, R.K. Mutt Road, Mylapore, Chennai – 600004, Tamil Nadu.
150.	Makkal Marumalarchi Munnetra Kazhagam	No. 13A, 1 st Floor, Thiagarajan Nagar, Kodungaiyur, Chennai - 600118, Tamil Nadu.
151.	Mana Party	5-4-719, Kattalamandi, Nampally, Hyderabad-500 001, Andhra Pradesh.
152.	Manipur People's Party (Democratic)	Qtr. No.1, Type-IV, Babupara, Imphal-795001 (Manipur).
153.	Maryadi Dal	Gram Chhoukarwada, Tehsil – Vair, District – Bharatpur, Rajasthan.
154.	Matra Bhakta Party	Raghunath Farm, Village + Post – Kundli, Sonapat, Haryana.
155.	MGR Thonderkal Katchi	No.18/33A, Vattavilai, Kappiyarai Post, Kanyakumari District-629156, Tamil Nadu.
156.	Mizoram Congress Party	Headquarters: Aizawal, Mizoram – 796 001.
157.	Naga National Party	Hd.Qtrs. Aja Daily Office, Church Road, Dewlahland, Imphal, Manipur.
158.	National Jankranti Dal	K-316, Near Bus Terminal, Opposite Qutub Minar, M.B. Road, Lado Sarai, New Delhi – 110030.
159.	National Progressive Party	House No.1080, Block-P/1, Sultan Puri Colony, New Delhi – 110041
160.	National Secular Party	C-20/B, 1st Floor, Green Park Extention, New Delhi-110 016.
161.	National Students Party	16/2, Karaneeshwarar Pagoda Street, Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu).

162.	National Vikas Party (India)	B-40/A-11, Ganapati, Paradise Central Spine, Vidhya Dhar Nagar,Jaipur-302023,Rajasthan.
163.	Nava Nirmana Nagarika Samithi	6/7/8, Shankarmutt Road, Basavanagudi, Bangalore-560004 (Karnataka).
164.	Nava Telangana Party	House No. 8-2-598/B, Road No.8,Banjara Hills, Hyderabad – 500 034.
165.	Netaji Subhash Party	Shajanwa, Distt. Gorakhpur (Uttar Pradesh).
166.	News Congress	Baimahal, 2nd Floor, Wadia Street, Tardeo, Mumbai – 400 034, Maharashtra.
167.	Niswarth Sewa Party	Ved Ayurvedic Store, Near Bus Stand,Mahendregarh, Haryana.
168.	Orissa Gana Parishad	A/52, Kharvela Nagar, Unit-III, Bhubaneswar-751001.
169.	Orissa Mukti Morcha	15, Bhouma Nagar, Unit-IV, Bhubaneswar-751 001, Orissa.
170.	Pahachan Mangalkari Party	L-II-56, Madangir, Delhi-110 062.
171.	Paschimi Prajatantra Morcha	386, Shahnatthan, Meerut, Uttar Pradesh
172.	Paschimi Uttar Pradesh Swaraja Party	Sardhana Road, Kankar Khara, Meerut (Uttar Pradesh).
173.	Patriot	28-Appavu Street, Cuddalore Port, Pin-607003, Tamil Nadu.
174.	People's Democratic Conference of India	Bankra, Post Office – Birati,Kolkata – 700051, West Bengal.
175.	Peoples Power Party	P.B.No.16, Shivaji Nagar Post Office, Mumbai-400043, Maharashtra.
176.	Plains Tribals Council of Assam	P.O. & T.O. Kokrajhar, Distt. Kokrajhar (Assam).
177.	Prabuddha Bharat Party	7A, Hospital Street, 1st Floor,Kolkata – 700072, West Bengal.
178.	Praja Bharath Party	Plot No. 106, Block 'A', Archana Appartments, East Marredpally, Secunderabad-500026 (Andhra Pradesh)
179.	Praja Chaithanya Party	1-7-578/31/2, Gemini Colony,Musheerabad,Hyderabad, Andhra Pradesh.
180.	Prajatantrik Lok Ekta Dal	3, Koutilya Marg, Patna – 800 001, Bihar.
181.	Progressive Party	B Block, Gali No.5, Shani Bazaar Road, Amrit Vihar, Burari, Delhi – 110084.
182.	Progressive People's Party	House No. -975,976, Shyam Colony,Budh Vihar Phase-II,Near Krishna Mandir,P.S. – Vijay Vihar, DELHI- 110086.
183.	Puducherry Padaippali Makkal Katchi	No. 4, First Street,Thendral Nagar,Puducherry - 605013.
184.	Punjab People's Party	14, Sector 28, Arun Vihar, Noida-201303 (Uttar Pradesh).
185.	Punjab Vikas Congress Party	Panj Peer Chowk, Jalandhar, Punjab.
186.	Punjabi Dal	H.No. BV/30A, Ramgarhia, Gurdwara Road, Barnala-148101. Distt. Sangrur (Punjab).
187.	Purvanchal Gan Parishad	House No. 34, Pocket-28, Sector-24, Rohini, Delhi-110085.
188.	Purvanchal Janshakti Party	Shree Vishveshwar Ashram Satuabhar,Post – Bihari Bujurg, Khajni, Gorakhpur-273 212, Uttar Pradesh.
189.	Purvanchal Vikas Party	L-131, Street No.5, Mahipal Pur Extn., New Delhi-110037.
190.	Puthiya Needhi Katchi	6, North Boag Road, T-Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
191.	Quami Janta Dal	9-B, Triloknath Road, Lal Bagh, Lucknow (Uttar Pradesh).
192.	Rajasthan Dev Sena Dal	Opposite to Bus Stand,Dhamai Haveli, Dudu, Jaipur, Rajasthan.
193.	Rajdal Haryana	D/S 45, Brass Market, Bawal Road, Rewari-123401, Haryana.
194.	Rashtrasamarjit Jansamooch	H-101, Ground Floor, Chandu Park, Krishna Naga, New Delhi-110051
195.	Rashtrawadi Samta Party	196/187 K, Village-Balipur Khurdwan,Tehsil- Gauriganj,Distt. Distt. Amethi, UTTAR PRADESH.
196.	Rashtrawadi Swarn Ekta Party	Plot No. 11, 2 nd Floor, Awadhपुरी Khand – I, Market Khargapur, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
197.	Rashtriya Agraniye Dal	Village – Khamona, Post – Resipur,P.S. – Jansa, District – Varansi, Uttar Pradesh.
198.	Rashtriya Awami Dal	152, Kazi Tola, Sailani Road,Old City, Bareilly-243005, Uttar Pradesh.
199.	Rashtriya Dehat Morcha Party	601, Rohit House, 3-Tolstoy Marg, New Delhi-110001.
200.	Rashtriya Ekta Vikas Party	Near Noor Masjid, Madina Masjid Transformer Wali Gali, Ashok Vihar Ward No.42, Loni, Tehsil and District - Ghaziabad, Uttar Pradesh.
201.	Rashtriya Hamara Dal	22/191, Dholi Khar, Mantola,Agra (Uttar Pradesh).

202.	Rashtriya Hindustan Sena, Karnataka	Shiva Shakti, 141, Behind New Bus Stand, Vasvi Nagar, Hubli-580030, Karnataka.
203.	Rashtriya Hith Congress	712, G-Block, Military Road, Karol Bagh, New Delhi – 110005.
204.	Rashtriya Indira Party	Dattपुरा, Near Subzi Mandi, Morena, (Madhya Pradesh).
205.	Rashtriya Jan Samanatawadi (Ambedkar)	71-B, Pocket A-3, Kalkaji Extension, New Delhi-110 019.
206.	Rashtriya Janandholan Paksha	“Powrabhavan”, No.567(38), 60 Ft. Road, Gokula Mathikere Layout, Bangalore-560054 (Karnataka).
207.	Rashtriya Janata Janardan Party	Suraj Ka-Purva, Atarrarural, P.O. Atarra, District Banda, Uttar Pradesh.
208.	Rashtriya Janhit Party	Kothi No.75, Sector-17, Panchkula-134 109 (Haryana).
209.	Rashtriya Jantantrik Party (Secular)	Flat No. 153-154, Vir Chand Patel Path, Patna-800001 (Bihar).
210.	Rashtriya Kamgar Party	B.W – 97 D, Shalimar Bagh, Delhi – 110088
211.	Rashtriya Kamjor Varg Party	Central Office: Post Office Building, Lal Bahadur Shastri Nagar, Post Office (Upper Floor) Patna-800023 (Bihar).
212.	Rashtriya Krantikari Janata Party	407, Durga Chambers, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005.
213.	Rashtriya Lok Jagriti Party	Near Bk. No. 27, Opp. Budh Vihar, Bhim Nagar, Ulhasnagar – 421 001, Distt. Thane, Maharashtra.
214.	Rashtriya Lok Seva Morcha	206, Lovekush Tower, Exhibition Road, Patna-800 001, Bihar.
215.	Rashtriya Lokhit Party	A-40/35A, Amarpur Madiya, Varanasi, Uttar Pradesh.
216.	Rashtriya Machhua Samaj Party	Railway Road, Dadri, Near Ravaji Farm House, Gautam Budh Nagar (Uttar Pradesh)
217.	Rashtriya Manav Adhikar Party	17/700, Village-Gopalpur, Post-Azadpur (Timarpur), Delhi-110009.
218.	Rashtriya Pragatisheel Prajatantra Party	3518, Daribapan, Opposite to Sheela Cinema, Paharganj, New Delhi-110055.
219.	Rashtriya Rajdhani Congress Delhi	8, Nath Market, Nai Sarak, Delhi-110006.
220.	Rashtriya Samadhaan Party	121-A, R-3/A-2, Mangal Bazar Mohan Garden, New Delhi - 110059.
221.	Rashtriya Samajwadi Party 'Pragatisheel'	B-248, Mohan Nagar, Thatipur, Morar, Gwalior (Madhya Pradesh).
222.	Rashtriya Sarvasamaj Party (India)	Plot No. 256, Mithila Dham Rahivashi Sangh, Opp. Jery Verghese Termate Company, Gen. A.K. Vaidya Marg, malad (East), Mumbai-400097, Maharashtra.
223.	Rashtriya Sawarn Shakti Party	299, Ground Floor, Gagan Vihar, Delhi – 110051
224.	Rashtriya Sindhi Congress	437/B/1, Rubia House, B/H, Ellis Bridge Shopping Centre, Ashram Road, Ahmedabad-380 006, Gujarat.
225.	Republican Labour Party	Block-4, House No. 236, 7th Mile Chumukedima, Dimapur-797103, Post Box –354, Nagaland.
226.	Republican Presidium Party of India	Uruli-Kanchan, Pune-412202 (Maharashtra).
227.	Samajik Ekta Party	22, Housing Board Colony, Sonipat-131001 (Haryana).
228.	Samajik Jantantrik Party	Mukam Raja Market, Cinema Road, Gopalganj Nagar Palika Post, Gopalganj-841428, Distt. Gopalganj (Bihar).
229.	Sampoorna Kranti Dal	Village – Khajoori Kalan, Post – Khajoori Khurd, Koraon, Allahabad, Uttar Pradesh
230.	Sanyukt Dastkar Party	P-205, Basti Khwaja Meer Dard, Barron Road, New Delhi-110002.
231.	Sarav Samaj Vikas Party	Bamba Road, Sailai, Post Office – Sailai, District – Firozabad, Uttar Pradesh.
232.	Sarvahara Samaj Party	68-A Block, Darulshafa, Lucknow (Uttar Pradesh).
233.	Sarvochcha Rashtriya Vikas Mahaparishad	C-90, DDA Flat, West Gorakh Park, (New Jafrabad) Shahdara, Delhi-110032.
234.	Satya Vijay Party	101-C, Press House, 22, Phiroz Gandhi Press Complex, Agra – Mumbai Road, Indore – 452 008, Madhya Pradesh.
235.	Satyavadi Paksh	Room No. 4-5, Oriyan Complex, Opp. Hotel Rajdhani, Railway Station Road, Aurangabad-431005 Maharashtra.
236.	Secular Democratic Labour Party of India	6-2-44/3A, Jammibanda Street, Khammam-507001 Andhra Pradesh.
237.	Shetkari Vichar Dal	49, Mamta, Anandnagar Co-op. Housing, Gulmohar Road, Savedi, Ahmednagar-414001, Maharashtra.
238.	Shiromani Youth Akali Dal (Kahlon)	5/5051, Shakti Nagar, Khandwalla, Chaharta, Amritsar (Punjab).

239.	Shoshit Samaj Adhikar Party	Tehsil – Kole, Thana – Gandhi Park, Janpad – Aligarh, Uttar Pradesh – 202001.
240.	Shree Bharat Vikas Paksh	220, Shreeji Complex, Near Ellisbridge Post Office, Ashram Road, Ahmedabad – 380 006(Gujarat).
241.	Sikkim Gorkha Prajatantric Party	Shimma Building, P.O. & P.S. Singtam, East Sikkim-737 134 (Sikkim).
242.	Sikkim Himali Rajya Parishad Party	Tulsikunj Building, Near Telephone Exchange, P.O. – Dara Gaon, 31-A, National Highway, Tadong Bazar, Tadong, Gangtok - 737102, Sikkim.
243.	Sikkim Jan-Ekta Party	Tinzir, Namchi, South Sikkim – 737 126
244.	Sikkim Liberation Party	Tintek, East Sikkim, Gangtok, Sikkim – 737134
245.	Sikkim Sangram Parishad	Deorali Bazaar, P.O.- Tadong, Gangtok, Sikkim- 737102.
246.	Sinh Jan Sena Party	Near Public Library, Veraval-362265 (Gujarat).
247.	Sirpanch Samaj Party	T-47, Old Nangal, Delhi Cantt-110 010.
248.	Suraaj Party	6-81, Office Building, Vishal Estates, Village – Annaram, Mandal – Jinnaram, District – Medak, Andhra Pradesh – 502313
249.	Swaraj Dal	No.4 Stop, Pattar Gudda, Post-Garaheharama, Port Blair-744101 (Andaman & Nicobar Islands).
250.	Swarna Yuga Party	No. 26, “ Amma” Ist Main Road, Dollars Colony, RMV 2nd Stage, Bangalore – 560 094, Karnataka.
251.	Swatantra Adarshwadi Bhartiya Kranti Party	Village & Post- Lutuhi, Yanha Mahuli, Distt.- Sant Kabir Nagar, Khalilabad, Uttar Pradesh.
252.	Tamil Maanila Quaide Milleth League	579, Anna Salai Teynampet, Chennai – 600 006, Tamil Nadu.
253.	Tamilina Vidiyal Pulikal Iyakkam	Annai Illam, Pallavan Nagar, Third Street, Theni Main Road, Madurai-625 016, Tamil Nadu.
254.	Tamilnadu Jananayaka Congress	327, Lloyds Road, Royapettah, Chennai – 600 014, Tamil Nadu.
255.	Tamizhar Party	8/43, M.T.C. Road, Mattur Dam, 1, Salem District, Chennai-600017 (Tamil Nadu).
256.	Thanthai Periyar Dravida Munnetra Kazhagam	23, Alagappan Street, Thenkarai Periyaklam, District - Theni, Tamil Nadu - 625601.
257.	Tippu Sultan National Republic Party	No.24, Ist Main, 13th Cross, Bapujinagar, Mysore Road, Bangalore – 560 026 Karnataka.
258.	Trikinga Congress	Palanka Koligadia, P.O.- Gunthuni Barchana, District- Jajpur, Pin- 754024, Odisha.
259.	Trilinga Praja Pragati Party	B-118, Madhuranagar, S.R. Nagar post, Hyderabad-500038, Andhra Pradesh.
260.	Trinamool Gana Parishad	Ananda Plaza Complex, 4th Floor, Ganeshguri Chariali, Gawahati-781006 (Assam).
261.	United Bodo Nationalist Liberation Front	C/o Deori Bora, Rambhapuri, Kahilipara, Guwahati, (Assam).
262.	United India Peoples Party	Manjamattam, Moozhoor P.O., Kottayam Distt. (Kerala).
263.	United Indian Democratic Council	No.1205, II-Stage, Rajaji Nagar, Bangalore-560010 (Karnataka).
264.	United Minorities Front, Assam	Ulubari, Guwahati-781007 (Assam).
265.	United People's Democratic Party (Socialist)	Tangkhul Avenue, Imphal, Manipur-795001.
266.	United Peoples Party of Assam	S.S. Road, Lakhtokia, Guwahati-781001, Assam.
267.	United Reservation Movement Council of Assam	Post Box No. 2, P.O.Rehabari, Guwahati-781008 (Assam).
268.	United Tribal Nationalists Liberation Front	Deulguri, Harisingh Darrong-784510 (Assam).
269.	Urs Samyuktha Paksha	No. 46, Palace Road, Bangalore – 560 001, Karnataka.
270.	Uttarakhand Sanskriti Parishad	D-355, Vinod Nagar (West), Delhi-110092.
271.	Uttarakhand Sena Party	Jai Matadi Apartment, 10/1, Near Shankar Mandir, Juna Kalwa, Bela Road, Kalwa, Thane (W), Maharashtra-400605.
272.	Uttarkhand Janwadi Party	53-K, Rajpur Road, Dehradun, Uttaranchal.
273.	Vidarbha Vikas Party	Block A, Second Floor, Poonam Chambers, Chhindwara Road, Nagpur-13 (Maharashtra).
274.	Vidharbha Rajya Party	Kamgar Bhawan, Near Baidyanath Chowk, Great Nag Road, Nagpur-3, Maharashtra.
275.	Vidhayak Dal	HIG-205, Sector-1, Vikas Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
276.	Vikas Parishad	62A, Shastri Colony, Ambala Cantt. Haryana – 133001.

277.	Vishwa Vikas Sangh	F-53/F-1, Dilshad Colony, Delhi – 110 095.
278.	Vivasayi Anbhu Katchi	No.14, Raghava Nattan Street, Uthiramerur-603 406, Tamil Nadu.
279.	War Veterans Party	A/301-302, Pearl Aptt., I.C. Colony, Borivali (West), Mumbai-400 103, Maharashtra.
280.	West Bengal Pragatishil Indira Congress	68 – B, A.P.C. Road, Kolkata – 700 009, West Bengal.
281.	Youth Brigade	Village Kakgachi, P.O-Bhanderhali, District Hooghly, West Bengal.
282.	Yuva Jagriti Dal	3-B, Prayosha Flats, Near Gymkhana, Sector-19 Gandhinagar-382019, Gujarat.

**Vide Order of Commission dated 25.05.2022, 20.06.2022 & 13.09.2022, these RUPP's have been 'de-listed after due verification and having been sent notice. They have been given opportunity to respond against the interim order of ECI which includes the denial of a common symbol. All CEOs'/ROs' are advised that in case any "delisted RUPP" approaches for common symbol, proper due diligence and process as laid down in the ECI Order of 25.05.2022, 20.06.2022 & 13.09.2022 needs to be followed. As their address is non-existent, Form A & B required to claim a 'common symbol' also becomes inoperative for de-listed RUPPs.*

TABLE – I (C)
INACTIVE REGISTERED UNRECOGNIZED POLITICAL PARTIES [RUPPs]**

Sr.No.	Name of RUPP	Headquarter of RUPP
1.	Aadarsh Janhit Party	Hathi Wali Gali, H. No. 22, Ward No. 9, Asfabad, Firozabad, Uttar Pradesh – 283203
2.	Adhunik Vikaswadi Party	D-1/425, Sector-H, L.D.A. Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.
3.	Ahinsa Dal	Sikarwar Sadan, L-1/108, 109 Sector-B, Priyadarshini Colony, Sitapur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.
4.	Aims Party	Azad Chowk, Piprahi Bazaar, Post – Piprahi, Distt. - Sheohar BIHAR-843334.
5.	Akhand Bharat National Party	22-3-947/33/A/1/1, Mega City No.125, Purani Haveli, Opp. Setwin Office, Hyderabad-500002, Andhra Pradesh.
6.	Akhand Desham Party	6, Dwarkapuri, Sector-8, Indira Nagar, Lucknow-226016, Uttar Pradesh.
7.	Akhand Jharkhand People's Front	At & P.O.- Gidhaur, Distt. Jamui, Bihar – 811305.
8.	Akhil Bharatiya Aman Committee	1/9986, West Gorakh Park, Shahdara, Delhi-110032.
9.	Akhil Bharatiya Atyant Pichhara Sangharsh Morcha Party	Transformer Lane, North Nawada, Ara, District – Bhojpur, Bihar-802301.
10.	Akhil Bharatiya Azad Party	Phawwara Tiraha, Nai Sarak, Shajadpur, Akbarpur-224122 Janpad-Ambedkarnagar, Uttar Pradesh.
11.	Akhil Bharatiya Desh Bhakt Morcha	Puranderpur G.P.O., Patna (Bihar).
12.	Akhil Bharatiya Manav Adhikar Dal	1602, D.D.A. Janta Flats, G.T.B. Enclave, Delhi-110093.
13.	Akhil Bharatiya Manav Seva Dal	A-74, Sector-12, Noida (U.P.).
14.	Akhil Bharatiya Ram Rajya Parishad (Prem Ballabh Vyas)	Shri Krishna Bodh Dham, 7, Shankracharya Marg, Civil Lines, Delhi – 110054.
15.	Akhil Bhartiya Lok Dal	A-1, Main Road, Gokal Puri, Near Aggarwal Sweet Corner, Shani Sai Mandir, Delhi – 110094
16.	Akhil Bhartiya Loktantrik Congress	F-3, Park Road, Lucknow (U. P.).
17.	Akhilandra Mahadesam	Door No. 2-9-53, Nawabpet, Medak – 502 110, Medak District, Andhra Pradesh.
18.	All India Athithanar Makal Katchi	H.O. 24, Thangam Colony, Annagar Weat, Chennai-40, Tamil Nadu
19.	All India Bahujan Samman Party	107, Tikri Kalan, New Delhi-110041
20.	All India Mukti Dal Party	Plot No. 158/1, H. No. 37-93/55/1, Road No.3, Mathuranagar, Neredmet 'X' Roads, Secunderabad-500094, Andhra Pradesh.
21.	All India Party for the Protection of Civil Rights	100 A/5, 11th Sector, 66th Street, Ponnambalam Salai, K.K. Nagar, Chennai – 600 078
22.	All India Rajiv Krantikari Congress	B- 58, Gali No. 18, Jitar Nagar, New Delhi – 110051.
23.	All India Singaravelar Munnetra Kazhagam	No. 2/305, Singaravelar Nagar, Neelangarai, Chennai – 600 041, Tamil Nadu.

24.	All India Tamil Makkal Munnetra Kazhagam,	No. 25, Veerapandi Street, Perambur, Chennai-600 039,Tamil Nadu.
25.	All Indians' Gandhi Congress	212, Kalika Nagar, Andrahalli, Main Road, Bangaluru-560058, Karnataka.
26.	Ambedkar National Makkal Katchi	Door No. 53, Gandhi Road, (formerly Peeran Lane), Thirupattur, Vellore District, Pin-635601 Tamil Nadu.
27.	Ambedkar Samaj Party	304, Mandakini Enclave, Alaknanda, New Delhi-110019.
28.	Andhra Pradesh Navodaya Praja Party	No.3-11, Thukkuguda, Village, Maheshwaram Mandal, Mankhal Post, Ranga Reddy District (Andhra Pradesh).
29.	Antarrastriya Swarn Congress Party	Village & Post – Sarakara Vishnoi, Vikas Khand – Dilari, Tehsil – Thakurdwara, District – Moradabad, Uttar Pradesh - 244401.
30.	Ati Picchra Party	Mohalla- Badi Pahadi, PO-Sohsarai, Thana-Laheer, Zila-Nalanda-803118, Bihar.
31.	Ati Pichhda Varg Mahasangh	3/1274, Jankipuram Vistar, Sitapur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.
32.	Azad Hindustan Party	E Block – 265, Yadav Nagar, New Delhi – 110042.
33.	Bahujan Samaj Mukti Morcha	H. No. B-198, Gali No. 11, Ground Floor, Bhajanpura, Delhi-110053.
34.	Bahujan Uday Manch	Village: Chalakpur, Post – Jameen Rasoolpur, Distt. Ajaigarh, Uttar Pradesh.
35.	Best Class Party	House No. 94, Mohalla Alwal, Sadar- Azamgarh, Uttar Pradesh-276001.
36.	Bharat Abhyudhaya Party	6-6-35, Anasuya Nilayam, Kavadiyuda Main Road, Kavadiyuda, Secunderabad, Andhra Pradesh – 500380
37.	Bharat Bhrashtachar Mitao Party	New House No.4, Ground Floor, Begam Vihar, Block – A, Khasra No. 16/19, Village – Begampur, Near Bhairon Mandir, DELHI - 110086.
38.	Bharat Deshbhakt Sangathan	19/460, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226016
39.	Bharat Mangalam Parishad	Jamo Bazar, Hospital Chowk, P.O. Jamo Bazar, District Siwan, Bihar.
40.	Bharat Punarnirman Dal	K.J. – 116, Kavi Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
41.	Bharathiya Nethaji Party	3857, 4th Cross, Gayathri Nagar, Bangalore-560021 (Karnataka).
42.	Bharathiya Praja Shakti	No. 931,932, Karabala Maidana, Railway Station Cross Road, Channapattna Town & Taluk, Ramanagara District, Pin-571501 KARNATAKA.
43.	Bharatiya Jagriti Dal	RZ-21D, Gali No.4, Syndicate Enclave, Near Dabri Mode, Delhi - 110045.
44.	Bharatiya Janvadi Party	A-559, Shastri Park Extn., Buland Masjid, Delhi-110053.
45.	Bharatiya Krantikari Dal	A-5, Priyadarshini Vihar, NEW DELHI - 110092.
46.	Bharatiya Navyuvak Chetna Party	429/263, Near Amber Marriage Hall, Mojjanagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
47.	Bharatiya Ravidas Party	Moh.Kundigarh, Post-Sadar, Ajaigarh, Uttar Pradesh.
48.	Bharatiya Satya Vijayee Party	C- 120, Begam Vihar Extension, Begampur, Delhi-110086.
49.	Bharatiya Uttam Sena	Village & Post – Kheddhain, Thana – Aander, Distt. – Siwan, Bihar.
50.	Bhartiya Deshbhakt Party	92/H/2, Pratap Market, Munirka (C/o Somu Press), New Delhi-110067.
51.	Bhartiya Gramvasi Party	Village – Vikrampur Banspar (Mani Chouraha), Post – Baitalpur, District – Deoria, Uttar Pradesh
52.	Bhartiya Jan Seva Party	Sharif Market, Hardoi Road, Sikrori, Post: Kakori, Lucknow, Uttar Pradesh-227 107.
53.	Bhartiya Mazdoor Kisan Congress Party	D-40, Meerut Road, Industrial Area, Ghaziabad-121003 Uttar Pradesh.
54.	Bhartiya Naujawan Inklav Party	2/26, Mandauli Extension, Mandauli Chungi, Shahdara, Delhi-110093
55.	Bhartiya Nojawan Dal	H.No.882, Street No.16, Phase - 4, Pushkar Vihar, Shiv Vihar, Karawal Nagar, Delhi – 110094
56.	Bhartiya Prajatantra Nirman Party	7/7/47-A, New Colony Lal Bagh, Post Office, Faizabad, UTTAR PRADESH
57.	Bhartiya Rajnitik Vikalp Party	Village – Nayatola Bariapur, Panchayat – Champapur, Ward No. 13, Thana – Bakhtiyarpur, District - Patna, Bihar.

58.	Bhartiya Samajik Nyay Morcha	Ward No.3, Vikas Nagar, Robertsganj, Janpad – Sonbhadra, Uttar Pradesh – 231216
59.	Bhartiya Sanvaidhanik Janhit Party	Virk Gold Farm, Village – Sarayjoga, Post- Kantha, Nawabganj, Unnao, Uttar Pradesh.
60.	Bhartiya Sarvsamaj Party	Lal Singh Kachri Wala, Shani Bazar Wali Gali, Tunda Nagar, Johri Pur, Delhi.
61.	Bhartiya Shakti Dal	D – 236, Vivek Vihar, Delhi - 110095.
62.	Bhartiya Shanti Kranti Party	1/80, Ratan Vihar, Kiradi, Nangloi, New Delhi – 110041.
63.	Bhartiya Shramik Party	79/4, Juhi Safed Colony, Saket Nagar, Kanpur Nagar – 208014, Uttar Pradesh.
64.	Bundelkhand Akikrit Party	Bundeli Sadan, Gram & Post - Satari, Zila – Mahoba, Uttar Pradesh
65.	Bundelkhand Mukti Morcha	Sh. Sukhlal Ice Factory Bhavan, Elite Chouraha, Jhansi-284001 (Uttar Pradesh).
66.	Christian Mannetra Kazhagam	93, Thaiyappa Mudali Street, Chennai-600001 (Tamil Nadu).
67.	Dalit Samaj Party	Navchetna Path, Shiv Puri P.O. Anishabad, Patna-800 002 (Bihar).
68.	Delhi Parivartan Party	E-37, Tagore Garden Extention, New Delhi – 110 027.
69.	Desh Bhakt Party	B-114, Preet Vihar, Delhi- 110092.
70.	Desia Pathukappu Kazhagam	“ARIVAGAM” 33, Ramakrishna Street, Gandhi Nagar, Saligramam, Chennai-600 093 (Tamil Nadu).
71.	Elatchia Dhiravida Munnetra Kazhagam	‘ELATCHIAGAM’ 4-A, Hindi Prachar Sabha Street, T. Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
72.	Gandhiwadi Rashtriya Congress	Teachers Colony, Tehsil Road, Mahoaria, Post Mahoaria Town and Distt. Mirzapur (Uttar Pradesh).
73.	Garib Raj Party	H. No. 748A, Jharkhandi Kayasthwada, Sikandrabad, District – Bulandshahar, Uttar Pradesh.
74.	Garib Samaj Party (Shoshit)	Hajipur Malipur Road, Near Ram Janaki Mandir, Shankargarh, P.S. & Tehsil – Jalalpur, District – Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh-224149.
75.	Garib Vikas Party	Professor’s Colony, Belbanwa, Motihari, Bihar – 845401.
76.	Gorkha Janmukti Morcha	North Point, Singamari, Darjeeling – 734104, West Bengal.
77.	Hamara Dal	C-112, Sector-G, L.D.A. Colony, Kanpur Road, Lucknow-12, Uttar Pradesh.
78.	Hind Kisan Mazdoor Party	31/419, Kela House, Maharana Pratap Nagar, Agra-4. (U.P.).
79.	Hindustan National Party	No. 103/68, College Road, Nanganallur, Chennai-600 114, Tamil Nadu.
80.	Hindustani Swaraj Party	69, Ashok Mohalla, Nangloi, Delhi – 110041.
81.	Indian Bahujan Sandesh Party (Kanshiram)	B-525, Guru Harikishan Nagar, New Delhi.
82.	Indian Democratic Republican Front	House No.-404, Sanjay Colony, Arthala Mohan Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
83.	Indian Justice Party	5, Pusa Road, IIIrd Floor, Karol Bagh, New Delhi –110 005.
84.	Indian National Green Party	A/44, Paryavaran Complex, Saidulazaib, New Delhi-30.
85.	Indian Oceanic Party	K-316, M.B.Road, Lado Sarai, New Delhi-110030.
86.	Indian People’s Congress	79, Lawyers Chambers, Supreme Court, New Delhi-110001.
87.	Indian Youth Party	7/545, Vikas Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
88.	Inqalab Party of India	Mohalla Paschimi Lakhpeda, Town & Post – Mohammadi, Distt. Lakhimpur Khiri – 262 804 Uttar Pradesh.
89.	Inqalab Vikas Dal	92, Village Gawandi, Near Sardar Patel Park, Ghonda, Delhi.
90.	Jaganmay Nari Sangathan	Sector-21/5, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
91.	Jagrat Bharat Party	101, Vidhayak Niwas, Rajender Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
92.	Jai Jawan Jai Kisan Mazdoor Congress	WZ-553-A/3, Soni Kunj, Nangal Raya, New Delhi-110046.
93.	Jan Adhikar Manch	9 Shivakhand, Jhilmil, Delhi-110095.
94.	Jan Bhavana Party	C-103, Ganesh Nagar, Pandav Nagar Complex, New Delhi – 110092.
95.	Jan Ekta Dal	Gher Katebaz Khan, Near Masjid Kale Khan, Rampur, Distt. Rampur – 244 901, Uttar Pradesh.
96.	Jan Kranti Swatantrata Party	226/27, Street No.-6, Mahavir Nagar, Firozabad, Uttar Pradesh.
97.	Jan Lok Kalyan Party	Village & Post: Butrada, Tehsil: Shamli, Distt. Muzaffar Nagar, Uttar Pradesh.

98.	Jan Morcha	1, Teen Murti Marg, New Delhi-110001.
99.	Jan Samarthan Dal	12, Krishna Vihar, Jwala Nagar, Rampur, Uttar Pradesh.
100.	Jan Sangram Party	House No. 482, Sector – 3 A, Awas Vikas Colony, Bodla, Agra - 7, UP.
101.	Jana Priya	A/2, Kastel, 5, Cornwell Road, Bangalore-560025 (Karnataka).
102.	Janata Vikas Manch	C/216, Awas Vikas Colony, Meera Bhawan, Pratapgarh, UTTAR PRADESH.
103.	Janlok Rashtriya Party	452, Sector –19, Dwarka, New Delhi.
104.	Jansatta Party	L-14, Mahendra Park, Adarsh Colony, New Delhi-110 003.
105.	Janshoshit Samaj Party	A-618/7, Street No. – 8, Bhajanpura, Delhi - 110053
106.	Kamarajar Adithanar Kazhakam	6-E, Sasthan Koil Street, Pudhukudieruppu, Nagercoil-629001, Tamil Nadu.
107.	Kannada Naadu Party	54, Ground Floor, Parasana Colony, Basaveshwar Nagar, Gokul Road, Hubli – 580030, Karnataka.
108.	Kongu Nadu Munnetra Kazhagam	320, Best Complex, Kumaran Road, Tirupur-641601, Coimbatore (District), Tamil Nadu.
109.	Kosi Vikas Party	Machhli Bhawan, Dr. Ambedkar Marg, At.+P.O. & Distt. Khagaria, Bihar – 851204.
110.	Labour Samaj Party	Chamber No. 91, Civil Court, Rajnagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
111.	Laghujan Samaj Vikas Party	Badapura, Lalitpur, Uttar Pradesh.
112.	Lenin Communist Party	20, Bharathinagar, Alagappapuram, Karaikudi – 630003, Tamil Nadu.
113.	Lok Janhit Party	Village – Daloopur Sultanpur, Post – Prempur, Janpad – Kannauj, Uttar Pradesh.
114.	Lok Shakti	83, Lodhi Eastate, New Delhi-110003.
115.	Lok Vikas Party	41, Vigyan Vihar, Delhi-110092.
116.	Loknaya Party	172/3 C, East Moti Bagh, Sarai Rohilla, Delhi-110 007.
117.	Maanila Konghu Peravai	No.41, Narayanaguru Road, Saibaba Colony, Coimbatore-641011, Tamil Nadu.
118.	Maha Loktantra Party	Shop No. 4, Basant Ganga Market, H. No. 762/ 648, Purana Katra, Allahabad – 211002, UP.
119.	Mahila Adhikar Party	29-A, Naharpur, Sector-7, Rohini, Delhi-110085.
120.	Manav Samaj Party	9538, Gausala Baradari, Kishanganj, Delhi-110006.
121.	Marxist Co-ordination	Temple Road, Purana Bazar, Dhanbad, Distt. Dhanbad, Jharkhand-826001
122.	Momin Conference	47/26, Waris Plaza, Hussain Ganj, Vidhan Sabha Marg, Lucknow-226001, Uttar Pradesh.
123.	Musalsal Iman Samaj Party	261, Chakki Wali Gali, Railway Road, Bazaria, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
124.	Muslim Majlis Uttar Pradesh	Sultan Manzil, Takia Peer Jaleel, Lucknow (Uttar Pradesh).
125.	Namadhu Dravida Iyakkam	SCC Anthony Pillai Illam, New No.41, Old No.18, 7th Cross Street, Shenoy Nagar West, Chennai – 600030, Tamil Nadu.
126.	National Lokhind Party	C-1375, Rajajipuram, Lucknow-226017, Uttar Pradesh.
127.	National Sarvasamaj Party	H. No. 66, Khasra No. 1995, Iqbal Colony, Near of Sana Masjid, Village – Pasaunda, Pargna – Loni, Tehsil & District – Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201001
128.	National Welfare Party	16, Nehruji Nagar, Karupparayan, Koil Street, Samundipuram South, Tripur - 641603, Tamil Nadu
129.	Nationalistic Telangana Rashtra Samithi	23-6-431/1, Gowlipura, Hyderabad – 500265, Andhra Pradesh.
130.	Nav Yuvak Dal	Village - Tikra, Post – Ghunghter, Tehsil – Fatehpur, District - Barabanki, Uttar Pradesh – 225302
131.	Navbharat Nirman Party	30, DSIDC Complex, Mata Sundri Road, New Delhi-110 002.
132.	Nelopa (United)	B.D.O. Building, Durga Devi Marg, Sheesh Mehal, Hussenabad Chowk, Lucknow (Uttar Pradesh).
133.	New All India Congress Party	A-138, Main Vikas Marg, Shakarpur, Delhi – 110092.
134.	New Democratic Party of India	2nd Floor, 9A/83, W.E.A., Karol Bagh, NEW DELHI-110005.
135.	Party Kisan Mazdoor Vyapari	Railway Road, Hathras Junction, Mahatma Prakritik Chikitsalya, Nangla Hira, Hathras Junction, Mahamaya Nagar, Hathras, (Uttar Pradesh).
136.	People's Democratic Forum	C-177, Sector 'J', Aliganj, Lucknow (Uttar Pradesh).

137.	Peoples Movement of India	-9/215/15, Yojna – 3, Aavas Vikas Colony, Jhoonsi, Allahabad, Uttar Pradesh – 211 019.
138.	Pragatisheel Party	111, Badshah Nagar, Lucknow-226007(Uttar Pradesh).
139.	Praja Party	3-5-898/1, Himayatnagar, Hyderabad-500029 (Andhra Pradesh).
140.	Prajatantrik Bahujan Shakti Dal	T-1, Shriram House, 117 H-2/52, Pandunagar, Kanpur, Uttar Pradesh.
141.	Progressive Democratic Party	Village and Post- Surjawali(Salempur), District-Bulandshahar-203001, Uttar Pradesh.
142.	Public Development Party	Murlipur Shekh Salah Takiya, Chinhat, Lucknow, Uttar Pradesh.
143.	Purvanchal Rajya Banao Dal	374, Bakshipur, (Near the North of Power House), Distt. - Gorakhpur, Uttar Pradesh.
144.	Rashtravadi Bahujan Kranti Party	Mohalla – Chiranjilal, Town – Afzalgarh, Tehsil – Dhampur, District – Bijnor, Uttar Pradesh – 246722.
145.	Rashtrawadi Jantantrik Party	Ambar Villa, 127/660, W-1, Saket Nagar, Kanpur-208014, UTTAR PRADESH.
146.	Rashtrawadi Labour Party	D-12/104, Sector-8, Rohini, Delhi – 110085
147.	Rashtrawadi Sena	Main Shahdra Chowk, Delhi – 110032
148.	Rashtriya Aman Sena	Aman House, Sanjay Gandhi Nagar, Road No. 9, Shiwaji Nagar No. 2, Govandi, Mumbai, Maharashtra-400043.
149.	Rashtriya Gramin Party	Village Chakershanpur (Kemrala), P.O. Ghorl Bachera (Dadri), District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
150.	Rashtriya Hind Sena	158/1, Dev Nagar, District Firozabad - 283203, Uttar Pradesh.
151.	Rashtriya Jan Sansad	Shakti Nagar, Old G.T.Road, Khurja, Distt. – Bulandshahar-203131, UTTAR PRADESH.
152.	Rashtriya Jan Sewak Party	Village : Nangla Jamalpur, Post : Panchli Khurd, Baghpat Road, Meerut, Uttar Pradesh.
153.	Rashtriya Janrakshak Party	Village – Birjapur, Post – Aduki, Distt. Mathura UTTAR PRADESH
154.	Rashtriya Jansangh	Old 20, New 35, Victoria Park, Sports Colony, Meerut, Uttar Pradesh
155.	Rashtriya Janta Congress	12, Siri Fort Road, New Delhi – 110049
156.	Rashtriya Jantantra Paksh	24, Star Apartments, Vidya Vihar Marg, Sector – IX, Rohini, Delhi – 110085
157.	Rashtriya Lok Nirman Party	M-12, Mir Vihar, Madan Pur Dabas DELHI.
158.	Rashtriya Lokmanch	1303, Naurang House, B-Block, 21-Kasturba Gandhi Marg, NEW DELHI-110001.
159.	Rashtriya Lokshahi Party	Survey No. 40/1, 40/2 & 40/3, House No. 411 & 412, Village – Beed Budhruk, Taluka – Karjat, District - Raigad, Maharashtra.
160.	Rashtriya Loktantrik Sambhav Secular Party	H. No. 411, Krishna Bihari Nagar, Banda Sagar Road, Varma Tiraha, District & Tehsil – Fatehpur, Uttar Pradesh.
161.	Rashtriya Parivartan Dal	B-4A/25, Rana Pratap Bagh, Delhi-110007.
162.	Rashtriya Peace Party	17G/322, Sector – 17, Vasundhara, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
163.	Rashtriya Prajantantrik Party	House No. 38, Gram-Janaur, Post-Kandhikala, Janpad-Jaunpur, Uttar Pradesh.
164.	Rashtriya Sadhu Vichar Council	Raidipur New, Officer Colony, Nyay Marg, Azamgarh, Uttar Pradesh.
165.	Rashtriya Samajwadi Party (United)	9, Community Centre, Ashok Vihar, Phase-II, Delhi-110052.
166.	Rashtriya Samdarshi Deshbakt Dal	Khushkari Sadan, Anand Nagar, Mandi Road Tiraha, Kasganj, Kanshiram Nagar, Uttar Pradesh.
167.	Rashtriya Samyawadi Aryan Party	570/20, Virat Nagar, Alam Bagh, Lucknow-226005, Uttar Pradesh.
168.	Rashtriya Sangharsh Party	Faridabad, Sujanganj, Jounpur-22201 Uttar Pradesh.
169.	Rashtriya Sarvjan Samaj Party	Village & Post – Mandhata, Tehsil – Sadar, Distt. – Pratapgarh, Uttar Pradesh.
170.	Rashtriya Viklang Party	114, DDA Pocket –2, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110045.
171.	Rashtriya Yuva Sangh	B-117, Gali No. 6, East Vinod Nagar, Delhi-110091
172.	Rastriya Praja Chakravyuha Party	No. 73, Shanthinikethanam, D.K. Halli Main Road, Palar Nagar, BEML Nagar Post, Bangarapet Taluk, Kolar District, Karnataka - 563115.
173.	Republican Party of India (Kamble)	A, 703, Suryakiran Co. Op. Housing Society, Plot No. 12&13, Sector-5, Ghansoli, Navi Mumbai- 400701, Maharashtra.
174.	Gareebjan Samaj Party	B-8, New Sai Plaza, Kankarkhera, Sardhana Road, Meerut – 250001, Uttar Pradesh

175.	Revolutionary Democratic Party of India	5221, Street No. – 115, B – Block, Sant Nagar, Burari, Delhi – 110084.
176.	Sab Samaan Party	House No. 95 K, Village – Sarsanda, Post – Gopramau, Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh
177.	Sadbhavana Party	Room No.14, Ist Floor, Lucknow Hotel, Sri Ram Road Choraha, Aminabad, Lucknow-226018 (Uttar Pradesh).
178.	Sakhthi Baratha Desam	2/58, Vairavan Chetty Store, Pachiyamman Padithurai, Madhurai-625001, Tamil Nadu.
179.	Samajik Insaaf Party (Rashtrawadi)	House No - 53, Village Lehari, Post Kuriyar, District – Basti, Uttar Pradesh - 272178.
180.	Samajik Nyaya Party	M-22, Mahavir Park, Marris Road, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).
181.	Samajwadi Janata Dal Democratic	90, Kautilya Nagar,B.M.P.Road,P.O.Veterinary College,Raza Bazar,Patna,Bihar-800014
182.	Samajwadi Kranti Dal	3/197, Vidhayak Puram, Vinay Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
183.	Samuga Samatuva Padai	4/388, Ram Garden,Anna Salai, Palavakkam,Chennai-600041,TAMIL NADU.
184.	Sanatan Samaj Party	Ramanand Nagar, Begumpura, Ayodhya, Faizabad (Uttar Pradesh).
185.	Sanyukta Samaj Party	Village and Post-Khari,District-Bijnaur,Uttar Pradesh.
186.	Sarvajan Kalyan Party	In front of K-73, Hanuman Nagar,Kankarbag,Patna-800020,Bihar.
187.	Sarvajanik Kranti Party	Surya Lodge, Road ways,Azamgarh, Uttar Pradesh.
188.	Sarwajan Mahasabha	B-36/40, Kabir Nagar, Durgakund, Varanasi –221005, Uttar Pradesh.
189.	Satyug Party	Village – Sukhatola, Dumri,Post – Kasya,Distt. – Kushinagar,Uttar Pradesh.
190.	Shiromani Akali Dal (Republic)	9, Hakikat Nagar,Guru Tegh Bahadur Nagar,DELHI-110009.
191.	Shivaji Congress Party	House No. 31, A/P Khakurdi,Tal. Malegaon, District – Nashik,Maharashtra.
192.	Shoshit Samaj Party	4/8, Thyagraj Nagar (Near Safdarjung Bus Terminal), New Delhi-110003.
193.	Shreshthatam Rashtra Party	Village – Jagsar, Post – Sarsava,Janpad – Kheeri-Lakhimpur, Uttar Pradesh.
194.	Sikshit Berozgar Sena	Chandan Kumar Bahraicha, Khajurhawan, Madiyahun, Jaunpur, Uttar Pradesh.
195.	Socialist Party (Lohia)	Siddiqui Building, 6122, Bara Hindu Rao, Delhi-110006.
196.	Socialist Party Secular	505/506 Bhilawan, Lucknow Kanpur Road, (In front of Ajanta Hospital) Aalambagh, Lucknow -5, Uttar Pradesh.
197.	Sukhee Samaaj Party	344 Bhonjha, Ghaziabad - 201001, Uttar Pradesh.
198.	Swaraj Party – Yes (Subhash Chandra Bosh)	Village & P.O. Semrikhan Kot, Sidharth Nagar, Uttar Pradesh-272 192.
199.	Swarashtra Jan Party	Tarkapur, Phulwariya,P.O. Sadar,Distt. Mirzapur – 231001,Uttar Pradesh.
200.	Taayi Nadu Party	44/15, Kamraj Raod, Shivaji Nagar, Bangalore-560001, Karnataka
201.	Tamil Desiyak Katchi	80-A, Chamundi Shopping Complex, Salem-636007 (Tamil Nadu).
202.	Tamil Manila Dravida Munnetra Kazhagam	Door No.296, Ambedkar Street, Uthukkadu Village & Post, Walajabad Via Kancheepuram Taluka & District, Tamil Nadu.
203.	Tamizhaga Makkal Jananayaga Katchi	Vanavil Illam, No. 9,East 7th Street,Pudukkottai-622001, Tamil Nadu.
204.	Thalli Telangana Party	Plot No.50, Road No.5, Jubilee Hills, Hyderabad-500 033,Andhra Pradesh.
205.	The Humanist Party Of India	34, Lavina, 52A, Tagore Road Santa Cruz (West), Mumbai-400054 (Maharashtra).
206.	Ujjawal Rashtra Party	Village - Ahirawan, Post – Barua, Tshsil – Sandila, District – Hardoi, Uttar Pradesh – 241304
207.	United Citizen Party	D-29, Kondli, Delhi-110096.
208.	United Communist Party of India	29/116, Gali No.10, Vishwas Nagar, Shahdra, Delhi-110 032.

209.	United Front (Party)	Abu Fakharuddin Plaza, Langar Toli Chauraha, Bari Path, Patna-800004, Bihar.
210.	United National Loktantrik Party	D-786, Jaidpur Extn., Part – II, Badarpur, Delhi - 110044.
211.	Upekshit Samaj Party	F-15, Bhagat Singh Market, Near Gole Market, New Delhi-110001.
212.	Uttar Pradesh United Democratic Front	38-Royal Hotel, Vidhan Sabha Marg, Lucknow, Uttar Pradesh.
213.	Vikassheel Samaj Party	305 A, Sahara Shopping Centre, Faizabad Road, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226016
214.	Voters Party	A, 1/75, Freedom Enclave, Neb Sarai, IGNOU Road, New Delhi – 110068
215.	Youth Democratic Front	H.No.1-10-63/5, Plot No.44, Chikoti Gardens, Begumpet, Hyderabad, Andhra Pradesh-500016.
216.	Youth For Equality	P-90A, IInd Floor, South Extension-II, New Delhi - 110034.
217.	Yuva Jan Jagriti Party	315, Freeway Trade Centre, Opp. I.O.C Petrol Pump, Narol – Aslali Highway, Ahemdabad, Gujarat- 382427
218.	Yuva Kranti Dal	B-667, Aman Vihar, Post Office-Sultanpuri, Distt.-North-West, New Delhi-110 086.

**** Vide order of Commission dated 13.09.2022, the following parties have been declared “inactive”. They were served notice individually and through CEO & ECI website. They are restrained in their quest for a “Common Symbol” by the said interim order of the ECI. All CEO/RO are advised that in case any such ‘inactive’ party approaches for common symbol, proper due diligence as laid down in ECI order of 13.09.2022 needs to be adhered to. As the said parties have not updated the required material changes, in particular, their office bearers since 2014, the basis to accept Form A & B ceases to exist.**

[No.56/2022/PPS-III]

By Order,

DILIP K. VARMA, Principal Secy.